

तिब्बतमें तीन वर्ष



लेखक—

जापानी यात्री श्री इकाई कावागुची



अनुवाक—

पण्डित गुलजारीलाल चतुर्वेदी



हिन्दी पुस्तक एजेंसी
१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता

प्रथम बार] माघ १९७६ [मूल्य सादी २॥ सजिल्द २॥०

प्रकाशक—

बैजनाथ केडिया

प्रोप्राइटर

हिन्दी पुस्तक एजेंसी

१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता



मुद्रक—

जगदीशनारायण तिवारी

वाणिक् प्रेस

६०, मिर्जापुर स्ट्रीट,

कलकत्ता

विषय सूची



१—भूमिका	
२—निवेदन	॥०
३—विदाईकी नयी भेंट	११
४—दार्जिलिंगमें एक वर्ष	६
५—तिब्बतकी वर्बरताका नमूना	१२
६—झूठा वेश	१७
७—नेपाल यात्रा	१६
८—मिक्षुसे मैत्री	२७
९—मनोरम हिमालय	३१
१०—आपत्तियोंका सामना	३३
११—हसर ग और उसके निवासी	३८
१२—कीर्ति और लोभ	४३
१३—तिब्बतके दर्शन	४६
१४—यर्फिस्तान	५५
१५—दयालु बुढिया	५७
१६—गुफावासी साधु	६१
१७—असहाय अवस्था	६४
१८—दु खका पूर्णमास	६७
१९—परित्रायिका युवती	६८

२०—नये नये अनुभव	७१
२१—तिब्बतकी सबसे बड़ी नदी	७४
२२—विपत्तियोंका आरम्भ	७६
२३—आधीकी चपेट	७८
२४—समुद्रकी तहसे २२६५० फुटकी ऊँचाईपर	८२
२५—घरफके ऊपर	८५
२६—बोन देवता और जगली घोडा	८८
२७—बौद्धधर्मकी शक्ति	९०
२८—पुण्यक्षेत्र मानसरोवर	९२
२९—तिब्बतमें लेन देनकी व्यवस्था	९४
३०—हिमालयकी कथा	९७
३१—देवमन्दिरोंकी राहपर	१०६
३२—ईश्वरकी अपार महिमा	१०९
३३—शोचनीय घटना	११४
३४—दुर्घटनाकी सूचना	११६
३५—मृत्युके मुलमें	१२३
३६—गुफावासी साधुसे फिर भेट	१३३
३७—सुखके दिन	१३७
३८—शका समाधान	१४१
३९—मैदानके पार	१४७
४०—बृचडखानेमें बौद्धग्रन्थ	१५०
४१—तिब्बतका तीसरा प्रधान नगर	१५२

८६—पाच महाद्वार	४४४
८७—पहला द्वार	४४७
८८—दूसरा और तीसरा द्वार	४५७
८९—चौथा और पांचवा द्वार	४६३
९०—अन्तिम द्वार	४६६
९१—तिव्वतको अन्तिम प्रणाम	४७०
९२—लावची जाति	४७४
९३—पहले गुरुसे भेंट	४७९
९४—तिव्वतके मित्रोंपर विपद्	४८१
९५—मिन्नमण्डलमें	४८७
९६—नेपालके दो महाराज	४९१
९७—दो महाराजाओंसे भेंट	४९३
९८—दूसरी भेंट	४९७
९९—फिर काठमाण्डू	४९९
१००—प्रधान मन्त्रीसे घातचीत	५०१
१०१—लासाके दुःखदायी सम्वाद	५०४
१०२—महाराजाका सन्देह प्रगट करना	५०७
१०३—तीसरी भेंट	५१२
१०४—नेपाल और दयालु महाराजाओंसे विदाई	५१५
१०५—अन्त भला तो सब भला	५१८



६४—राज्यव्यवस्था	३१५
६५—शिक्षा और जातिया	३२२
६६—तिव्वतका व्यापार और कारीगरी	३३३
६७—सिक्का और छापनेके ब्लाक	३४६
६८—दीपमालिकाका उत्सव	३५०
६९—तिव्वतकी स्त्रियां	३५४
७०—लडके और लडकिया	३६०
७१—रोगी चर्चा	३६३
७२—मैदानके खेल	३६७
७३—रूसकी तिव्वती नीति	३६८
७४—तिव्वत और बृटिश इण्डिया	३७७
७५—चीन, नैपाल और तिव्वत	३८४
७६—तिव्वतपर क्रूर दृष्टि	३८६
७७—मोनलाभका त्यौहार	३९१
७८—तिव्वतकी सेना	३९७
७९—तिव्वतकी आर्थिक दशा	४०१
८०—तिव्वतका भावी धर्म	४०६
८१—भेद खुलनेका आरम्भ	४०६
८२—भेद खुल गया	४१५
८३—दयालु मित्रकी अद्भुत भेट	४२५
८४—जानेकी तैयारी	४३०
८५—रोते हुए बिदाई	४३४

८६—पाच महाद्वार	४४४
८७—पहला द्वार	४४७
८८—दूसरा और तीसरा द्वार	४५७
८९—चौथा और पाचवा द्वार	४६३
९०—अन्तिम द्वार	४६६
९१—तिव्वतको अन्तिम प्रणाम	४७०
९२—लावची जाति	४७४
९३—पहले गुरुसे भेंट	४७९
९४—तिव्वतके मित्रोंपर विपद्	४८१
९५—मित्रमण्डलमें	४८७
९६—नैपालके दो महाराज	४९१
९७—दो महाराजाओंसे भेंट	४९३
९८—दूसरी भेंट	४९७
९९—फिर काठमाण्डू	४९९
१००—प्रधान मन्त्रीसे बातचीत	५०१
१०१—लासाके दु खदायी सम्वाद	५०४
१०२—महाराजाका सन्देश प्रगट करना	५०७
१०३—तीसरी भेंट	५१२
१०४—नैपाल और दयालु महाराजाओंसे विदाई	५१५
१०५—अन्त भला तो सब भला	५१८



भूमिका ।



प्राचीन कालमें तिब्बतका भारतवर्षसे घनिष्ठ सम्बन्ध था । सभ्यताका आलोक उसने इसी देशसे पाया, धर्मकी दीक्षा उसने इसीसे ली । उस सम्बन्धके स्मृतिचिह्न इस समय भी दोनों देशोंके प्राचीन साहित्यमें विद्यमान हैं । किसी समय तिब्बत संस्कृत साहित्यके अनन्य भक्तोंमें था । यह बौद्धधर्म-प्रचारका फल था । अध्यापक लेवी कहते हैं—“इस समय भी तिब्बत और चीनके पुस्तकालयोंमें जो संस्कृत ग्रन्थ प्राप्य हैं उनकी संख्या हजारोंतक जा पहुँचती है और उनमें कितने ही ऐसे हैं जिनका आकार महाभारतसे कम नहीं । मूल ग्रन्थोंका कहीं पता नहीं, पर अनुवादरूपमें उनकी सत्ता अतक बनी है” । स्वयं कावागुचीको अपनी यात्रामें ऐसी संस्कृत पुस्तकें देखनेको मिली थीं । उनमेंसे कितनी ही अपने मौलिक रूपमें थी । कावागुची अपने साथ पुस्तकोंका एक बड़ा सग्रह लेते आये थे । पर कुछ भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओंके चेष्टा करनेपर भी उस देशप्रेमीने उन्हें इनके हाथ बँचना स्वीकार न किया । उसने उन्हें अपने देशकी भेंट कर दी । इधर कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्रोत्साहनसे दो एक विद्वान् तिब्बतीय-साहित्य-रक्षाकरके किनारे आ खड़े हुए हैं । देखना है, दुबकी लगानेपर क्या रत्न हाथ आते हैं ।

यात विषयान्तर सी जान पडती है, पर उस साहित्यकी आलोचनाकी आवश्यकता यही सिद्ध करती है कि दोनों देशों-का सम्बन्धसूत्र कुछ कालके बाद विच्छिन्न हो गया। भारत-वर्षके इधर डेढ़ हजार वर्षों के इतिहासको ध्यानमें रखनेसे इसका कारण समझना कठिन न होगा। हमने फिर तिब्बतकी कोई खोज खबर न ली, या यों कहिये कि ऐसा करना हमारे लिये असम्भव हो गया। तिब्बत भी बाहरी दुनियासे ध्यान समेटकर अपने आपमें लीन होता गया। कुछ ही कालमें वह चीन और समभवत नेपालको छोड़ बाकी ससारके लिये एक अद्भुत पहेली बन गया और अभीतक वह पहेली ही बना हुआ है। पर जिस समयसे तिब्बत अपने और ससारके बीच पार्थक्य की दीवार खड़ी करने लगा, उसी समयसे ससारकी ओरसे भी उसका प्रयत्न निष्फल करनेकी चेष्टायें होने लगीं। ऐसीही एक चेष्टा कावागुचीकी यात्रा भी थी। इसमें सन्देह नहीं कि तिब्बतके रहस्योद्घाटनके, इतिहासमें इस जापानी यात्रीका स्थान निराला है।

पर क्या तिब्बतको जाननेका यह सारा प्रयास—समय समयपर और विभिन्न मनुष्यों द्वारा—केवल इसी कारण होता आ रहा है कि तिब्बतने अपनेकी अज्ञेय बना रखा है? क्या इसका अर्थ इतना ही है कि ज्यों ज्यों तिब्बत अपने ऊपर अज्ञा-तव्यताकी तहपर तह देता जा रहा है त्यों त्यों ससारकी उन तर्कोंकी फाड़ डालनेकी व्यग्रता बढ़ती जा रही है? अथवा

चेष्टाओंका एक कारण—और प्रधान कारण—यह है कि तिब्बत संसारके लिये तिमिरावृत हो रहा है और कौतूहलवश मनुष्य प्रत्येक रहस्यका भेद पाना चाहता ही है—चाहे वह कुछ महत्त्व रखता हो या नहीं। पर तिब्बत जहां रहस्यमय है वहां महत्त्वपूर्ण भी है। ऊपर उसके साहित्यका उल्लेख हो चुका है। उसके विस्तार और गम्भीरताका अभी पूरा पता नहीं लगा है, पर जो बातें मालूम हुई हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि किसी समय यह अत्यन्त उन्नतावस्थामें था। उस साहित्यके अन्तर्गत जो इतिहास ग्रन्थ हैं—शायद उन्हें पुराण कहना अधिक उपयुक्त होगा—उनसे छान चीनकर विद्वानोंने—विशेषतः स्वर्गवासी शरत्चन्द्र दासने—ऐसे राजाओंकी सूची तैयार की है जिन्होंने ईसाके तीन चार सौ बरस पहलेसे उसके ६१४ बरस बादतक तिब्बतमें राज्य किया। पर तिब्बती साहित्य इससे भी पहलेके कई राजघरोंका उल्लेख करता है और उनका सम्बन्ध भारतवर्षसे बताता है। यहा कितनी ही बातोंके अनुसन्धानकी आवश्यकता है। तिब्बतका सर्वप्रथम राजा कोशलदेशके नृप प्रसेनजीतका पुत्र बताया जाता है। यह कौन था और कैसे वहाकी प्रजाका हृदयसम्रट् यन घेठा ? कहते हैं कि स्र ग सन गम पो नामक तिब्बतनरेशने ६३६ में वहा बौद्धधर्म और लेखनकलाका प्रचार किया। यह भी कहा जाता है कि उसकी दो स्त्रियोंमेंसे एक नेपालकी राजकुमारी थी, जिसके पिताका नाम ज्योतिवर्मा था। तिब्बतीय इतिहासकारोंके अनुसार उसकी राज्यसीमा

हिमालयके दक्षिण तक थी, चीनके इतिहासमें यंगाल प्रान्त भी उसके अन्तर्गत बताया जाता है। हम इसके विषयमें क्या जानते हैं ? कुछ नहीं। और हमारे इतिहासमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता कि भारतके किसी अशपर कभी तिब्बतका आधिपत्य था। पर उनके साहित्यमें ऐसा लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि ७०३में नेपाल और ब्राह्मण देशने यगावतका झण्डा उठाया और उस न्डाईमें तिब्बतका तत्कालीन राजा मारा गया तथा विद्रोहियोंकी विजय हुई। यात बिलकुल निराधार न होगी, इसपर ऐतिहासिक गवेषणाका प्रकाश पडना चाहिए। ईसाके करीब हजार बरस बाद विक्रमशिला नामक विहारके अधिकारी बौद्ध सन्यासी अतीशका तिब्बतके राजाके निमन्त्रणसे बहा जाना बताया जाता है। इन्हींके समयसे उस देशमें पण्डितोंका प्रभाव बढ़ता गया। इनमें शाक्य पण्डितने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्हींके भतीजेको मगोलाधिपति कुबले खाने, जिसने तिब्बतको अपने अधीन कर लिया था—सारा देश उनकी सेवाओंके पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तभीसे बहा लामाओंका आधिपत्य प्रारम्भ हुआ। यह १२७०की बात है। शाक्य पण्डितके वंशजोंने सत्तर बरस तक राज्य किया। १३४०में उन्हें सिंहासनच्युत होना पडा। तबसे १७२० तक बहाकी राजनीतिक दुनियामें कई उलट फेर हुए। उस साल चीन खुल्लमखुल्ला तिब्बतका कर्ताधर्ता बन बैठा और अभी कलतक तिब्बत उसका आधिपत्य स्वीकार करता था। यहा जो कुछ

चेष्टाओंका एक कारण—और प्रधान कारण—यह है कि तिब्बत संसारके लिये तिमिरावृत हो रहा है और कौतूहलवश मनुष्य प्रत्येक रहस्यका भेद पाना चाहता ही है—चाहे वह कुछ महत्त्व रखता हो या नहीं। पर तिब्बत जहां रहस्यमय है वहां महत्त्वपूर्ण भी है। ऊपर उसके साहित्यका उल्लेख हो चुका है। उसके विस्तार और गम्भीरताका अभी पूरा पता नहीं लगा है, पर जो बातें मालूम हुई हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि किसी समय यह अत्यन्त उन्नतावस्थामें था। उस साहित्यके अन्तर्गत जो इतिहास ग्रन्थ हैं—शायद उन्हें पुराण कहना अधिक उपयुक्त होगा—उनसे छान बीनकर विद्वानोंने—विशेषतः स्वर्गवासी शरत्चन्द्र दासने—ऐसे राजाओंकी सूची तैयार की है जिन्होंने ईसाके तीन चार सौ बरस पहलेसे उसके ६१४ बरस बादतक तिब्बतमें राज्य किया। पर तिब्बती साहित्य इससे भी पहलेके कई राजवंशोंका उल्लेख करता है और उनका सम्बन्ध भारतवर्षसे बताता है। यहा कितनी ही बातोंके अनुसन्धानकी आवश्यकता है। तिब्बतका सर्वप्रथम राजा कोशलदेशके नृप प्रसेनजीतका पुत्र बताया जाता है। यह कौन था और कैसे वहाकी प्रजाका हृदय-सम्राट् बन बैठा ? कहते हैं कि स्रग सन गम-पो नामक तिब्बत-नरेशने ६३६ में वहा बौद्धधर्म और लेखनकलाका प्रचार किया। यह भी कहा जाता है कि उसकी दो स्त्रियोंमेंसे एक नेपालकी राजकुमारी थी, जिसके पिताका नाम ज्योतिवर्मा था। तिब्बतीय इतिहासकारोंके अनुसार उसकी राज्यसीमा

कृष्ण पट्टित, राय शरत्चन्द्र दास बहादुर सी० आई० ई० आदि कई नाम मानसिक नेत्रोंके सामने आते हैं। पर हम आप जानते हैं कि उनके जानेका वास्तविक कारण क्या था। वह था उस ब्रिटिश नीतिकी सफलताकी राह तैयार करना जो धारन हेस्टिङ्ग्सके समयसे तिब्बतकी लोभपूर्ण दृष्टिसे देखती आयी है। और आज इतने दिनों बाद यह नीति सफल होती भी दीख रही है।

थोड़े दिन पहले अण्णारोंमें एक छोटी सी खबर निकली थी। कुछ लोगोंका उसपर ध्यान पडा होगा, बहुतोंका नहीं। उसका भावार्थ था कि बंगालके पोस्टमास्टर जनरल तिब्बतसे सकुराल लौट आये। वहाँ आप ब्रिटिश सीमान्तसे लासा तक तारका प्रयत्न करने गये थे। जान पडा कि इस बीचमें तारके खम्भे गड गये हैं। और कुछ दिन बाद भारत सम्राट् और दलाई लामाके बीच उसी तारके जरिये बातचीतका भी समाचार प्रकाशित हुआ। सम्राट्की ओरसे दलाई लामाको बधाइयाँ भेजी गयी थीं और इस अवसरपर आनन्द प्रगट किया गया था। उस बधाईकी असलियत पीछे मालूम होगी। पर भारत सरकारके पोलिटिकल विभागमें इस समय आनन्दस्रोत-उमड पडा है इसमें सन्देह नहीं। जो काम कर्जनका भ्रूभङ्ग न कर सका वह चार्ल्स अटफ्रेड बेलकी कूटनीतिने पूरा किया। बेल महोदय इसी विभागके कर्मचारी थे। और इस विभागकी नीति क्या है? उत्तरमें "डेली मेल" जैसे साम्राज्यवादी पत्रकी सम्मति, १६ दिसम्बर १९२२ के अङ्कसे उद्धृत की जाती है —



लिखा गया है वह केवल इस बातका आभास देनेके लिए कि यदि ऐतिहासिक दृष्टिसे ही देखें तोभी तिब्बत कभी ससारकी उपेक्षाका विषय नहीं हो सकता। योंही उसका भौगोलिक विस्तार भी उसकी महत्त्ववृद्धिमें कम सहायता नहीं पहुँचाता। उसकी लम्बाई १६०० मील और उसकी चौड़ाई ७०० मील तक जा पहुँचती है। रकबा ७००,००० वर्ग मीलसे भी अधिक है। भूमि वहाकी रत्नगर्भा है यद्यपि उससे रत्न निकालना वहाके निवासियोंकी शक्तके बाहर है। व्यापार भी उसका कुछ कम नहीं है यद्यपि उसकी अभी यथेष्ट उन्नति नहीं हुई है। तिब्बतका रहस्य महत्ताके साथ है। और यही कारण है कि बारबार विफल होनेपर भी ससार उसे जाननेके प्रयत्नसे मुह नहीं मोडता।

क्या इतना कह चुकने पर यह कहना भी आवश्यक है कि ससार रह रह कर तिब्बतकी ओर जो दृष्टिपात करता है वह सर्वथा स्वार्थशून्य नहीं होता? अपवाद हो सकते हैं—कावा-गुचीको हम इन अपवादोंमें सर्वोच्च स्थान दे सकते हैं—पर अधिकांश यात्री जो वहाँ गये हैं और जानेका जवतव प्रयत्न करते हैं वह इसी उद्देश्यसे कि इससे उनके देश या सरकारका कुछ लाभ हो, उसका वहा प्रभाव जमे और उनकी यात्रा उस प्रकरणकी भूमिका कहावे जिसमें तिब्बत उनके बन्धुबान्धवों या स्वामियोंके हाथकी कठपुतली बन जावे। तिब्बतके भौगोलिक अनुसन्धानमें भारतवासियोंका भी हाथ रहा है। नयनसिंह,

है। तिब्बतमें अंगरेजोंके प्रवेशके साथ अंगरेजीका भी प्रवेश होने लगा है। तिब्बतियोंकी आखें कब तक बन्द रहेगी ?

कावागुचीने जिस समय तिब्बतकी परराष्ट्रनीतिके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट किये थे उस समयसे सत्सारकी, और उसके साथ तिब्बतकी, घाते बहुत कुछ बदल गयी हैं। पर इससे उनकी पुस्तकके महत्त्वमें रस्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कई अशोमें तो वादकी 'घटनायें' वैसी ही हुई हैं जैसी उन्होंने भविष्यद्वाणी की थी। तिब्बत पर्यटक कई हुए हैं, एकसे एक साहसी और भौगोलिकतत्त्वान्वेषक, पर कावागुचीके समान तिब्बतीय जीवनका मर्म कोई नहीं जान सका। एक तो वह स्वयं बौद्ध और मंगोलीय सभ्यताके अनुयायी, दूसरे, उन्होंने तिब्बतमें तीन वर्ष बिताये। पुस्तकका नाम ही पुस्तककी उपादेयताका सबसे बड़ा प्रमाण है। कावागुचीकी धर्मपरायणता, सत्साहस और सरलता—पर सबसे अधिक उनकी प्रशान्त मुख-च्छवि—इस समय भी भूले नहीं भूलती। इस यात्राके बाद कई बरस उन्होंने सस्कृतके अध्ययनमें काशीमें बिताये। अंगरेजी नाम मात्रको जानते थे। अपना भ्रमण वृत्तान्त पहले उन्होंने जापानी भाषामें लिखा था। बड़े भावुक और कवि थे। देश-प्रेम तो उनकी नसनसमें भरा था। अपने देशके पण्डापुजारियोंको और सदाके लिये अंगरेजी/साहित्यको शिक्षाकी अनिवार्यताका ढोल पीटनेवालोंको कुछ लज्जित होना चाहिये—अपना हठ और दुराग्रह छोड़ना चाहिये। कावागुची बौद्ध पुजारी

The officers of this department have never been remarkable for a zeal for economy. No sooner do they sit down on a new line of frontier than they start scheming for its execution. If they could have had their way, Tibet, for instance, would have been included in the British Empire, and probably large slices of Persia itself if foreign Powers had permitted such absorption.

अधिक लिखना व्यर्थ है। यदि इस विभागकी चलो— और उसे रोक हो कौन सकता है—तो तिब्बतका दूसरा मिश्रण जाना बहुत दूरकी बात नहीं। ब्रिटिश नीति ही है साम्राज्य-विस्तारका श्रीगणेश तार और रेलके प्रचारसे करना, और तिब्बतमें तारके खम्भे गड़ चुके हैं। चीनका आधिपत्य इस समय तिब्बत पर नाम मात्रको भी नहीं। इधर उस देशकी जो दुरवस्था हो रही है उससे लाभ उठा कर तिब्बतने अपनी स्वतंत्रताकी घोषणा कर दी है। ब्रिटिश सरकारका इसमें कोई हाथ था या नहीं यह मानना—न मानना, पाठकोंकी मर्जी पर है। रूस इस समय कहीं है ही नहीं। साफ मैदान है और अगरेज घेघडक आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान दलाईलामा उनके हाथोंकी कठपुतली जान पड़ते हैं। इधर भारतमें कोई यह पूछनेवाला भी नहीं कि इन बातोंका मतलब क्या है। पर समझ है यह सब, तिब्बतके भलेके लिये ही हो रहा है। उसे भी शायद पराधीनताके मार्गसेही सच्ची स्वतंत्रताके शिखरपर चढ़ना

निवेदन

हिन्दी पुस्तक एजेंसीमालाकी २५ वीं संख्या 'तिब्बतमें तीन वर्ष' उदार पाठकोंकी सेवामें नमर्पित है। यह पुस्तक जापानी यात्री श्रीयुत कावागुचीकी पुस्तक (Three years in Tibet) श्री इयर्स इन तिब्बतका अनुवाद है। श्रीयुत कावागुची व्युत्पन्न बौद्ध पुरोहित और विद्वान हैं। बौद्ध धर्मके केन्द्र तिब्बतमें बौद्धधर्मकी शिक्षा पूरी करनेके निमित्त आपने यह यात्रा की थी। उस समय तिब्बत सरकारने विदेशियोंके लिये तिब्बतका द्वार बन्द कर दिया था। इसीलिये कावागुची महाशयको गुप्त द्वारसे छिपे तौरसे तिब्बतमें घुसना पडा था। उसी यात्राका इसमें वर्णन है। कावागुची महाशयने अपनी ही लेखनी द्वारा अपने सारे अनुभवों और कठिनाइयोंका वर्णन किया है। प्राकृतिक दृश्यका जो खासा उन्होंने खींचा है उसे पढकर चित्त विह्वल हो जाता है। इस पुस्तकमें तिब्बतके पहाडी मार्गों, नदियों, झरनों, स्रोतोंका प्राकृतिक दृश्य, पहाडी जातियों के रीतिरिवाज और रहन सहन तथा तिब्बतमें प्रचलित रीति रिवाजका वर्णन है। पहले यात्राकी पुस्तक, दूसरे लेखकके निजी अनुभव, तीसरे प्राकृतिक दृश्यका वर्णन और चौथे कावागुची महाशयकी रोचक लेखनशैली, इन चारों बातोंने पुस्तकमें

थे और अगर किसी भापाके ऋणी थे तो अपनी मातृ-भापाके ।

तिब्बतको विदेशियोंसे डरनेके कई कारण थे और उसने उन्नीसवीं सदीसे वह बहिष्कार नीति भारम्भ की जो वहा विदेशीकी परछाई भी देखना नहीं चाहती । शरत् चन्द्र दासकी यात्राके बादसे वह और भी कडाईसे इस नियमका पालन करने लगा । पर भारतीय उपकारको वह भूला नहीं है और अधिक नहीं तो इतनी स्वतंत्रता उसने हिन्दूमात्रके लिये रहने दी है कि—

“हेमम्भोजप्रसवि सलिल मानसस्याददान०”

“कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथि स्या०”—

ऐसे देशके ऐसे रोचक वर्णन और उसके हिन्दी पाठकोंके बीच भूमिका और बढाकर बाधा डालना अन्याय है ।

कलकत्ता

१३-१-२३

}

पारसनाथ सिंह ।

विष्वतमें तीन वर्ष

पहला परिच्छेद

विदाईकी नयी भेंट



मैंने मई सन् १८६७ में अपनी उस यात्राकी तैयारी की जिसमें कैचल प्राणवातक घटनाओंकी सम्भाजना थी। मैं अपने मित्र और बन्धुशान्धवोंसे विदा लेने गया। लोगोंने मुझे भाति भातिकी भेंटें दीं, मेरी कुशलके लिये लम्बे हृदयसे प्रार्थनार्ये कीं परन्तु किसीकी भी भेंट में स्वीकार नहीं की। हाँ जिन्हें नशेकी गहरी आदत थी उनसे मैंने नशा छोड़नेके वचन लिये। यही भेंट थी। इस विचित्र प्रकारकी भेंट प्राय ४० मनुष्योंसे मुझे मिली। उनमेंसे अधिकतर अतक अपने वचनपर दृढ़ हैं। मैंने भी अन्य भेंटोंकी अपेक्षा उन्हें अधिक पसन्द किया। टोकियोसे चलकर ओसाका पहुँचा। वहा भी कतिपय मनुष्योंसे इसी तरह की भेंट मिली। उनमेंसे तीनका यहा वर्णन करना उचित समझता हूँ। भेंटोंके प्रिययमे मेरा यह विश्वास है कि उनमें एक ऐसी देवी शक्ति वा गई थी जिसने मुझे अनेक आपत्तियोंसे बचाया।

टोकियोमें मैं ताकाये तोना नामके एक महाशयसे विदा लेने

तिब्बतमें तीन वर्षे



जापानी यात्री श्री इकाई कावागुची

तिब्बतमें तीन वर्ष

पहला परिच्छेद ।

विदाईकी नयी भेंट

मैंने मई सन् १८६७ में अपनी उस यात्राकी तैयारीकी जिसमें केवल प्राणघातक घटनाओंकी सम्भावना थी। मैं अपने मित्र और पन्धुयान्धवोंसे विदा लेने गया। लोगोंने मुझे भाति भातिकी भेंटें दी, मेरी कुशलके लिये लम्बे हृदयसे प्रार्थनार्थे कीं परन्तु किसीकी भी भेंट मैंने स्वीकार नहीं की। हाँ जिन्हें नशेकी गहरी आदत थी उनसे मैंने नशा छोड़नेके वचन लिये। यही भेंट थी। इस विचित्र प्रकारकी भेंट प्राय ४० मनुष्योंसे मुझे मिली। उनमेंसे अधिकतर अवतक अपने वचनपर दृढ़ हैं। मैंने भी अन्य भेंटोंकी अपेक्षा उन्हें अधिक पसन्द किया। टोकियोंसे चलकर ओसाका पहुँचा। वहाँ भी कतिपय मनुष्योंसे इसी तरह की भेंट मिली। उनमेंसे तीनोंका यहाँ वर्णन करना उचित समझता हूँ। भेंटोंके विषयमें मेरा यह विश्वास है कि उनमें एक ऐसी दैवी शक्ति आ गई थी जिसने मुझे अनेक आपत्तियोंसे बचाया।

टोकियोमें मैं ताकावे तोगा नामक एक महाशयसे विदा लेने

गया था । वह राल बनानेका काम करते थे । उन्हें मछलीके शिकारसे बड़ा प्रेम था । मैंने उन्हें अत्यन्त क्षुब्ध और दुःखी देखा । वे आपही कहने लगे—“मेरा तीन वर्षका बच्चा मर गया है इससे मेरी स्त्री अत्यन्त व्याकुल है और मैं भी वियोगसे इतना कातर हो रहा हूँ कि अब मछलीकी शिकारमें भी मुझे कोई आनन्द नहीं मिलता ।” वह मेरे आत्मीय थे इससे मैंने पूछा कि क्या सचमुच पुत्र वियोगकी वेदना असह्य हो रही है ? अच्छा आप ऐसे व्यक्तिके विषयमें क्या कहेंगे जो आपके लडकेको मारे और भूनकर खा जाय ? उन्होंने उत्तर दिया “ओह, मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता, राक्षस ही कर सकता है ।” मैंने कहा, ‘तो फिर आप भी राक्षस ही ठहरे ।’ यद्यपि मेरे शब्द बड़े कठोर थे तथापि मेरा हृदयके सच्चे उद्गार थे । इससे उन्होंने मेरी बातका कुछ बुरा नहीं माना और उस दिनसे मछलीका शिकार बिलकुल छोड़ दिया । मेरी बातपर वे तुरन्तही उठे और मछली फँसानेका जाल, बशी इत्यादि सब सामान मेरे सामने ला रके और बोले—‘यही मेरे हिसाके सहायक हैं । आजसे मैं इन्हें त्यागता हूँ । आप इनका जो चाहें करें ।’ मैंने भी तुरन्त ही उनकी लडकीसे आग मगाकर सबके देखते देखते उस जाल इत्यादिको जला दिया । उस समय ताकावे महाशयके घर और भी कई सज्जन उपस्थित थे जिनमें उनके एक आत्मीय मि०

नामक (Mr Ogawa
सिद्धहस्त शिकारी थे ।

थे । भी

मछलिया भी मारते थे । उन्होंने भी यह नाटक देखा । वशी और जाल गादिको अग्निमें डालकर मैं ताकावे महाशयके लिये प्रार्थना कर रहा था कि वे उठकर बोले—‘महाशय तिन्त्रतमें आपकी शुभ कामनाके लिये मैं भी कुछ भेंट देना हू । मैं आजसे शिकार न करनेकी सौगन्ध खाता हू । यदि मैं अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ू तो ईश्वर मुझे मृत्यु-दंड दे ।’ यह सुनकर मुझे अत्यन्त सुख हुआ । जब माकाईमें मैं अपने चिरपरिचित मित्र मिस्टर इतो इचिराके यहा गया तो ताकावे महाशयके यहाकी जाल इत्यादि जलानेकी घटना सुनाई । मेरे मित्रको भी शिकारसे बड़ा प्रेम था । उन्होंने भी अपना शिकारका सामान जला दिया । इसके बाद मैं अपने एक और मित्र वातनवे इचिविसे मिलने आसाका गया । वह बड़े धनी और कोरियाके व्यवसायी थे । पहले उनके यहा मुर्गीका मास पका कर बेचनेका रोजगार होता था । इस रोजगारसे उन्हें विशेष लाभ था । पहले भी मैंने उन्हें अनेक बार यह पापमय और घृणित रोजगार छोड़ देनेके लियं कहा था और समझाया था । आज अन्तिम बार भी मैंने उस क्रूर व्यवसायको छोड़ देनेके लिये उनसे प्रार्थना की । उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे विश्वास दिलाया कि शीघ्रही यह काम वे अदृश्य छोड़ देंगे । मेरे चले जानेके डेढ़ बर्ष बाद मुझे यह सुनकर और भी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपने वचनको सार्थक किया । साधारणत मेरा यह वचनवद्ध कराना धृष्टता-पूर्ण प्रतीत होगा । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि

रोगीको जो औषधि दी जाती है वह नीरोगको हानिकर होती है। इसलिये शास्त्रिक विज्ञानकी भांति धार्मिक उपचार भी भिन्न भिन्न मनुष्यके अवस्थानुसार भिन्न भिन्न प्रकारके होंगे। चाहे जो कुछ हो मेरा विश्वास है कि तिब्बत यात्रामें कई बार मृत्युके मुखमें जाते जाते जो पच गया वह इन्हीं प्रतिज्ञाओंका प्रसाद था। मैं जानता हूँ कि दयामय बुद्धदेवने हमारी सदा रक्षा की है। यह कौन कह सकता है कि मेरी इस प्रकारकी रक्षा इन जीवोंके वचानेकी चेष्टाका फल-स्वरूप नहीं था।

मैं इष्टमित्रोंसे विदा ले लिया। चलनेकी तैयारी कर ली। परन्तु यात्राने लिये मेरे पास काफी रपया नहीं था। मेरे पास अपनी कमाईका केवल एक सौ येन (जापानी सिक्का) थे। इनके सिवा घातानचे, हेरुशुवा, गिनामुरा, हाइज, इतो, नोडा और यामानाका आदि सज्जनोंकी उदारतासे चार सौ तीस येन और भी मिल गये थे। इनमेंसे प्रायः एक सौ इस दुर्गम यात्राकी तैयारीमें लगा दिया था। शेष मेरे पास थे।

प्रायः देतनेमें आता है कि जबतक मनुष्य स्वयं आचरण नहीं करने लगता उसके कथनपर कोई विश्वास नहीं करता और यदि उसका कार्य दुर्घर्ष हुआ तो लोग उसका विरोध करते हैं, उसे बनावते हैं और समझा बुझाकर उसे उस कामसे अलग करना चाहते हैं। और यदि वह उनके कहने में आ जाता तो मुह पीछे उसकी

हैं। मैं भी इससे बचा न

मुझे भी चलते समयतक लोगोंने समझाया बुझाया और इस यात्राको छोड़ देनेका उपदेश दिया। उदाहरणके लिये अन्तिम रात्रिको मैं ओसाकामें मि० मकीके घर ठहरा हुआ था। यहीं चाकाघाया नगरके एक जज मेरे पास आये और बोले—'इस काममें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिद्दमें आकर आप प्राण गमाइयेगा और लोग आपकी हली उडावेंगे। इससे वाज आइये और धर्मोपदेशका काम कीजिये, क्योंकि इसमें आपने पूर्ण योग्यता प्राप्त की है और जापानके बौद्ध मन्दिरोंमें आजकल योग्य शिक्षकोंकी बहुत ही आवश्यकता है।' मुझे दृढ़ देखकर उन्होंने कहा 'यदि इस यात्रामें, आपकी मृत्यु हुई तो आप कुछ न कर सकेंगे।' मैंने कहा "प्रथम तो यह सन्दिग्ध है और यदि मेरी मृत्यु हो भी गई तो मुझे सन्तोष होगा कि लडाईके मैदानमें बहादुर सिपाहीकी भांति मैंने धर्म निमित्त प्राण गवाये हैं।" मुझे अविचल पाकर जज साहब मेरी शुभ कामना करते अपने घर चले गये। दूसरे दिन ता० २५ जून स० १८६७ को मैं अपने श्रेमियोंसे विदा होकर इडजूमि मारु जहाज द्वारा ओसाकासे रवाना हुआ।

इडजूमि पश्चिम होता सीधे हाकाकाकी और चला। हाकाकामें मि० टामसत नामके एक अङ्गरेज इसी जहाजपर सवार हुए। उनके सहवाससे हमलोगोंको बड़ा आनन्द हुआ क्योंकि हमलोगोंकी निश्चेष्टता जाती रही। आप जापानमें प्राय अठारह वर्षतक रह चुके थे और जापानी भाषा स्पष्ट बोलते थे।

कट्टर और उत्तराही ईसाई थे। हमलोग अधिकांश समय बिना किसी विद्वेषके धार्मिक वादविवादमें बिताते रहे जिससे अनेक तरहकी नयी बात मालूम हुई। जिस समय मैं जहाजपर उपदेश देने लगता, जहाजके कर्मचारी बड़ी सावधानी और उत्साहसे मेरे धार्मिक व्याख्यान सुनते थे।

१२ जुलाईको इडजूमि जहाज सिगापुर पहुँचा। मैं वहाँ उतर कर फुसोकवान होटलमें ठहरा। १५ जुलाईको मैं वहाँके जापानी दूत फुजिता तोपसे मिलने गया। मि० फुजिता को इडजूमि जहाजके कप्तानसे मेरा हाल मालूम हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा—'मैंने सुना है कि आप तिब्बतकी यात्राके लिये प्रस्तुत हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपने इस यात्राकी क्या व्यवस्था की है पर वहाँ पहुँचना बहुतही कठिन है। कर्नल फुकुसिमा जो इस समय साइबेरियाके उस पारके प्रदेशोंके विख्यात लफ्टरेंट जनरल हैं, दार्जिलिङ्गमें रुक गये और तिब्बतकी यात्रा असम्भव समझकर वहाँसे लौट आये। मैं नहीं समझता कि आप उनसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप दृढ़ हैं तो मेरी समझमें आपके लिये दोही उपाय हैं, या तो सैनिक बलसे बलपूर्वक घुस जाइये अथवा भिक्षुकके भेषमें जाइये। आपने क्या स्थिर किया है?' मैंने कहा—'यह आप जानतेही हैं कि मैं बौद्ध धर्माध्यक्ष हूँ इसलिये पहिली बातका तो जिक्रही व्यर्थ है। हा, दूसरा पथही परुडनेका विचार कर रहा हूँ और मैं निश्चित व्यवस्था न करूँगा। भाग्य

ओर जाऊगा। इसके पश्चात् में राजदूतसे विदा हुआ। उस समय वे चिन्तामग्न थे।

में फुसोकवान होटलमें एक सप्ताह रहा। रवाना होनेके एक दिन पहले एक ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं मरते मरते बच गया। धर्माध्यक्षकी हँसियतसे अपसर मिलतेही मैं उपदेश देने लगता था। इस होटलके स्वामी मेरी इस कर्त्तव्यनिष्ठासे बहुत सन्तुष्ट थे। फलत मेरा बहुत आदर होता था। गरम पानीका स्नानागार तैयार होनेपर सबसे पहले मैंही नहानेके लिये बुलाया जाता था। जापानियोंको गरम पानीसे नहाना बडाही सुखद प्रतीत होता है।

१८ तारीखको पूर्ववत् में बुलाया गया। उस समय धर्म-पुस्तक पढ रहा था इससे नहीं जा सका। दूसरी धार फिर बुलाया गया। फिर भी मैं स्नान करनेके लिये तैयार न था और कमरेके बाहर न जा सका। इतनेमें एक बड़े जोरकी धमाकेकी आवाज हुई जिससे सारा भवन हिल गया। अनुसन्धान करनेपर ज्ञात हुआ कि स्नानागारकी मञ्जिल मय सामानके बैठ गई। स्नानागारमें एक जापानी महिला स्नान कर रही थी जो मेरे न जानेके कारण नहाने चली गई थी। वह अभागिनी ईंट पत्थरोंमें दबकर बुरी तरह घायल हो गई थी। वह तुरत पासके एक अस्पतालमें पहुँचाई गई परन्तु उसके बचनेकी बहुत कम आशा थी। यह सोचकर काप उठना हूँ कि यदि मैं सदाकी भाँति आज भी नहानेके लिये चला गया होता तो मेरी इस यात्राका क्या परिणाम होता। उस लीके लिये मुझे बडा शोक हुआ

क्योंकि वह मेरे बदलेमें घायल हुई थी। यह घटना मेरी यात्राका शुभ लक्षण था।

मैं अङ्गरेजी जहाज लाइटनिङ्गपर सवार हुआ और पीनांग, होता हुआ २५ जुलाईको कलकत्ते पहुँचा। वहाँ महाबोध सोसाइटीमें ठहरा। सोसाइटीके मंत्री मि० चन्द्रबोससे ज्ञान हुआ कि यदि मैं दार्जिलिंग जाकर राय बहादुर शरतचन्द्र दासका शिष्य हो जाऊँ तो मेरा काम बन जायगा। दास महाशय कई महीने तिब्बतमें रह चुके थे और उस समय दार्जिलिंगमें तिब्बती भाषाका एक कोश बना रहे थे। मि० चन्द्रबोसने राय बहादुर साहयके नाम एक चिट्ठी लिख कर दी। उनसे तथा अन्य देशवासियोंसे विदा लेकर मैं २ अगस्तको रेलसे दार्जिलिङ्ग चला। गाडी उत्तरकी ओर चली। थोड़ीही देरमें गङ्गाजीके किनारे पहुँची। स्टीमर द्वारा गङ्गाजीको पारकर हमलोग दूसरी गाडीपर सवार होकर उत्तरकी ओर चले। रेलकी सड़ककी चारों ओर कोसोंतक नारियलके जङ्गल और धानके हरे भरे खेत दिखाई पड़ते थे। रातमें उड़ते जुगनूकी चमक भी हमारे लिये एक अद्भुत दृश्य था, क्योंकि जापानमें इस तरहके जुगनू नहीं देखनेमें आते। दूसरे दिन सवेरे हमलोग दूसरी गाडीमें सवार हुए। यह छोटीसी गाडी केवल पहाडकी चढ़ाईके ही लिए थी। उस पर चढ़कर हमलोग दलाईजङ्गलमें होकर आगे बढ़े। सध्याको तीन बजे हमलोग पचास मीलकी उचाईपर दार्जिलिङ्ग पहुँचे। वहासे एक ऊडीयर (यह पालकीकी भाँति होती है) सवार

होकर मैं शरतचन्द्र दासके मकान टहासा विलापर पहुँचा । यह बहुत ही रमणीक स्थान है।

दूसरा परिच्छेद

दार्जिलिङ्गमें एक वर्ष ।

जिस समय मैं दार्जिलिङ्ग पहुँचा उससे कुछ ही दिन पहले आसाममें भीषण भूकम्प हुआ था जिससे दार्जिलिङ्गके अधिकांश मकान गिर गये थे । शरत बाबूकी यह विला भी भग्न हो गई थी और उनकी मरम्मत हो रही थी । गृहस्वामीने मेरा सहर्ष स्वागत किया । एक दिनकी बातचीतमें मैंने अपना आशय उनपर व्यक्त कर दिया । मेरा समय बहुमूल्य समझकर आपने भी दूसरे ही दिन मुझे घूमपल नामी मन्दिरमें ले गये । वहाँ आपने मेरा वृद्ध मगोलियन पुरोहितसे परिचय कराया । वह बहुत विद्वान् और तिब्बती भाषाके निपुण शिक्षक थे । उनका नाम सेराच गेन्तसो (विद्यासागर) था । दैव सयोगसे मेरा नाम एकाईका भी यही अर्थ (विद्यासागर) होता है । इससे मेरे तिब्बती गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए । बौद्धधर्मपर विचार होने लगा । परन्तु यह एफ़दम पेडङ्ग था क्योंकि यद्यपि राय बरा-दुर दुभाषियाका काम करते थे परन्तु मेरा अंगरेजी भाषाषा-ज्ञान भी साधारण था । उस दिन मुझे केवल वर्षे परिचय परा-

या गया। दूसरे दिनसे मैं नित्यप्रति उस मन्दिरमें आने जाने लगा। शरत बाबूके विलासे वह तीन मील था। इसके एक महीने बाद एक दिन राय शरतचन्द्रने मुझे अपने कमरेमें बुलाकर, कहा—‘मि० कावागुची मेरी राय है कि आप तिब्बत यात्राका विचार छोड़ दें। यह बहुत ही भयानक संकल्प है। यदि सफलताकी कुछ भी आशा होती तो यह संकल्प उचित था पर अब स्था आपके सर्वथा प्रतिकूल है। तिब्बती भाषाका पूरा ज्ञान आप यहीं प्राप्तकर जापान लौट जाइये। आपकी वहां प्रतिष्ठा होगी।’ मैंने उनसे कहा कि—‘मेरा अभिप्राय केवल तिब्बती भाषा सीखनेका नहीं है। मैं बौद्धधर्मका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हू। श्री शरतचन्द्रने उत्तर दिया, ‘आपका यह विचार बहुत ही उत्तम है, पर ऐसे कामको आरम्भ करनेसे क्या लाभ जो पूरा नहीं हो सकता ? तिब्बतकी यात्रासे आप बचकर नहीं लौट सकते।’ मैंने पूछा ‘आप तिब्बत हो आये है, तो क्या मैं भी आपकी तरह सफल मनोरथ नहीं हो सकता ?’ शरतबाबूने उत्तर दिया, ‘आप क्रममें हैं, अब वह समय नहीं रह गया। इस समय तिब्बतमें विदेशियोंके लिये द्वार घन्टीको नीतिका पूर्णतः प्रयोग हो रहा है। यदि मैं भी चाहू तो अब प्रवेश पाना असम्भव है। इसके अलावा मुझे भाग्यवश पास भी मिल गया था जिसे प्राप्त करनेका न साधन है, न आशाही है। अतएव मेरे विचारसे यही उचित होगा कि आप तिब्बती भाषाका ज्ञान प्राप्तकर यहींसे घर लौट जाय। मेरे मेजबानने प्रत्येक शब्द सद्भावसे कहा था पर वह मेरे चित्तको

विचलित न कर सके। बल्कि मैंने कहा कि अब मेरा विचार लामा सेरावके यहा पढने जानेका नहीं है क्योंकि तिब्बती शिक्षा न देकर वे मुझे तिब्बती बौद्धधर्मकी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिये आप कोई ऐसी राह निकालिये जिससे मैं तिब्बती भाषा सीख सकू। उन्होंने असीम दयासे मेरी शिक्षाका दूसरा प्रबन्ध कर दिया। श्रीशरतचन्द्र दासके मकानके नीचेही दो मकान और थे। वह मकान यद्यपि शरदंग नामक लामाके थे पर वह दार्जिलिङ्ग नगरमें रहता था। राय बहादुरने उसको बुलवाया और कहा कि जापानी लामाको तिब्बती भाषा पढा दो। वह लामा सपरिवार अपने उस मकानमें आगया। वह मुझे पढानेमें बहुत ही सुखी था। मैं उसीके घरमें रहने लगा जिससे मुझे पढनेमें और भी सुभीता हो गई। साथ ही साथ मैं दार्जिलिङ्गमें रहकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था, क्योंकि उस समय मेरे पास केवल तीन सौ येन रह गये थे जो आधे समयके लिए भी काफी न थे।

लामा शरदंगके घरपर मैं बालकोंकी भांति रहता था। अर्थात् सवेरे स्कूल जाता था और तीसरे पहरको घरके लड़कोंके साथ पाठ याद करता था। विदेशी भाषा सीखनेका सबसे सुगम उपाय उसी देशके मनुष्योंके बीच रहना है। पर लामाके यहा रहकर मुझे यह नयी बात मालूम हुई कि बोलचालकी भाषा उस देशके बच्चोंसे बड़ी सुगमताके साथ सीखी जा सकती है। बच्चोंके बाद त्रियोंका नम्बर है। ६-७ मासके बाद ही मैं तिब्बती भाषामें साधारण बातचीत करने लगा। मेरा उद्देश्य

दिन दिन बढ़ने लगा । शामको मैं लामाके साथ घटो तिब्बती भाषामें बातें करता और कभी कभी वे तिब्बतकी कहानिया सुनाते और मैं चुपचाप बैठकर सुना करता ।

तीसरा परिच्छेद ।



तिब्बतकी बर्बरताका नमूना ।

एक दिन लामा शव्दगने यों कहना आरम्भ किया—तिब्बतमें मैंने जिससे बुद्धधर्मकी दीक्षा ली थी वे सबसे बड़े लामा और बड़े भारी विद्वान थे । तिब्बतके डिपुटी पोपको भी उन्होंने ही पढ़ाया था । उनका नाम सेंगचेन कोरगी चेन था । इन्होंने शरतचंद्र दासको भी पढ़ाया था । यद्यपि राय बहादुरको शिक्षा थोड़े दिनोंतक थी तथापि इसका परिणाम बहुत ही दु खद हुआ । शरत चावूके भारतवर्ष लौट आनेपर तिब्बत सरकारको विदित हुआ कि तिब्बतमें शरतचावू जिन लोगोंके साथ थे, जिसने उन्हें पास दिलवाया था, जिसके घरमें वह ठहरे थे वे रात्र तथा बड़े लामा कैद कर लिये गये आर बड़े लामाको तो इस साधारण अपराधके लिये प्राणतर्क देने पड़े ।

अनेक प्रमाण अब भी वर्तमान हैं जिनसे उस पवित्र लामाकी विद्वत्ता और बौद्धधर्मकी दृढताका पता चलता है । लोगोंकी उसमें अपार श्रद्धा भक्ति थी । उसकी मृत्युपर जो कवितार्ये लिखी गईं वे बड़ी ही दय-ग्राही थीं । इस घटनाकी

सत्यताका पर्याप्त प्रमाण मुझे तिब्बतकी राजधानीमें मिला था, जिन समय में भिक्षुफके वेशमें वहाँ ठहरा था। शरतचन्द्रके लीट जानेपर यह पक्ष चारों ओर फैल गई कि वह गुप्त राजदूत थे। लामा सेग चेतने समझ लिया कि मृत्युदण्ड अवश्य मिलेगा पर वह भी अधीर नहीं हुए। जब उनके मित्रोंने उनसे कहा कि राय शरतचन्द्रसे सम्बन्ध रखनेके कारण आपपर घोर विपत्ति आने वाली है उन्होंने उत्तर दिया, "मुझे ईश्वरने केवल इसीलिये भेजा है कि मैं समस्त मानव जातिको बौद्धधर्मका सन्देश दू। मुझ इससे कोई प्रयोजन नहीं कि शरत यावूका यहा आनेका क्या प्रयोजन था। पर यदि फर्तन्य पालनके लिये मुझे मृत्युदण्ड मिले तो लाचारी है।" भारतवर्षमें बुद्धदेवकी मूर्त्तिया तथा पूजाके पात्र भेजनेके अतिरिक्त इन्होंने बहुतसे उपदेशकोंको भी भेजा था। इसने विदित होता है कि प्रचारके लिये उनमें बड़ा उत्साह था। मेरे गुरु मचूरियाके लामा सेपव ग्यामस्तो जो दार्जिलिङ्गके घूमफलमें रहते थे उन्हींमेंसे एक थे। अभाग्यवश उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई पर इन कामोंसे उनकी महती आकांक्षाओंका पता चलता है। उन्को इस बातका बड़ा दुःख था कि बुद्धदेवकी जन्मभूमिमें बौद्धधर्मका सर्वथा लोप हो गया। वे वहा उसकी पुन स्थापना करना चाहते थे। जापानमें ऐसे बौद्ध वर्माध्यक्ष बहुत मिलते हैं जो विदेशोंमें प्रचारके पक्षपाती हैं। पर तिब्बतमें ऐसे मनुष्यके दर्शन दुर्लभ हैं। इससे लामा सेगचेनका महत्ताका पता

लगाता है। राष्ट्र या जातिके भेद भावको दूरकर वह एक भ्रातृभावके पक्षपाती थे। अधिकारी वर्गमें उनके अनेक शत्रु थे जो सदा उनके विनाशका अवसर ढूँढा करते थे। प्रोफेसर शरतचन्द्रका समाचार उनके लिये घडा ही उपयोगी निकला। कुछ आदमी दार्जिलिंगमें भेजकर यह निश्चय किया कि राय शरतचन्द्र वहादुर वास्तवमें ब्रिटिश सरकारके गुप्तचर होकर आये थे। इसके बाद वे लोग गिरफ्तार कर लिये गये जिनका शरतचन्द्रसे किसी प्रकारका सम्बन्ध था। और अंतमें लामा सेंगचेनको इस अपराधपर फासी दी गई कि उन्होंने परदेशी गुप्तचरको ठहराकर उसे स्वदेशके भेद बतलाये। वे कोनचो नदीमें डुबोकर मारे गये। जब मैं उस समयके दृश्यको स्मरण करता हू तो मेरे मित्र लामा शबदंगकी करुणा भरी मूर्त्ति मेरी आँखोंके सामने नाचने लगती है। जिस समय लामा महाशय नदी तटपर लाये गये, सहस्रों मनुष्य उनके लिये रोते थे। पर वे शान्तचित्त एक पत्थरकी चट्टानपर बैठे ध्यानपूर्वक धर्मपुस्तक पढ़ रहे थे। वे स्वच्छ मोटा वस्त्र पहने हुए थे। इतनेमें जल्लादने उनकी कमरमें रस्सेका एक छोर बाधते बाधते पूछा—“ क्या आपको कुछ कहना या करना है ? ” उन्होंने गम्भीर होकर उत्तर दिया, ‘थोड़ी देरमें मैं धर्मपुस्तकका पाठ समाप्त कर अपनी उगलीको तीन बार हिलाऊँगा तब तुम मुझको नदीमें डुबो देना।’ इसी समय भीड़में घबराहट फैल गई। सब लोगोंकी आँखोंके

निर्दयी पानी, क्रूर

लामा

। उन

लोगोंको अपने रोनेके अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। उनके सामने जनताका हृदयसम्राट्, सच्चरित्र, पूर्ण विद्वान् लामाका शरीर धर्माधिकारके वस्त्रोंसे शून्य जेलके वस्त्रमें विराजमान था और शत्रुओंके द्वेषका शिकार बन रहा था। वे जानते थे कि भारी अन्याय हो रहा है पर उसका प्रतीकार नहीं कर सकते थे। केवल रोकर ढाढस बाध रहे थे। आकाश मेघाच्छन्न था, धीरे धीरे बू दे पड़ रही थी। इतनेमें लामा महाशयने अपना एक हाथ ऊपरको उठाया। इसका आशय लोगोंने समझ लिया। सब चिन्घाड़ मार कर रोने लगे। एक, दो, तीन बार उन्होंने उ गली उठाई पर किसी भी जल्लादको उनके पास आनेका साहस न हुआ। वे खय रोते थे। यह देखकर लामा महाशयने कहा, 'मेरा समय आ गया है, तुम लोग क्या कर रहे हो ?' यह सुन कर जल्लादोंने बड़े दुःखसे लामाकी कमरमें एक भारी पत्थर बाँधकर उन्हें ब्रह्मपुत्र नदीके पानीमें डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रस्तीको ऊपर खींचकर जाच की तो ज्ञात हुआ कि अभी प्राणपत्तेक नहीं उड़ गये हैं। उन्होंने फिर उन्हें पानीमें छोड़ दिया। दूसरी बार फिर उठाया तो भी जीता पाया। उपस्थित सब लोग अब चित्ला उठे, 'लामाको छोड़ देना चाहिये।' जल्लादोंका भी साहस जाता रहा। इतनेमें कुछ देर हुई। लामा महाशयको बोलनेकी शक्ति हो गई। उन्होंने कहा, 'मेरे मरनेपर दुःखी मत हो, मेरा कार्य समाप्त हो गया है। मैं सुखपूर्वक मर रहा हूँ। मेरे पापोंका यहींपर अन्त हो गया

है और अब मेरे पुण्योंका उदय हांगा। मेरे घातक तुम लोग नहीं हो। मेरी केवल यही इच्छा है कि मेरी मृत्युके बाद भी तिब्बतमें बौद्धधर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। यह सुनकर जल्लादोंने शोक सतप्त हृदयसे लामाको तीसरी चार पानीमें डाल दिया। और जब बाहर निकाला तो शरीर प्राणहीन था। तिब्बतकी रीतिके अनुसार लामाके शरीरके प्रत्येक अङ्ग अलग अलग करके नदीमें फेंक दिये गये। यह बात सब लोगोंको और विशेष कर बौद्धमतवालोंको माननी पड़ेगी कि वह मनुष्य सर्वसाधारणसे कई अंशमें अवश्य ही विशिष्ट था जिसने अपना शरीर धर्मके लिये दे दिया और मरते समय भी मनुष्य अथवा ईश्वरको दोष न देकर पूर्ण शान्तिके साथ प्राण दिये। मेरे ऊपर इस कहानीका बहुत असर पड़ा क्योंकि मैं तिब्बतकी यात्रा कर रहा था और सफल मनोरथ होना चाहता था। तो क्या ऐसी घटनाओंका होना असम्भव था।



चौथा परिच्छेद ।

भूठा वेश

आज सन् १८६८ की जनवरीकी पहली तारीख थी । मैं सबेरे उठा और सदाकी भाँति सबेरेका अधिकांश समय धर्म-पुस्तक पढ़नेमें बिताया और सम्राट् तथा सम्राज्ञीके दीर्घजीवनकी शुभ कामना की ।

मैंने अगले बारह महीने तिब्बती भाषा सीखनेमें लगाये और इतने दिनोंमें मुझे थोड़ा चाल तथा किताबी भाषाका पूरा ज्ञान हो गया । सन् १८६६ के आरम्भमें मैंने तिब्बतके लिये प्रस्थान करनेका विचार किया । अब प्रश्न यह उठा कि मैं किस मार्गसे जाऊँ ।

सम्बूरोंग अर्थात् चीच घाटीके गुप्तमार्गके अतिरिक्त तीन मार्ग दार्जिलिंगसे तिब्बतको गये हैं । एक दार्जिलिंगसे उत्तर पूर्वकी ओर सीधा न्याटोंग होकर जाता है । दूसरा कञ्चन गंगाके पश्चिमी किनारेको पार करता धारोंगलसे तिब्बतकी सीमा बरोंग होकर जाता है, और तीसरा सिक्किमसे सम्ब्यजोंग होकर लासा जाता है । इन तीनों मार्गका प्रवेश द्वार दृढ़ सुरक्षित है । इधरसे होकर किसी विदेशीका तिब्बतमें प्रवेश असम्भव है । राय शरतचन्द्र बहादुरने मुझसे कहा कि यदि आप न्याटोंगके फाटकसे जाय और वहाके सत्रियोंसे विनीत प्रार्थना

करें कि आप जापानी पुरोहित हैं और केवल बौद्धधर्मकी दीक्षा लेनेके लिये यहा आये हैं तो सम्भव है कि लोग आपको जाने दे। पर यह युक्ति मुझे न जंची। जो कुछ मैंने अपने लामा गुरुसे सुना था, उससे मैं अपने मित्र शरतबाबूकी रायसे सहमत न हो सका। मेरी समझमें नेपाल या भूटान होकर जानेमें सुविधा थी। इन दोनोंमें भी नेपालका मार्ग अधिक सुगम प्रतीत हुआ। क्योंकि भूटानमें बुद्धदेव कभी नहीं गये थे। अतएव वहा उस धर्मके विषयमें कुछ नयी बात ज्ञात होनेकी आशा नहीं थी, यद्यपि वहा दो चार बार तिब्बतके पुरोहित गये थे। मुझे मालूम हुआ कि नेपालमें बुद्धदेवके बहुत अनुयायी हैं और वहा बौद्धधर्मके सम्पूर्ण ग्रन्थ संस्कृतमें हैं। यदि मैं तिब्बतमें प्रवेश न भी कर सका तो इसका उपयोग कर सकूंगा और तबतक नेपालमें एक भी जापानी नहीं जा सका था। अवतक पश्चिमी यूरोप और अमेरिकानास्तो ही आये थे। इन्हीं कारणोंसे नेपाल होकर ही जाना स्थिर किया।

मार्ग निश्चय हो गया। पर यदि मैं दार्जिलिंगसे सीधा नेपाल जा सकता तो बड़ा ही अच्छा होता, क्योंकि एक तो प्राकृतिक सौंदर्यकी छटा देखनेमें आती और दूसरे मार्गमें जितने बौद्धतीर्थ मिलते उनके भी दर्शन हो जाते। पर मेरे लिये यह असम्भव या भयावह था। दार्जिलिंगमें तिब्बतके बहुत लोग रहते थे। प्राय वे सब जानते थे कि मैं तिब्बतकी यात्रा करनेके लिये तिब्बती भाषा सीख रहा हूँ। और यह निश्चय था

कि जिस दिन मैं तिब्बतके लिये रवाना होऊंगा वे मेरे पीछे लग जायगे और यातो मागमें ही मेरा काम तमाम कर देंगे या निश्चयतमें पकडवा देंगे, क्योंकि इसके लिये उन्हें प्रचुर पारितोषिक मिलेगा। इसलिये मैंने यह सम्वाद फैला दिया कि किसी आकस्मिक घटनाके कारण मैं जापानको लौट जानेको लाचार हुआ हू। निदान मैं कलकत्तेके लिये रवाना हुआ और पाच जनवरी १८६६ को वहा पहुंचा। केवल शरतत्राय ही इस भेदको जानते थे। राय बहादुरने प्रसन्नता पूर्वक विदा किया और मेरी सफलताके लिये प्रार्थना की। यहीं इतना और लिख देना उचित होगा कि दार्जिलिंगसे रवाना होनेके पहले मुझे ६३० रुपयें और मिल गये जो मेरे जापानी मित्रोंने जापानमें एकत्रित कर मेरे पास भेजे थे।

पांचवां परिच्छेद



नेपाल यात्रा

इस बार कलकत्ते नेपाल सरकारके मन्त्रीसे मेरा परिचय हो गया। आपका नाम जीव बहादुर था। इस समय बाप नेपाल सरकारकी ओरसे तिब्बतमें रेजिडेंट हैं। उन्होंने कृपा करके दो प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके नाम मुझे पत्र दिया। वहासे चलकर २० जनवरी १८६६ को मैं बुद्ध गया पहुंचा। यहा शाक्य मुनिरा

पवित्र स्थान है। पहा मुझे लकाके धर्मपाल महाशय जी मिले। वे भी दर्शनके लिये आये हुए थे। उनसे मुझसे देरतक बातचीत होती रही। जब उनको विदिन हुआ कि मैं तिब्बतकी यात्रा कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मेरी तरफसे दलाई लामाके लिये कुछ भेंट लेते जाइये। एक भेंट चादीकी डिवियामें यन्त्र बुद्धदेवकी मूर्ति थी। डिविया पगोडाकी शकलकी बनी हुई थी। दूसरी भेंट तालपत्रपर लिखी धर्म-पुस्तककी थी। मैंने उनकी प्रार्थनाको सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा—“तिब्बत जानैकी मुझे भी बड़ी अभिलाषा है पर जबतक बुलाया न जाऊँ जाना निष्फल होगा। उस रातको मैं उसी बोधि वृक्षके नीचे उसी चट्टानपर ध्यानावस्थित हुए बैठ रहा जहाँ प्राय २५०० वर्ष पूर्व भगवान् बुद्धदेव साधनासे उस पदवीको पहुँचे थे। जो आनन्द मुझे उस रातको प्राप्त हुआ वर्णनानीत है। केवल इतनाही कह सकता हूँ कि मैं परम शान्त था।

मैं बुद्ध गयामें कई दिन रहकर रेलसे नेपालके लिये रवाना हुआ। एक दिन और एक रातकी यात्राके बाद २३ जनवरीको सगौली स्टेशन पहुँचा। नेपालकी सरहद सगौली स्टेशनसे दो दिनकी राह है। यहाँ तक तो अगरेजी भाषा बोली जाती है। पर इसके बाद अगरेजी या तिब्बती दोनों भाषायें निष्प्रयोजन हैं। यहाँ नेपाली अथवा नेपाली बोलचाल चल सकता था पर मुझे इन दोनों भाषायों में कुछ ज्ञान नहीं था।

पडा। अबतक तो केवल तिब्बती भाषा पढनेमें लगा था और किसी अन्य ओर ध्यान नहीं दे सका था। सौभाग्य वश मुझे वहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना पडा। सगौलीके पोस्टमास्टर बह्नाली थे। वे अंगरेजी और नेपाली दोनों भाषाओंमें निपुण थे। इस कामको शीघ्र पूरा करना था, अतएव मैंने नेपाली भाषाके प्रत्येक शब्दको जो मेरे शिक्षक बतलाते थे लिख लेता था। सगौली पहुचनेके दूसरे दिन नोट बुक हाथमें लिये मैं स्टेशनके पास टहल रहा था। मैंने तीन यात्रियोंको रेलसे उतरकर साथ जाते देखा। उममें एककी अवस्था प्राय ४० वर्षकी थी और वह तिब्बती पोशाक पहने था। दूसरा पुरोहित था। उसकी अवस्था ५० वर्षकी थी और तीसरा इनका नौकर था। इनको देखते ही मेरे हृदयमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि मैं इनके साथ जा सकू, तो बडा अच्छा हो। साहसकर मैं उनके पास पहुचा और पूछा 'आप लोग कहा जा रहे हैं?' उन्होंने उत्तर दिया "हमलोग नेपाल जा रहे हैं हमलोग नवागन्तुरु नहीं हैं।" हममेंसे एक तिब्बतका रहनेवाला है।" इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा 'आप कहाके रहनेवाले हैं?' मैंने उत्तर दिया "मैं चीनी हूँ।" उन्होंने फिर पूछा "किस मार्गसे आप आ रहे हैं? जल या स्थलसे?" मैंने उत्तर दिया 'स्थलसे'। इस प्रश्नके उत्तरमें बडी सावधानीकी आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय तिब्बत में यह नियम था कि जलमार्गसे आया कोई भी चीनी तिब्बतमें नहीं प्रवेश पा सकता था। इस भाति उनसे बातें करता मैं

उत्तर दिया "सीराफे मठमें ।" उसने फिर मुझसे पूछा "क्या आप युद्ध महाघोश तत्सो केन्योको जानते हैं? दार्जिलिङ्गमें लामा शव-दङ्गसे बहाका सब हाल मालूम हो चुका था । मैंने उत्तर दिया 'हां' । यहातरु तो मैं सफ़ठ रहा पर मुझे प्रत्येक क्षण भय लगता था कि कहीं फस न जाऊ । इसलिये मैंने उनके सन्देहको दूरकर देना उचित समझा । शवदङ्गने जो समाचार मुझे दिये थे उनसे इस काममें बड़ी सहायता मिली । मैंने बहाकी दो चार पतेकी बातें बतलाई । उनका सारा सन्देह दूर हो गया । पर मैं उनके बारेमें अभीतक कुछ भी नहीं जान सका था ।

उन्होंने मुझसे फिर पूछा ' आप किसके पास जा रहे हैं ?' क्या आप कभी नेपाल गये हैं ?' मैंने उत्तर दिया " नहीं" । मेरे पास दा परिचयपत्र हैं । नेपाल सरकारके मंत्री जीव बहादुरने महाबाध मठके लासाके नाम लिखे हैं । इस बातसे उन्हें आश्चर्य्य हुआ । उन्होंने कहा-जीव बहादुर मेरे घनिष्ट मित्र हैं । उन्होंने अन्य किसीके नाम पत्र नहीं दिया होगा । क्या आप मुझे वह पत्र दिखला सकते हैं ? मैंने पत्र निकालकर उनके हाथपर रख दिया । पत्र देखते ही वे हस पडे और बोले—'यह पत्र मेरे ही लिये हैं ।'

यहापर यह लिख देना आवश्यक होगा कि नेपालमें 'मित्र' शब्दका अर्थ बहुत गम्भीर है । मित्र भाईके समान समझा जाता है । मैत्री बडे समाराहसे की जाती है । विवाहकीसी धूमधाम होती है । सभी आत्मीय कुटुम्बी निमंत्रित किये

जाते हैं। उत्सव मनाया जाता है, भोज दिया जाता है। अन्तमें दोनों मित्र अपने शराबके प्याले आपसमें बदलते हैं। इतना करके ही एक नेपाली दूसरे नेपालीको मित्र कह सकता है।

जो महाशय मुझसे इस तरहका प्रश्न कर रहे थे वे ही महा-बांध मठके प्रधान लामा थे और जीव बहादुरके मित्र थे। इस अचानक भेंटसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे अपने साथ रखनेके लिये मैंने उनसे प्रार्थना की। अब मैं नि सहाय न रहा। मैं नेपालके प्रतिष्ठित ध्यक्तिका मेहमान और साथी था। मेरे नये मित्रने दूसरे ही दिन नेपालके लिये प्रस्थान करनेका प्रस्ताव किया और यह भी निश्चय हुआ कि घोड़ेपर न चढ़कर पैदल ही चलेंगे। दोनों ही बातें मुझे पसन्द आईं क्योंकि एक तो उनके सहवासका विशेष अवसर मिलता और दूसरे प्राकृतिक दृश्योंका आनन्द मिलता और तीसरे गुप्त रूपसे ऐसे समाचार संग्रह करता जिससे मुझे तिब्बतकी यात्रामें सहायता मिलती।

हमलोग इस तरह बातें कर ही रहे थे कि लामाके दोनों नौकर घबराये हुए दौड़ते भाये और बोले "भोपटेमे चोरोंने सेंध लगाया है।" यह सुनते ही लामा मुझसे विदा हुए। पीछे मुझको मालूम हुआ कि उनके तीन सौ पचास रुपये कुछ किताने और कपडे चोर ले गये। मेरी भाग्य प्रबल थी क्योंकि मकान मालिकने मुझसे कहा कि यह चोर मेरा सामान चुरानेके

फेरमें था। पर मेरे बदले मेरे मित्रपर ही हाथ साफ किया। मुझे यडा दुख हुआ। इसी समय मुझे विदित हुआ कि जिस लामासे मैं अभीतक बात कर रहा था उसका नाम बुद्धयज्ञ है और बृद्ध पुरोहितका नाम मायर है। वह लासाके डेवन मठका धर्माध्यक्ष है।

२५ जनवरीको प्रात काल हमलोग वहासे सीधे उत्तर-को चले। दूसरे दिन हमलोग बेलगंजी पहुँचे। वही नेपालका पहला फाटक है। वहापर मुझे एक पास मिला कि मैं चीनी हूँ और तिब्बतमें रहता हूँ। रात हमलोगोंने एक गावमें विताई। यह गाव दलाई जङ्गलके किनारे था। अट्टाईसको हमलोग शिमला गाव पहुँचकर सीधे जगल होकर चले। यह जङ्गल आठ मील चौडा था। शामका हमलोग एक गावमें पहुँचे जो पहाडी नदी विचागोरीके किनारेपर था। रातभर हमलाग वहीं टिके थे। रातको प्राय दस बजे मैं अपनी डायरी लिख रहा था, मैंने खिडकीमेंसे सिर बाहर निकालकर देखा चन्द्रमाकी निर्मल किरणें चारों ओर फैल रही थीं। चारों ओर अटल शान्तिका साम्राज्य था। केवल नदीका फलकल शब्द सुनाई दे रहा था। सहसा मुझे भीषण रव सुनाई पडा। पूछनेपर सरायघालेने कहा कि यह शेरकी गरज है। शिकार खाकर वह सोतेमें पानी पीने आया है और सन्तुष्ट होकर प्रसन्नता प्रगट कर रहा है।

दो दिनतक हमलोग इसी भाति गाव

होकर

जाते हैं। उत्सव मनाया जाता है, भोज दिया जाता है। अन्तमें दोनों मित्र अपने शराबके प्याले आपसमें बदलते हैं। इतना करके ही एक नेपाली दूसरे नेपालीको मित्र कह सकता है।

जो महाशय मुझसे इस तरहका प्रश्न कर रहे थे वे ही महा-बोध मठके प्रधान लामा थे और जीव बहादुरके मित्र थे। इस अचानक मे टसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे अपने साथ रखनेके लिये मैंने उनसे प्रार्थना की। अब मैं नि सहाय न रहा। मैं नेपालके प्रतिष्ठित व्यक्तिका मेहमान और साथी था। मेरे नये मित्रने दूसरे ही दिन नेपालके लिये प्रस्थान करनेका प्रस्ताव किया और यह भी निश्चय हुआ कि घोड़ेपर न चढ़कर पैदल ही चलेंगे। दोनों ही बातें मुझे पसन्द आईं क्योंकि एक तो उनके सहवासका विशेष अवसर मिलता और दूसरे प्राकृतिक दृश्योंका आनन्द मिलता और तीसरे गुप्त रूपसे ऐसे समाचार सग्रह करता जिससे मुझे तिब्बतकी यात्रामें सहायता मिलती।

हमलोग इस तरह बातें कर ही रहे थे कि लामाके दोनों नौकर घबराये हुए दौड़ते आये और बोले "भ्रूपडेमें चोरोंने सेंध लगाया है।" यह सुनते ही लामा मुझसे विदा हुए। पीछे मुझको मालूम हुआ कि उनके तीन सौ पचास रुपये कुछ कितारों और कपड़े चोर ले गये। मेरी भाग्य प्रबल थी क्योंकि मकान मालिकने मुझसे कहा कि यह चोर मेरा सामान चुरानेके

छठा परिच्छेद ।



भिन्जुकसे मैत्री ।

कश्यपबुद्धको समाधिके पासके नगरका नाम बोध है । लामा बुद्धयज्ञ उस नगरके स्वामा थे और यम्बू चोर्टन चिन्पोके अधिकारी थे । काठमण्डूको याम्बू कहते हैं । और चोर्टन चिन्पोका अर्थ है “बड़ी मीनार” । इस मीनारका पूरा नाम ‘जा रग कशोल चोर्टन चन्पो’ है । उसके सबन्धमें विचित्र कथा प्रचलित है । कथा है कि कश्यप बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धसे बहुत पहिले हुए थे । कश्यप बुद्धके मरनेपर एक वृद्धा स्त्रीने अपने चार बच्चोंके साथ उनके शवकी समाधिमें बैठकर उसीपर यह वुर्ज उठाना प्रारम्भ किया । कार्यारम्भसे पहले उसने राजासे आज्ञा ले ली थी । नीच और चवूतरेके कामकी सुन्दरता और सीम्यता देखकर लोग आश्चर्य करने लगे । सरकारी कर्मचारी और धनिकोंकी चिन्ता और बढ़ गयी कि दरिद्र बुढिया ऐसी भारी समाधि बना सकती हैतो हम लोगोंको पहाड बनाना पडेगा । इसलिये उन लोगोंने राजासे प्रार्थना की कि उस वृद्धाको उस कामसे रोक दे । राजाने उत्तर दिया कि मैंने उसे आज्ञा दे दी है । अब मैं लौटा नहीं सकता । इस भाति यह समाधि तैयार हुई । पर मेरी समझमें यह समाधि शाक्यमुनि

चले। तीसरे दिन विनप्रित पहुचे। यहातक तो सडक ऐसी थी कि उसपर गाडी इत्यादि जा सकती थी। पर यहासे सडक ऐसी ढालर्धी थी कि पैदल अथवा पालकीपर जानेके सिवाय और उपाय नहीं था। हमलोग पैदल ही चल पडे और चार बजे प्रात काल पहाडी पर चढने लगे। चढाईके बाद हमलोग दूसरे फाटक टिस्सेस पर पहुचे। यहापर चू गोघर और एक दुर्ग है। इसमें बहुत सिपाही रहते हैं। यहापर हमारे सामान इत्यादिकी जाच हुई। वहासे हमलोग टिखगडीकी चोटीपर चढे। वहाँसे हिमालयका मनोरम दृश्य मैंने देखा। टिखगडीसे उतर कर मारकू नगर पहुचे और रातको वहीं ठहरे।

पहली फरवरीको हमलोग चन्द्रगिरिकी चोटीपर चढे। वहासे नेपालकी राजधानी काठमण्डू एक तसवीरसी मालूम होती थी। थोडो दूर नीचे दो बुर्ज दिखाई पडे जिनपर सोनेका पानी चढा था। लामा बुद्धबज्रने बतलाया कि इनमेंसे एक कश्यप बुद्धकी और दूसरी सिखी बुद्धकी समाधि है। चोटीसे नीचे उतरकर हमें चार पाच मनुष्य दो घोडोंके सहित मिले। ये आदमी बुद्धबज्रको लेनेके लिये आये थे। हम दोनों आदमी दोनों घोडोंपर सवार हो गये। पहाडसे थोडीही दूरपर जगलमें हमको प्रायः तीस आदमी और मिले। सगीलीसे यह स्थान प्राय १८५ मील है।

ग्यालामा भी कहते थे। इसका अर्थ 'चीनी लामा' है। बुद्ध यज्ञके पिता चीनी पुरोहित थे। पर माता नेपाली जातिकी थी। प्राचीन सम्प्रदायके होनेसे उन्हें विवाहकी स्वतन्त्रता थी। इस कारण लामा बुद्धयज्ञ मुझे देशघासी समझकर विशेष कृपा रखते थे। पर मुझे केवल गुप्त राह ढूँढ निकालनेकी चिन्ता थी।

मुझे ख्याल हुआ कि तिब्बतके मिष्तारी जो यहा दर्शनके लिये आये हैं विना पासके होते होंगे और विशिष्ट लोगोंके अतिरिक्त कोई भी—तिब्बतका रहनेवाला भी—पास न होनेपर भरपूर घूस दिये विना प्रवेश नहीं पा सकता था। यह दरिद्र मिष्तारियोंके सामर्थ्यके बाहर था। इस विचारसे भाशान्वित होकर फकीरोंसे मित्रता करने लगा। कश्यप बुद्धकी समाधिके पास इनके दलके दल थे। मेरी उदारताने मुझे उन लोगोंमें प्रसिद्ध कर दिया। पहले तो वे लोग मुझसे अलग रहे पर जब उन लोगोंको विदित हो गया कि शका करनेका कोई कारण नहीं है तो वे मुझसे एकदम हिल-मिल गये। मुझे अनेक गुप्त रास्तोंका पता लगा पर एक भी निरापद नहीं था। जैसे न्यालमकी गुप्त राहसे होकर जानेसे किरोंगका फाटक तो न मिलता पर आगे जाकर पकड़े जानेका भय था। शारकोंग्याकी राहसे जाकर हेनरीके द्वारपर पकड़ा जानेका भय था। साराश यह कि तिब्बत जानेके लिये कोई भी मार्ग निरापद नहीं था। पास पाना और घूस देना उन मिष्तारियोंके सामर्थ्यके बाहर था। वे अनुनय चिन्तय और शुभ भाशीर्यादसे प्रवेश पा जाते थे। पर मेरे लिये यह भी असम्भव

पीछे बनी है क्योंकि संस्कृत लिपिमें इसका भिन्न वर्णन है और वह अधिक विश्वसनीय है।

हरसाल सितम्बर फरवरीके बीच तिब्बत मंगोलिया, चीन, और नेपालसे ढलके ढल यात्री यहापर दर्शनार्थ आते हैं। ऐसे खराब मौसममें लोगोंके यहा आनेका यह कारण है कि गर्मीमें हिमालयमें मलेरियाका प्रकोप बढ़ता है। अधिकांश मनुष्य तिब्बतसे आते हैं। इनमें घनाढ्य तो बहुत थोड़े ही रहते हैं। अधिरूश सख्या मिखारियोंकी होती है जिनके पास न घर है न द्वार। जाड़ेके दिनोंमें मन्दिरके आस पास बिताकर गर्मीमें वे तिब्बत लौट जाते हैं।

मैं नेपाल पहुंच गया। वहा जानेका एकमात्र कारण यही था कि मैं तिब्बत जानेकी राह ठीक कर लू। मेरा सकेतप इस प्रकारका था कि मैं उसे किसीपर प्रगट नहीं कर सकता था। यहातक कि अपने मित्रपरभी नहीं प्रगट कर सकता था। क्योंकि एक तो लामा बुद्धवज्रकी समझमें मैं एक बहुतही चतुर और विद्वान् चीनी यात्री था और उनका ख्याल था कि मैं प्रधान मार्गसे लासा होकर चीनको चला जाऊंगा और दूसरे वे नेपाल महाराजके तिब्बती दुमापिया थे। इससे यदि मैं अपना भेद उन्हें बता देता, तो वे अवश्य ही मेरा सब हाल महाराजसे कह देते और परिणाम यह होता कि सहायता करना तो दूर रखा मेरी यात्रा ही रोक दी जाती। यहापर यह लिख देना उचित होगा कि नेपालके लोग लामा बुद्धवज्रको

करंगे। इसके सिवाय ग्यालामाने अपना एक विश्वासी नौकर मेरे साथ टुकजी तकके लिये कर दिया कि वह मेरे नौकरोंकी जाच कर ले।

सातवां परिच्छेद ।

• मनोरम हिमालय

मार्च सन् १८६६ के आरम्भमें तीन पुरुष और एक वृद्धा स्त्रीके साथ मैं अपने दयालु मित्रसे विदा होकर सफेद टट्टपर सवार होकर कश्यप बुद्धकी समाधिसे रवाना हुआ। उस दिन मेरी तबीअत अच्छी नहीं थी पर काठमण्डूमें और अधिक ठहरनेमें भय था कि जहाँ मेरा पता न चल जाय। मेरा टट्टू पहाड़ी सत्रारीके लिये बहुत उपयोगी था। वहासे मैं उत्तर पूरवको रवाना हुआ। काठमण्डूका यह भाग बहुत ही मनोरम था। इसी राहमें नागरयोन नामकी पहाड़ी मिलती है। यहीं बोधीखत्व नागार्जुनने तपस्या की थी। सध्याको हमलोग जीतलरीडी गावमें पहुँचे। वहीं एक दूकानदारके यहा रात काठी।

नेपालके वर्त्तमान महाराजा हिन्दू हैं। जाति विचार उनके यहा हिन्दुस्तानका सा है। अन्य जातिके लोग न मकानके भीतर जा सकते हैं और न उनके साथ भोजन कर सकते हैं। इसलिये रात मुझे घरके बाहर किसो चट्टानपर अथवा जगलमें

क्योंकि उसमें भी भेद खुल जानेका भय था। मैं अपने प्रयत्नमें लगा रहा और अन्तमें सफल हुआ। मुझे मालूम हुआ कि चक्र मारकर जानेसे मैं निरापद लासा पहुच सकता हू। यह मार्ग जगतगकी राहसे मान सरोवर पहुचता था। यही राह मैंने चुनी। पर इससे लोगोंके मनमें शका उत्पन्न हो सकती थी कि अकारण मैंने यह भयानक मार्ग क्यों पसन्द किया। इसके लिये भी मुझे वहाना मिल गया। एक दिन मैंने अपने मित्र लामासे कहा मैंने चीनी पुस्तकोंमें पढा है कि मानसरोवरके पास कैलाश पर्वत तीर्थ है। मेरी इच्छा है कि मैं उस तीर्थ क्षेत्रका दर्शन करू। आप कृपाकर उचित प्रबन्ध कर दीजिये। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे कहा,—“मेरी भी कई बार वहा जानेकी इच्छा हुई पर मार्ग इतना बीहड है कि केवल एक दो नौकरोंके साथ जानेका साहस करना प्रमाद है। आप भी उस संकटकी छोडिये।” मैंने उत्तर दिया “बुद्धदेवने भी कहा है, जो उत्पन्न हुआ वह अवश्य मरेगा, मुझे मृत्युका भय नहीं है। क्या मेरी मृत्यु यहींपर नहीं हो सकती? इससे तो तीर्थयात्रामें मृत्यु होना कही श्रेयस्कर है।” उपदेश देना निर्थक समझकर मेरे मित्रने तीन आदमी दिये जिनमें एक बृद्धा स्त्री थी। इसकी अनन्या साठ वर्षकी थी। पर राहकी कठिनाइयोंको सहन करनेकी उसमें अपूर्व शक्ति थी। यह लोग लामाके रहनेवाले थे। यह नगर डाकुओंके लिये बरनाम है। परन्तु मुझको विश्वास दिलाया गया था कि यह लोग मेरे साथ विश्वासघात न

हो गयी कि कहीं कहींपर घोड़ेसे उतर जाना पड़ता था और दो दो पहरतक पैदल चलना पड़ता था। एक दिन मैं घोड़ेपर चढ़ा बहुत ढालू पतली राहसे जा रहा था। मैं भविष्यकी चिन्तामें मग्न था। सहसा एक वृक्षकी डालीमें उलझकर गिर पडा। भाग्यवश मेरा घोडा वहींपर ठहर गया। घोड़ेकी लगाम मेरे हाथसे नहीं छूटी नहीं तो मैं हजारों फुट नीचे पहुच गया होता। मैं उठने लगा पर मेरे कमरमें गहरी चाट लग गयी थी। मैं उठ नहीं सका। लाचार मुझे चारी चारीसे नौकरोंकी पीठपर सवार होकर एक मीलकी ऊँचाई चढ़ना पडा। पहाडकी चोटीपर पहुचकर मेरी पीडा बहुत बढ गयी। आगे बढना असम्भव हो गया और वहापर मैं दो दिनोंके लिये ठहर गया।

आठवां परिच्छेद



आपत्तियोंका सामना

इतने दिनों साथ रहनेसे मुझे अपने दोनों नौकरोंका हाल कुछ कुछ मालूम होने लगा। एक अधोर पर प्रत्युत्पन्नमति था। दूसरा शान्त था पर अपनी विद्याका उसे कुछ घमण्ड था। इससे वह पहलेको तग किया करता था और बहुधा दोनोंमें झगडा हो जाया करता था। बुद्धिया शुद्ध शीला थी और उन दोनोंसे आदतोंसे पूर्ण परिचित थी। मैं इन तीनों हीको समान दूँ

पडती थी । यहींपर काठमडूसे मानसरोवरतककी यात्राक
कुछ हाल लिख देना अच्छा होगा । यह प्रदेश अगरेजी राज्य
बाहर है इससे मेरा विश्वास है कि आजतक कोई भी यूरोपि
यन या अमेरिकन इस ओर न आया होगा । अतएव मैं सक्षे
हाल लिख देना चाहता हू ।

तीसरे दिन ४० मील पारकर हमलोग चांग नगर पहुँचे
यह किरोंग नदी (त्रिशूली गण्डक) के पश्चिमी किनारेपर बस
है । नगरके उत्तर एक मनोहर जगल है । रातको हमलोग उस
जगलमें सोये । रातभर नदीका कल कल शब्द सुनाई देता रह
दूसरे दिन सवेरे पोखराको खाना हुए । पोखरासे तिब्बत
किरोंग नगरका मार्ग केवल पाच दिनका है पर उस मार्गप
कड़ा पहरा रहता है । यहासे तीन दिनमें ४ मील तेकर बरे
और सरेंगमें हो अगर नदी पारकर हमलोग अलगाता नग
पहुँचे । यह नगर बूढी गंगाके पश्चिमी किनारेपर है । उ
नदीके ऊपर लोहेका झूलता हुआ पुल बना हुआ है । तिब्बत
साथ व्यवसाय होनेसे इस नगरका महत्व बढ गया है । बराब
नी दिनतक जगल, पहाड, घाटी, नदी और अनुपम पहाडी दृश्य
को देखते हमलोग सौ मील चलकर पोखरा पहुँचे । पोखराक
प्राकृतिक दृश्य सबसे रमणीक था । यहा हर एक वस्तु सस्त
थी । यहा मैं ६ दिनतक ठहरा । आगे बढनेके पहले मुझे ए
खेमा बनवा लेना जरूरी था । वह पच्चीस रुपयेमें तैयार हो गया
पोखरासे हमलोग उत्तरको चले । यहासे चढाई इतनी कडा

विदा हुआ पर वफादारी उनसे कहीं दूर थी। मैंने देखा कि इन लोगोंके साथ मेरी यात्रा भी न हो सकेगी। इधर मैं इस चिन्तामें पड़ा था उधर समावाद मिला कि तिर्यत सरकारने इन गस्तोंकी रखवालीके लिये पाच सिपाही नियुक्त कर दिये हैं। मेरी चिन्ता और भी बढ गयी।

अभी मैं गवर्नरके यहा ठहरा हुआ था। एक दिन सध्याको मेरे दोनों नौकर देशी शराबके नशेमें आपसमें लडने लगे। लडते लडते दोनों मेरे पास आये और बोले कि एकके रहनेपर दूसरा नहीं रह सकता। मेरे लिये यह अच्छा असर था। मैंने दोनोंका हिसाब चुकताकर निकाल दिया। बुढियाको कुछ और देकर उसे उन दोनोंके साथ जानेको कह दिया। इस प्रकार मैंने एक सङ्कट तो टाला पर चिन्ता इस बातकी थी कि आगे क्या किया जाय। काठमाण्डू लौट जाना तो विचारके बाहर था और आगेका मार्ग बन्द था।

गवर्नरके यहा एक मगोलियन विद्वान भी ठहरे हुए थे। उनका नाम सेराव ग्याल्टसन था। वे पुरोहितोंको धर्मशिक्षा भी देते थे और डाकूरी भी करते थे। चहा उनसे परिचय हो गया। मैंने देखा कि ये बौद्धधर्ममें प्रवीण और शास्त्रोंके भी ममज्ञ हैं। हम दोनोंने परस्पर ज्ञान बढ़ाना निश्चय किया अर्थात् वह मुझे तिब्बती बौद्धधर्मकी शिक्षा दें और मैं उन्हें चीनी बौद्धधर्म सिखाऊँ। यह निश्चयकर हमलोग टकतीसे विदा होकर हसरङ्गके लिये रवाना हुये। यहीं

देखता था पर समय समयपर बुढियाका विशेष ख्याल रखता था। इसके कारण वह मुझे अधिक मानने लगी। एक दिन उसकी आकृतिसे ज्ञात हुआ कि वह मुझसे कुछ एकान्तमें कहना चाहती है। निदान दूसरे दिन प्रातः काल मैंने उसे पहले ही रवाना कर दिया और मैं चादको नौकरोंके साथ रवाना हुआ। मैं घोड़ेपर सवार था और नौकरोंके साथ सामान था। इससे वे पीछे पड गये और मैं शीघ्रही बुढियाके पास पहुच गया। मुझे देखते ही उसने कहा—“आपकी जान जोखिममें है। ये लोग आपको मार डालेंगे। ये दोनों डाकू और हत्यारे हैं। इन्होंने अनेकोंके प्राण लिये हैं। दूसरा यद्यपि शान्त है पर दूसरेका प्राण लेनेमें इसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं। तिब्बतके उत्तर पूर्वी मैदानमें पहुचते ही दोनों अथवा वह आतुर प्रकृतिवाला आपके ऊपर झपट पडेगा और लूट पाटकर मार डालेगा।” उसकी बातें सुनकर मैंने कहा—“यह नहीं हो सकता। वे दोनों बहुत ईमानदार मालूम होते हैं।” बुढियाने कहा—“यदि मैं झूठ बोलू तो ईश्वर मुझे मौतका दण्ड दे।” तिब्बतके लोगोंके लिये इस तरहकी शपथ साधारण बात न थी। बुढियाकी बातपर मुझे पूरा विश्वास हो गया। मेरी चिन्ता और भी घट गयी। बारह दिनमें केवल सौ मील चढकर हमलोग टुकजी पहुचे। यहा नेपालके गवर्नर हरकमान सुबा रहते थे। ग्याला माकी कृपासे मैं उनका मेहमान बना। ग्यालामाका नौकर जो मेरे साथ था मेरे नौकरोंकी जांचकर और उन्हें वफादार पा

पिदा गुभा पर घफादारी उनसे फहीं दूर थी । मैंने देखा कि इन लोगोंके साथ मेरी यात्रा भी न हो सकेगी । इधर मैं इस चिन्तामें पडा था उधर सम्वाद मिला कि तिग्मत सरकारने इन वास्तोंकी रणमालीके लिये पाच सिपाही नियुक्त कर दिये हैं । मेरी चिन्ता और भी बढ गयी ।

थभी मैं गवर्नरके यहा ठहरा गुभा था । एक दिन सध्याको मेरे दोनों नौकर देशी शराबके नशेमें आपसमें लडने लगे । लडते लडते दोनों मेरे पास आये और बोले कि एकके रहनेपर दूसरा नहीं रह सकता । मेरे लिये यह अच्छा मजसर था । मैंने दोनोंका हिसाब चुकताकर निकाल दिया । बुढियाको कुठ और देकर उसे उन दोनोंके साथ जानेको कह दिया । इस प्रकार मैंने एक सड्डूट तो टाला पर चिन्ता इस यातकी थी कि आगे क्या किया जाय । काठमण्डू लौट जाना तो विचारके बाहर था और आगेका मार्ग बन्द था ।

गवर्नरके यहा एक मगोलियन विद्वान भी ठहरे हुए थे । उनका नाम सेराय ग्याल्टसन था । वे पुरोहितोंको धर्मशिक्षा भी देते थे और डाकूरी भी करते थे । वहा उनसे परिचय हो गया । मैंने देखा कि ये बौद्धधर्ममें प्रवीण और शास्त्रोंके भी ममज्ञ हैं । हम दोनोंने परस्पर ज्ञान बढाना निश्चय किया अर्थात् यह मुझे तिब्बती बौद्धधर्मकी शिक्षा दें और मैं उन्हें चीनी बौद्धधर्म सिखाऊँ । यह निश्चयकर हमलोग टुकजीसे विदा होकर हसरङ्गके लिये रवाना हुये । यहीं मङ्गोलियन

देखता था पर समय समयपर बुढियाका विशेष ख्याल रखता था। इसके कारण वह मुझे अधिक मानने लगी। एक दिन उसकी आकृतिसे ज्ञात हुआ कि वह मुझसे कुछ एकान्तमें कहना चाहती है। निदान दूसरे दिन प्रातः काल मैंने उसे पहले ही रवाना कर दिया और मैं बादको नौकरोंके साथ रवाना हुआ। मैं घोड़ेपर सवार था और नौकरोंके साथ सामान था। इससे वे पीछे पड गये और मैं शीघ्रही बुढियाके पास पहुच गया। मुझे देखते ही उसने कहा—“आपकी जान जोखिममें है। ये लोग आपको मार डालेंगे। ये दोनों डाकू और हत्यारे हैं। इन्होंने अनेकोंके प्राण लिये हैं। दूसरा यद्यपि शान्त है पर दूसरेका प्राण लेनेमें इसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं। तिब्बतके उत्तर पूर्वी मैदानमें पहुचते ही दोनों अथवा वह आतुर प्रकृतिवाला आपके ऊपर झपट पडेगा और लूट पाटकर मार डालेगा।” उसकी बातें सुनकर मैंने कहा—“यह नहीं हो सकता। वे दोनों बहुत ईमानदार मालूम होते हैं।” बुढियाने कहा—“यदि मैं झूठ बोलू तो ईश्वर मुझे मौतका दण्ड दे।” तिब्बतके लोगोंके लिये इस तरहकी शपथ साधारण बात न थी। बुढियाकी बातपर मुझे पूरा विश्वास हो गया। मेरी बिन्ता और भी बढ गयी। बारह दिनमें केवल सौ मील चढकर हमलोग टुकजी पहुचे। यहा नेपालके गवर्नर हरकमान सुचा रहते थे। ग्यालामाकी कृपासे मैं उनका मेहमान बना। ग्यालामाका नौकर जो मेरे साथ था मेरे नौकरोंकी जांचकर और उन्हें बफादार पा

भण्डा फहराता देखा जिसपर मन्त्र लिखे थे । तबतमें इसकी इतनी चलन है कि सीमेमें भी लोग इस भण्डेको लगाते हैं । वह रात जङ्गलमें काटी ।

दूसरे दिन १० मील चलकर हमें हसरङ्ग दिपलाई पडा । यह छोटा नगर है, मैदानमें बसा है । इसकी लम्बाई ग्यारह मील और चौड़ाई तीन मीलसे कुछ अधिक होगी । चारों ओरसे बरफके पहाडोंसे घिरा है । हसरङ्गसे उत्तर पूर्वी तिब्बतका मैदान एक दिनकी राहपर है । हमलोग मईमें वहा पहुचे । गेह बोया जा चुका था । हसरङ्ग होकर एक नदी गयी है जो उसके पश्चिमी भागकी पहाडीसे निकली है । नगरमें एक उन्नत स्थानपर एक दुर्ग बना हुआ है जिसमें 'लो' का राजा रहता है । नेपालपर गोरखोंके आक्रमणके पूर्व 'लो' स्वतंत्र राज्य था । किलेके सामने थोडी दूरपर कर्नयूपाका मन्दिर है । यह तिब्बतका प्राचीन सम्प्रदाय है । मन्दिर पत्थरका बना है और उसपर लाल रङ्ग फिरा हुआ है । उसके पास ही दूसरा पत्थरका मकान है । यह सफेद रङ्गका है । इसमें मन्दिरके पुरोहित रहते हैं । इस नगरमें छोटे बड़े प्राय ६० घर हैं ।



विद्वानका घर था। मार्गमें चूमिकग्यास्टा (अर्थात् सौ सोते) मिला। सस्कृतमें इसका नाम मुक्तिनाथ है। यह हिन्दू और बौद्ध दोनोंहीका तीर्थस्थान है। इस स्थानका यह नाम इस लिये पडा कि यहा अगणित सोते हैं। इसके अतिरिक्त यहापर पुराने ज्वालामुखीके भी चिह्न पाये जाते हैं। सम्भव है कि किसी समय यहापर ज्वालामुखी रहा हो। रात हमलोगोंने काली गङ्गाके किनारे घिटाई। दूसरे दिन सोता पार करनेमें हमें तीन घण्टा कठिन परिश्रम करना पडा। पहले मैंने घोड़ेपर सवार होकर पार करनेकी भूल की। एक तो मेरा बोझ दूसरे पानीके भीतर कीचड। दो चार कदम आगे बढ़ते ही वह कीचडमें फस गया। मैं उसपरसे कूदकर किनारेपर आ गया और वहासे पत्थरोंके टुकड़े, वृक्षोंकी शाखायें इत्यादि उठा उठाकर उस कीचडमें फेंकने लगा, ताकि उनके भर जानसे मेरे और मेरे मगोलियन मित्र तथा उनके घोड़ेके उतरनेके लिये राह हो जाय। पत्थरोंके गिरनेसे जो पानी और कीचड उछला तो मेरा टट्टू भयभीत होकर उछला और दूसरी ओर किनारेपर पहुच गया। पर मेरे मित्रका घोडा कदम न उठा सका और उसको उतारनेके लिये हमें पुल बनाना पडा। उस रातको हमलोग समर नगरमें ठहरे और दूसरे दिन हमलोग धवलागिरिके उत्तरसे होकर चले।

वहासे चलकर हमलोग कीरुग नगर पहुचे। यहाके अधिकाश निवासी तिब्बती हैं। यहा मैंने प्रत्येक भकानके ऊपर सफेद

सुप्रबन्धसे मैं अतिशय प्रसन्न था। मैंने देखा कि नगरनिवासियोंका प्रधानआमोद नाच गाना है। धार्मिक सभाओंके अतिरिक्त हर समय मजाक होते हैं। धार्मिक सभाओंमें लामा प्रधान होते हैं और वे पुरानी कहानिया, जीवनी और बौद्ध राजाओंके इतिहास सुनाया करते हैं।

हसरङ्गमें मुझे मैडे कुचैले और गदी आदतवाले मनुष्योंके साथ रहना पडा था। मेरी समझमें तिब्बतके लोग ससारमें सबसे गदे होने हैं। परन्तु हसरङ्गके निवासी उनसे भी बढ कर हैं। तिब्बतके लोग कभी कभी नहाते हैं पर हसरङ्ग वाले कभी भी नहीं नहाते। वहा में बारह महीने था। उस बीचमें मैंने एक मनुष्यको केवल दो बार मुह और गर्दन साफ करते देखा। ऐसी दशामें उनके शरीरका चमडा काला और दुर्गन्ध युक्त हो जाता है। मैंने देखा कि यदि खिया कभी कभी चेहरेको धो डाले तो उनकी कान्ति बढ जाय। पर वहाकी रीतिही ऐसी है। यदि कोई अपने हाथ मुह धोये तो उसकी दिल्लगी उडाई जाती है। उनके प्रत्येक काममें गन्दगी रहती है। इन लोगोंमें रहनेसे मुझे यह लाभ हुआ कि जो कठिनाइया मुझे तिब्बतमें उठानी पडीं, उनके लिये मैं यहींसे अभ्यस्त हो गया।

सेराय ग्याल्ट्सनके साथ मैं निम्नलिखित प्रकारसे काम करना था। प्रतिदिन सवेरे तीन घण्टेतक बुद्धधर्मकी शिक्षा, जिसकी तैयारीके लिये कठिन परिश्रम करना पडता था; और दोपहरके बाद तिब्बती भाषा और साहित्यका तीन घण्टे अभ्यास। यह

1. 2. 3. 4. 5.

नवां परिच्छेद ।



हसरङ्ग और उसके निवासी ।

पहाडके नीचे जहासे मैदान आरम्भ होता था एक पत्थरका फाटक था जो प्राय २४ फीट ऊंचा था । वह नगरके बचावके लिये नहीं बनाया गया था । उसमें बुद्ध आदि प्राय्य देवताओंकी मूर्तिया थीं जो भूत प्रेत आदिकी बाधासे नगरकी रक्षा करती थीं । यहासे प्राय १॥ मीलकी दूरीपर हसरङ्ग नगर बसा था । नगरके प्रवेश द्वारपर १४-१५ मनुष्य हम लोगोंकी प्रतीक्षा कर रहे थे । सेराव ग्याल्डसन मुझे नगरके प्रधानके पास ले गये । तिब्बतकी भांति हसरङ्गके धनवान भी घरके साथ मन्दिर रखते हैं । प्रतिष्ठित मेहमानको वे लोग इन्हीं मन्दिरोंमें ठहराते हैं । ऐसी प्रतिष्ठा बहुधा लामा हीको मिलती है । तदनुसार चीनी लामा होनेके कारण मुझे वही स्थान मिला । यहांपर लोग अपने पास धर्मपुस्तकें बहुत रखते हैं पर उन्हें पढनेमें उतनी रुचि नहीं दिखलाते ।

इस मन्दिरसे सटा हुआ छोटा मकान था जिसमें सेराव ग्याल्डसन रहते थे । मेरे मेजवानकी स्त्री मर चुकी थी । उन के दो लडकिया थीं, एककी अवस्था २३ और दूसरेकी १८ वर्षकी थी । इन्हींके ऊपर गृहस्त्रीका सारा भार था । इन लडकियोंके

सुप्रसन्नसे मैं अतिशय प्रसन्न था। मैंने देखा कि मगरनिवासियों का प्रधान आमोद नाच गाना है। धार्मिक मन्त्रार्थों के श्रवण हर समय मजाक होते हैं। धार्मिक मन्त्रार्थों में प्राण प्रण होते हैं और वे पुरानी कहानिया, जीवनी और बीड इतिहास सुनाया करते हैं।

हसरङ्ग में मुझे मैत्रे कुर्बले और गंदी खादगवाएँ के साथ रहना पडा था। मेरी समझमें तिब्बत के सबसे गंदे होते हैं। परन्तु हसरङ्ग के निवासी कभी भी नहीं नहाते। वहा में धारु महीमें था। मैंने एक मनुष्यको केवल दो चार मुँह और देखा। ऐसी दशामें उनके शरीरका चमका युक्त हो जाता है। मैंने देखा कि यदि धो डाले तो उनकी कान्ति बढ जाय। है। यदि कोई अपने हाथ मुँह धोये तो उनके प्रत्येक काममें गन्दगी रहती है। मुझे यह लाभ हुआ कि जो कठिनाइयाँ पडों, उनके लिये मैं यहींसे अभ्यस्त हो सिराव ग्याल्डसनके साथ मैं निरा था। प्रतिदिन सबेरे तीन घण्टे तैयारीके लिये कठिन परिश्रम बाद तिब्बती भाषा और साहित्य

काम सहज था और मुझे गुरुजीके साथ वार्मिक चर्चाके लिये पर्याप्त समय मिल जाता था ।

तिब्बतमें बौद्धोंकी एक सम्प्रदाय है जिसका निश्वास है कि बौद्धधर्मकी शिक्षा पञ्चसम्मतने निकाली है । पञ्च विलासी था और उसकी शिक्षामें इसीका आभास मिलता है । जो तिब्बती साहित्य मेरे गुरु मुझे पढ़ाते थे उसमें इसका विशेष वर्णन था । इस बातको लेकर मुझसे और मेरे गुरुसे बहुत विवाद होने लगता था । हमारे गुरु सेराव ग्याल्डसनको सिराके मठसे डाक्टरकी उपाधि मिली थी, पर दुर्भाग्यवश इन्द्रियोंके दास बनकर वे उस पदसे च्युत हो गये और पूज्य लामा बनकर मगोलिया नहीं जाने पाये । मेरे लज्जाके लासामें भी न रह सके । लाचा शेष जीवन उन्हें अज्ञातवासमें बिताना पडा । यह सुनकर मुझे हार्दिक सन्ताप हुआ, क्योंकि यदि यह दुर्बलता उनमें न होती तो अपनी विद्वत्ता और योग्यतासे वे सबसे ऊँचे पदपर पहुँचे होते । एक दोष उनमें और था । अन्य मङ्गोलोंकी भाँति वे अति शीघ्र रुष्ट हो जाया करते थे पर शान्त भी बहुत जल्दी हो जाते थे ।

एक बार किसी बौद्ध साधुके गुणोंके विषयमें मेरा उनसे मतभेद हो गया । उन्हें क्रोध आ गया । उन्होंने उछलकर एक हाथसे मेरी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथसे टेबलका डण्डा उठाकर मुझे मारना चाहा । मुझे हसी आ गयी । मैंने कहा “मुझे आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा थी । मैं नहीं समझता था कि विद्वान होकर आप धर्मके विरुद्ध आचरण करेंगे ।” यह सुनकर वे रुक


गये, पर मुझे पकड़े ही रहे और दात पीसते रहे। क्रोधसे आँखें लाल हो रही थीं। वे मेरे पाससे चले गये मारों में उनके सहवासके योग्य नहीं था। पर तुरन्त ही मेल हो गया। वहा में जितने दिनतक रहा नित्य प्रति सातसे नौ घण्टेतक मैं पाठ याद करता था और ६ घण्टे सेराबसे पढता था। मैं केवल एक बार भोजन करता था। रजिस्टारको मैं पहाडोंकी सैर करता था। मैं जानता था कि पूर्ण अभ्यास बिना पीठपर बोझ लाद कर पहाडपर नहीं चढ सकता था। अतएव मैं अभ्यास करने लगा। जब कभी मैं पहाडपर जाता पत्थर पीठपर लाद लेता था और तेजीके साथ पहाडोंपर चढता उतरता। मैं हृष्ट पुष्ट तो था ही, इस परिश्रमसे और अच्छा हो गया। फेंफडोंपर इसका अच्छा असर पडा। इस तरह मैं वहाँ विख्यात हो गया।

यहाके निवासियोंकी प्रकृति पाशविक होती है। गरमीमें तो खेतीके कामोंमें लगे रहते हैं पर वर्षका शेष भाग भोग विलासमें बीतता है। कभी सन्ध्याके समय लामाके उपदेशको भी सुन लेते हैं। कपडे सालमें एक बार बदलते हैं, अर्थात् पुराने उतारकर नये धारण करते हैं। यदि किसने एक ही वस्त्र दो वर्ष तक पहिना तो उसकी बडी प्रशंसा होती है। वह कपडे कभी भी साफ नहीं किये जाते। इससे मैलसे चमका करते हैं शरीरकी स्वच्छताकी ओर जितने उदासीन रहते हैं, भोजन और डासनकी ओर उतने ही दत्तचित्त रहते हैं। ये लोग थडे कामी होते हैं। अन्य असभ्य जातियोंकी भाँति ये भी अन्ध विश्वासी होते हैं।

इन लोगोंका विश्वास है कि लामा सर्वज्ञाता है और हर तरहकी बीमारी दूर कर सकता है। यही कारण था कि चीनी लामा अर्थात् मैं उन लोगोंकी दृष्टिमें बहुत आदरणीय हो गया। मेरे हसरङ्गमें पहुँचनेके थोड़े ही दिन बाद लोग मुझे जान गये और मेरा रविवारका पहाड़परका काम लोगोंको मेरी ओर अधिक आकृष्ट करने लगा। ग्याट्सनके साथ वादविवाद इतने जोरोंसे होने लगा कि बाहरके लोग भी उसे सुन सकते थे और इससे अनेक तरहकी किम्बदन्तियाँ फैलाते थे। समय समय मैं उनको भीषण दे देता था, जो अधिकतर लाभदायक होता था इससे मेरी कीर्ति फैल गयी। मुझे यह बातें कुछ भी न मालूम थीं। मेरे मेजगानकी लडकियाँ यह सब हाल मुझे सुनाती थीं। सेराबके साथ मुझसे जो द्वन्द्व हो गया था उसका कारण लोगोंने यह प्रसिद्ध कर रखा था कि मेरी उदारताके कारण सेराब मुझसे असन्तुष्ट रहता है। इन बातोंको गवार लोग बड़े चावसे सुनते थे और मुझे महापुरुष समझने लग गये थे।

हसरङ्गमें केवल दो ऋतु होते हैं, गरमी और जाड़ा। वहाँके लोग शेष ऋतुओंके नामही नहीं जानते हैं। यहाँकी गरमी बड़ी मनोहर होती है पर जाड़ा बड़ा भीषण होता है। किसी किसी दिन तो बरफके कारण घरसे बाहर निकलनेका साहस नहीं होता।

दसवां परिच्छेद ।



कीर्ति और लोभ

मुझे हसरगमें आये प्राय आठ मास हो गये । धीरे धीरे नया वर्ष आ गया । यह पहला नया वर्ष था कि मैं अपने घरसे इतनी दूर हिमालयके पहाडी प्रदेशोंमें था । पर मैं परम सन्तुष्ट और सुखी था ।

नये वर्षके समारोहमें मैंने हसरग निवासियोंको भोज दिया । मैंने ऐसे ही सामान तैयार किये थे जो बहुतायतसे उन्हें नहीं मिल सकते थे । गत परिच्छेदमें मैंने लिखा है कि मेरे आचार विचार और व्यवहारके कारण हसरग निवासी मुझे आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे । नये वर्षके व्यवहारने तो मुझे उनका अतिशय प्रिय बना दिया, क्योंकि उसोके बादसे वे लोग इस प्रकारकी चेष्टायें करने लगे जिससे मैं हसरगमें सदाके लिये बस जाऊं । मेरे गुरने इसके लिये सबसे अधिक प्रयास किया । वे सदा यही यत्न करते रहें कि मैं अपने मेजरानकी कनिष्ठा बन्यासे विवाह कर लू और उसे भी सदा यही शिक्षा देते रहे कि जिस प्रकार हो वह मुझे अपने प्रेमपाशमें बाध ले । पर धार्मिक शिक्षाने मुझे अपने पथसे डिगने न दिया ।

जब मैंने यह हाल देखा तो तिब्यत जानेके लिये शीघ्रता

अपने टट्टूपर सवार होकर विदा हुआ। मेरी धर्मपुस्तकें और अन्य सामान दो और टट्टुओंपर लदा हुआ था। ये पुस्तकें मुझे वडे लामा न्यानदकने मेरे उस सफेद टट्टूके बदलेमें दी थीं जिसे मैं नेपालसे लाया था। लामाने वह टट्टू बहुत पसन्द किया। अधिकांश पुस्तकें किसी शाक्य पण्डितके हाथकी लिखी हुई थीं और प्राय ६००) रुपयेकी थीं।

गावके बाहर प्राय सौ आदमी मेरी राह देख रहे थे। मैंने सबको आशीर्वाद दिया। विदाई अति दुःख मय थी। सबकी आँखोंसे आसू निकल रहे थे। मैं उनसे विदा हुआ। नगरके फाटकपर पहुँचकर मैंने नगरपर अन्तिम दृष्टिपात किया। नगरकी सुख शान्ति तथा लोगोंकी धर्ममें प्रवृत्तिके लिये ईश्वरसे प्रार्थना की। संध्याको मैं किमयी पहुँचा और रातभर वहीं ठहरा। दूसरे दिन मैं काली-गङ्गाके तटस्थ दुसक नगर पहुँचा। वहाँके लोगोंकी प्रार्थनासे मैंने शामको उपदेश सुनाये। विदा होते समय प्राय बीस आदमी मेरे पास आशीर्वाद लेने आये। मेरे गुरु सेगव ग्याट्टसन हसरगसे मुझसे कुछ पहले खाना हुए थे। उनसे भेंट हो गयी। विश लेते समय मैंने उनके उपकारोंके लिये हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की।

तीसरे दिन मैं मालवा पहुँचा। आदम नैरग कहीं बाहर गया था। उसके पिता सोनम नारवू मेरे स्वागतके लिये तैयार थे। मुझे मन्दिरमें स्थान मिला। मन्दिरमें दो कमरे थे। दोनों सजे हुए थे। भीतरी कमरेमें बुद्धदेवकी सुन्दर मूर्ति और तिब्बतका धर्मप्रथम था। मालवा हसरगकी अपेक्षा नीचा है। यहाँ सालमें फसले होती हैं।

मेरे मित्रकी इच्छा थी कि मैं उनके यहा अधिक कालतक ठहरू और उन्हें ग्रन्थ सुनाऊ। पर मैंने उन्हें निश्चित उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं केवल मार्गकी सुगमताकी परीक्षा कर रहा था। जबतक मैं वहा था प्रतिदिन धर्मग्रन्थका पाठ करता था और उसमेंसे उपयोगी उपयोगी अशोंकी नकल कर लेता था। सेराव ग्याल्टसनकी शिक्षा इस समय मेरे लिये बड़ी उपयोगी प्रतीत हुई।

मेरे मालवामें पहुचनेके १५ दिन बाद टुकजीका एक सौदागर राय शरत्चन्द्र दासका पत्र लेकर मेरे पास आया। इससे मुझसे हसरंगमें जान पहचान हुई थी। उस समय वह कलकत्ते जा रहा था। मैंने उसे शरतचन्द्रके नाम एक पत्र दिया था। उस पत्रके साथ शरतचन्द्रने महाबोध सोसाइटीका एक पत्र भी भेजा था। इसमें एक जापानी बौद्धका हाल था जो तिन्यतमें प्रप्रिष्ट न हो सका था। उसी हालके नीचे शरत चावूने पेन्सिलसे लिखा था, “अपनी रक्षाका पूरा प्रबन्ध करना।” शरत् चावूने तो यह काम मेरे अच्छेके लिये किया था पर उसका फल बहुत धुरा हुआ। उस सौदागरने आपही आप मेरे विषयमें सब बातें स्थिर कर ली और मालवामें यह सम्पाद फैला दिया कि यह चीनी लामा ब्रिटिश सरकारका गुप्तचर है। कलकत्तेके एक बङ्गालीके साथ इसका पत्र व्यवहार है। अङ्गरेजी सरकारसे ६००) महीना पाता है। मालवामें यह बात चारों ओर फैल गई और वहाके निवासी मुझे बहासे निकाल देनेका विचार करने लगे। इसी समय

नौरग घर लौटा । वह मुझसे एकान्तमें मिला । उसका चेहरा भयसे पीला पड़ गया था । उसने मुझसे कहा, 'यदि यह सम्वाद सच है तो ईश्वर ही जाने मेरी और गाचवालोंकी क्या दुर्गति होगी ।' मैंने उससे कहा 'यदि तुम इस बातकी शपथ खाओ कि मेरे भेदको तीन वर्षतक किसीसे न कहोगे तो मैं अपना भेद तुमपर प्रगट कर दूंगा । नहीं तो इस सम्वादके अनुसार नेपाल सरकार जैसा कार्य करे मैं भुगतनेके लिये तैयार हू ।' उसने धर्मपुस्तक लेकर शपथ खाई । मैंने अपना कच्चा चिट्ठा उसे सुना दिया ।

मैंने उसे पासपोर्ट भी दिखला दिया जो जापानके परराष्ट्र सचिवसे मिला था और तिब्बतमें जानेका अभिप्राय भी बतला दिया । मैंने उससे कहा, 'तुम सारा भेद जान चुके हो, तुम उसे फोल सकते हो पर मुझ पूरी आशा है कि सच्चे बौद्ध धर्मावलम्बीकी भांति तुम मेरी सहायता करोगे ।' मैंने उससे सब बातें सच सच कही थीं और अन्तमें सत्यकी विजय हुई । उसने मेरे साहसकी प्रशंसा की । फिर उसने मार्गकी बातें पूछीं । अन्तमें मैंने कहा कि मैं जून या जुलाईमें प्रस्थान करू ।

इससे उसे कुछ शान्ति मिली । अब मुझे उसके घरपर रहकर उसकी चिन्ता बढ़ाना उचित नहीं जान पड़ा । निदान मैं नगरके मन्दिरमें उठ आया । पर मेरे ऊपर वह सदा दयालु रहा । उसने मेरी यात्राका सब बन्दोबस्त कर दिया । मेरे कहनेपर उसने एक आदमी भी मेरे साथ घम्बूथाग तकके लिये कर

दिया। मेरा असबाब ले जानेका भी प्रबन्ध कर दिया। इस तरह मेरे जिम्मे केवल धर्म ग्रन्थ थे। मैं १८ जूनको मालवासे रवाना हुआ। यदि मैं सीधा उत्तर पूर्वको चला जाता तो मालवासे दस दिनमें तिब्बत पहुँच जाता, पर मैं आसपासके तीर्थ स्थानोंके लामोंके दर्शन करना चाहता था इसलिये यात्राके लिये २३ दिन अलग किये।

ग्यारहवां परिच्छेद

तिब्बतके दर्शन

मालवासे रवाना होकर काली गङ्गाके किनारे किनारे उत्तर पश्चिमकी ओर हमलोग पहाड़पर चढ़ने लगे। वर्षाके कारण पहले दिन केवल २॥ मील चल सके। दूसरे दिन सवेरे सात बजे रवाना हुए। रास्ता बहुत ही तग था। चारों ओर नुकीले पत्थर थे गाँव मील चलकर हम लोग विश्राम लिए। आगे चढ़ाई बहुत ऊँची हो गई और हवाकी भी कमी मालूम होने लगी। छ मीलसे आगे न बढ़ सके। डँकर गाँवमें उतर पड़े। ऐसे थक गये कि दूसरे दिन भी विश्राम लेना पडा। १५ को हम लोग उत्तरको चले और पाँच मील चलने पर बरफकी घाटी मिली। उसे भी पार किया। उसके आगे चार मील और ऐसी ही चढ़ाई

थी। अब कुछ चौड़ी राह मिली। दोपहरमें विश्राम किया। कहीं पानीका नाम न था। बरफकी पहली तहके नीचे एक प्रकारकी वनौपधि देखी। उसे उखाड़ कर चखा। वह बिलकुल खट्टी थी। फिर भी योड़ी इसे चबाई और कुछ बिरकुट खाकर पेट भर लिया। दो पहरके बाद फिर पहाडपर चढ़ने लगा। आजकी चढाई बड़ी कठिन थी। पैर रखनेके लिये भूमि नहीं थी। केवल लाठीके सहारे चलता था। नोचेको ओर देखनेसे सिरमें चक्कर आने लगता था। यदि तनिक भी पैर फिसलता तो हजारों फीट नीचे गिरकर प्राणान्त हो जाता। रेत भी पैरोंको आगे नहीं बढ़ने देता था। पर मेरा साथी उछल कूद कर बन्दरकी भांति रास्ता तै कर रहा था। उसकी लाठी उसको बराबर सहायता कर रही थी। उसकी पीठपर ७५ पौण्डका बोझ था। इतनेपर भी वह बड़ी आसानीसे चढ़ता था। जब मेरी लाठी चट्टानोंके बीचमें फँस जाती थी या मैं लड़खड़ाने लगता था, तब बीच बीचमें मेरी भी सहायता करता था। इसके अतिरिक्त ऊपरकी हवा हल्की होती जाती थी और श्वास लेनेमें बड़ी तकलीफ होती थी इससे मेरे सिरमें चक्कर आने लगा। प्यासके मारे गला सूख रहा था। कभी कभी बरफके टुकड़े मुखमें रफ लेता था पर उससे प्यास न बुझती थी। मुझे कमजोरी मालूम होने लगी। आगे बढ़नेकी शक्ति नहीं रह गई। चाहता था कि लेटकर पूरा विश्राम कर लू पर मेरा साथी बराबर सचेत करता रहा कि ऐसा करनेसे मृत्यु अग्रगण्यभावो है, क्योंकि यहाँकी हवा विपैली

है। इसका बसर शरीरपर तुम्हें होता है। हमकी कमोवेशी-का उसे कुछ ज्ञान नहीं था। मैं उसकी चेतावनीका बराबर खयाल रखता और प्रबल साहस कर आगे बढ़ता गया। चढाई ले कर हम लोग समतल भूमिपर पहुँचे। मैं हताश हो गया। मेरे साथीने कहा पानी थोड़ी दूर नीचे है। पर मैं आगे न बढ़ सका। मेरा साथी जाकर पानी लाया। पानी पीकर मैंने दम लिया। टिब्वर निकालकर दर्द पर लगाया। इतनेमें सन्ध्या हो गई। तारोंका क्षीण प्रकाश परफ एण्डपर त्रिचित्र जगमगाहट पैदाकर देता था। हमलोग उसीके सहारे चार मील नीचे उतरकर सेण्डा नामक गाँवमें पहुँचे। इसमें केवल १० घरकी बस्ती थी। हमलोगोंने रात वही बिताई।

यह गाँव सदा बर्फमें घिरा रहता है। केवल गरमीके महीनोंमें लोग वहाँ आ जा सकते हैं। पर इसी राहसे होकर जिससे मैं आया था। यहा भोजनके लिए टाए नामक निरुष्ट अन्न मिलता है। ऐसे प्यानमें भी लोगोंको बसते देर मुझे आश्चर्य हुआ। पर यहाँका दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बरफसे ढकी पहाड़ोंकी उन्नत चोटिया बिचमें तरह तरहके भाव उत्पन्न कराती थीं। मैं एकदम थक गया था। तीन दिनतक मैं हिल डोल न सका। चौथे दिन फिर एक भोजन मार्गसे चलना पडा। मुझे विदित हुआ कि प्रत्येक बप तीन या चार आदमी इसके शिकार हाते हैं। हमलोग उत्तर पश्चिमकी ओर चलने लगे। स-पूरके गावको पारकर एक पहाड़ी सीतोंके किनारे चलकर हमलोग

दोपहरको तशी धेंग पहुँचे । तीसरे पहर हमलोग आगे बढ़े । यह मार्ग कहीं तो बड़ा विकट है, कहीं मनोहर पुष्पों और हरे भरे वृक्षोंसे अतिशय सुरम्य है । यह प्राणघातक जंगली पशुओंका अड्डा है । मुश्की हिरण भी यहा पाये जाते हैं । रात चट्टानके ऊपर काटी । दूसरे दिन बराबर उत्तर पश्चिम चलता गया । ज्यों ज्यों धवलागिरिके निकट पहुँचता गया मार्गका दृश्य और भी अधिक रमणीक होता गया । अब मैं इतना थक गया कि अपना बोझ भी न समहाल सका । लाचार उसे भी अपने साथीपर लादकर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा ।

मैं एकदम थक गया था, पर वहाका दृश्य ऐसा मनोरम था कि मैं मुग्ध होकर खड़ा हो गया । मैं उस दृश्यमें इतना भूल गया कि मुझे प्रतीत होने लगा कि मानीं पहाडोंकी चोटिया बुद्ध देवकी साक्षात् प्रतिमा है । मेरे साथीने मुझे सचेत कर कहा—“यहाँ अधिक ठहरनेमें गला घुटकर मर जानेका भय है । इतना कह वह मुझे अपने हाथका सहारा देकर ले चला । हम लोगोंने दस मील नीचे उतर कर एक चट्टानके नीचे रात काटी ।

दूसरे दिन हमलोग फिर ऊपर चढने लगे । नीचे घाटियोंमें मैंने नाह हिरनके दो दो तीन तीन सौके झुण्ड देखे । पहाडके ऊपर जंगली भैंसे और पहाडी कुत्ते दिखलाई पड़े । ये आदमीका शिकार करते हैं । रास्तेमें जानवरोंकी हड्डिया भी दीख पड़ीं । कहीं कहींपर बर्फोंमें जमो मनुष्यकी लाशें भी दीख पड़ीं जो बर्फमें गलकर मर गये थे । इनके छोपडी और पैरोंकी हड्डी

तकका पता नहीं था। पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि तिव्यतके लोग इन हड्डियोंसे पूजाके पात्र तैयार करते हैं। जहा कही ये लोग मनुष्य कङ्काल पाते हैं इन भागोंको फाट लेते हैं। इससे मेरे हृदयको बड़ा सन्ताप हुआ। उनकी आत्माकी शान्तिके लिये मैंने मन ही मन ईश्वरसे प्रार्थना की।

धीरे २ हमलोग थारों पहुँचे, यह नगर धवलागिरिकी इसी ओर बसा है, इसका दूसरा नाम दुसाका है। वहाके निवासी तिव्यतके प्राचीन धर्मके अनुयायी हैं।

हमलोग पहली जुलाई तक बरसबर चलते रहे। इस तरह हम धवलागिरिके बाहरी भागमें पहुँच गये।

हमलोगोंका बोझ इतना हलका होगया कि मैं अकेला ही, उसे ले जा सकता था।

इसलिये मैंने अपने साथीसे कहा—“तुम लौट जाओ, मैं अकेला ही खाम्बुथाङ्गकी यात्रा करना चाहता हूँ।”

यह सुनकर वह बड़ा चकित हुआ।

वह समझता था कि मैं भी मालवाको लौटूंगा। उसने कहा कि “आप अकेले इस राहसे कभी न जा सकेंगे। बुद्धदेव अथवा बोधिसत्वके अतिरिक्त अन्य कोई भी वहा जानेका साहस नहीं कर सका। पुराने समयसे आजतक केवल दो आदमी उस राहसे जीवित लौट सके हैं। आपको मार्गमें जङ्गली जानवर मारकर खा लेंगे।”

मुझे दृढ़ देखकर वह अकेला लौटनेको विवश हुआ। उसकी

आखोंमें आंसू भर आए। अब मैं अकेला आगे बढ़ा, अज्ञात पहाड़ी मार्ग आगे था और ५५ पौंडका बोझ पीठपर। पग पगपर प्राण जानेका भय था। यहींसे मेरी अतिशय दुःखद यात्रा आरम्भ होती है।

यह जुलाई १६०० ई० की पहली तारीख थी। अपने साथीको विदा कर मैं अकेला आगे बढ़ा। भाग्यवश आगेका मार्ग इतना कठिन नहीं था, पर मैं विपदसे निवृत्त भी नहीं हो गया था, मुझे बर्फके चट्टानोंपरसे होकर चलना पड़ता था। रात कहीं बर्फपर कटती थी और कहीं गुफामें। इस तरह तीन दिन चलकर मैं धवलागिरिकी उत्तरी चोटीके उस पार पहुँचा। यहीं नैपाल राज्य समाप्त और

तिब्बतकी सीमा

आरम्भ होती है।

इस समय मैं ऐसे स्थानपर खड़ा था जहासे चारों ओरका दृश्य मेरे दृष्टि-गोचर होता था। दक्षिणकी ओर धवलागिरिकी शुभ्र पर्वतमाला थी, उत्तरकी ओर तिब्बतका सीमा प्रान्त। मुझे प्रतीत होता था कि धवलागिरिके सुदूर दक्षिण बुद्ध गयाका पवित्र तीर्थक्षेत्र उद्गत शिखर किये खड़ा है। मुझे त्रिदार्द्रका दिन स्मरण हो आया। मैंने अपने मित्रोंसे कहा था—तीन वर्षमें मैं तिब्बतमें प्रवेश कर सकूँगा। आज तीन वर्ष सात दिनके बाद मैं तिब्बतकी सीमापर खड़ा था। हर्ष और आशाका एक साथ सञ्चार हुआ। मुझे सन्तोष हुआ। भूख लगी थी और थक भी

गया था। गट्टर उतार कर चट्टानपर रखा और बैठ गया। सामान निकाल भोजन बनाया और क्षुधा शान्त किया। भोजनमें ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला था।

भोजन कर सन्तुष्ट होकर बेठा। मेरे चारों ओर बर्फकी राशि थी। मैं आनन्दमें निमग्न था पर मुझे यह नहीं सूझता था कि किस मार्गसे आगे बढ़ूँ।

वारहवां परिच्छेद



वर्फिस्तान

मानसरोवर तक मुझे सीधा उत्तरकी ओर जाना था। अब यह निर्णय करना था कि किस तरहसे वहाँ पहुँच सकता है। मुझे केवल कम्पासका सहारा था। मुझे अटकलसे ही आगे बढ़ना था। उत्तर पश्चिम चलना स्थिरकर मैंने गट्टर पीठपर लादा और उतरना प्रारम्भ किया। अभीतक मैं पहाडकी जिस ओर चल रहा था, उस ओर सूर्यका ताप अधिक था, बर्फ भी ५-६ इञ्चसे अधिक नहीं थी पर अब दूसरी ओरसे चलना पडा। उधर सूर्यका ताप बहुत कम पहुँचता था। अतएव कहीं कहींपर मेरा पैर १४-१५ इञ्चतक बरफमें धँस जाता था। कहीं कहींपर बरफ ७ ८ इञ्चही थी इससे मुझे थकावट अधिक आने लगी। लाठीका मुझे बहुत सहारा था। स्थान स्थानपर मेरा पैर बरफके

चट्टानोंमें फस जाता था और निकालना कठिन हो जाता था। मेरा तिब्बती जूता बिलकुल फट गया। चोट लगनेसे पैरोंसे रक्त बहने लगा। मेरा बोझ भारी न था, पर अब उतना भी कष्टकर प्रतीत होने लगा। इस तरह तीन मील सीधा पथरीला रास्ता मिला। पाँच मील और आगे बढ़नेपर मुझे दो तालाब मिले। ये वर्षके गलनेसे बने थे। एककी परिधि प्रायः पाँच मील और दूसरेकी २॥ मील थी। इनमें रग विरगे बतक तैर रहे थे। बतकोंकी सख्या इतनी अधिक थी कि तालाबका पानी भी नहीं दिखलाई देता था। वहाँका दृश्य देखकर मैं ऐसा मोहित हुआ कि शरीरकी पीडा एकदम भूल गया। मैंने बड़े तालाबका नाम इकाई और छोटेका जिन्को रक्खा।

यह दोनों मेरे ही नाम थे। आगे बढ़नेपर एक तालाब और मिला उसका नाम मैंने हिसागोइके रखा। वहाँसे आगे बढ़ा तो सामने पहाडपर मुझे दो तीन खेमे दिखलाई दिये। इन्हें देखकर मुझे विस्मय और भय दोनों हुआ। यदि मैं एकाएक वहाँ पहुँच जाऊँ तो वे लोग क्या कहेंगे? यदि मेरी ओरसे कुछ भी सन्देह हुआ तो मैं क्या करूँगा? मेरे सामनेके उतारका कहीं अन्त न था। मेरे लिए केवल दोही मार्ग थे या तो मैं इस अनिर्दिष्ट मार्गपर चलूँ या उस खीमेकी ओर जाऊँ या यहीं अपनी यात्रा समाप्त कर दूँ। मैं कुछ निश्चय न कर सका। अन्तमें जापानी प्रथाके अनुसार मैं किसी निर्णयपर पहुँचनेके लिए ध्यानमग्न होकर बैठा।

अन्तमें खीमेकी ओर चलना ही स्थिर हुआ । रात होते होते मैं उन खीमोंके पास पहुँच गया । कुत्तोंकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी । वे भूकने लगे । मुझे मालूम था कि इन कुत्तोंको केवल डरा देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए । मैंने भी ऐसाही किया । इस प्रकार मैं खीमेके पास पहुँच गया और मालिकको पुरारा ।

तेरहवां परिच्छेद ।

दयालु बुढ़िया

मेरा शब्द सुनकर एक बुढ़िया खेमेसे बाहर निकल आई और मेरी दीन दशा देखकर आपहो आप बोल उठी—‘बेचारा कोई यात्री है ।’

मैंने देखा कि बुढ़ियाको किसी तरहका सन्देह नहीं हुआ । मैंने उससे कहा—‘मैं लासासे आ रहा हूँ और कैलाश जाऊँगा । रातभर तुम्हारे खेमेमें विश्राम करना चाहता हू । बाहर बहुत ठण्डक है । बुढ़िया मुझे भीतर ले गई और विस्मित हो पूछा,—‘यहा आप कैसे आ गये ? यहाँतक आना बहुत कठिन है ।’ मैंने उत्तर दिया—‘मैं राह भूल गया हूँ । मैं लागरिंग पोंचेके पास जा रहा था ।’ उसको मेरी बातका विश्वास हो गया । उसने एक प्याला चाय और थोड़ी रोटी दी पर मैंने भोजन करना स्वीकार न किया । मैंने उससे कहा—‘मैं बौद्ध मतावलम्बी हूँ और दितभरने

एक ही बार भोजन करता हूँ।” इससे मेरे उपर और भी अधिक श्रद्धालु हो गई। यहाँ चाय उस रीतिसे नहीं बनाई जाती जैसी जापानमें। यहाँ चायके पत्ते मक्खन और नमक मिलाकर उबाल दिये जाते हैं। पहले पहल पीनेवालेको इसमें बू आती है। बातें करते करते बुढ़ियाने कहा कि लाग रिग पोंचे बड़ा अच्छा साधु है। उसका मकान यहाँसे एक दिनकी राहपर है। इस साधुसे मिलना बड़े पुण्यका काम है। राहमें एक नदी है। उसका पानी बहुत ठण्डा है। उसको तैरकर पार करना असम्भव है। मैं तुम्हें अपना भैंसा दे दूंगी और उसकी सहायतासे तुम पार हो जाओगे। मेरा लड्डका बाहर गया है। वह संध्यातक आ जावेगा। वह भी उनका दर्शन करना चाहता है।” बुढ़ियाकी सब बातें मेरे अनुकूल थीं। पर मुझे जूतोंकी बड़ी चिन्ता थी। मैंने बुढ़ियासे पूछा—“न्ना मेरे जूतोंकी मरम्मत हो सकती है?” उसने कहा—हमलोग केवल एक दिन यहाँ ठहरेंगे। और भैंसेका चमड़ा जतनक दो दिनतक पानीमें न भीगता रहे सीया नहीं जा सकता। यदि साधुके यहाँ दो तीन दिन ठहर जाओ तो वहाँ मरम्मत कर सकते हो। मेरे लड्डकेके पास एक जोडा फालतू जूता है उसको तुम पहन लो और साधुके यहाँ जाकर लौटा देना। मैं सोने जा रहा था कि बुढ़ियाका लड्डका आ गया। उससे बहुतसी बातें हुईं। विशेषकर उस साधुके विषयमें।

प्रातः काल बुढ़ियाने अपने पुत्रको भैंसा तैयार करनेकी आज्ञा दी। भैंसा बिलसे कुछ छोटा होता है। - पर उसका शरीर मोटा

होता है और उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। उसकी पूँछ रोंचदार होती है। मादाको तिब्बतकी भाषामें 'ब्री' कहते हैं। इसका मुह साधारण बैलका सा होता है पर उसकी आँखें बड़ी सूखार होती हैं। उसकी साँग बहुत नोकदार और भयानक होती है पर वह अपने यहाँके बैलोंसे भी सीधा जीव है। तिब्बतमें यह बड़े कामका है। बुढियाका पुत्र तीन भैंस तय्यार करके लाया— एक मेरे लिए, दूसरा अपने लिए, तीसरा साधुकी भेंट ले चलनेके लिए। चलते समय मुझं बहुतसा चूर्ण, मधुखन, और सूना दूध बुढियाने दिया और थोड़ीसी चाय पिलाई।

इस प्रकार सुसज्जित होकर हमलोग उत्तर पश्चिमकी ओर चले। उतरते चढते प्राय २॥ मील गए होंगे कि पत्थर पडने लगा। इतनी देरमें मैंने बुढियाके पुत्रसे वहाके मार्गके विषयमें सब हाल मालूम कर लिया। थोड़ी दूर आगे बढनेपर वह नदी मिली जो प्राय ६० गज चौडी थी। भैंसेपर चढकर पार करना आसान था। उसी तरहको दो नदी और पारकर और ६ मील ऊपर चढकर हमको एक सफेद चोटी दिखलाई पडी। मेरे साथीने बत लाया कि साधुजी यही रहते हैं। पास पहुचनेपर मुझे ज्ञात हुआ कि जिसे मैं सफेद चोटी समझ रहा था, वह साधु महाशयकी गुफा थी। उसके आगे एक गुफा और थी जिसमें साधु महाशयके शिष्य रहा करते थे। साधु महाशयकी गुफापर पहुँचकर मेरे साथीने साधुजीके दर्शनोंकी इच्छा प्रगट की और कहा कि ओलोंके गिरनेके कारण हमको देर हो गई है। नकारात्मक उत्तर

मिलनेपर मेरे साथीने भेंटकी सामग्री चेलेके हवाले कर कहा यह भेंट पसाग (उसकी भाता) ने भेजा है । मैं यहाँ कलतक नहीं ठहर सकता । इसी समय कूँच करना है ।

शिष्यके मकानमें नित्य प्रतिका उपयोगी सब सामान रक्खा था । उसकी आज्ञा पाकर मैं दो तीन दिनके लिये वहाँ ठहर गया और दयालु बुढियाने जो भैंसका चमड़ा जूतेकी मरम्मत के लिये दिया था उसे पानीमें भिगो दिया । कैलाशकी राहके विषयमें पूछने पर जो हाल ज्ञात हुआ वह कुछ उत्साहवर्धक नहीं था । मुझे ज्ञात हुआ कि गुफासे चलकर दो तीन दिनमें मैं एक जगली जातिके लोगोंमें पहुँचूँगा । वहासे आगे १५—१६ दिन तक मुझे निर्जन राहसे जाना होगा । मेरे मित्रने मुझसे कहा कि भाग्यसे इस बुढियाके दर्शन हो गए । यह बडी ही दयालु है । यदि यह तुमको न मिल जाती तो तुम यहा तक कदापि न पहुँच सकते । इस यात्रामें तुमको सहायक मिलना असम्भव है । सम्भव है कि बस्तीमें पहुँचनेपर लूट लिए जावें । मैंने उत्तर दिया कि इसका मुझे भय नहीं है । मैं खुशीसे सब सामान लुटेरोंके हवाले कर दूँगा । मेरे मित्रने कहा मैं दो तीन चार कैलाश पर्वत गया हूँ । उसने राहकी सब बातें मुझे समझा दी । रातकी समाधि समाप्त कर हमलोग सोनेको गये । सवेरे आखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा मित्र गुफाके बाहर आग जला रहा है । मैं लासाका यात्री बनकर आया था । अतएव लासा वालों हीकी भाँति सब काम कराना

पडता था। इसलिये हाथ मुह धोये विनाही धर्मपुस्तक पढना आरम्भ कर दिया। इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ पर कर ही क्या सकता था। मैं तो लासावासी बना हुआ था। चाय तैयार हुई। मेरे लिये भी चाय मक्खन और नमक आया। विना मुह धोये ही मुझे जलपान करना पडा। ११ वजेतक धर्म विषयक बातचीत होती ही रही। इसके बाद साधु महाशयसे मिलनेका समय उपस्थित हुआ।

चौदहवाँ परिच्छेद

गुफावासी साधु

गेलग रिग पाच साधारण साधु नहीं थे। सौ मीलके आसपासके लोग इनके भक्त थे और इष्टदेवकी भाति मानते थे। सोनेके पहले वे लोग नीचे लिये मन्त्रका तीन बार जप करते थे और तीन बार उनकी गुफाको नमस्कार करते थे।

“ मैं गेलग महाशय अपने त्राणकर्ताकी शरण हूँ ।”

साधु महाशयके दर्शन करनेके लिये धीस मनुष्य पढे थे। प्राय इतने लोग प्रतिदिन उनके दर्शनके लिए आया करते थे। रातको इस गुफावाले पहाडके नीचे छेमेमें ठहरते थे और सघेरे दर्शन करने आते थे। साधु महाशय सिवाय इस समयके और किसी समय दर्शन न देते थे।

बाहर बजनेसे कुछ पहले मैं अन्य लोगोंके साथ गुफाके द्वार-पर पहुँचा। गुफाका द्वार बन्द था। मेरे पहुँचनेके थोड़ी देर बाद द्वार खुला और एक सत्तर वर्षके वृद्ध हमलोगोंके पास आए। सब लोगोंने अपनी २ गारीसे जिसको जो कुछ भेंट करनी थी उनके सामने रख दी। वृद्ध महाशयने भेंट स्वीकार कर सबको 'ओ३म् मणि पद्मेहु' मन्त्र सुनाया! थोड़ी दूर आगे साधु-महाशय एक मेजके पास बैठे थे। सब लोग हाथ जोड़कर जिह्वा निकाले सिर झुकाये हुए आगे बढ़े। लामा महाशयने प्रत्येकके सिरपर अपना हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। जो लोग पदवी-धारी थे उनके सिरपर साधुजी दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। उन्होंने मेरे सिरपर दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनका मुख देखनेसे प्रतीत होता था वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। उनमें कोई देवी शक्ति अवश्य थी। उनके हृदयमें मनुष्य मात्रके लिए दया थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा—तुम ऐसे जगलोंमें फिरने योग्य मनुष्य नहीं हो। यहाँ क्यों आये हो?" मैंने उत्तर दिया, 'मैं बौद्ध पुरोहित हूँ' तोर्थ यात्राको निकला हूँ। आपका नाम सुनकर आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ।'

‘भुक्तसे क्या चाहते हो?’

‘आप सैकड़ों जीवोंकी भुक्ति देते हैं इसी गूढ तत्त्वको मैं जानना चाहता हूँ।’

‘यह तो पहले हीसे तुममें वर्तमान है। बौद्ध धर्मके तुम पूरे परिणत हो। भुक्तसे कोई बात सीखनेकी नहीं है।’

आपका कहना ठीक है 'आत्मा' सर्वतो पूर्ण है। पर प्राचीन युगमें जोजाई दोजी तिरपने पडितोंकी तलाशमें इधर उधर मारा मारा फिर कर कितना कष्ट उठाया था। बौद्धोंको उन्हीका अनुसरण करना चाहिए। मेरी उनसे कोई तुलना नहीं। पर मैं उनका अनुकरण कर सकता हूँ। और यही कारण है कि मैं यहातक आया हू।

“आपका साहस सराहनीय है। मेरे पास युक्ति ग्रन्थ है और उसीसे मैं सहायता किया करता हू।”

“क्या मैं वह पुस्तक देल सकता हूँ?”

‘अवश्य’ यह कहकर साधु महाशय गुफाके भीतर गए और एक पुस्तक लाकर मेरे सामने रख दिये। इस पुस्तकको मैंने पढा तो ज्ञात हुआ कि सूत्र सद्धर्म पुडरीकसे यह पुस्तक निकाली गई है।

दूसरे दिन वह पुस्तक मैंने साधु महाशयको लौटा दी। उस समय उनसे बहुत देर तक धर्मकी चर्चा होती रही। उनका विषय बौद्ध धर्म था और मेरा चीनी तथा जापानी।

७ जुलाईको मैंने साधु महाशयसे विदा माँगी।

उन्होंने रोटी मक्खन इत्यादि प्राय चीस पी ड मुझको दिया और कहा कि यदि तुम्हारे पास खाद्य सामग्री यथेष्ट न होगी तो तुम अवश्य ही राहमें मर जाओगे। मैं आठ तारीखको सय मिला कर ८५ पी ड बोझ अपनी पीठपर लाद कर यहासे विदा हुआ।

पन्द्रहवां परिच्छेद

असहाय अवस्था

साधु महाशयसे विदा होकर प्राय ग्यारह बजे एक नदीके किनारे पहुँचा जो प्राय १८० गज चौड़ी थी। उतरनेसे पहले मैंने भोजन कर लिया। मैंने अपना जूता और पैजामा उतार डाला और नदीमें उतर पड़ा। पर पानीमें घुसते ही मालूम पड़ा कि मेरा आधा धड कट कर गिर पड़ा है। मैं तुरन्त ही नदीसे बाहर निकल आया, इतनी ही देरमें मैं ठढकके मारे कापने लगा। मैंने बटुयेसे लौंगका तेल निकाल कर पूव मालिश किया। तेल मलनेसे तथा धूप लगनेसे थोडा आराम मिला। इस बार सुमज्जित होकर नदीमें उतरा। आधी दूर जाते जाते मेरे पैर विलकुल बेजान हो गये। शेष भाग मैंने अपनी लकड़ियोंकी सहायतासे पार किया। पानी कमरतरु पर बहाव बडे जोरोंका था। दूसरी पार पहुँचते पहुँचते मैं काठ हो गया था। अब मुझे अपने हाथ पैरको ठीक करनेकी चिन्ता हुई। प्राय दो घंटेके बाद काम लायक हुए। दो बजेके समय मैं चलने लगा तो मुझको मालूम हुआ कि मेरे पैर शरीरसे छूटे पडते हैं। घोडा इतना भारी मालूम होने लगा कि उसे उतारना पड़ा। अब उसके ले चलनेकी दूसरी युक्ति सोची। मैंने गधरकी दो

चराचर भागोंमें घाटा और प्रत्येक भागको अपनी दोनों लाठियोंके दोनों कोनोंमें बाधकर ले चला। पर मैंने इस तरह कभी बोझ नहीं ढोया था इसलिए रगडसे कन्धेके चमड़ेमें दर्द होने लगा।

मुझे प्रत्येक २०० गजपर कन्धा बदलना पडता था। दो घंटेमें मैं प्राय एक मीलकी चढाईपर पहुँच सका। वहापर एक नदी थी। वहा पहुँचते २ इतना थक गया कि आगे न बढ सका।

अब मुझे चाय तैयार करनेकी चिन्ता हुई। वृक्षोंके सूखे पत्ते, भैंसका कण्डा, जङ्गली घोड़ोंकी लीद ही ईंधन था। मैंने इसे इकट्ठा किया। पर अग्नि किस प्रकार उत्पन्न की जाय। दियासलाईका यहा दर्शन नहीं था, मैं पत्थरसे लोहा मारकर अग्नि निकालनेकी चेष्टा करने लगा। बहुत देरके बाद अग्नि तैयार हुई। यहा पानी बहुत शीघ्र खौलने लगता है पर चाय डालनेपर प्राय दो घंटेमें रंग आता है। अतएव चाय तैयार करनेमें २—२॥ घंटे लगे। चाय पीकर मैं उठा और जितना गोबर और लीद मिली बटोर लिया। क्योंकि पहाडी चीतोंसे बचनेके लिये आग जला रखना आवश्यक था।

पर आगके जलते रहनेसे दूसरा भय भी था। हत्यारे डाकू दूरसे आग जलती देख आकर लूट सकते हैं। इन दोनोंमें डाकूओंका भय भीषण था। क्योंकि चीता तो सोते मनुष्यको छोड भी सकता है। पर डाकू तो छोड ही नहीं सकते हैं। ऐसा विचारकर मैंने अग्नि को चारों ओरसे रेहसे ढक दिया जिससे उसकी गर्मी ही बनी रहे पर दिखलाई न पडे।

रातको प्रचण्ड सर्दों थी। मुझे नींद नहीं आई। मैं उठ बैठा और ध्यानस्थ हो गया। इतनेमें सवेरा हो गया। नदीके किनारे जाकर देखा तो पानी जम गया था। अग्नि ठीककर मैंने भोजन तैयार किया। भोजनोपरान्त चलनेकी ठहराई पर यह भूल गया कि किस मार्गसे जाना चाहिये। इतना याद रह गया था कि एक चट्टानपर बुद्धदेवकी मूर्ति खुदी हुई मिलेगी। पर जिस मार्गसे मैं गया उसमें वह नहीं मिली तो मुझे बड़ी चिन्ता हुई। वास्तवमें मैं राह भूल गया था। ५ मील चलकर मैं लम्बे चोटे मैदानमें पहुँचा। उसमेंसे होकर एक नदी भी बहती थी।

कम्पास देखनेपर ज्ञात हुआ कि उत्तर पश्चिम जानेके लिये मुझे नदी पार करना पड़ेगा पर यह सुखकर न था, क्योंकि पहला अनुभव अभी ताजा था। जिस समय मैं यह विचार कर रहा था उसी समय मैंने एक मनुष्यको नदी पार करते देखा। पूछनेपर मालूम हुआ कि वह खामसे गिलाग रिगपोंचके दर्शनके लिये जा रहा है। मैंने उसको समझा दिया कि मैं बहुत निर्बल हो रहा हूँ। मुझे नदी पार करनेमें सहायता दो। यह कहकर मैंने उसे बहुत सी खाद्य सामग्री दी। वह इस उदारतासे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मेरा सामान अपनी पीठपर उठा लिया, और मेरा हाथ पकड़कर आगे चला। नदी पार करा कर आगेकी राह उसने मुझे बतलाई और फिर नदी पारकर चला गया। मैंने भी अपना रास्ता पकड़ा।

सोलहवां परिच्छेद

— ० —

दुःखका पूर्वाभास

मैं थोड़ा ही दूर आगे बढ़ा था कि श्वास लेनेमें तकलीफ होने लगी और थोड़ा मितलो आने लगा। मैं अपनी गठरी उतारकर बैठ गया। औषध खाया जिसका फल यह हुआ कि मुझसे बहुत सा लहू निकल पड़ा। हृदय रोगका भय न होनेके कारण मैंने समझा कि यह हवाकी कमिके कारण है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि हम लोगोंके फेफड़े तिव्यत चालोंसे कहीं निर्मल होते हैं। इस कण्टसे मैं यहा तक चलहीन हो गया कि अग्निके लिए कण्डा बटोरनेकी भी शक्ति नहीं रही। मैं वही लेट गया और लेटते ही सो गया। न जाने मैं कब तक सोता रहा। किसी वस्तुके स्पर्शसे सहसा आँख खुली तो देखा कि बड़े-भोले गिर रहे हैं। मैं उठना चाहा पर उठ न सका। मेरा शरीर इस प्रकार जकड़ गया मानों गठिया हो गयी हो। बहुत चेष्टा करनेपर मैं उठकर बैठ सका। थोड़ी देर इसी भाँति बैठे रहने पर मेरी नाडी ठोक हुई और श्वास भी ठीक चलने लगी। पर शरीरकी पीडा कम न हुई। ऐसी दशामें आगे बढ़ना या कडे कट्टा करना कठिन था। मैंने भेडका चमडा बिछा लिया और उसके ऊपर बैठ गया। ऊपरसे 'टक टक' ओढ़ लिया

और ध्यानस्थ हो गया। इस तरह सवेरा हुआ। अब मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी। मैंने उठकर थोड़ेसे सूखे अगूर खाए और वहांसे चल दिया।

थोड़ी देर चलनेपर मुझे एक खच्छ जलकी नदी मिली वहां मैं ठहर गया और अग्नि प्रस्तुत करके चाय तैयार की और पेट-भर भोजन किया। नदी पारकर मैं एक पहाड़ीपर चढ़ा। वहीं-से सुदूरपर कई एक खेमे दिखाई दिये जिनमें एक सफेद था और बाकी सब काले थे। तिव्वतमें खेमे काले रंगके होते हैं। इसलिये इस सफेद खेमेको देखकर मुझे घबराहट हुई। पर वहां पहुंचनेकी शीघ्रता करने लगा। मैं पांच मील चला। मुझे पुनः सास लेनेकी तकलीफ और थकावट मालूम होने लगी। जिस समय मैं खेमेके पास पहुंचा ४—५—छूखार कुत्ते मेरे ऊपर दूट पड़े। मैं किसी तरह लाठी हिलाकर अपनी रक्षा की।

सत्रहवां परिच्छेद

— ० —

परित्रायिका युवती

कुत्तोंके भूकनेकी आवाज सेमे तक पहुंची और एक सुन्दरी स्त्रीने बाहर मुख निकालकर देखा। इस निर्जन स्थानमें ऐसा अनुपम सौन्दर्य देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर तक

वह चकित हो मुझे देखती रही। घाद बाहर आकर कुत्तोंको शान्त किया। उसके शब्द सुनते ही कुत्ते द्रुम दवाकर एक ओर हट गये। मैंने रात भर आश्रय पानेके लिये प्रार्थना की। उसने कहा कि "लामासे पूछकर कहूंगी।" इतना कह कर वह खेमेके भीतर चली गई और थोड़ी देर घाद लौटकर आई और मुझको लामाके पास ले गई। लामा और उसकी स्त्री बड़ी दयावती थी। तीन दिन तक उनके साथ बड़े आनन्दसे बीता। मार्गके विषयमें कई आवश्यक बातें मालूम हुईं। लामाने यह भी कहा कि आधा दिन घोड़ेपर चलनेपर चढ़ कर ब्यागचू नदी मिलेगी। यह ब्रह्मपुत्रकी सहायक है इसे केवल जानकार पार कर सकते हैं। लाचार होकर मुझे २३ जुलाई तक वहीं ठहरना पडा। बारहवींकी रातको मेरे मित्रने अन्य खेमेके लोगोंको मेरा उपदेश सुनानेके लिए बुलाया। मेरे उपदेशने मेरे लिए बहुत सी भेंट इकट्ठी कर दी। इन लोगोंमें एक युवती भी थी, उसने अपने गलेकी एक माला जिसमें सात मूंगे और एक रत्न जडा था मुझे भेंट दी। उसकी प्तातिरन मैंने उसे ले लिया पर एक क्षणके बाद ही उसे लौटा दिया क्योंकि वह मेरे किसी कामकी नहीं थी। पर जब उसने मुझे लेनेको विवश किया तो मैंने उसे ले लिया। वह आज भी उस युवतीके चिह्न स्वरूप मेरे पास है। दूसरे दिन सफेद खेमेका स्वामी मेरे मित्रके पास कुछ फल लाया और उनके बदलेमें मेडको ऊन, मषजन इत्यादि ले गया। यह लदाखका सौदागर था। तिब्बती भाषा

खूब जानता था। वह पक्का बौद्धमतावलम्बी था। मुझे से वार्ते करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे निमन्त्रण दे गया। दोपहरको मैंने उसीके साथ भोजन किया। इसीके साथ मुझे नदी पार करना था। मेरा मित्र लामा, नये सम्प्रदायका था। ऐसी दशामें उसे सपत्तीक देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। पर मैं इस भेदका पता लगाना उचित न समझा।

जिस समय मैं लदाखके सौदागरके खेमेसे लौटा तो मुझे अपने मित्रके खेमेमें शोरगुल सुनाई दिया। भीतर जाकर देखा कि सुन्दरीका मुख क्रोधसे लाल हो रहा है और वह अपने स्वामीको बुरा भला कह रही है।

यह कलह एक दूसरी स्त्री और लामाके अपने सम्बन्धीके साथ पक्षपात करनेके कारण था। लामाका स्वभाव शान्त था, वह चुपचाप सब वार्ते सुन रहा था। पर जब उसे वरदाशत न हों सका तो वह उठकर उसे दो चार थप्पड़ लगाया। इससे स्त्रीका क्रोध और भी बढ़ गया। वह जोरोंमें चिल्लाने लगी और जमीनपर अपना माथा पटक पटककर कहने लगी—‘मुझे मारकर खाजाओ।’ मैं इनदोनोंको शान्त करने लगा। किसी तरह दोनोंको अलग किया। सुन्दरीको विस्तरेपर भेजकर लामाको सफेद खेमेमें अपने साथ लेता गया। इस दृश्यसे मुझे आन्तरिक वेदना हुई कि मनुष्य केवल इन्द्रियोंका दास बनकर अपना कठिन व्रत तोड़ देता है और इस प्रकारकी यातना सहता है।

अठारहवां परिच्छेद ।

नए नए अनुभव ।

चौदहवाँ जुलाईको आलचू लामासे विदा होकर, उसके दिये हुए घोड़ेपर सवार होकर लद्दाखके सौदागरके साथ उत्तरकी ओर चला । मेरे सामानका भार मेरे साथी सौदागरपर था । उसके साथ दू नौकर और कई टट्टू थे ।

चौदह मील चलनेपर हमलोगोंको षयागचू नदी मिली । यहासे पचास मीलकी दूरीपर बरफसे ढका एक पहाड दिखाई पडता था । इसी पहाडसे यह नदी निकलती है । इसका पाट अधिकसे अधिक ४५० गज और कमसे कम ६० गज है । उतरनेके पूर्व हमलोगोंने भोजन कर लिया । उस समय मैं लद्दाखी सौदागरका मेहमान था । उसके नौकर कण्डा आदि इकट्ठा करते, खाना पकाते और मैं धर्मपुस्तक पढता । चलते समय आलचू लामाने मुझे थोडा चावल दिया था । मैंने उसे पकाया और सब साथियोंमें बाँटकर खाया । यहा चावल नेपालसे आता है और बहुत मंहगा मिलता है । मैंने बहुत दिन बाद चावल खाया था अतएव बडा स्वादिष्ट लगा ।

नदीकी जमीन चलुई थी, इसलिये सामान लदे रहने देकर टट्टुओंको तैराना खतरनाक था । अत एक घोड़ेका सामान उतार

उन्नीसवां परिच्छेद ।

तिव्वतकी सबसे बड़ी नदी ।

जिस दिन मैं कर्म महाशयके यहाँसे विदा हुआ उसी दिन तीसरे पहर मुझे राहमें कुछ आदमी मिले । उनका प्रधान उस प्रदेशका प्रधान था जिसमें मैं इस समय यात्रा कर रहा था । उसके मुखकी आकृति देखनेसे ज्ञात होता था कि वह मेरे ऊपर सन्देह कर रहा है । मैं अपनी सकटापन्न अवस्थाको समझ गया और तुरन्त ही गिलाग रिगपोंचेकी बातें आरम्भ कर दीं । सौभाग्यवश वह मनुष्य गिलाग रिगपोंचेका बड़ा भक्त था । उसने मुझसे पूछा,—“क्या आप उस पवित्रात्मासे मिले थे ?” मैंने कहा, “हाँ । उन्होंने मुझे बोधिसत्व और महासत्त्वका मर्म भी समझाया और बहुमूल्य उपहार भी दिया ।” इन बातोंसे उसका सारा सन्देह दूर हो गया । दूसरे दिन उसने उपदेश देने के लिये मुझे अपने घर निमन्त्रित किया । उसका नाम बागडक था । दूसरे दिन बागडकने मुझे एक घोड़ा दिया और मेरा सामान अपने नौकरोंके हवाले किया । प्रायः दस मील चलनेपर प्रधानका घर मिला । वह दिन मजेमें बीता । यहाँ वह बड़े ठाठसे रहता था । दूसरे दिन उसने मुझे घोड़ेपर सवार कराकर अपने नौकरके साथ विश्व किया । ६ मीलके बाद नौकर घोड़ा लेकर लौट गया । उसने मुझे दूसरे दिन

टिकनेका स्थान बतला दिया था। दूसरे दिन मैं बताये हुये स्थानपर पहुँचा। वहाँ चार खेमे मिले। यहाँ भी मुझे कुत्तोंने चपेटा। वहाँसे दिन भरकी राहपर ब्रह्मपुत्रके उत्तरी भागमें टेमचाक खान-वाल नदी थी। तिव्यतमें इससे बडी और कोई नदी नहीं है। बिना किसी सहायकके मैं इसे पार करनेका साहस नहीं कर सकता था। पर कोई भी मेरे साथ चलनेको राजी न हुआ। मैंने रुपयेका लोभ भी दिया पर सब निष्फल हुआ। मैं हताश होचुका था कि एक रोगी बुढिया मेरे पास आयी। उसने कहा— “मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे देख लीजिये और बनाविये कि मैं क्या करूँगी।” मुझे उसके ऊपर बडी दया आयी। उसे क्षयी रोग हो गया था। रोग बहुत उढ गया था। मैंने उसकी बात मान ली और उसे देखकर दवा भी दी। बुढिया कृतज्ञता भरी दृष्टिसे बोली— “मुझसे कोई सेवा लीजिये।” मैंने अपना क्लेश उसे कह सुनाया। बुढियाके लिये यह काम कठिन नहीं था। दूसरे दिन सपेरे सब बन्दोबस्त ठीक हो गया। यहाँके घोडे सवारके साथ ३० पौण्ड वीभ्र ले जा सकते हैं। पर मेरा सामान तीन घोडोंपर था। इससे औरभी आसानी थी। हमलोग पाँच बजे सवेरे रवाना हुये। ११ बजने बजते सत्रह मील चलकर हमलोग नदीके किनारे पहुँचे। नदी पार उतरनेके पहले भोजन बनाकर खा लिया।

इस नदीके दोनों किनारे दूरतरक रह है। नदीकी चौडाई कुछ अधिक थी। उतरनेसे पहले मैंने अपने साथियोंसे छिपाकर

अपने शरीरमें लौंगके तेलका लेपन किया। कहीं कहींपर पानी केवल ७ ८ इंच था पर इतना अधिक दलदल था कि हमलोग कमरतक धँस जाया करते थे। किसी तरह उस पार पहुँचे। मेरे साथियोंने मुझे बतलाया कि १५-१६ दिनतक निर्जन वनमें चलकर मानसरोवर पहुँचियेगा। विदा होते समय मैंने प्रत्येकको एक एक काटा भेंट दिया। काटा एक तरहकी सफेद रेशमी टुकड़ा होता है। यह भेंट देनेके ही काममें आता है। इस प्रकार मुझसे भेंट पाकर वे लोग अपने घर लौट गये।

बीसवां परिच्छेद ।



विपत्तियोंका आरम्भ

यहाँसे प्राय आधा मील चलकर मैंने बकरियोंको चरनेके लिये छोड़ दिया। हिमालयकी पर्वतमालाकी सुन्दरता सराहनीय थी। मैंने उन्हें आँख भर देखा और आँखोंको तृप्त किया। जब दोनों बकरिया चर चुकी तो मैंने सामानको तीन हिस्सोंमें बाँटा और लदलदा कर आगे बढ़ा। यह प्रदेश स्रोतों और झरनोंसे भरा हुआ था जिनका विस्तार सौ गजसे एक मीलतक था। चार घजते घजते मैं एक स्वच्छ तालाबके किनारे पहुँचा और वहीं ठहर गया। ईंधन खोजनेके लिये निकला तो केवल घोड़ों-

की सूखी लीढ़ मिली। रातको ठढक बहुत लगी जिससे नींद नहीं आयी।

दूसरे दिन दोपहरसे पहले मैं धारट मील निकल गया। दोपहरके बाद उत्तर पश्चिमकी ओर चला और वहाँपर एक बड़ा भारी धरफका पहाड मिला जिसका लाघना असम्भव था। थोडो देर सोचनेके बाद मैंने अपना रास्ता बदला और भाग्यवश वह ठीक निकला। मार्गकी अनुकूलताके अतिरिक्त और सब बातें मेरे प्रतिकूल थीं।

मैं आगे बढ़ा पर यह प्रदेश बिल्कुल विपरीत था। पानीका सर्वथा अभाव था। सात वज्रतक चलकर २७ मील राह पार की पर कहीं एक बूँद भी पानी न मिला। बकरियोंके लिये कुछ घास तो अवश्य मिल गयी पर मुझे चाय नसीब न हो सकी। मनुष्य भी कैसा सहनशील होना है। इतना कष्ट उठाने पर भी नींद आ गई।

चलनेसे पहले मैंने देखा कि प्रायः सात मीलकी दूरीपर एक स्रोत बह रहा है। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। अतएव मैं उधरको ही चल पडा। पर वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि नदी सूखी है। पानीका कही नाम नहीं है। उसके सफेद पत्थर की चमकने मुझे धोखा दिया। मैंने इधर उधर दृष्टि दीडार्ड पर पानीका कही भी पता न लगा। लाचार मैं आगे बढ़ा। एक ठौर और भी ऐसे ही धोखा खाया। मेरी प्यास बढ़ती गई।



इक्कीसवाँ परिच्छेद ।



आंधीकी चपेट ।

दूसरी बार हताश होकर लौटनेपर मुझे ऐसी प्यास लगी जिसका वर्णन नहीं हो सकता । मुझे ज्ञात होता था मानों शरीरका रक्त सूख गया है, पर सिवा आगे बढ़नेके और कोई चारा नहीं था । मुझे विश्वास होने लगा कि यदि आज पानी नहीं मिला तो कदापि न बचूंगा । ग्यारह बजेके समय मुझे एक छोटासा गड्ढा दिखलाई पडा । मुझे भरोसा हो गया कि इसमें पानी अवश्य मिलेगा । मेरा अनुमान ठीक निकला । पानी तो था पर हाय ! ऐसा पानी ! मैंने अपनी पीठपरसे बोझ उतारा और लकड़ीका एक पात्र लेकर क्षणभरमें उस गड्ढेमें पहुँच गया । जब उस पात्रको भरकर बाहर लाया तो देखा कि वह पानी गाढा और गुलाबी रंगका था । उसमें कीड़े भी असंख्य भरे पड़े थे । वह घन्द् पानीका गड्ढा था जो वर्षोंसे सड रहा था । मेरे उस समयके दुःखका पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं । प्यासके मारे प्राण निकल रहे थे पर ऐसा पानी कैसे पिया जाय । क्योंकि उस पानीको पीना धर्म विरुद्ध भी था । उसी समय मुझे बुद्धका एक उपदेश याद आया और इसके अनुसार एक कपडेसे छानकर कीड़े निकाल दिये । फिर भी पानीका रंग

दूर नहीं हुआ। पानीको मैंने भरपेट पी लिया उस सडे हुये पानीमें मुझे जैसा स्वाद मिला वह वर्णनातीत है। दूसरा पात्र में छानकर भर लाया और चाय तैयार करनेको रख दिया। पर पानी गरम करते करते धारह बजने लग गये। मेरा यह व्रत था कि दोपहरके बाद मैं कुछ नहीं खाता था अतएव शीघ्रतासे चाय तैयारकर मैंने धारह बजते बजते भोजन कर लिया। भोजनोपरान्त मैंने वहाँसे कुच किया और तीन बजते बजते ॥ मील निकल गया। इसी समय एक भयानक तूफान उठा। जापानमें ऐसी आधी कभी नहीं आती। रेतके झोंकेपर झोंके आने लगे और मेरे अस्वास्थ्य तथा समस्त शरीरमें भरने लगा। तूफानका वेग देखते ही देखते ऐसा बढ़ गया कि खड़ा रहना कठिन था। आगे बढ़ना तो असम्भव था। रेतसे बचनेके लिये मैं बराबर टहलता रहा और साथ ही धर्मपुस्तकका पाठ भी करता जाता था।

प्राय घंटे भर तूफान रहा और जिस वेगसे उठा था उसी तरह बन्द भी हो गया। अब मैंने यात्रा आरम्भ की और पाच बजते बजते एक हरे भरे मैदानमें जा पहुँचा। वहाँ रातको खूब सोया, क्योंकि कई दिनसे पर्याप्त सोनेकी नहीं मिला था। दूसरे दिन वहाँसे चलकर मैदानको पार करते हुए एक पहाडके नीचे पहुँचा जिसके ऊपर होकर मुझे गुजरना था। बीचोबीच रास्तेपर एक नदी बही थी। इसका घहाव एक नये ढगका था अर्थात् थोड़ी दूर बहकर वह एक झील बन गयी है और उससे आगे वह एकदमसे समकोण बनाकर बही थी। पीछेसे

मालूम हुआ कि यह ब्रह्मपुत्रकी सहायक नदी है। मुझे यह ध्यान आते ही कि, मुझे इस नदीको पार करना होगा, - दृश्य काप उठा। पर इलाज क्या था ?

मैं नदीके किनारे ६ वजते वजते पहुँच गया था। किनारे-परकी बरफ ज्योंकी त्यों जमा पडी थी। बरफके गलने तक ठहर गया और भोजनकी व्यवस्था करने लगा। लौंगके तेलका लेपन भी न भूला था। मैंने यह चाहा था कि बकरियोंका बोझ उनकी पीठपर ही लदा रहने दें और उनको नदीके पार उतार दें। पर यह न हो सका क्योंकि नदी गहरी थी। अन्तमें मैंने बोझ उतार लिया और रस्तीके संहारे उन्हें ले चला। पानीकी गहराई अधिक थी अतएव मेरे कपडे बहुत कुछ समेटनेपर भी भीग गये। बकरिया बडी तैरने वाली थीं पर रस्तीके बिना वह पानीके जोरसे बह अवश्य ही गयी होती। हमलोग आरामसे उतर गये। उस पार जाकर मैंने बकरियोंको पेडमें बाध दिया। अपने सब कपडे उतार डाले और उनको सूपनेके लिये डाल कर नंगा ही फिर असबाब लानेके लिये उस पार गया। वहा जाकर शरीरमें दूसरी बार फिर तेल लगाया और अपने सब सामानका एक पेसा बण्डल बनाया जिसे शिरपर उठा सकू। बण्डल सिरपर रत्न में तीसरी बार नदीमें प्रवेश किया। आधी दूरतक तो मैं मजेमें चला गया। एकाएक एक चट्टानपरसे मेरा पैर फिसल गया। कुछ थकनेके कारण और कुछ अधिक बोझ होनेके कारण मैं पानीमें

गिर पडा और बण्डल मेरे सिरसे दूर जा पडा। लाठीसे काम लेनेका समय न मिला। मैंने फुर्तोसे बण्डलको एक हाथ से पकड लिया और दूसरे हाथसे तैरने लगा। क्योंकि मैं गहरे पानीमें बहना चला जा रहा था। पहले तो मुझे यह खयाल आया कि यदि बण्डल बचानेका उद्योग करूंगा तो डूब जाऊंगा पर शीघ्र ही मैंने सोचा कि बण्डलके बिना भी मेरी मृत्यु हो जायगी क्योंकि मुझे अभी दस दिन और चलना था और उस राहमें मनुष्यके दर्शन दुर्लभ थे। मैं बण्डलको मरते समय तक न छोडना ही ठीक समझा। इसलिये बण्डलको पकडे रहा। मैं बहुत ही थक गया था और हाथ उठानेमें कठिनाई हो रही थी। वहासे प्राय १०० गजकी दूरीपर एक भारी झील थी जिसके गहरे पानीमें पहुचकर मेरा निकलना असम्भव ही था। जहा मैं तैर रहा था नदी १८० गज चौडी थी और बीच बीचमें बरफके चट्टान पडे थे। मैं सुस्त पडता जा रहा था। दोनों ही दशामें मृत्यु अनिवार्य थी इससे ट्यकर मरना ही मैंने श्रेयस्कर समझा। मैं ईश्वर तथा बुद्ध भगवानका ध्यान करने लगा क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और क्या चल था। इसी समय मेरी लाठी पानीके नीचे किसी कठोर वस्तुसे टकरायी। लाठीके छूजाते ही मुझे साहस आ गया। मैं षडा हुआ तो मालूम हुआ कि पानी छाती तक है। मैंने देखा कि जिस किनारेकी ओर मैं जा रहा था वह वहाँसे केवल वालीस गज था। मैं बहुत थक गया था। फिर भी नये

उत्साहके साथ आगे बढ़ा। मेरा बण्डल पानीमें भीगकर बहुत भारी हो गया था। उसको सिरपर उठाकर नहीं ले जा सकता था। अतएव मैं उसे घसीटकर ले चला। उसे पानीसे बाहर करनेमें मुझे असीम शक्ति लगानी पड़ी। कितारेपर पहुँचकर मैंने देखा कि मेरी बकरिया निश्चिन्त हो कर चर रही हैं। उन्हें अपने स्वामीकी दैन्यावस्थाका कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं निश्चिन्त हो गया था। अपनी बकरियोंतक पहुँचना भी मेरे लिये असम्भव था। मेरे हाथ पाव जकड़ गये थे। धीरे-धीरे चलकर अग अगमें गरमी पहुँचाने लगा। इस तरह शाम हो गयी। अब मैंने गठरीके दो भाग बनाये और वह गीकी भाँति लटकाकर बकरियोंके पास पहुँचा। उस रात मैं और कुछ न कर सका। चमड़ेके ढक्कनके कारण कपड़े भीग न सके थे इससे उन्हें पहनकर सो रहा।

बाईसवां परिच्छेद



समुद्रकी तहसे २२६५० फीटकी ऊँचाईपर

दूसरे दिन कड़ी धूप हुई। मैंने अपने कपड़े और पुस्तकें सूखनेको ढाल दीं। यह पुस्तकें अभी तक मेरे पास हैं, जब कभी मैं इन्हें देखता हू तो मुझे उपरोक्त घटना स्मरण हो आती है और मैं आश्चर्य करने लगता हू कि कैसे बच गया। प्रायः

एक बजे दिनतक मैं आगे बढ़नेके लिये तैयार हो गया यद्यपि अभी तक मेरो घकाघट नहीं गई थी। मेरे कपडे इत्यादि भी पूरी तरहसे सूख नहीं गये थे। इससे मेरे हिस्सेका बोझ भी भारी हो रहा था और घटनाप्रश वरुणियोंका बोझ भी कुछ कम करना पडा था। इसके अतिरिक्त जिस समय मैं दूसरी बार दरिया पार कर रहा था मेरे पैरमें चोट आगई थी। हर तरहसे उस दिनकी यात्रा अशुभकर थी। पर यह सोचकर कि जिनना आगे बढ़ता जाऊगा उतनाही निर्दिष्ट स्थान सन्निकट होता जायगा मैंने चल दिया। पाच हो मील गया था कि, जोरसे बरफ गिरने लगी। लावार मैं एक तालाबके पास पहुँचकर ठहर गया। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और ठण्ढी हवा चल रही थी। खाने पीनेका कोई ठिकाना न लगा। मेरे सब कपडे फिर भीग गये। दूसरे दिन सवेरे सबको सुखाना पडा। आगका, कोई बन्दोबस्त न हो सका अतएव चाय भी न तैयार हो सकी। थोडेसे अगूर खाकर दोपहरके बाद आगे बढ़ा। जो आपत्ति मुझपर आने चाली थी, उसका मैं उस समय अनुमान भी नहीं कर सकता था। मैं उत्तर पश्चिमका ही जा रहा था। अब मुझे एक गगनस्पर्शी पहाडपर चढ़नेकी आवश्यकता पडी। इस पहाडकी ऊंचाई २२६०५० फीट थी। यद्यपि यह चढाई प्राय असम्भव थी पर मनुष्यके लिये आशा एक अपूर्व शक्ति है। यही आशा मनुष्यसे न जाने कितने असम्भव काम करा लेती है। उसी आशासे प्रेरित होकर मैं चढ़ने लगा।

पाच घंटे शाम तक प्राय दस मील चढ़ गया। वहा पहुँचते पहुँचते जोरोंसे बरफ गिरने लगी और भीषण हवा चलने लगी। ऐसी दशामें चढ़ना भयावह समझकर मैं उत्तर पूर्वकी ओरसे जल्दी २ नीचे उतरने लगा। सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हो गये थे, बरफ और भी गहरी पड रही थी, पर मुझे ठहरनेको कोई स्थान न मिला था, इसमें मैं नीचे ही उतरता गया। बरफका गिरना बढ़ता ही गया और देखते देखते जमीनपर १२ इंच बरफ जम गई। अब बकरियोंने भी आगे बढ़ना बन्द कर दिया। कुछ तो बरफके कारण और कुछ भूखी होनेके कारण। पर वहा ठहर जानेमें तो बरफमें जम कर मर जानेका भय था, इससे मैंने रस्सी पकडकर उन्हें खींचना आरम्भ किया। इस तरह प्राय सौ गज नीचेकी तरफ मैं उन्हें खींच ले गया पर वे हाफने लगीं। ऐसी दशामें वे आज रातको अपश्य मर जायँगी यह सोचकर मैं अधीर हो उठा। पर चारा ही क्या था। मुझे अभी तक मनुष्योंकी बस्ती तक पहुँचनेके लिये बहुत दिन शेष थे। दो चार मील आगे बढ़नेसे कोई लाभ न था। कोई चारा न देखकर मैं ओढ़ना ओढ़कर दोनों बकरियोंके बीचमें ध्यानस्थ हो बैठ गया।

मेरी बकरिया त्रिचारी मेरे शरीरसे बाकर चिमट गई। वे जाडेके मारे मर रही थी और समय समय बुरी तरहसे चिल्ला उठती थीं। आधी रातके बाद सर्दी तेजोसे बढ़ने लगी और मुझे ऐसा झट होने लगा मानों मैं अचेत हुआ जाता हूँ।

यह दुरवस्था देखकर मैंने लॉगका तेल निकाला और धीरे

धीरे समस्त शरीरमें मलने लगा । तेलके मलनेसे शरीरमें कुछ गरमी अवश्य आ गई परन्तु फिर भी शीत एक दम दूर न हुई । मुझे ऐसा ज्ञात होने लगा मानों शरीर ठण्डा हुआ जा रहा है । धीरे धीरे मैं अचेत हो गया ।

तेईसवां परिच्छेद

वरफके ऊपर ।

वरफके ऊपर मैं अधमरा पड़ा था । मैं होशमें नहीं था । मैं भाति २ के स्वप्न देख रहा था कि हठात् मेरी आँख खुल गई । मुझे पास ही मालूम हुआ मानों कोई वस्तु हिल रही है । मैंने देखा कि वकरिया अपने शरीरको हिला कर वरफ झाड रही हैं । मैंने भी अपने तनपरकी वरफ झाडनेकी चेष्टा की । पर मेरे हाथ पैर ही नहीं हिलते डोलते थे । धीरे धीरे मैंने हाथ पैर हिलाया । अर मैंने घड़ी निकालकर देखा तो दिनके १०॥ बजे थे । भूख जोरोंकी लग रही थी । थोड़ी सूजी रोटी निकालकर वकरियोंको भी दिया और थोड़ी वरफकी सहायता से अपने गलेके नीचे उतारा ।

अर मैंने देखा कि ऊपर चढनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । नीचे उतरा कि कुछ दिन पहाडके नीचे रहकर स्वल्प ही ऊपर चढूंगा । प्राय पांच मोल नीचे उतरने पर

नदी मिली। उसके नीचे फिर बरफका राज्य था। यह देख कर मुझे बड़ा भय हुआ कि अबकी बार यदि ऐसी बरफमें रात काटनी पड़ी तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इसी समय मुझे किसी पक्षीका स्वर सुनाई दिया। इधर उधर-देखनेपर मुझे मालूम हुआ कि ८ या १० बगुलोंकी श्रेणी नदीके छिछले पानीमें कल्लोल कर रही है। ऐसा मनोरम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था।

यह नदी प्रायः १२० गज चौड़ी थी। उसको पारकर मैं नीचे उतरकर एक घाटीमें आया। वहासे दूरपर मैंने पहाड़ी भैंसोंके सदृश कुछ जानवर देखे। मुझे कई बार धोखा हो चुका था। अबकी उनकी चालसे मुझे मालूम हुआ कि अवश्य ही ये पहाड़ी भैंसे हैं। इनको देखनेसे मालूम हुआ कि पास हीमें कहीं मनुष्योंकी भी वस्ती है। नजदीक आकर देखा कि ६० पहाड़ी भैंसोंको कई एक चरवाहे चरा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग कल सन्ध्याको यहा आये हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर आगे हमलोगोंके चार खेमे आपकी मिलेंगे। मैं उसी ओर चल पडा।

ज्योंही मैं उन खेमोंके पास पहुँचा कुत्ते मुझे देखकर भूँकने लगे। पहले खेमेके पास जाकर मैंने रात भर ठहरनेके लिये प्रार्थना की पर उसने साफ इन्कार कर दिया। सम्भव है कि मेरी सूरतने ही मेरे साथ यह व्यवहार कराया हो। दो महीने मैंने हजामत नहीं बनाई थी। दाढ़ी मूछ बतरह बढ़ गई थी

बरफके ऊपर

और मेरी सूरत बिगड़ गई थी। मैं लगातार विनय लगा। पर लाभ कुछ न हुआ। हताश होकर मैं दूसरे पास गया। वहां भी वही व्यवहार मिला। मेरी आंखोंमें आ गये पर उन लोगोंका हृदय तनिक भी नहीं पसीजा। बकरिया भी चिल्ला रही थीं मानों मेरा कष्ट वह भी न सकती थीं। खेमेके मालिकने मुझपर लुटेरा होनेका दोष किया तब मैं वहांसे हटा। अब मुझे तीसरे खेमेके पास जाने साहस नहीं होता था। अन्तमें मैंने चौथे खेमेके पास जा प्रार्थना की और सौभाग्यवश वह स्वीकार हो गई। मैं एक दम थक गया था। अश्रिके पास बैठते ही यह मालूम हुआ कि मानों सशरीर स्वर्गका सुख भोग रहा हू। रात भर और दूसरे दिन मैं वही सुख भोगता रहा।

दूसरे दिन प्रातःकाल पाव बजे अपने दयालु पिमेवालेके प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर मैं विदा हुआ। अब मैं उत्तरको चलने लगा और दस मील चलकर एक हरे भरे मैदानमें पहुंचा। दो पहर होते होते एक तालाबके किनारे पहुंचकर वहाँ भोजन किया। वहापर मुझे ज्ञात हुआ कि सामनेकी मुझे पार करनी होगी जो पहले वालोसे भी बड़ी की सम्भवतासे मैंने अपना हृदय और कडा कर तक उसको पार न कर लिया, धीचने तनिक भी

नदी मिली। उसके नीचे फिर बरफका राज्य था। यह देख कर मुझे बड़ा भय हुआ कि अरकी वार यदि ऐसी बरफमें रात काटनी पड़ी तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इसी समय मुझे किसी पक्षीका स्वर सुनाई दिया। इधर उधर देखनेपर मुझे मालूम हुआ कि ८ या १० बगुलोंकी श्रेणी नदीके छिछले पानीमें कल्लोल कर रही है। ऐसा मनोरम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था।

यह नदी प्राय १२० गज चौड़ी थी। उसको पारकर मैं नीचे उतरकर एक घाटीमें आया। वहांसे दूरपर मैंने पहाड़ी भैंसोंके सदृश कुछ जानवर देखे। मुझे कई बार धोखा हो चुका था। अरकी उनकी चालसे मुझे मालूम हुआ कि अवश्य ही ये पहाड़ी भैंसे हैं। इनको देखनेसे मालूम हुआ कि पास हीमें कहीं मनुष्योंकी भी उस्ती है। नजदीक आकर देखा कि ६० पहाड़ी भैंसोंको कई एक चरवाहे चरा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग कल सन्ध्याको यहा आये हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर आगे हमलोगोंके चार खेमे आपकी मिलेंगे। मैं उसी ओर चल पडा।

ज्योंही मैं उन खेमोंके पास पहुँचा कुत्ते मुझे देखकर भूँकने लगे। पहले खेमेके पास जाकर मैंने रात भर ठहरनेके लिये की पर उसने साफ इन्कार कर दिया। सम्भव है कि सूरतने ही मेरे साथ यह व्यवहार कराया हो। दो महीने हजामत नहीं बनाई थी। दाढ़ी मूछ बेतरह बढ़ गई थी

और मेरी सूरत बिगड़ गई थी। मैं लगातार विनय करने लगा। पर लाभ कुछ न हुआ। इतनाश होकर मैं दूसरे छेमेके पास गया। वहा भी वही व्यवहार मिला। मेरी आँखोंमें आसू आ गये पर उन लोगोंका हृदय तनिक भी नहीं पसीजा। मेरी चकरिया भी चित्ला रही थी मानों मेरा कष्ट वह भी न सह सकती थीं। छेमेके मालिकने मुझपर लुङ्गेरा होनेका दोषारोपण किया तब मैं बहासे हटा। अब मुझे तीसरे छेमेके पास जानेका साहस नहीं होता था। अन्तमें मैंने चौथे छेमेके पास जाकर प्रार्थना की और सीभाग्यवश वह स्वीकार हो गई। मैं एक दम थक गया था। अग्निके पास बैठते ही यह मालूम हुआ कि मानों सशरीर स्वर्गका सुख भोग रहा हूँ। रात भर और दूसरे दिन मैं वही सुख भागता रहा।

दूसरे दिन प्रातः काल पाच बजे अपने दयालु छेमेवालेके प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर मैं बिदा हुआ। अब मैं उत्तरको चलने लगा और दस मील चलकर एक हरे भरे मैदानमें पहुँचा। दो पहर होते होते एक तालाबके किनारे पहुँचकर वहीं भोजन किया। वहापर मुझे ज्ञात हुआ कि सामनेकी मटभूमि भी मुझे पार करनी होगी जो पहले वालीसे भी बड़ी थी। तूफानकी सम्भवतासे मैंने अपना हृदय और कडा कर लिया और जब तक उसको पार न कर लिया, बीवमें तनिक भी न उठरा।

नदी मिली। उसके नीचे फिर बरफका राज्य था। यह देख कर मुझे बड़ा भय हुआ कि अबकी बार यदि ऐसी बरफमें रात काटनी पड़ी तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इसी समय मुझे किसी पक्षीका स्वर सुनाई दिया। इधर उधर देखनेपर मुझे मालूम हुआ कि ८ या १० बगुलोंकी श्रेणी नदीके छिछले पानीमें कल्लोल कर रही है। ऐसा मनोरम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था।

यह नदी प्रायः १२० गज चौड़ी थी। उसको पारकर मैं नीचे उतरकर एक घाटीमें आया। वहासे दूरपर मैंने पहाड़ी मैसोंके सदृश कुछ जानवर देखे। मुझे कई बार धोखा हो चुका था। अबकी उनकी चालसे मुझे मालूम हुआ कि अवश्य ही ये पहाड़ी मैसे हैं। इनको देखनेसे मालूम हुआ कि पास हीमें कहीं मनुष्योंकी भी बस्ती है। नजदीक आकर देखा कि ६० पहाड़ी मैसोंको कई एक चरवाहे चरा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग कल सन्ध्याको यहा आये हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर आगे हमलोगोंके चार खेमे आपको मिलेंगे। मैं उसी ओर चल पडा।

ज्योंही मैं उन खेमोंके पास पहुँचा कुत्ते मुझे देखकर भूँकने लगे। पहले जेमेके पास जाकर मैंने रात भर ठहरनेके लिये प्रार्थना की पर उसने साफ इन्कार कर दिया। सम्भव है कि मेरी सूरतने ही मेरे साथ यह व्यवहार कराया हो। दो महीने से मैंने हजामत नहीं बनाई थी। दाढी मूळ बेतरह बढ़ गई थी

केवल घुम गुच्छेश्वर होती है। यह बड़ाही चलवान जानवर होता है, कमी अकेला नहीं रहता। कमसे कम दो अथवा तीन हमेशा साथ साथ रहते हैं। मनुष्यको देखकर मील डेढ मीलकी दूरीसे ही वह खड़ा होकर घूम घूमकर देखने लगता है। इस प्रकार चलकर वह पास आ जाता है। पास आते ही लातें मारकर भाग जाता है। बहूधा लोग धोखा खाते हैं कि वह दूर निकल गया है परन्तु चक्र फाटकर फिर पास आ जाता है। इस जन्तुकी आदतें अद्भुत हैं।

इन घोड़ोंको आते देखकर मेरी-दोनों बकरिया भयभीत होकर मेरे हाथसे रस्सी छुड़ाकर भागीं और मैं उनके पकडनेके लिये उनके पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं हाँपता हुआ गिर पड़ा। घोड़ोंको हमारा दौड़ना अच्छा मालूम हुआ। घोड़े भी हमारे साथ दौड़ने लगे जिससे मेरी बकरिया और भी तेजीसे भागने लगीं। जब मैं गिर पड़ा तो बकरिया भी खड़ी हो गई और चरने लगी। घोड़े भी खड़े हो गये और मुझे चकित होकर देखने लगे। मैं अपनी भूल समझ गया और उठकर चुपचाप बकरियोंके पास गया और रस्सिया पकड ली। वे कुछ न बोलीं।

जाच करनेपर मालूम हुआ कि एक बकरीके ऊपरसे एक छोटा बण्डल दौड़ते समय कहीं गिर गया। मैंने खोजनेका यत्न किया पर सब व्यर्थ था। बकरिया मनमाने मार्गसे भागी थीं। मैं गठरीको कहा खोजता। निदान अपने मनको इस समझाया—“इस बण्डलमें प्राय पचास रुपये थे, मेरे

चौबीसवां परिच्छेद



वान देवता और जङ्गली घोडा

पाच मीलकी मरुभूमि पार करनेपर हरा भरा मैदान मिला । इसके आगे पथरीला विचित्र मैदान था जिसमें एक पहाड था । लोग बतलाते थे कि उसमें वोन धर्मके देवता रहते हैं । उसके मतावलम्बी आज भी तिब्बतमें पाये जाते हैं । यह धर्म हिन्दू धर्मसे बहुत मिलता जुलता है पर अब बौद्धधर्मकी बहुतसी बातें इसमें समा गई हैं । तिब्बतमें बौद्ध धर्मका प्रचार होनेपर वोन धर्मके किसी अधिष्ठाताने इस मतसे अनेक वानें उस धर्ममें मिला कर उसका नाम नया वोन धर्म रखा । इनकी मूर्तिया नहीं होतीं न इनके मन्दिरही बनवाये जाते हैं । किसी पहाड, तालाब अथवा भीलमें ये रहते हैं । ऐसे ही एक पहाडपर मैं पहुँचा था । पर मुझे इसका ज्ञान न था । मेरा ध्यान जगली घोडोंके जोड़ने आकृष्ट किया ।

तिब्बतके लोग इस जगली घोडेको कयाग कहते हैं । वास्तवमें इसकी सूरत गधेकी भाँति होती है । ऊँचाईमें यह जापानी घोडेके धरावर होता है । यह वादामी और भूरे रंगका होता है । उसकी अयाल और पीठ परकी पगालीके बाल काले और पेटके सफेद होते हैं । यह घोडोंके बहुत कुछ मिलते जुलते हैं ।

मुझे अपनी भूल मालूम हुई क्योंकि यहाँके लोग भी खामवालोंकी भाँति चोर और लुटेरे होते हैं। मैंने सुना है कि उन लोगोंमें एक कहावत प्रचलित है "हत्या करे तो अन्न जुटे, तीर्थ करे तो पाप छुटे।" मुझे यहाँतक मालूम हुआ कि वहाँकी स्त्रियाँ तक मनुष्यको सहजमें मार डालती हैं। यह बात ध्यानमें आते ही मुझे घबराहट होने लगी, परन्तु करता क्या? अब तो मैं उन लोगोंके हाथमें था। सौभाग्यवश उस रातको उन्होंने मुझे नहीं मारा। दूसरे दिन हमलोग नदीके किनारे किनारे उत्तर पश्चिमकी ओर चले। ये लोग भी उसी ओर जा रहे थे। प्रायः साढ़ेतीन मील चलनेपर हमें गङ्गाका उद्गमस्थान मिला।

रात उसी नदीके किनारे बिताकर प्रातःकाल हमलोग आगे बढ़े। उस दिन केवल ६ मील चले। यहाँसे उत्तर पश्चिमकी ओर कैलाशपर्वतकी चोटी दिखाई पड़ी। मैंने हिमालयकी तुषारावृत बहुतसी चोटियाँ देखी थीं परन्तु कैलाशको देखकर भक्तिका स्रोत हृदयमें उमड़ पड़ा। उसे मैंने एक सौ धाठ बार प्रणाम किया।

मेरे इस कामको देखकर मेरे साथियोंने बड़ा आश्चर्य किया। वे लोग मुझे चीनी भाषामें मन्त्रोंको पढ़ते हुए देखकर यहाँकी भाँति अचम्भेमें आ गये। मैंने उनको मन्त्रोंका और प्रणाम इत्यादिका अर्थ बतलाया जिसका उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। उन्होंने कहा कि हमको यह बात नहीं मालूम थी कि भी बुद्धदेवके ऐसे भक्त होते हैं। इसका फल

और कम्पास था, और थोड़ा पाश्चात्य वस्तुओंका संग्रह था। रुपयोंके जानेसे अवश्य हानि हुई पर उनसे अधिक अभी मेरे पास हैं। घड़ी और कम्पास अवश्य ही कामकी वस्तुयें थीं। संग्रहीत वस्तुओंसे मैं तिब्बतके लोगोंको अपना मित्र बनाता पर साथ ही उनके रहनेसे तिब्बतके चतुर लोग मेरे विषयमें अनेक तरहकी आशङ्कयें करते। कदाचित बुद्धदेवको यही अभीष्ट था। ऐसा विचार कर मैंने अपने मनको सन्तोष दिया।

पच्चीसवां परिच्छेद ।

बौद्ध धर्मकी शक्ति

इस स्थानसे छ मील चलनेपर मुझे एक पगडण्डी मिली जो मान सरोवर भानेवाली सड़कसे मिली थी। इससे मुझे बड़ी पुरानी हुई। थोड़ी दूर और चलनेपर मुझे एक नदीके किनारेपर एक काला खेमा दिखलाई पडा। इस नदीको तिब्बतके लोग गंगा कहते हैं। यहा मुझे रातभर रहनेके लिये आश्रय मिल गई। इस खेमेमें तीन पुरुष और दो स्त्रिया थीं। ये लोग सगे भाई थे। एक स्त्री बड़े भाईकी पत्नी थी। दूसरी स्त्री एक दूसरे भाईकी लडकी थी। इनके डाकु होनेका सन्देह मेरे दिलमें न उठा क्योंकि डाकु लोग अपने साथ स्त्रियोंको नहीं रखते। पर जब मुझे श्रात हुआ कि ये लोग डेमग्याशोके रहनेवाले हैं तब

गिरने लगे । मानों समूचे पहाडको हिला देंगे । चारों ओर घोर अन्धकार फैल गया ।

प्राय घण्टे भर यह दशा रही । इसके पीछे एक दमसे आकाश निर्मल हो गया । सूर्य निकल आये, तूफानका कहीं चिह्न तक न रहा । इसके बाद हमलोग और आगे न बढ़े । नजदीक ही एक तालाबके पास ठहर गये । इस समय मैं इन लोगोंका मेहमान था । अब मुझे लकड़ी, कण्डा खोजने, पानी भरने और आग जलानेकी चिन्ता न रही । मैं केवल खेमेमें बैठा हुआ धर्म पुस्तक पढ़ता और सन्ध्याको अपने साथियोंको उपदेश देता था ।

दुःखगस्त्रको हमलोग एक बहुत ही ढालू पहाड पर चढ़ने लगे । मेरे साथियोंने सवारीके लिए मुझे एक याक दिया । मेरा घोडा भी मेरे साथियोंने अपने जिम्मे ले लिया । इस तरह हमलोग आगे बढ़े । तेरह मीलपर मानसरोवर भील दिखलाई पडी । यह भील अठपहलू है इसका पानी बहुतही स्वच्छ है । उसके उत्तर पश्चिममें कैलाश पर्वत मानों पहरा दे रहा है ।

मानसरोवर ससार भरमें मीठे पानीकी सत्रसे बडी भील समझी जाती है । यह भील समुद्रकी सतहसे १५, ५०० फुट ऊपर है । तिब्बतमें इसका नाम माप हाम यूमत्सी है । इसके विषयमें एक कथा है कि 'इस झीलके तीरमें एक वृक्ष है जिनके फलसे सत्र दुःख दूर हो जाते हैं और उस फलकी खोजमें देवता और मनुष्य दोनों ही रहते हैं ।' एक और भी कथा है कि 'इस भीलसे चार नदिया निकली हैं । एक मोरके मुपसे, एक

उन्होंने रातको मुझसे उपदेश देने की प्रार्थना की जिसको मैंने आनन्द पूर्वक स्वीकार कर लिया। मेरे उपदेशका उनपर ऐसा प्रभाव पडा कि विह्वल होकर रोने लगे। और ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमलोग दो महीनेतक तीर्थ पर्यटनमें रहेंगे, इतने दिनोंतक आप हमलोगोंके साथ रहिये। क्योंकि तीर्थ करते समय ऐसे पवित्र पुरुषकी सेवा करनेसे हमारे सब पाप छूट जा सकते हैं। पाठक! उस समयके मेरे हृदयके भावोंकी ओर ध्यान दीजिये। येही लोग मूलीकी भांति मनुष्यका गला काट डालते हैं, और इस समय बौद्ध धर्मकी दीक्षासे येही लोग आज इतने सरल हो रहे हैं। मैंने बुद्ध भगवान्की अपार शक्तिका स्मरण किया और मेरी आँखोंसे आसू आने लगे।

छब्बीसवां परिच्छेद ।



पुरायक्षेत्र मानमरोवर

चौथी अगस्तको दस मील चलकर हमलोगएसे स्थानपर पहुँचे जहाँसे मनरी शृंग दिखलाई देता था। यह सदा बरफसे ढका रहता है। इसकी ऊँचाई २५६०० फुट है। मनरीकी अपूर्व शोभा गाम्भीर्यको देखनेमें जिस समय मैं मुग्ध हो रहा था, उसी समय वहाके दृश्यमें एक जादूकासा परिवर्तन हो गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बड़े वेगसे ओले

उद्धारणके लिये, यहीं गाल्चू यूल्कू नामी एक लामा रहते हैं । वह बहुत बड़े लामा माने जाते थे और मानसरोवरके निकटस्थ बौद्ध मन्दिरके प्रधान पुरोहित थे । वह एक सुन्दर रमणी पर इस तरह आसक्त हुए कि उसे अपनी पत्नी बना लिये और मन्दिरकी बहुतसा सम्पत्ति उस खोके पिताको दे डाले । इस पापसे भी कलश पूर्ण न होते देख वह मन्दिरसे मालमता लेकर उस खोके साथ भाग गये । अब मैंने सुना है कि वह हाटोंशो-में रहते हैं । क्या आपसे राहमें भेंट नहीं हुई थी ?

पाठक मेरे आश्चर्यको समझ गये होंगे । यह वही लामा था जिसने मेरे ऊपर दया दिखलाई थी । वास्तवमें जैसा मनुष्य दिखलाई देता है वैसा नहीं होता है । मैं अपने आश्चर्यको न छिपा सका । मैंने सब हाल उसे सुना दिया जिससे सुनकर पुरोहित बहुत हसा ।

दूसरे दिन प्रातः काल मैं मानसरोवरकी सैर करने निकला । वहाकी एक २ वस्तु देखनेसे भक्ति उत्पन्न होती थी । मैंने देखा कि हिन्दू और नेपाली लोग सरोवरमें स्नान कर पूजा पाठ कर रहे थे । उन लोगोंने मुझे बौद्ध लामा समझकर आग्रहके साथ सूखे मेवे भेंट किये ।

रातको मैं फिर उसी मन्दिरमें ठहरा और सरेरे उस पर्वतके ऊपर चला जो दीवारकी भांति झोलके किनारे खड़ा था । चक्रदार राहसे १० मील चलकर मुझे रकास^१ मिला । यह ताल कुछ २ अण्डेकी सू

मुखसे, एक घोड़ेके मुखसे और एक सिंहके मुखसे । यह चारों नदिया भारतवर्षमें गई हैं । इन नदियोंमेंसे एककी चादीकी, दूसरीकी सोनेकी तीसरीकी हीरेकी और चौथाकी लालकी रेतें हैं ।' पर इस कथाका कोई आधार नहीं है । क्योंकि वास्तवमें एक भी नदी मानसरोवरसे नहीं निकली है बल्कि उनका उद्गम स्थान आस पासके पर्वत हैं ।

सत्ताईसवां परिच्छेद

तिब्बतमें लेनदेनकी व्यवस्था

रातको मैं भीलके किनारेके एक बुद्ध मन्दिरमें पहुँचा जिसका नाम तेसीकोलो था । मन्दिरके लामा पुरोहितके मुखसे मैंने एक ऐसी कथा सुनी कि मैं अचम्भेमें आ गया । इस लामा पुरोहितकी अवस्था प्राय ५५ वर्षकी थी । वह नितान्त मूर्ख था पर झूठ नहीं बोलता था । वह यह बात जाननेके लिये बड़ा उत्सुक था कि चीनमें बौद्धधर्मकी क्या दशा है । पाठकोंको स्मरण होगा कि मैंने अपना परिचय चीनी लामा करके दिया था । मैंने उसको ऐसी तत्परतासे उत्तर दिया कि उसे सुनकर उसने मुझसे निम्न लिखित कहानी कही । चीनी लामाओंके विषयमें तो कुछ नहीं कह सकता पर तिब्बतके लामाओंसे तो मैं बहुत ही असन्तुष्ट हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ही आचरण भ्रष्ट हैं ।

उद्धारणके लिये, यही आलच् वूल्कू नामी एक लामा रहते हैं। वह बहुत बड़े लामा माने जाते थे और मानसरोवरके निकटस्थ बौद्ध मन्दिरके प्रधान पुरोहित थे। वह एक सुन्दर रमणी पर इस तरह आसक्त हुए कि उसे अपनी पत्नी बना लिये और मन्दिरकी बहुतसी सम्पत्ति उस स्त्रीके पिताको दे डाले। इस पापसे भी कलश पूर्ण न होते देख वह मन्दिरसे मालमता लेकर उस स्त्रीके साथ भाग गये। अब मैंने सुना है कि वह हार्टोशो-में रहते हैं। क्या आपसे राहमें भेंट नहीं हुई थी ?

पाठक मेरे आश्चर्यको समझ गये होंगे। यह वही लामा था जिसने मेरे ऊपर दया दिखलाई थी। वास्तवमें जैसा मनुष्य दिखलाई देता है वैसा नहीं होता है। मैं अपने आश्चर्यको न छिपा सका। मैंने सब हाल उसे सुना दिया जिससे सुनकर पुरोहित बहुत हसा।

दूसरे दिन प्रातः काल मैं मानसरोवरकी सैर करने निकला। वहाकी एक २ वस्तु देखनेसे भक्ति उत्पन्न होती थी। मैंने देखा कि हिन्दू और नेपाली लोग सरोवरमें स्नान कर पूजा पाठ कर रहे थे। उन लोगोंने मुझे बौद्ध लामा समझकर आग्रहके साथ सूखे मेवे भेंट किये।

रातको मैं फिर उसी मन्दिरमें उठरा और सरेरे उस पर्वतके ऊपर चला जो दीवारकी भांति झीलके किनारे खड़ा था। चक्रदार राहसे १० मील चलकर मुझे रकास ताल मिला। यह ताल कुछ २ अण्डेकी सूरतका है। मानसरोवर

से छोटा भी है। प्राय ७॥ मील ऊपरसे यह ताल स्पष्ट दिखलाई देता था। उस स्थानपर पहुँचनेपर मुझे विदित हुआ कि दोनों तालके बीच एक पहाड है, और दोनोंको जोड़नेके लिये एक छिद्र सा है पर वास्तवमें कोई छिद्र नहीं है। असल बात यह है कि कभी कभी घनघोर मेघ बरसनेसे अथवा अन्य किसी कारणसे दोनों तालाबका पानी फूट निकलकर आपसमें मिल जाते हैं इसीको लेकर तिब्बतके लोग यह ऊथा कहते हैं, कि रकास ताल स्वामी है और मानसरोवर पत्नी है। प्रत्येक दस अथवा पन्द्रह वर्षमें स्वामी अपनी पत्नीसे मिलने जाता है।

रकास तालको देखता हुआ मैं १३ मील नीचे उतर आया। यहा पर मुझे एक नदी मिली जिसको चौड़ाई प्राय ६० फुट है। यह गंगाकी सहायक नदी है। रात हमने यहाँ बिताई। पास ही व्यापारियोंके चार पाच खेमे गडे थे जो पूरांगसे आये थे। जुलाई और अगस्तमें यहा बहुतसो जगली जातिया और तीर्थयात्री आकर व्यापार किया करते हैं।

तिब्बतमें रुपयेका चलन बहुत कम है। अब भी वहा वस्तु विनिमय ही होता है। तिब्बतमें लोग मखन, नमक, ऊन, भेड, चकरियां इत्यादि लाते हैं। जिनको वह अनाज, रुई, शकर और फण्डेसे बदलते हैं जो हिन्दुस्तानसे आता है। यह सब सामान भी तिब्बतके लोग अथवा नेपाली ही हिन्दुस्तानसे लाते हैं। ऊन और मखनके बदले बहुधा वे हिन्दुस्तानके सिकके लेते हैं। इस सिककेको वह गिन नहीं सकते क्योंकि हिसाब

इन लोगोंको बिलकुल नहीं मालूम है। अतएव मालाके दानोंसे गिनती मिलाते हैं। सात गिननेके लिये मालाके पाच दाने पहले गिनते हैं। फिर दो गिनकर उसमें मिला देते हैं। इसमें उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। पर उनके लिये दूसरा उपाय ही क्या है? अधिक लेन देनमें बड़ी परेशानी होती है और कभी कभी गडबडी भी हो जाया करती है। हिसाब रखनेके लिये वे अनेक प्रकारके साधन वस्तु जैसे काले पत्थरके टुकड़े, श्वेत पत्थर के टुकड़े, वासकी लकड़ी और घोंघा आदि रखते हैं। उन्हीं वस्तुओंको अदक सङ्केत बना लेते हैं, और अपनी गणना करते हैं। इसमें इतना अधिक समय लगता है कि घटेके कामके लिये पूरे तीन दिन लग जाते हैं। यदा में तीन दिन ठहरा रहा। इतने दिनोंमें एक विशेष बात यह हुई कि जो यात्री यहा आये थे मेरे गुणोंपर मुग्ध होकर मेरे अनन्य भक्त बन गये।

अट्ठाईसवां परिच्छेद ।

हिमालयकी कथा

मैं अभीतर उन यात्रियोंके ही साथमें था। इन यात्रियोंमेंसे अनेक मुझपर बड़ी श्रद्धा रखते थे। इनमें एक युवती थी जिसके भावसे ही प्रतीत होता था कि वह मुझसे प्रेम करने लगी है।

जिस समय मुझे यह बात ज्ञात हुई मैंने अपने मनमें सोचा— 'यह सम्भव है। स्त्रियोंके चित्तमें ऐसा निरर्थक भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उसने अपने बड़ोंसे मेरी प्रशंसा सुनी होगी और इसीसे उसको प्रेम हो गया होगा।' मैंने इस भावको दूर करनेके लिए उस युवतीको बौद्धधर्मका उपदेश देना आरम्भ किया। जब कभी मुझे समय मिलता था मैं पुरोहितोंके प्रण आदि करनेके कारणोंको उसे बताया करता था। मैंने उसे नरकके भय भी दिखालाये जो पापियोंको भोगना पडता है और जिनको लोग क्षण भरके आनन्दके लिये करते हैं। मैं इन बातोंकी शिक्षा केवल उसको ही नहीं चरन् समस्त मण्डलीको दिया करता था। मुझे इस युवतीकी दशापर तरस आती थी। उसकी अवस्था १७ वर्षकी थी। स्वतन्त्र विचारमें उसने सुखस्वप्नकी कल्पना कर ली होगी कि वह एक ठंसे स्वामीकी पत्नी होकर समाजमें जायगी जिसे लोग आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। यह युवती न अतिशय सुन्दरी थी और न अतिशय कुरूप। यद्यपि मैं वयोवृद्ध न था तथापि युवावस्थाके अनुभवोंने मुझे इस प्रलोभनसे बचाया। जिस प्रदेशमें मैं यात्रा कर रहा था, उसे तिब्बतमें नगरी कहते हैं। इसीमें पूरगका हाट भी है। इस हाटमें बोधिसत्व महासत्व मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर और वज्रपाणिकी तीन मूर्तिया थीं। लोगोंका कहना है कि ये मूर्तिया किसी समय लड्डा द्वीपसे लाई गई थीं। अभाग्यवश मेरे नगरी पहुँचनेके ६ मास पूर्व अग्नि-काण्डसे दो मूर्तिया जलकर भस्म हो गई थीं, केवल मञ्जुश्रीकी

मूर्ति षच गई थी। पूरग जानेकी मेरी प्रबल उत्कण्ठा थी पर अनेक आपत्तियोंकी सम्भावनासे मुझे विवश होकर रुक जाना पडा। मेरे साथी मुझे छोडकर पूरग गये। उनके लौटनेतक रास्तेमें ठहरकर मैं समाधि लगाता रहा। उनके लौट आनेपर हमलोगोंने फिर प्रस्थान किया और १७ अगस्तको आनिमा पहुंचे। यह भी एक हाट है। यह हाट वर्षभरमें दो महीने अर्थात् १५ जुलाईसे १५ सितम्बर तक लगती है। यहां प्राय १५० सफेद खेमे लगे हुए थे और प्राय ५००-६०० मनुष्य लेन देनके लिए एकत्रित हुये थे। यहांपर मैंने भी कुछ वस्तु मोल ली। दूसरे दिन मैं ग्याकारको पहुंचा और चार दिन ठहरा। यहां ग्यानिमाकी अपेक्षा अधिक व्यापार होता है। यहां भी प्राय १५० खेमे लगे हुये थे। बाहरके आदमी तिब्बतमें यहीं तक आ सकते हैं इससे आगे जानेकी आशा नहीं है। इन व्यापारियोंमें एक मिलमका रहनेवाला था। वह अंग्रेजी बोल सकता था। एक दिन उसने मुझे सहभोजके लिये निमन्त्रित किया पर उसके खेमेमें प्रवेश करते ही मुझे विदित हो गया कि इसके मेरे अंग्रेजी गुप्तचर होनेका सन्देह है। जब केवल हम दोनों खेमेमें रह गये तो उसने मुझसे कहा,—‘मैं भी आपकी ही सरकारकी प्रजा हू, अतएव मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको हानि पहुंचे पर उसके बदलेमें मैं चाहता हू कि जब आप हिन्दुस्तान लौटें तो मेरे व्यवसायमें सहायता पहुंचावें। मैंने उत्तरमें कहा,—‘मैं चीनी हूँ।’ मेरा उत्तर सुनकर वह बोला—‘यदि आप चीनी हैं तो चीनी

भापा भी बोल सकते होंगे ?” मैंने दृढ़तासे उत्तर दिया—“हाँ” । यह सुनते ही वह एक मनुष्यको बुला लाया जो चीनी भापा समझ सकता था । इस तरहकी परीक्षा मैं नेपालमें ग्यालामाके सामने दे चुका था इससे मुझे घबराहट न हुई । मैंने यह भी देखा कि उसको चीनी भापाका मुझसे कम ज्ञान है । जो कुछ भय था वह भी जाता रहा । निदान मैंने चीनी भापामें दो चार शब्द लिखकर उसे पढ़नेका दिया पर वह न पढ़ सका और हसकर मुझसे कहा—“मैं हार गया । अब तिब्बती भापामें ही बातचीत करो ।” यह देखकर मिलमके व्यापारीने विस्मित होकर कहा, “तब तो तुम अवश्य ही चीनी हो । चीन बहुत बड़ा देश है । मेरे पिता एक बार चीन गये थे । चीनके साथ यदि किसी तरहके व्यवसायिक सम्बन्धकी सम्भावना हो तो मुझे पूर्ण आशा है कि तुम मेरी सहायता करोगे ।” यह कहकर उसने अपना पता अंग्रेजीमें लिखकर मुझे दिया । मैंने उसकी बातोंसे मालूम किया कि वह ईमानदार मनुष्य है ।

जब मुझे यह मालूम हुआ कि वह हिन्दुस्तान जा रहा है तो मैंने एक पत्र अपने मित्र और गुरु राय शरच्चन्द्रदासके नाम लिख दिया कि मैं तिब्बती सीमा ग्याकाकोतक पहुच गया हू । इसके अतिरिक्त जापानमें अपने मित्रोंके लिये भी कई एक पत्र लिख कर उसको दे दिया कि हिन्दुस्तान जाकर डाकमें डाल देना । इस कामके लिये मैंने उसको कुछ रुपये भी दे दिये । पीछेसे मुझे मालूम हुआ कि यह मनुष्य ईमानदार था क्योंकि मेरे सब यथामय यथास्थान पहुच गये थे ।

अभी तक मैं ग्याकाकोंमें ही था। मुझे चाहने वाली युवती डावा—क्योंकि यही उसका नाम था—अभी तक अपने विचारमें दृढ़ थी। डावा तिब्बती भाषामें चन्द्रमाको कहते हैं। तिब्बतमें जो वज्रा सोमवारको उत्पन्न होता है उसका नाम डावा रहते हैं। श्रीमती डावाका हृदय अनुरागपूर्ण था। वह सदैव मेरे साथ रहा करती थी। वह मुझे भाति २ से समझा रही थी कि यदि मैं उसके साथ उसके देशको जाऊ तो वह मुझे कैसे आरामसे रखेगी। उसने मुझसे कहा कि—“मेरी माता बड़ी दयालु है। मेरे पिताके पास १६० जगली मैसै और ४०० भेंडे हैं। हमलोग बड़े अमीर हैं। मैं अपने मातापिताकी एकमात्र कन्या हू। मैंने अभी तक किसी पुरुषसे प्रेम नहीं किया है। हमलोग निरन्तर चेंग चेंग पेमाका व्यवहार करते हैं।” चेंग चेंग पेमा तिब्बतमें मक्खनके साथ चाय मिलाकर पीनेके पीछे एक तरहकी शराय पीनेको कहते हैं। यह बानन्द अमीर लोगोंके भाग्यमें ही बढ़ा रहता है। पर तिब्बतके लोग इसे जीवनकी आवश्यकताओंमें समझते हैं। इस मक्खनकी चाय बनानेकी विचित्र रीति भी है अर्थात् मक्खन उवाली हुई चाय और नमकको एक बर्तनमें डालकर लकड़ीसे उसको छूष मिलाते हैं। इसे सोलचा कहते हैं।

डावा अपनी अमीरीकी कहानी कहनेमें कभी न थकती थी। वह कहा करती थी कि उसके देशमें लामा विवाह करनेके लिये पूर्ण स्वाधीन हैं। लामा विवाह करके गार्हस्थ्य जीवन

सुखसे बिताते हैं। मुझे भी विवाह कर लेना उचित होगा। जब उसने देखा लिया कि उसके उपदेशका मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता तो उसने मुझे मूर्ख समझ लिया। जब कभी उसकी बातोंसे मेरा चित्त विचलित होता था तो अपने इष्टदेव शाक्यमुनि बुद्धदेवकी उस कहानीको याद करता था जिसमें शैतानने अपनी तीन पुत्रियोंको बुद्धदेवको प्रलोभन देनेके लिये भेजा था परन्तु वह तीनों स्त्रियां बुद्धदेवको न डिगा सकीं। 'यद्यपि विचारी डावा उन शैतानकी बन्धियोंकी बराबरी नहीं कर सकती थी, पर मैं भी देवता नहीं था। साधारण मनुष्य ही था। मुझे उसकी इस दशापर बड़ा दुःख होता था। मैं अपने चित्तको इस भांति समझा लेता था कि मैं मूर्ख ही अच्छा हूँ।

एक दिनकी बात है कि डावाके पिता और भाई सौदा खरीदने चले गये थे। रह गया था मैं और डावा। यह समय अपना आशय प्रगट करनेके लिये उसने बहुत अच्छा समझा। मैं उस समय अपने जूतोंकी मरम्मत कर रहा था।

उसने अपनी धृष्टता पूर्ण व्यवहारसे मुझे डरा दिया। मैं भी लकड़ी पत्थरका बना हुआ नहीं था और कोई देवता भी नहीं था जिसमें प्रलोभन उत्पन्न ही नहीं हो सकता था। पर शैतानके वश हो जाना मेरी स्थितिके सर्वदा प्रतिकूल था। और साथही बुद्ध देवके सर्वतो वर्तमान रहनेके ज्ञानने भी मेरी रक्षा की। मैंने उससे कहा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे घरपर बड़ा सुख है पर क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारी माता जीवित है कि मर गई? इस प्रश्नसे

वह घबरा गई। उसने उत्तर दिया—'मुझे अपनी माताके बारेमें कुछ भी नहीं मालूम; क्योंकि प्रायः साल भरसे यात्रा कर रही हूँ। मेरी माता आति निर्बल थी, रोतो हुई मैं उनसे विदा हुई थी। मैंने उनसे अपने शरीरका अधिक ध्यान रखनेके लिये कहा था पर अब मैं नहीं जानती कि वह कंसी होगी।

मैंने उसका ध्यान अपनी ओरसे हटानेका अच्छा अवसर पाया। मैंने कहा 'हूँ' तुमको अपनी माताका हाल तो मालूम नहीं और तुम अपने घरके सुखकी बातें कह रही हो। क्या यह तुम सरीखी प्रेमवत्सलाके लिये शोभा देती है कि तुम्हारी माता यातनायें भोगे और तुम सासारिक विलासितामें आसक्त रहो। मेरे इन शब्दोंने उसका अनुराग ठंडा कर दिया। वह और घबरा गई। यह कोई बड़ी बात न थी, क्योंकि तिब्बतमें लामाओंकी शक्ति देवताओंके समान समझी जाती है। मैंने अनेक तरहकी बातोंसे उसके अनुरागको दूर किया।

ग्याकार्कांमिं हम लोग कई दिन ठहरे रहे। अन्तमें २६ अगस्तको उन यात्रियोंके साथ खाना हुआ। दस मीलका दल दल मैदान पारकर हम लोग पहाड़ी भूमिपर पहुँचे और रातको वहीं ठहर गये। यहापर भी व्यापारियोंके बहुतसे खेमे थे। वहा मैं प्रत्येक खेमेमें जाकर भिक्षा माग लाता था। बुद्धदेवके उपदेशोंमें एक यह भी है, जिसको मैं समय मिलने पर किया करता था। रातको जहा मैं ठहरता था वहा मैं अपने साथियोंको उपदेश दिया करता था। इस तरह उपदेश देनेमें मेरा एक विशेष अभिप्राय था। धर्म

विषयक बातचीत मेरी प्राण रक्षाके लिये यह आवश्यक थी। इससे मेरा यह आशय नहीं है कि मुझे प्राणोंका भय था क्योंकि वहा सदैव ही लोगोंकी भोड रहा करती थी। इसके अतिरिक्त यह देश बौद्धधर्मका केन्द्र था। इस ठौरपर कैसाही चोर डाकू क्यों न हो सहजमें हत्या करनेका साहस नहीं कर सकता था। पर आवश्यकता इस बातकी थी जब इस पवित्र स्थानसे बाहर निकलू उस समयके लिये मेरा पूरा बचाव हो जाय। यही कारण था कि मैं उन लोगोंको उपदेश दिया करता था और भाग्यवश वे लोग मेरे धर्मोपदेशोंका ग्रहण भी करते थे।

२८ अगस्तको हमलोग २० मील चले और इस बीचमें पानीका एक बुन्द भी न मिला। प्रातः काल एक प्याला चाय अवश्य मिल गई थी। प्यासके मारे दम निकल रहा था। सन्ध्या होते होते हमलोग लेंगचेन खावाव नदीके किनारे पहुँचे। यही नदी सतलजके नामसे प्रसिद्ध है। मेरे साथियोंने कहा कि यह नदी मानसरोवरसे निकली है। मैंने उत्तर दिया कि मानसरोवर चारों ओरसे पहाड़ोंसे घिरो है। पानी बाहर जानेका परु भी द्वार नहीं है। इसका उन्होंने उत्तर दिया,—“यह नदी पहाड़ोंके नीचेसे अदृश्यभावसे निकली है। वहाके लोगोंका ऐसा ही विश्वास है। जहातक मैंने देखा सतलज नदीका सतह मानसरोवरसे कहीं ऊँचा है इसलिये इसका उद्गम किसी अन्य ऊँचे स्थानसे होता होगा। हमलोगोंने नदीके किनारे पर बेमा खडा कर दिया और रातभर वहाँ ठहरे। दूसरे

दिग हमलोगोंने एक और प्रसिद्ध तीर्थस्थानके दर्शन किये । इसे तिब्बतमें सीतापुरी कहते हैं पर इसका शुद्ध संस्कृत नाम प्रेतपुरी है । दो आदमियोंकी रज्जवालीमें सेमेकी छोड़कर मैं, दाया, उसके पिता और एक दूसरी स्त्री चार मनुष्य उस क्षेत्रके लिये प्रस्थान किये ।

राहमें कई नदिया मिलीं, जिनका जल बहुत ठण्डा था । मेरे साथी तो पार हो गये पर मेरा शरीर उस ठण्डे जलके कारण हिलने योग्य भी न रहा । मैंने अपनी यह दुखवस्था देण कर अपने साथियोंसे आगे बढ़नेको कहा । जत्र मेरा शरीर ठीक हुआ तो मैं भी आगे बढ़ा । पाच मील आगे बढ़कर मुझे एक मन्दिर दिखलाई पडा जिसकी सीढिया दूरसे रेलवेट्रेनकी भाति झात होती थीं । यहा एक प्रकारके पक्षी थे जिनका बोली ठीक रेलकी सीटीकी भाति थी । सीढियोंको देण कर और उन पक्षियोंकी बोली सुनकर मुझे रेलकी भावना होने लगी और मुझे भासने लगा कि मैं किसी सभ्य देशमें पहुच गया हू ।



उन्तीसवां परिच्छेद



देवमन्दिरको राहपर

उस दृश्यके अतिरिक्त और भी दृश्य थे जिनसे बोध होता था कि मैं किसी सभ्य देशमें आ गया हू। वहाके मन्दिर और पुरोहितोंके घर बहुत ही सुन्दर पत्थरके बने हुए थे। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। पत्थरकी इमारतोंको देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि तिब्बतमें पत्थर प्रायः नहीं मिलते। हिन्दुस्तानसे जब 'पालदन अतिश' बौद्धधर्म फैलानेके लिये आये थे उन्होंने इस नगरका नाम प्रेतपुरी रखा था। यह नामकरण तिब्बतके लोगोंके अनुरूप था। यह लोग इतने गन्दे होते हैं कि गोबरतक खा लेते हैं। मैंने संसार भरमें ऐसे गन्दे मनुष्य न कहीं देखे और न सुने हैं।

उन लोगोंकी इस गन्दी आदतके ही कारण अतिश देवने उस नगरका नाम प्रेतपुरी रख दिया होगा। तिब्बतके लोग स्मृत नहीं जानते। अतएव वे लोग इस नामसे बहुत प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि यह कोई पवित्र नाम है। अतीश देवके मन्दिर बनवानेके पीछे जो लामा बहा रहते थे, उन लोगोंने एक लामा सराय नामक मकान बनवाया जो अबतक विद्यमान

है। यह मकान बहुत ही रमणीक है और चार पाच पुरोहितोंके रहने लायक है। रातको मैं वहीं ठहरा।

मेरे साधियोंकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। उन लोगोंने मुझसे बिदा ली। मैंने भोजन किया और एक पुरोहितको साथ लेकर दर्शनके लिये बाहर निकला। प्रधान मन्दिरकी लम्बाई १० गज और चौड़ाई ८ गज है। इसमें शाक्यमुनि बुद्ध-देवकी और लोवन रिनपोंचे अर्थात् पद्म चु मेकी मूर्तियाँ हैं। लोवन तिब्बतके पुराने धर्म सम्प्रदायके नेता थे। लोवनके विषयमें बहुतसी कथायें प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर जापानका नीचतम पुरोहित भी लज्जित हो सकता है। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि दोनों मूर्तियाँ साथ ही पूजती थीं। यह बुद्ध भगवानके लिये अपमानजनक था। क्योंकि लोवन पुरोहितके लिबासमें शैतान था। मेरी समझमें लोगोंको पतित बनाने और बौद्धधर्मका प्रचार रोकनेके लिये ही वह पैदा हुआ था।

लोवनमें जो कुछ दोष हों यह स्थान ऐसा रमणीक है कि उसका थोड़ासा हाल यहापर लिख देना आवश्यक समझता हूँ। ले गचेन खावाब नदी पश्चिमकी ओर बहती है, इसके ढालवें किनारे पीले, बैंगनी, नीले, हरे इत्यादि भाति २ के रंगोंके पत्थरसे भरे हैं। ये पत्थर देखनेमें बड़े ही भले मालूम होते हैं। इनके पास ही अद्भुत २ सुरतोंकी चट्टानें हैं। यह दृश्य देखकर मुझे अपार आनन्द होता यदि लोवन रि पोंचेकी मूर्ति वहां न होती। यहासे प्राय २५० गज आगे बढ़कर गरम पानीके

उन्तीसवां परिच्छेद



देवमन्दिरको राहपर

उस दृश्यके अतिरिक्त और भी दृश्य थे जिनसे बोध होता था कि मैं किसी सभ्य देशमें आ गया हू। वहाके मन्दिर और पुरोहितोंके घर बहुत ही सुन्दर पत्थरके बने हुए थे। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। पत्थरकी इमारतोंको देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि तिब्बतमें पत्थर प्रायः नहीं मिलते। हिन्दुस्तानसे जब 'पालदन अतिश' बौद्धधर्म फैलानेके लिये आये थे उन्होंने इस नगरका नाम प्रेतपुरी रखा था। यह नामकरण तिब्बतके लोगोंके अनुरूप था। यह लोग इतने गन्दे होते हैं कि गोबरतक खा लेते हैं। मैंने सत्सारा भरमें ऐसे गन्दे मनुष्य न कहीं देखे और न सुने हैं।

उन लोगोंकी इस गन्दी आदतके ही कारण अतिश देवने उस नगरका नाम प्रेतपुरी रख दिया होगा। तिब्बतके लोग सस्कृत नहीं जानते। अतएव वे लोग इस नामसे बहुत प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि यह कोई पवित्र नाम है। अतीश देवके मन्दिर बनवानेके पीछे जो लामा वहा रहते थे, उन लोगोंने एक लामा सराय नामक मकान बनवाया जो अबतक विद्यमान

दे। यह मफान बहुत ही रमणीक है और चार पांच पुरोहितोंके रहने लायक है। रातको मैं वहीं ठहरा।

मेरे साथियोंकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। उन लोगोंने मुझसे बिदा ली। मैंने भोजन किया और एक पुरोहितको साथ लेकर दर्शनके लिये बाहर निकला। प्रधान मन्दिरकी लम्बाई १० गज और चौड़ाई ८ गज है। इसमें शाक्यमुनि बुद्ध-देवकी और लोवन रिनपोंचे अर्थात् पद्म चुभेकी मूर्तियाँ हैं। लोवन तिब्बतके पुराने धर्म सम्प्रदायके नेता थे। लोवनके विषयमें बहुतसी कथायें प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर जापानका नीचतम पुरोहित भी लज्जित हो सकता है। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि दोनों मूर्तियाँ साथ ही पूजती थीं। यह बुद्ध भगवानके लिये अपमानजनक था। क्योंकि लोवन पुरोहितके लिबासमें शैतान था। मेरो समझमें लोगोंको पतित बनाने और बौद्धधर्मका प्रचार रोकनेके लिये ही वह पैदा हुआ था।

लोवनमें जो कुछ दोष हों यह स्थान ऐसा रमणीक है कि उसका थोड़ासा हाल यहापर लिख देना आवश्यक समझता हूँ। ले गचेन खावाब नदी पश्चिमकी ओर बहती है, इसके ढालवें किनारे पीले, बैंगनी, नीले, हरे इत्यादि भाति २ के रंगोंके पत्थरसे भरे हैं। ये पत्थर देखनेमें बड़े ही भले मालूम होते हैं। इनके पास ही अद्भुत २ सूरतोंकी चट्टानें हैं। यह दृश्य देखकर मुझे अपार आनन्द होता यदि लोवन रिपोंचेकी मूर्ति वहाँ न होती। यहासे प्राय २५० गज आगे बढ़कर गरम ५

अनेक स्रोते हैं। उनमेंसे तीन बड़े और तीन छोटे हैं। किसी किसी स्रोतका पानी इतना गरम था कि हाथोंको बरदाश्त नहीं हो सकता था। उनके जल साफ थे और इनके किनारोंपर श्वेत, लाल, नीले और हरे रंगकी कड़ी वस्तु जमी हुई थी। यहाँ दर्शन करनेवाले आकर इन वस्तुओंको ले जाया करते हैं। लोगोंका ख्याल है कि इनमें औषधियोंका गुण है। उन स्थानोंको देखकर मैं डेरेपर लौट आया, और रात उपासनामें वितार्ड। दूसरे दिन मैं खेमेकी ओर चला। खेमेतक पहुँचनेके लिये अधिकसे अधिक तीन घण्टे लगना चाहिये था। परन्तु मैं पाच घण्टे चला फिर भी वहाँ तक न पहुँचा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने जाच की तो मालूम हुआ कि मुझे उत्तर पूर्व जाना चाहिये था, पर मैं उत्तरकी ओर जा रहा था।

जब मुझे पहुँचनेमें देर हुई तो खेमेके लोग घबरा गये और उन्हें डर होने लगा कि मैं नदीमें बह गया। भूप्र प्याससे परीशान जिस समय मैं खेमेमें पहुँचा खेमेके स्वामीकी कन्या भेड़ोंको लेकर बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। मुझे मालूम हुआ कि मेरी खोजमें निकलनेवाली थी।

यहाँसे हमलोग दूसरे दिन सवेरे कैलास पर्वतकी ओर रवाना हुये।



तीसवां परिच्छेद ।

ईश्वरकी अपार महिमा ।

राहकी बातचीतसे यह बात ठहरी कि सब यात्री साथ साथ परिक्रमा नहीं कर सकते । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उन तीन चार दिनोंमें अपने इच्छानुसार अनेक चक्र लगाना चाहता था । एक चक्र कमसे कम पचास मीलका होता था । मेरे साथी उतने ही दिनमें कमसे कम तीन परिक्रमा करना चाहते थे, परन्तु यह मेरी शक्तके बाहर था ।

यात्री लोग आधीरातको ही चल देते थे और रातको आठ बजे लौटते थे । मैंने इस प्रदक्षिणाके लिये सबसे अधिक तैयारी की और अपने साथ चार पांच दिनके लिये भोजन बाँध लिया । मैंने सबसे बाहरी राह चुनी । मुझे जिस पहाडकी प्रदक्षिणा करना था उसकी मनुष्यकी सी आकृति थी और उसके चारोंमें यह प्रसिद्ध था कि यह शाक्यमुनिकी मूर्ति है ।

बीचकी राहसे परिक्रमा करना बहुत कठिन था । भीतरवाली राह उससे भी अधिक खराब थी और वह केवल देवताओंके लिये ही बनलाई जाती थी । जो मनुष्य बाहरवाली सडकसे इक्कीस परिक्रमा कर लेता था उसे चार मन्दिरोंके लामा बीच वाली सडकसे जानेकी आज्ञा दे देते थे । बीच वाली राह ढालू और भयानक है और साधारण मनुष्य उसके ऊपर

दी क्योंकि मैंने उसको बतला दिया था कि रातको मैं भोजन नहीं करता ।

दूसरे दिन भी मैं उसी मन्दिरमें रहा । मेरा दो दिन बड़े मजेमें कटा । तीसरे दिन मैं वहासे चल पडा । बिदा होते समय पुरोहितने मेरे भोजनके लिये कुछ पदार्थ और सवारीके लिये एक पहाडी भैंसा दिया । उसने मेरे ऊपर ऐसी दया दिखलाई मानों पूर्व जन्ममें मेरा उसका कोई घना संबध था ।

राहमें मुझे तिग्घतके अनेक यात्री मिले । इस पहाडपर चढना सहज काम नहीं था । बड़े दृष्ट पुष्ट जन भी मात हो जाते थे । पर मैंने देखा कि तिग्घतके साधारण स्त्री पुरुष भी पग पगपर दण्डवत प्रणाम करते जाते हैं । याकके ऊपर चढ़े रहनेपर भी मैं बहुत थक गया था । यहा हवाकी कमी थी इसलिये मैं हाफने लगा । पाच मील ऊपर चढ जाने पर मुझे सास लेनेमें भी तकलीफ होने लगी । अतएव वहा मैं थोडी देर विश्राम करनेके लिये बैठ गया और औषध खाया । मैंने बैठे बैठे देखा कि एक मनुष्य पागलोंकी भाति तिसेकी बरफकी चोटीकी पूजा कर रहा है और अपने पापोंको कबूल रहा है ।

मेरे पथ प्रदर्शकने बतलाया कि यह खामका रहनेवाला है । यह बडा भारी डाकू है । वह वास्तवमें भयानक डाकू मालूम होता था । उसकी आँखोंसे क्रूरता टपक रही थी । मुझे यह सुनकर बडा आश्चर्य हुआ कि वह अपने पिछले पापों हीके लिये क्षमा नहीं माग रहा था पर आगे जो पाप करेगा उनके लिये

भी क्षमाप्रार्थी था। वह इस भाति कह रहा था—'हे कैंग रिग पांचे देव ! हे शाक्यमुनि ! हे धुद्धिसत्व ! मैंने बहुतसे पाप किये हैं, मैंने बहुतसे आदमी मारे हैं, मैंने बहुतोंका घ छीन लिया है जिसका अधिकारी मैं नहीं था। मैंने बहुतसी स्त्रियोंको पतिविहीन बना दिया है। इन सब पापोंके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हू। आशा है कि इस प्रायश्चित्तसे मेरे पाप दूर हो जायगे। मैं फिर भी वही काम करूंगा। इसलिये मैं अपने भविष्य पापाचरणके लिये भी क्षमाप्रार्थी हू।' मैंने सुना है कि यहाके डाकुओंके प्रायश्चित्तके यही ढंग हैं।

यहासे आगे बढ़नेपर कैलाश पर्वतका वह भाग मिला जिसको कुवेरका महल बतलाते हैं। इसका नाम सुनते ही मुझे कालिदासके मेघदूतकी याद आगई। यह चोटी प्राय २२३००० फुट ऊंची है और तिसेकी चोटीसे किसी तरह नीचो नहीं है। यहाकी हवा बहुत हल्की थी और ठण्डक भी बहुत थी। यहापर मुझे अपनी अवस्था देखकर मालूम हुआ कि यदि मेरे मित्र पुरोहितने मुझ याक न दिया होता तो मैं पैदल यात्रा कदापि नहीं कर सकता था। तिब्बतके यात्रियोंके फेफड़े हमलोगोंसे बहुत चलयान होते हैं इसलिये वे इस तरहकी कठिनाइयोंका सामना बिना किसी कष्टके करते हैं। उस पहाडके नीचे एक तालाब था जिसके बारेमें कहा जाता था कि कुवेर इसमें नहाते थे। इस समय उसके ऊपर बरफ जमी हुई थी। इस तरह परि क्रमा करते हुए जब हमलोग पवित्र क्षेत्रको सीमासे बाहर हो

तब मेरे साथियोंने कहा कि—'अब हमलोग पवित्र स्थानसे बाहर आ गये हैं अतएव अब हमलोग तीर्थयात्री नहीं रहे अब हम शिकार खेलते चलेंगे। मैंने देखा कि ये लोग हिरनका ही नहीं बल्कि मनुष्य तकका शिकार खेलते हैं और यात्रियोंको मारकर धन ले लेते हैं। यह देख मैंने विचार किया कि इन लोगोंसे पृथक् हो जाना ही अच्छा है।

इकतीसवां परिच्छेद ।



शोचनीय घटना

१४ सितम्बरको बरफ बहुत गिरी इससे हमलोग वहीं ठहर रहे। शिकारी कुत्ते खरगोशोंके शिकारके लिये निकले और लौट आये। जब बरफ गिरना बन्द हुआ तो हमलोग पूर्व दिशाको चले। रातमें एक पहाड़ीके ऊपर पहुँचे तो हमारे साथियोंके प्रधानने कहा कि अब हमारी यात्रा यहापर खतम होती है। पूछनेपर उसने मानसरोवर और कैलाश पर्वतको दिखलाकर कहा कि यहासे अब हमलोग उन दोनों तीर्थोंको न देख सकेंगे। पवित्रभूमि यहीं पर समाप्त होती है। यह कहकर उसने तीर्थराजको दण्डवत् प्रणाम किया और हम सब लोगोंने भी वैसाही किया। जब मेरे साथियोंने मुझसे कहा कि अब

हमलोग अपने सासारिक काममें लगते हैं, तो मैं उनका आशय समझ गया कि अब वे मुझसे पृथक् होना चाहते हैं। थोड़ीसी देरमें हमलोग एक स्थानपर पहुँचे जहाँ १२-१३ खेमे लगे हुए थे। मैं उन खेमोंका हालचाल जनानेके लिये उधरको चल दिया।

मैं भिक्षा मागता हुआ उधर गया और मेरे साथी वहीं रह गये। दूसरे दिन खेमेके भीतर मैं अपनी धर्मपुस्तक पढ़ रहा था। बाहर दोनों स्त्रियाँ घातें कर रही थीं। मुझे 'लामा' शब्द सुनाई पड़ा। मेरा ध्यान उस ओर गया। मैंने सुना कि दावा अपनी चाचीसे कह रही थी कि लामा मुझसे कहता था कि हमारी माता मर गई है इस बातका पता लगाना चाहता हूँ। इस बातको सुनकर उसकी चाची इस पड़ी। उसने कहा—'सम्भव है लामाने यह देखकर कि तू उसे प्रेम करती है, इसीमें यह बात कह दी हो। इसके लिये तू कुछ चिन्ता मत कर। मेरे स्वामीने मुझसे कहा है कि दावाका विवाह लामासे कर दूंगा। यदि लामा इनकार करेगा तो मैं लामाको मार डालूँगा।' वे बातें केवल मुझे सुनानेके लिये ही कही गई थीं। क्योंकि दावाकी चाची इन बातोंको उच्चस्वरसे कह रही थी।

पहले तो यह सुनकर मैं डर गया पर शीघ्र ही मैंने अपनेको समझाला और मनही मन कहा कि यदि मैं आसक्तिको दमन करनेके लिये मारा जाऊँगा तो भी मेरे इष्टदेव प्रसन्न होंगे। ऐसा विचारकर मैं पढ़नेमें लवलीन हो गया। उस दिन भी कोई घटना न हुई और न दूसरेही दिन कुछ हुआ। तीसरे दिन

हमलोग वहासे कूच कर गये और पाच मीलकी दूरीपर पहाडके पास तोरुवन ताजममें आकर ठहरे । मैं वहा भी मिक्षुकका ही वेप बनाये हुए था । नगरसे जय में लौटकर आया तो देखा कि अकेली दावा खेमेमें है और सबलोग शिकारके लिये गये है । मैंने देखा कि पड्यन्त्र चल रहा है और दिनपर दिन अवस्था भयानक होती जा रही है । धार्मिक उत्तेजना देकर मैंने उसे इस पथसे हटाना चाहा । यह सोचकर मैं खेमेमें बैठ गया । मेरे बैठतेही दावा जलपानके लिये कुछ सामान लेकर आई । जल पानकर मैं धर्मग्रन्थ पढ़ने लगा । पर उसने मुझे रोककर कहा— 'मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हू जो कि बड़ी ही भयानक है । मेरे पिता और चाचाने कहा है कि यदि आप मेरे साथ विवाह करनेपर राजी न होंगे तो आपकी हत्या कर डालेंगे ।' मैंने यह सुनकर शान्त चित्तसे कहा— 'मुझे मरनेका भय नहीं है । मैंने अपनी तीर्थयात्रा समाप्त कर ली है, अब मुझे इस ससारमें कुछ नहीं करना है । अतएव मृत्युमे मुझे कोई भय नहीं है । बल्कि मैं इसके लिए बड़ा प्रसन्न हुगा कि मुझे इतना शीघ्र बोधि सत्प्रके राज्यमें जानेका अवसर मिल गया । यदि वे लोग मुझे आज ही मार डालें तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा ।' दावाको मेरी बातोंसे बड़ा आश्चर्य हुआ । अपनी बातों का प्रभाव वह डालना चाहती थी उससे । उल्टा प्रमाण । यह समझकर उसने और फो

उसी

शिकारसे

लौटकर आये। उन्होंने दावा और मेरी बातोंके विषयमें अवश्य कुछ सुना होगा, क्योंकि जो सबसे अधिक उम्र स्वभावका था वह आते ही दावाको डाँटने लगा—‘तू किमी मनुष्यकी खुशा मद क्यों करती है।’ यह सुनतेही दावाके पिताने दावाका पक्ष लेकर कहा कि ‘तुम्हें उसके बीचमें पड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका पिता उसकी सहायताके लिये बहुत है।’

धीरे धीरे यह झगडा बहुत बड़ गया और दोनों आपसमें गाली गलौज करने लगे। दोनों एक दूसरेकी बुराई प्रगट करने लगे कि अमुकने अमुक २ स्थानोंपर मनुष्य मारे हैं। अमुकने तिब्यत सरकारको भी लूटना चाहा था और पकड़े जानेके भयसे भाग गया था। बात बढ़ गई और हाथापाई होने लगी। एक दूसरेको पत्थर फेंक २ कर मारने लगे। मैंने देखा कि झगडा बढ़ता जा रहा है। निदान मैंने सबसे छोटे भाईको जो दावाके पिताके ऊपर झपटना चाहता था, आगे घटकर पकड़ लिया। उसने मेरे मुहपर ऐसा घूसा मारा कि मैं अचेत होकर गिर पडा। दावा और उसकी चाची एक ओर बैठी रो रही थी। मैं भी चोट खाकर एक ओर गिर पडा। थोड़ी देरमें सन्ध्या हो गई और लडाईं भी बन्द हो गयी। रातको कुछ गडबड नहीं हुई।

सवेरे सब भाई एक दूसरेसे पृथक् हो गये। बडा अपनी स्त्रीके साथ, दूसरा अपनी लडकीके साथ और तीसरा अकेलाही चल दिया। मैं भी वहासे चलनेका उद्योग करने लगा पर मेरा सामान ढोनेके लिये भेड आदि नहीं थी। लाचार मैंने दो मोल

और उनके ऊपर सामान लादकर दक्षिण पूरबकी ओर चल दिया। दूसरे दिन रातको मुझे खुले मैदानमें ठहरना पडा। इतने दिनों तक आरामसे खेमेंमें रहनेसे आज खुले मैदानमें मुझे कष्ट मालूम हुआ। क्षण भरके लिये भी नींद न आई। दूसरे दिन सन्ध्याको एक मन्दिरमें पहुंचा। उस मन्दिरमें दो पुरोहित थे, वहा मैंने अपने कपडों और जूतोंकी मरम्मत की।

मैं मन्दिरमें ही ठहरा था कि मेरी एक भेड बीमार होकर मर गई। उसके लिये मैंने प्रार्थना की फिर दूसरी भेडको भी मैंने आधे दामोंपर बेच डाला क्योंकि, अपने साथीके न रहनेसे वह बहुत दुःखी थी। वह मरी हुई भेड मैंने उसी खरीदारको दे डाली और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसे ले लिया। ये लोग भी यात्री थे और मुझसे एक दिन याद पहुंचे थे। ये लोग भी मेरे साथ ही चले और मेरे सामानका भार अपने ऊपर ले लिया क्योंकि उनके पास कई एक जगली भैंसे थे।

दूसरे दिन भी रात खुले मैदानमें काटनी पडी। उस दिन मैं सोया ही नहीं, पर रातभर समाधिष्ठ होकर बैठा रहा। सबेरे हमलोग वहाँसे चले, राह बहुत ही खराब थी। यहाँ तक कि तिब्बतके यात्री भी उसपर कठिनतासे चलते थे।

उन लोगोंने कृपाकर मुझे एक भैंसा दे दिया इससे मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ।

और आगे बढ़नेपर हमलोगोंको एक तालाब मिला जिसमें सोडा निकलता है। उन लोगोंने अपने चमड़ेके बैगोंमें सोडा भर

लिया। मुझे बतलाया कि यह सोडा चायमें मिलाकर पिया जाता है। अब हमलोग नित्य प्रति २५ मील चल लेते थे पर बिना जंगली भैंसेके मैं इतना कमी भी नहीं चल सकता था। वहासे चलकर हमलोग ब्रह्मपुत्रा नदीके किनारे पहुंचे। वहासे मेरे साथी मुझसे बिदा हो गये, और मुझे फिर अपना बोझ अपनी पीठपर ही लादकर चलना पडा।

बत्तीसवां परिच्छेद



दुर्घटनाकी सूचना।

अपनी पीठपर बोरा लादकर मैं बहुत दूर जा चुका था। थककर एक स्थानपर बैठ गया। सामान्यतः वहाँ एक तिन्वती जंगली भैंसा लिये हुए चर्रा था। मैंने कहा कि यदि तुम मेरे सामानको गो लाने के लिये मुझे पुरस्कार दूंगा। मेरी बातको सुनकर वह भैंसा सामान लाद कर चला।

तीन मील आगे बढनेपर वहाँ पर सवार हमलोगोंकी शोर था। वहाँ एक बन्दूक, एक २ तलवार शिकारी टोपिया थी। था कि ये डाकू हैं।

वहा
उसी
आ
में

सामान लादनेके लिये टट्टू अथवा याक अवश्य ही होता, ये सौदागर भी नहीं थे क्योंकि यदि सौदागर होते तो यहाँकी रीत्यनुसार दलके दल चलते । मेरे साथीकी भी यही धारणा थी । वह भयके मारे कापने लगा । डाकुओंसे भेंट होना किसी भी अवस्थामें अच्छा नहीं है । पर मुझे भय तनिक भी न मालूम हुआ क्योंकि मैंने सोच रक्खा था कि मेरे सामानमेंसे जो वस्तु वह चाहेंगे, निकाल कर दे दूंगा । मैं केवल अपनी प्राणरक्षा चाहता था और और डाकुओंको उससे कुछ प्रयोजन न था । ऐसा विचारकर मैं आगे बढ़ा । सम्पर्क होते ही उन्होंने मुझसे पूछा—‘तुम कहासे आ रहे हो ?’ मैंने उत्तर दिया—‘कैलास पर्वतका दर्शन करके ।’ उन्होंने फिर मुझसे पूछा—‘तुमने कोई सौदागर इधरसे जाते देखा ? वे हमारे साथी हैं और उनकी खोजमें हम जा रहे हैं ।’ मैंने उत्तर दिया—‘नहीं ।’ फिर उन्होंने कहा—‘मालूम होता है तुम लामा पुरोहित हो । तुम अपनी दैवीशक्तिसे बतलाओ कि वे लोग किधर गये हैं ?’ अब उनकी बातोंका आशय मेरी समझमें आ गया कि वे लूटनेके लिये सौदागरोंकी तलाशमें हैं । अब मेरा भय जाता रहा क्योंकि जो मनुष्य सौदागरोंकी बहु मूल्य वस्तुओंकी खोजमें फिर रहा है वह मुझसे दरिद्र पुरोहितको कभी लूटना न चाहेगा । बल्कि कभी कभी ऐसे काममें पुरस्कार भी मिल जाता है ।

मैं सौदागरोंका पता बतलानेके लिये मजबूर हुआ पर मैंने भी सोचकर वही दिशा बतलाई जिसपर उन लोगोंके मिलनेको

क्रम ही सम्भावना थी। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उधर ही अपने घोड़े दौड़ाये। मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया। चलते समय कह गये कि इस समय हमलोगोंके पास कुछ नहीं है।

जबतक मैं उन लोगोंसे बातचीत कर रहा था मेरा साथी दूर खड़ा हुआ भयसे कांप रहा था। जंग ड्राकू लोग चले गये तो वह मेरे पास आया और पूछने लगा कि क्या बातें हुईं ? मैंने सब सुना दिया जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ।

आठ मील आगे बढ़नेपर हमलोग एक खेमेपर पहुँचे। यही मेरे साथीका खेमा था। वहाँ और भी दो तीन खेमे थे। मैं अपने साथीके खेमेमें रातको ठहरा। थकावट दूर करनेके लिये एक दिन बहा और रह गया। दूसरे दिन अपने साथीके कहे अनुसार मैंने एक घक्करी मोल ली और उसकी पीठपर सामान लादकर आगे बढ़ा।

मैं आगे बढ़ा ही था कि ओले गिरने लगे। अब न मैं देख सकता और न आगे बढ़ सकता था। मेरे तिब्बती कपड़े सब भीग गये और शरीरतक तर हो गया। मेरा कम्पास तो खोही गया था इससे दिशाका ज्ञान भी नहीं हो सकता था। पर वहाँ ठहरना भी अतिशय भयावह था। मैं किर्तव्यविमूढ़ उसी दुरवस्थामें खड़ा ही था कि भाग्यवश एक अश्वारोही वहाँ आ पहुँचा। उसे मेरी दशापर दया आई और मुझे अपने खेमेमें ले चला।

उसने कहा कि लासा जानेवालेको वहां जानेमें अवश्यही चक्कर पड़ेगा पर आगे जाडा बहुत है ऐसे समयमें रातको खुले मैदानमें रहना बडा भयानक है। मैंने उसके प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने बकरीके उपरसे कुल बोझा उठाकर अपने घोड़ेपर रख लिया। बकरीको लेकर मैं उसके साथ चला और शीघ्र ही उसके खेमेमें पहुंच गया।

दूसरे दिन मेरा साथी बहुत सवेरे उठकर चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी खेमा उठाकर चले। मुझे भी उसी ओर जाना था। अतएव मैं भी उनके साथ हो लिया। सन्ध्या होते होते प्रायः १५ मील चलकर हमलोग एक स्थानपर पहुंचे। राहमें उन लोगोंसे कोई यातचीत नहीं हुई। पर मुझे आशा थी कि कलको भाति आज भी वे मुझे शरण देंगे।

जब वे लोग खेमे खडा कर चुके तब मैं उनके पास गया और ठहरनेकी आज्ञा मागी। पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। वहापर और भी ५-६ खेमे थे। मैं उन खेमोंमें भी गया पर वहा भी किसीने घुसने न दिया। अन्तमें मैं आखिरी खेमेमें गया। मैंने विचारा था कि इन खेमेका स्वामी यदि मुझे ठहरानेको राजी न होगा तो मैं बलपूर्वक घुस जाऊंगा। निदान मैं उस खेमेके पास पहुंचा। उसकी स्वामिनी एक बुढ़िया थी। मेरी प्रार्थनापर उसने तनिक भी ध्यान न दिया बल्कि उल्टा मेरे ऊपर क्रुपित होने लगी। जब मैंने कहा कि और कहीं मुझे स्थान नहीं मिला है तो वह बोली कि मैं हीं तुमको क्यों ठहराऊँ ?

जब मैं खेमेके भीतर घुसनेकी चेष्टा करने लगा तो वह अपना चिमटा लेकर मुझे मारने दौड़ो ।

तैत्तिरीयसंस्कृतपरिच्छेद



मृत्युके मुखमें

जब मुझे किसीने शरण नहीं दी, तो मैं १० १२ गजकी दूरीपर जाकर बैठ गया । उस समय मुझे बुद्धदेवके वे शब्द स्मरण आये —“जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है उसे मैं मुक्तिपथमें सहायता नहीं दे सकता ।” तो इन लोगोंकी मुक्तिका क्या उपाय है जब इन लोगोंने मुझे अर्थात् उसके भक्तको शरण न दी । पर शरणकी याचना करनेसे मेरा उनका कुछ सम्बन्ध हो गया है इससे सम्भव है उन्हें मुक्ति मिल जाय । यह विचारकर मैं धर्मपुस्तक पढ़ने लगा । थोड़ी देर बाद उस घुड़ियाकी लडकीने मुझे देखा और भीतर हो गई । थोड़ी देर बाद वह खेमेसे निकलकर मेरे पास आई और बोली, तुम्हें हमने खेमेमें नहीं ठहरने दिया इसलिए तुम पिशाचोंका आवाहन करते हो कि वे आकर हमें दुःख पहुँचावें ? ऐसा करना उचित नहीं है । मेरी माताने कह दिया है कि तुम हमारे खेमेमें ठहरो, मैंने लडकीके मुपसे यह बातें सुनकर अपने इष्टदेवको धन्यवाद दिया क्योंकि उनको ही उपासे मुझे यह सहारा मिला था । मैं फौरन राजी हो गया

दूसरे दिन मैं वहासे बहुत तडके उठकर चल दिया। प्रायः २॥ मील गया था कि हठात् दो मनुष्य एक चट्टानके पीछेसे निकले और उन्होंने मुझे रोक लिया। यद्यपि वे सशस्त्र थे पर डाकू नहीं मालूम होते थे। देखनेसे यही ज्ञात होता था कि वहाँके कोई यात्री हैं। उन्होंने मेरे पास आकर पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? मैंने उत्तर दिया कि मेरे पास बौद्धधर्म है। उन्होंने मेरी बातको नहीं समझा और पूछा —

“तुम्हारी पीठपर क्या है?”

“मेरी खाद्य सामग्री है।”

“तुम्हारी छातीपर यह ऊँची २ क्या वस्तु है?”

“यह मेरी रुपयोंकी थैली है।”

मेरी अन्तिम बात सुनते ही इन्होंने मेरे हाथसे लाठी छीन ली। अब मैं समझ गया कि वे डाकू हैं। मैंने चित्तको सावधान करके कहा —

‘क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो?’

एक मनुष्यने अपने दात चमकाकर कहा, ‘अवश्य।’ मैंने कहा—
“अच्छा तो शीघ्रताकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। किसी तरहकी गडबडकी जरूरत नहीं।”

“पहले रुपयोंकी थैली निकालो।”

मैंने तुरन्त थैली निकालकर उनके हुवाले कर दी।

“तुम्हारी पीठपर कुछ बहुमूल्य सामान मालूम होता है। दिपलाओ उसमें क्या है।”

मैंने उसे भी स्वीकार किया। उन्होंने मेरा बेग भी देखा जो धकरीके ऊपर लदा हुआ था। उसको खोलकर मेरी पुस्तकें, भारी २ पिछौने और अन्य घस्तुएँ जो उनके कामकी नहीं थीं मुझे लौटा दीं। पर मेरा खानेका सामान यह कहकर ले लिया कि इसकी हमें आवश्यकता है। पर मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता था, इसका समझनेवाला कोई नहीं था। तिव्वतके डाकुओंकी यह रीति है कि सब कुछ ले चुकनेपर वे लोग तीन दिनका भोजन उस मनुष्यको दे देते हैं यदि वह उनके कल्याणके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करके खानेको मागे। मैंने भी वैसा ही विचार करके उनसे कहा कि मेरे पास एक चादीका बौद्धमंदिर है जिसमें बुद्धदेवकी मूर्ति है। यह मुझे भारतवर्षके धर्मपालने दलाईलामाको भेंट करनेके लिये दी है। यह सुनते ही उनमेंसे एकने कहा— क्या तुम वह मुझे नहीं दोगे। मैंने उत्तर दिया कि देनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर यदि तुम उसको ले लोगे तो संभव है कि तुम्हारे ऊपर कोई विपद् आपड़े।

यह कहकर वह चादीकी डियिया निकालकर बाहर रख दी और उनसे कहा कि इसको खोलो। उन्होंने उसको हाथतक नहीं लगाया और मुझसे कहा कि तुम्हीं इसे हमलोगोंके सिरसे छुआ दो। मैंने उसे उठाकर उनके सिरसे छुआ दिया और प्रार्थना की कि बुद्धदेव उन दोनोंकी रक्षा करे।

इसके बाद मैं उनसे कुछ खानेको माँगना चाहना था कि सहसा दूरसे दो अश्वारोही आते हुए दिखलाई पड़े। जबतक

आँखोंमें लौंगका तेल लगाया और चाहा कि आँखें बन्द कर, थोड़ी देर सो रहूँ पर ऐसी कठिन पीडामें नींद कहाँ ? जब किसी युक्तिने काम नहीं किया तो मैं ध्यानस्थ होकर बैठ गया । इससे हृदयको कुछ शान्ति मिली ।

दूमरे दिन अक्टूबर सन् १६०० की पहली तारीख थी । बरफका गिरना आज बन्द था । और मेरी आँखोंमें बढत दर्द था । आँखें बन्द करके चल नहीं सकता था और खोले हुए रह नहीं सकता था इससे मार्ग चलना कठिन हो गया था । चलते चलते राहमें मैं गिर गिर पडता था । चार दिनसे खानेको न मिलनेके कारण जरा भी शक्ति नहीं रह गयी थी । एक छोटासा पत्थर भी राहमें आ जानेसे ठोकर खाकर गिर जाता था । चलते चलते मेरी ऐसी दुरवस्था हो गयी थी कि आँखोंकी पीडा के कारण और शरीरमें बल न रहनेके कारण मैं बैठ गया और मुझे यह ज्ञात हुआ कि यहींपर मर जाऊँगा । पर अभी मृत्यु कहीं अडोस पडोसमें भी नहीं थी । मैं धरतीपर पडा हुआ था कि सहसा मैंने एक अश्वारोहीको देखा । मैं खडा हो गया और उसे अपने पास आनेका इशारा किया । मैंने चिल्लाकर बुलानेकी भी चेष्टा की पर दो शब्दोंके अतिरिक्त और कुछ भी मुहसे न निकला । अश्वारोहीने मुझे देखते ही घोडा मेरी ओर फेरा । पास आकर उसने मुझसे पूछा—‘तुम यहा कैसे आये और क्या कर रहे हो ?’ मैंने घडी कठिनतासे उसको समझाया कि मुझे डाकु आँने लूट लिया और जो कुछ मेरे पास बच गया था वह भी

कहीं गिर गया। आज मुझे बिना अन्नके चौथा दिन है। वह युवक बड़ा ही दयालु था। यद्यपि उसके पास पानेको बहुत था तथापि उसने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ीसी मिठाई दे सकता हूँ जो कि यहापर प्रायः अप्राप्य है। उसने जो मिठाई मुझे दी उससे मैंने ऐसी शीघ्रतासे निगल लिया कि मुझे यह भी नहीं मालूम पडा कि उसका स्वाद कैसा था।

मैंने उससे पूछा—“क्या मुझे ठहरनेके लिये कहीं स्थान मिल सकता है ?” उसने उत्तर दिया—‘मैं यात्री हूँ। मेरे माता पिता कहीं पहाडके पास रहते हैं। वहा तुम्हें सब भातिकी सुविधा मिल सकती है। तुम वही आओ। मैं जल्दीमें हूँ।’ इतना कहकर उसने अपना घोडा तेजोसे बढाया।

यहासे खेमा प्रायः दो मील था पर मैं नहीं कह सकता कि मैं कितनी बार ठोकर खाकर गिरा, सुस्ताया और बरफ खाकर आगे बढा पहुच सका। वहातरु पहुचनेमें मुझे प्रायः ३ घंटे लगे और वहा ११ बजे पहुचा। उस युवकने मेरा सादर स्वागत किया। उसके माता पिताने भी मुझे मृत्युके मुखसे बचनेके लिये बधाई दी और तिव्यतके उत्तम भोजनसे मुझे सन्तुष्ट किया। मैंने अन्न नहीं खाया क्योंकि अन्न लगनेका भय था, भोजनोपरान्त थोडासा दूध पी लिया। आखोंकी पीडा अभीतक कम न हुई थी। बरफसे आखोंको ठण्डा करनेके अतिरिक्त मेरे पास और कोई ओषध भी न थी। यद्यपि मुझे सोनेके लिये बहुत अच्छा विस्तर मिला था फिर भी पीडाके कारण नींद न आई।

ये लोग यात्री थे। दूसरे दिन सवेरे डेरा डण्डा उखाड़कर आगे बढ़े। मुझे भी घहासे खलना पडा। जयतक ये लोग असवाव लादनेमें व्यस्त थे, मैं चाय आदि पीकर नित्यकर्मसे निवृत्त होकर खेमोंकी सँरको चल दिया। खेमोंके पास पहुँचते ही कई एक बड़े बड़े कुत्तोंने मेरी अभ्यर्थना की। आंखोंकी पीडाके कारण मैं यथेष्ट रूपसे उनसे अपने आपको न बचा सका। जयतक मैं आँखें खोलकर लाठी हिलाता रहा तबतक तो वे मेरे पास न आये ज्योंही पीडावश मेरी आँखें बन्द हुईं कि पीछेसे एक कुत्तेने मेरी लाठी पकड ली और दूसरेने मेरा दाहिना पैर पकड लिया। मैं गिर पडा।

मैं चिह्ला उठा जिसे सुनकर कई लोग दौड़ पडे और पत्थर मारकर कुत्तोंको भगा दिया। मेरे घावसे रक्त बह रहा था मैं उसको पकड़कर बैठ गया था। इतनेमें एक बुढियाने आकर मुझे एक औषध दी और कहा कि ऐसे घावोंके लिये यह बहुत उपयोगी है। मैंने औषध लगाकर पट्टी बाध ली पर उठकर पडा न हो सका।

पर वहा पडा रहना भी असम्भव था। अतएव मैंने उन लोगोंसे पूछा कि कोई आलू लामाका पता जानता है। उत्तरमें एकने मुझसे पूछा, क्या तुम आलू लामाको जानते हो? मैंने कहा—“हा”। तब उनमेंसे एकने कहा—“मैं तुम्हें अपने घोडेपर बैठाकर वहा पहुँचा दूँगा। वे चिकित्सा भी करते हैं। तुम्हारे घावको और आँखकी दर्दको शीघ्र अच्छा कर देंगे।” मैं लकड़ीके

सहारे उठा और घोड़ेपर सवार हो गया। मैं एक ऐसे स्थानपर पहुंचा जहां दो खेमे लगे हुए थे, तब मैंने देखा कि आलचू लामाके खेमोंसे ये छोटे हैं। पूछनेपर मालूम हुआ कि वह आलचू लामाके श्वशुरके खेमे हैं। मुझे किसी न किसी भाति लामाके पास पहुंचना था उसके विषयमें मैं घात चीत कर रहा था कि लामाकी खीने भीतरसे मेरा शब्द पहचाना और बाहर निकलकर मुझसे पूछा 'क्या तुम वही लामा हो जो तिसेकी चोटीके दर्शन करने गये थे।'

मैंने पूछा 'लामा कहा है ?'

'वह यहासे दो मोल पूर्वमें रहते हैं।'

'मैं उसके पास जाना चाहता हू। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे वहा पहुंचा दे ?'

'मेरा अब उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न मैं तुम्हे वहा पहुंचा सकती हू। यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जो तुम्हें लाया है उसे वहा तकका मार्ग बता दूंगी।'

'पर तुम अपने घर क्यों नहीं चलती ?'

'ओह ! उससे बढ़कर दुष्ट मनुष्य इस सत्सारमें दूसरा नहीं है। मैंने उसे छोड़ देनेका विचार दृढ़ कर लिया है।'

'यह तो अनुचित काम है।'

इसके पीछे मुझसे उसकी बहुत बातें होती रहीं। अन्तमें मैं आलचू लामाके डेरेकी ओर चला।

जिस समय मैं पहुंचा लामा घरपर नहीं था। उसके

नीकरोंने मुझे टिकाया । जब वह लौटा तो मैंने उससे अपना सब हाल कह सुनाया और औषध मागी । उसने मेरे घावमें औषध लगाई और जुलाब दिया । उसने कहा कि कुत्तोंका विष शरीरसे निकाल देनेके लिये जुलाब बहुत लाभदायक होता है । मैं उसके यहा एक सप्ताह रहा । इतने दिनोंमें मेरे घाव और आँखें बहुत अच्छी हो गई । एक दिन मैंने लामासे पूछा—“तुमने अपनी पत्नीको मैके क्यों भेज दिया है ।” इसके उत्तरमें उसने अपनी पत्नीमें दोष बतलाये । दोष दोनोंहीने बतलाये पर यह कहना कठिन था कि किसका पल्ला भारी है । मैंने उसे समझाया कि मनुष्यका धर्म है कि वह अपनी स्त्रीको सन्तुष्ट रखे । अपनी बातोंका समर्थन मैंने बुद्धधर्मके आधारपर किया । परिणाम यह हुआ कि उसी दिन उसने अपने दो नीकरोंको श्वशुरालय भेजा । उसकी पत्नी कुछ आपत्तिके बाद उसी दिन लामाके घर आ गई । मैं वहा दस दिन ठहरा और समय समय पर दम्पतिको अच्छे अच्छे उपदेश सुनाता रहा । इतनेमें मैं भी एकदम नीरोग हो गया ।



चौतीसवां परिच्छेद

गुफावासी साधुसे फिर भेंट ।

आलचू लामाके यहा रहकर स्वास्थ्य लाभकर मैंने भी लाग रिन पोचेके दर्शनोंके लिये पुन जाना स्थिर किया । मेरे साथ आलचू लामा, उसकी स्त्री और उसके तीन नौकर चले । हम-सब घोड़ोंपर सवार थे और एक घोड़ेपर सामान लदा था । हमलोग तेजीसे चले और प्राय १३ मीलकी दूरी ग्यारह बजेसे पहले ही पार कर ली । गुफाके पास पहुचकर हमलोगोंको थोड़ी देर ठहरना पडा । जब समीप आया तो गुफाके द्वारपर तीस मनुष्य अपनी अपनी भेंटें लिये हुए दर्शन करनेके लिये प्रस्तुत थे ।

जब सब लोग दर्शन करके रवाना होने लगे तब लामा महाशयने मुझे रोककर कहा "मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं । यह सुनकर आलचू और उसके साथी मुझसे बिदा होकर लासा-की तरफ चले गये । मैं लामा महाशयके सामने बैठ गया, वे कुछ स्मोच रहे थे । इसका आशय मैं समझ गया । जिन समय मैं आलचू लामाके खेमेपर पहुचा था उस समय मैंने सुना था कि लोगोंने यह कियदन्तो प्रसिद्ध हो गई थी कि मैं चीनी लामाके वेपमें अ प्रोजी गुप्तचर हूँ और तिब्बतका हाल मालूम

लिये आया हू। सम्भव है कि यही सम्वाद भी लग रिन पोचेके कानतक पहुँचा हो और इसीके विषयमें वह मुझसे कुछ कहना चाहते होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा—“आप इतनी कठिनाइयोंकी झेलकर भी क्यों जा रहे हैं ?” मैंने उत्तर दिया—“मैं समस्त जीवोंके परित्राणका यत्न करनेके लिये बौद्धधर्मकी शिक्षा समाप्त करने जा रहा हूँ।

लामा—समस्त जीवोंके परित्राणकी तुम्हें इतनी चिन्ता क्यों है ?

मैं—क्योंकि वे घोर यन्त्रणामें पड़े हैं।

लामा—तुम्हारा अभिप्राय प्राणी मात्रसे है।

मैंने भी उसी तर्जमें उत्तर दिया—“जबतक मैं अहंज्ञान-हीन हू तबतक मैं समस्त जीवोंका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ ?”

यह सुनकर लामा हसे और बात बदलते हुए मुझसे पूछा “क्या कभी प्रेमके चक्रमें पड़े हो ?” मैंने उत्तर दिया—“एकवार इसके फेरमें पडकर मैंने बहुत दुःख उठाया था और बड़ी कठिनाईसे उससे मुक्ति पाई थी पर अब तो वह विचार नहीं है और आगे होनेका भय भी नहीं है।” इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा “जब तुम्हें डाकुओंने लूटा था उस समय उन्हें घृणाकी दृष्टिसे देखा था और चले जानेपर उन्हें शाप दिया था कि नहीं ?” मैंने उत्तर दिया—“घृणा करनेकी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैं लूटे जानेके ही योग्य था। मुझे अपने ही ऊपर घृणा आ रही

थी कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया जिसके कारण यह क्लेश उठाना पड़ा। लूटे जानेपर मैं प्रसन्न हुआ कि उस पापसे मेरी मुक्ति हो गई। ऐसी स्थितिमें मैं उनको शाप क्यों देता ? बल्कि मैंने उनके लिये प्रार्थना की कि इस जन्ममें नहीं तो उस जन्ममें ये लोग साधु प्रकृति ग्रहण करें।” यह सुनकर लामा महाशयने कहा—“तुम्हारी बातोंपर मुझे पूरा विश्वास है पर सम्भव है कि लासाके मार्गमें तुम्हें ऐसे धीरे भी डाकू मिलेंगे जो तुम्हें जानसे मार डाल सकते हैं तब तुम ममस्त/ जीर्णोका परित्राण नहीं कर सकोगे। इससे उचित होगा कि तुम लासा जानेका विचार छोड़ दो और नेपालको लौट जाओ। लोसे नेपालको बहुत अच्छी सड़क गई है। यहासे तुम लो चले जाओ। यदि तुम लासा जाओगे तो मुझे भय है कि तुम अवश्य ही मारे जाओगे। यदि वास्तवमें जीर्णोके परित्राणकी सत्कामना है तो और उपायोंसे भी यह सिद्ध हो सकती है। इससे मेरी इच्छा है कि तुम लासा न जाकर नेपाल लौट जाओ।”

जब किसी प्रकार मैं विचलित न हुआ तो उन्होंने पूछा—
“तुम किस राहसे जाओगे ?”

मैंने उत्तर दिया—“मैं पहाडकी घाटियोंसे होकर सीधे राजधानी जाऊंगा।”

यह सुनकर लामा महाशयने कहा—“पर यह सम्भव है। इसमें तुम्हारी मृत्यु अवश्य है। अच्छा होगा कि नेपाल लौट जाओ। मैंने उत्तर दिया आपका कहना यथार्थ है पर मैं

और मरणके विषयमें निरपेक्ष हूँ। सच्चे आत्मविश्वास अनुसार कुछ करते जाना ही मेरा परम लक्ष्य है।

कुछ देर लामा महाशय चुप रहे फिर धर्मके गुढ रहस्यों चर्चा छेड दी, विशेषकर तिब्बतकी गुप्तपुस्तक "मणि" के विषयमें और बड़ी सध्यातक बातचीत होती-रही।

लामाका सन्देह अधिकांश दूर हो गया उन्होंने कहा—“मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुमसे सच्चे बौद्ध मतावलम्बीको न जलोग क्यों गुप्तचर बतलाते हैं।” मेरी यात्राकी सहायताके लिए उन्होंने चाय, बहुतसी रोटी, तावेकी कढ़ाई और बहुतसी आवश्यक वस्तुएँ दीं। सब वस्तुएँ लगभग ६०) रुपयोंकी थीं। मैंने कहा इतना सामान पीठपर लादकर न चला जायगइसे कुछ कम कर दीजिये। उत्तरमें उन्होंने कहा कि रास्ते स्थान २ पर मेरे शिष्य तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे वेगको देखते वे तुम्हारा सामान भेज देनेकी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने बातका वचन दिया कि प्रातःकाल तुम्हें “मणि” का गुप्त बतला दूंगा।

मैंने सडकसे होकर जाना ही स्थिर किया क्योंकि पहल मार्गमें लामाके शिष्य मिलेंगे जो सहायना करनेके बदले आवश्यक सन्देह करे गे।

दूसरे दिन “मणि” की गुप्तदीक्षा प्राप्तकर मैं दोपहरके बहासे रवाना हुआ। बोझ भारी था, १० मील पहाड चढे मुझे सामने दो खेमें दिखाई दिये। पास पहुँचनेपर एक मः

घाघर निकला, उसने आकर मुझे प्रणाम किया। मैं चकित हो गया, मैंने इस मनुष्यको कभी भी नहीं देखा था और न यहा मुझे कोई जानता ही था। पर मैं चुपचाप उसके साथ खेमके भीतर चला गया तो मैंने देखा कि आलचू लामा विराजमान है। उसने मेरी धार्मिक निष्ठाकी चर्चा इन लोगोंसे की थी और ये लोग मेरा आशीर्वाद लेनेके लिये उत्सुक थे। आलचू लामाके कहनेके अनुसार मैंने उन लोगोंको आशीर्वाद दिया और वहासे उस मनुष्यको लेकर घोड़ेपर सवार होकर रवाना हो गया। यह घोडा और मनुष्य उसने मेरे लिये तैयार किये थे। वहासे चलकर कई छोटी बडी नदिया पार करता हुआ मैं आगे बढा। आगे जाकर मैं एक विपत्तिमें फस गया जिसका उल्लेख मैं अगले परिच्छेदमें करूंगा।

पैंतीसवां परिच्छेद

सुखके दिन।

एक नदीके किनारे बहुत बडा दलदल था। जहापर यह सबसे कम अर्थात् चार गज चौडा था वहास उसे पार करनेका मैंने विचार किया। उस दलदलका मैंने भली भांति परीक्षा कर ली। पर ज्योंही मैंने आगे पैर बढाया मैं उसमें धँस गया। जैसे जैसे मैं अपनी लाठोकी सहायतासे

निकलनेकी चेष्टा करता था वैसेही मैं और भी घसता जाता था अन्तमें पीठपरका घोभ्र मैंने किनारेपर फेंक दिया। कपड़े भी उतारकर फेंक दिये। और मैं दलदलके ऊपर लाठीके सहारे लेट गया और लाठीके ऊपर सहारा देकर पैरोंको नीचेसे निकालने लगा। इस भाँति बड़ी कठिनाईसे उस चार गजको पार कर जान बचाई।

मैं जाड़ेके मारे कांप रहा था। मैंने गीले कपड़ोंको निचोड़कर पहन लिया। सामने थोड़ी दूरपर सडकके किनारे एक खेमा लगा हुआ था उसमें ही रात काटी।

तिब्बतमें सडकोंका प्रायः अभाव है। अच्छी सडकें तो हैं ही नहीं जिनपरसे होकर घोडा गाडो जा सके। जिस मार्गसे लोग बहुत जाते हैं उसे ही सडक कहते हैं पर उनपर गाडिया नहीं चल सकतीं। कई वर्षकी बात है नेपालके राजाने दलाई लामाको एक अग्रेजी ढगकी चार घोडोंकी गाडी उपहार भेजी। दलाई-लामाके सलाहकारोंने उसे लौटा देनेको सलाह दी क्योंकि वह बेकार थी। पर यह सोचकर कि नेपालके राजाका अपमान होगा लासामें रख ली गई और आजतक वहीं पडी है।

तिब्बतमें लासा और शिगात्जेके अतिरिक्त और कहीं सडक नहीं है। वहासे दिनभर चलनेपर मुझे एक खेमा मिला। यह मदिराकी दूकान थी। इस स्थानपर एक मेला लगता था। उसीके निमित्त यह दूकान लगाई गई थी। यहां शाम होते होते मैं पहुंचा, खेमेमें तसरगनियासी पूर्व परिचित एक वृद्धा थी।

मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने मुझसे पूछा—“क्या आप तसरंग चलेंगे ?” मैंने उत्तर दिया—“नहीं।” उसने मेरी इतनी अधिक खातिरदारी की कि यदि दूसरा कोई होता तो मैं उसे कभी भी स्वीकार न करता।

जब मैं वहासे चला तो बुढियाने मेरा असबाब ढोनेके लिये एक पहाडी मैसा और राह दिवानेके लिये अपना नौकर साथ कर दिया। १२ मील चलकर मैं ग्यालचम नामी व्यक्तिके पास पहुँचा। वृद्धाने मेरे धारेंमें उसके पास कहला भेजा था। यह बहुत धनी था अर्थात् इसके पास दो हजार पहाडी मैसे पाच हजार भेदे और अतुल धन था। उसका एक खेमा ६० गज लम्बा चीडा था और उसीमें पत्थरका एक मन्दिर था।

ग्यालचमकी अवस्था प्राय पचहत्तर वर्ष और उसकी पत्नीकी अवस्था अस्सी वर्षकी थी। वह धन्धी थी। उनको कोई सन्तान नहीं थी। तिब्बतके नियमके अनुसार वे गोद भी नहीं ले सकते थे। यदि कोई मनुष्य नि सन्तान मर जावे तो प्राय उसका निकटतम सम्बन्धी उसकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी होता है। वृद्धदम्पतिने बौद्धधर्म विषयक बहुतसी बातें मुझसे पूछी जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह उन्हें समझाया। मेरे उपदेशोंको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—“आप यहा वर्ष दो वर्ष रह कर मेरे लिये कुछ पूजा पाठ कर दीजिये। क्योंकि इह लोकमें तो मुझे कोई कारण नहीं, परलोकके लिये कुछ कर जाना है।”

मैं भी थक गया था और विश्राम चाहता था। इससे

दिनके लिये ठहरना स्वीकार कर लिया पर वर्ष दो वर्षतक ठहरना मैंने उचित न समझा। क्योंकि पहले तो मुझे अपने विषयमें फैली हुई किंवदन्तीका भय था और दूसरे वहाकी सर्दीका सहन करना मेरे लिये असम्भव था क्योंकि अपने मेजवानसे दो समूरके कोट उधार ले चुका था फिर भी सर्दी लगती ही थी।

मेरी स्वास्थ्यविषयक चिन्ता अकारण न थी। एक दिन मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे गलेमें कोई वस्तु अटक गई है। मैंने उसे बाहर निकाला तो वह रालका एक गोला मालूम हुआ। इसके थोड़ी ही देर बाद मेरे गलेसे रक्त निकलने लगा। मुझे क्षयी रोगका सन्देह हुआ। परन्तु मेरे धर्मने ही मुझे भयभीत न होने दिया। मैं वही घासपर बैठ गया और श्वास रोकने लगा। इससे रक्तकी गति बन्द हो गई। पर उतने ही समयमें बहुत रक्त निकल गया था और मेरा चेहरा पीला पड गया। जिस समय मैं घरपर आया मेरे मेजवान बहुत ही भयभीत हुए। पर जब मैंने सब हाल कह सुनाया तो बोले "बहुधा खोनी यात्रियोंको यहा यह रोग हो जाया करता है।" उन्हें इस रोगकी बहुत अच्छी औषध मालूम थी उन्होंने उसे मेरे गलेमें लगा दिया जिससे क्षयी रोगकी चिन्ता मिट गई। तीन दिन बाद फिर थोडा सा रक्त मेरे मुहसे निकला। उसपर उन्होंने कहा कि दो बार थोडा २ रक्त और निकलेगा फिर कभी नहीं निकलेगा। उन की यह बात यथार्थ थी क्योंकि लामामें भी वैसा दुख नहीं हुआ। चोग्वा १५००० फीटकी ऊचाईपर है और लासा केवल

१२००० फीटकी ही ऊँचाईपर है मेरे मेजवानने दूध आदि पोषक पदार्थ मुझे खिलाये । एक सप्ताह रहकर मैं उनसे विदा हुआ । उन्होंने यी नामक विल्लीका चमड़ा मुझे दिया और कहा कि यही एक वस्तु है जो मुझे यहापर उपयोगी होगी । यह विल्ली प्रायः घरफमें रहती है । यह साधारण विल्लीसे बड़ी होती है और इसके चमड़ेका तिब्बतमें बहुत मूल्य समझा जाता है । यह चमड़ा एक प्रकारकी टोपी थी जो कन्धोंतक आ जाती थी । वैसी नयी टोपी पचीस और पुरानी दस येनमें आती है । मुझे सद सिक्के और थोडा मखन एक घोडा और पथ प्रदर्शक दिया । वहासे दस मील चलकर मैं एक गावमें पहुँचा, और गावके मुखिया अजोपूके घर ठहरा ।

वहासे मैं तारीख २६ अक्तूबर सन १६०० को विदा हुआ और नित्यप्रति कष्ट उठाता हुआ तारीख १ नवम्बरको तादुन नगरमे पहुँचा । तिब्बतके उत्तरीय प्रान्तमें यह नगर प्रथम श्रेणीके नगरोंमें है । यहा एक मन्दिर बहुत अच्छा है ।

बत्तीसवां परिच्छेद

शंका समाधान

दूसरी नवम्बर मेंने मन्दिरका दर्शन करनेमें पितायो । यह तसरग नगरसे ठीक उत्तर ६९ मील दूर है । यहा लो के सोदा-

गर बहुधा आया करते हैं। जिस समय मैं मन्दिरके बाहर घूरा रहा था मेरा एक पुराना परिचित मनुष्य जो बड़ा भारी शराब और ज्वारी था, दिखलाई पडा। हिमालयके अधिवासी भैं उससे डरते थे। जब मैं लोमें था, वह अग्रोजी गुप्तवर कहकर मुझे गालिया दिया करता था। उसी समय उसके घरका एक आदमी बीमार हो गया। मैंने दवा देकर उसे अच्छा किया तबसे वह कुछ मुलायम हो गया था। पर मुझसे लडनेके लिये वह सदा अवसर ढूढता रहा। इसलिये यह स्पष्ट था कि यदि इस अवसरपर मैं उसकी उपेक्षा करू तो तिव्वत सरकारको मेरी सूचना दे सकता है। ऐसा विचार कर मैं उसके पास गया और हसकर बोला कि मुझे आपसे आज मिलकर बड़ा हर्ष हुआ। मैंने सुना है कि यहा शराब बहुत अच्छी मिलती है यदि आप मेरा निमन्त्रण स्वीकार करे तो मैं उत्तमसे उत्तम शराब आपके लिये सग्रह करूँ। उसने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया।

मैंने बहुतसी बढिया शराब मगाई और सवेरे ५ बजेतक उसे पिलाता रहा। मैंने स्वयं उसे छुआ तक नहीं, पर मैंने नशेमें चूर होनेका ही भाव प्रकाशित किया। पीते पीते वह अचेत होकर सो गया। मैं भी सोनेका वहाना करके लेट रहा। जब ५॥ बजेके समय शराबवाला सोकर जागा तो मैं भी उठ बैठा। मैंने उससे कहा कि जो मनुष्य सो रहा है मेरा बड़ा भारी मित्र है। इसको कहीं बाहर मत जाने देना और ज्योंही उठे त्योंही उसे बढिया शराब पिलाना। जब वह मेरी खोज करे तो बतला देना कि मैं

तसरग चला गया। यह कह कर मैंने उसका किराया आदि चुका दिया, और उसे यथेष्ट पारितोषिक दिया जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। छ यजते यजते मैं वहासे चल दिया।

मैंने तसर गकी ओर न जाकर लासाकी सडक पकडी। पर उसका भय मेरे हृदयसे दूर नहीं हुआ था क्योंकि यहापर यह मनुष्य बडा भयानक समझा जाता था। वह सराबवालेपर ही सन्देह नहीं कर सकता था बल्कि मेरी कार'चाईपर भी सन्देह कर तिव्यत सरकारके आदमियोंसे मेरे लासा जानेके विषयमें कह सकता था और यदि अश्वारोही मेरा पीछा करते तो मैं किसी तरह भी बच नहीं सकता था। इससे मैं अधिकाधिक व्यय करके भी एक घोडा या एक मनुष्य समान ढोनेके लिये लेना चाहता था पर वह प्रदेश विल्कुल ही निर्जन था। मैं तीव्र गतिसे दक्षिणपूर्वकी ओर चला जा रहा था कि सहसा बहुतसे अश्वारोही पीछेसे आते हुए दिखाई पडे।

यह एक काफला था जिसमें ८०-६० घोडे और १६ मनुष्य थे। मैंने उनमेंसे एकको रोककर कहा मेरा सामान घोडेपर लाद लो और मैं पीछे २ भागता चलूंगा। इसके लिये मैं तुम्हे कुछ दे दूंगा। वह मनुष्य नौकर था इससे ठीक उत्तर न दे सका। निदान दूसरे मनुष्यके पास गया जो स्वामी मालूम होता था। उससे मैंने अपना अमिप्राय कह सुनाया। उसपर उसने उत्तर दिया—“इस समय मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। पर सामनेके पहाडोंकी घाटीमें हमलोग यह रात काटेंगे।”

आप वहातक पहुँचनेका फ़ष्ट उठावें तो वन्दोयस्त हो सकता है। मैंने उसकी यात मान ली और वहातक पहुँचनेके लिये हिम्मत बांधी। आठ बजते बजते मैं वहा पहुँचा। वहाँ दो बड़े बड़े श्वेत खेमे लगे थे। सबसे बड़ा और दूसरा अफसर मुझे लामा मालूम हुआ। यह दल धार्मिक प्रतीत होता था। उन्होंने मुझे चाय और मास खानेको दिया। मैंने कहा—“मैं मास नहीं खाता” और इसका कारण भी बतलाया। मेरे उत्तरपर वे लोग बड़े प्रसन्न हुए और मुझसे पूछा—“कहासे आये हो।” मैंने उत्तर दिया कि “मैं चीनी पुरोहित हूँ।” लामाने यह सुनकर मुझसे चीनी भाषामें बार्ने करना आरम्भ किया। पर मैंने उससे कहा कि आप पेकिंगकी भाषामें बातचीत कर रहे हैं इससे मैं आपकी बातें नहीं समझ सकता। अतएव हमलोग तिब्बती भाषामें ही बातचीत करने लगे। उन्होंने मुझे चीनी अक्षर पढ़नेके लिये दिये और जबतक उसे पढ़कर मैंने उनका सन्देह दूर न कर दिया तब तक वे पूछताछ करते ही रहे।

मुझे मालूम हुआ कि वह लहाखके पासके एक मन्दिरके लामा हैं। वे लोग कश्मीरसे सूखी नाशपाती, अगूर, सेब, और ऊनी सामान लाते हैं। और यहासे चाय और बुद्धदेवकी तस्वीरें ले जाते हैं। इन लोगोंके साथ मुझे बड़ा आराम मिलता पर मैं उनके साथ लासा तक जाना नहीं चाहता था।

लामाने मुझसे बौद्धधर्मकी शिक्षा और तिब्बती बौद्धधर्मके विषयमें अनेक प्रश्न किये। तसरद्गमें डाकूर ग्वालत्सनसे मैं

बुद्धधर्म, व्याकरण आदिकी शिक्षा मली प्रकार पा चुका था इससे मैंने आसानीसे उनके प्रश्नोंका उत्तर दे दिया, बल्कि और भी कई ऐसी बातें बतलाईं जिनसे वे सर्वथा अनभिज्ञ थे।

मेरा उत्तर सुनकर वे बहुत ही विस्मित हुए और व्याकरणके सैकड़ों प्रश्न मुझसे किये मानों वह व्याकरण सीख रहे हों। मेरे व्याकरणज्ञानसे वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए और बोले—“तुम मेरे साथ चलो। हमलोग प्रतिदिन दो बजेतक यात्रा करते हैं उसके बाद हमको छुट्टी है इसी समय में व्याकरण पढा करूंगा, इसके लिये मैं तुम्हें यथेष्ट रक्या दूँगा और भोजन भी दूँगा।” मैं भी यही चाहता था। यदि वह मुझे कुछ भी न देता तो भी मैं इस कामके करनेके लिये तय्यार था।

दूसरे दिन सबेरे ४ बजे ज़र मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि वह लोग याकके कन्डेपर चाय बना रहे हैं। प्राय सब ही लोग डठ चुके थे। उनमेंसे कुछ लोग घोड़ोंको खोजनेके लिये गये जो रातको चरनेके लिये छोड़ दिये गये थे। ये जानवर कमी २ पहाड़ोंपर चले जाते थे। इसलिये इनके खोजनेमें कभी कभी घण्टों लग जाने थे। सब लोगोंने खा पीकर घोड़ोंपर सामान लादा। ये लोग १६ थे जिनमें १५ घोड़ेपर चलते थे और एक पैदल चलता था। यह मनुष्य विद्याभ्यासके लिये लासा जा रहा था। अतएव हम दोनों चाय पीकर पैदल ही चल दिये।

मेरा साथी विद्वान था और उसे अपनी विद्वत्तापर बहुत अभिमान था, यद्यपि बौद्धधर्मके विषयमें जानता बहुत ही

थोटा था। मैं उससे बहुत प्रसन्न था पर वह मुझसे भीतर ही भीतर डाह करने लगा। कारण यह था कि व्याकरण मैंने लामाको बतलाया था, उसके विषयमें कुछ भी नहीं जानता था। वह कहता था कि बुद्धधर्मका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किये बिना व्याकरण रटनेमें व्यर्थ समय खोना मूर्खता है। यही कारण था कि वह मुझसे और भी जल लगा था।

दूसरे दिन बीस मील चलकर हमलोग फिर ठहरे आ लामाके आज्ञानुसार मैंने फिर व्याकरणके ऊपर व्याख्या दिया। इसी तरह हमलोग बराबर बढ़ते गये। अब वह मेरे जान्न करने लगा, मेरा गोरा रंग देखकर वह मुझे अप्रेज समझने लगा। बातों ही बातोंमें उसने मुझसे कहा—“तुम हिन्दुस्तान हो कर आये हो तो तुम शरत्चन्द्रदाससे अवश्य ही मिले होंगे जो तिब्बतने एक बार आये थे।” मैंने उत्तर दिया—“मैं उनका नाम भी नहीं जानता। क्योंकि हिन्दुस्तानकी आबादी ३० करोड़ है चाहे कैसा ही प्रसिद्ध मनुष्य क्यों न हो सब लोग उसे नहीं जान सकते।”

हिन्दुस्तान ओर तिब्बतमें बहुत भेद है; यह कहकर मैंने शरत् घाबूका कुछ हाल उससे जानना चाहा। इसपर उसने शरत् घाबूका तेईस वर्ष पहले आना तिब्बत सरकारको धोखा देकर बौद्धधर्मकी चुरा ले जाना, पीछेसे उसका पता चलनेपर तिब्बत के सभसे बड़े लामा साग चैन दीरजी चैनको मृत्युदण्ड होना

इत्यादि बातें बतलाई । उसने कहा शरत्चन्द्र हिन्दुस्तानमें बड़ा प्रसिद्ध आदमी है, यह कैसे हो सकता है कि तुम उसको न जानो ।

शरत्चन्द्र सम्बन्धी घटनाके बादमे यहाके लोग विदेशियों के प्रति बहुत चौकसे हो गये हैं । मैं भी उड़ी सावधानीसे काम लेता था । इसको इस प्रकार जाच करते देख अन्य भी मुझे घेरने और अनेक प्रकारके प्रश्नोंसे तड़कने लगे । विषय बदलनेके पयालसे मैंने उनसे पूछा—“आपलोग बुद्धकी उपासना करते हैं कि लोवन रिनपोचेकी । इस प्रश्नमें वे सध इतने उलझागये कि फिर उन्हें मेरे ऊपर सन्देह करनेका अवसर न मिला ।

सैंतीसवां परिच्छेद



मैदानके पार

अनेक पहाड़ोंपर चलकर ७ नवम्बर सन् १६०० को हमलोग एक लोहेके पुलपर पहुचे । इसे पुल नहीं कहना चाहिये । यह दोनों तिरोंपर दो चट्टानोंसे लोहेका बंधा हुआ एक तार था जिसे पकडकर लोग नदी पार करते थे । मैंने सुना कि लासामें एक और भी पुल है जिसमें दो जञ्जिरें बंधी हैं और उसपर लोग

बहुत आरामसे उतर जाते हैं। हमलोग घोड़ोंपर इस नदीको पार कर गये। यहांसे हमें ऐसे मैदानमें चलना पडा जहां हरियालीका कहीं नाम तक न था। प्रायः आठ मील चलनेपर हमलोग सकाजोंग दुर्गमें पहुंचे। इसकी बनावट मन्दिरकी सी थी। यहांपर सदैव सिपाही नहीं रहा करते हैं। परन्तु जब आवश्यकता होती है, वहांक रहनेवाले सिपाहीका काम करते हैं। मैंने सुना कि दो वर्ष हुए, उत्तरी मैदानकी रहनेवाली एक जातिने यहां डाका डाला था जिसमें यहांके २५-३० आदमी मारे गये और दो हजार पहाड़ी भैंसे छीन लिये गये।

६ तारीखको राहमें हमें एक विचित्र जानवर दिखाई दिया। यह देखनेमें तो याक मालूम होता था पर याकसे बहुत बडा था। पूछनेपर मालूम हुआ कि तिब्बतके लोग उसे डोंग याक अर्थात् जगली याक कहते हैं। यह साधारण याकसे तिगुना बडा होता है। इसकी ऊंचाई सात फीट थी। यह हाथीसे छोटा था पर इसकी आंखें बडी भयानक थी। यह जिस समय क्रुद्ध होता है मनुष्य अथवा और किसी जीवको सींगोंसे मारकर आहत कर डालता है। इसकी जिह्वा ऐसी खुरखुरी होती है कि यदि वह थोड़ी ढेर भी किसी वस्तुको चाटे तो उसके टुकडे टुकडे हो जाते हैं। मैंने उसकी सूखी हुई जिह्वा देखी। वह घोड़ेपर प्रश करनेके काममें लाई जा रही थी।

उस दिन सन्ध्याके मेरे एक साथीने मुझसे कहा कि आप पण्डित हैं इसलिये घतलाइये कि आज रातको कोई

नही आवेगी। मैंने समझा कि इस मनुष्यने जड़ली याक देखा है इसीसे भयभीत होकर ऐसी बातें पूछ रहा है।

पर यह बात नहीं थी। उसने कहा कि पार साल यहाँपर छ सौदागर डाकुओंके हाथ मारे गये थे और आज रातको मुझे ही पहरा देना है। उसे सन्तोष देनेके लिये मैंने उससे कहा—
“आज रातको किसी तरहका सकट नहीं उपस्थित होगा। वहाँकी स्थिति आपत्ति रहित नहीं थी क्योंकि डोंगयाकका बड़ा भय था। भाग्यवश रात शान्तिसे कटी और प्रातः काल हमलोग फिर चल दिये।

इतने दिनके सहवासके बाद उस अभिमानो पुरोहितका मन फिरा। उसने मुझसे मेल कर लिया। उसने भली भाँति देख लिया कि इस वैमनस्यसे सिवा हातिके लाभ नहीं है क्योंकि उस दलके सभी लोग मेरे भक्त और उपासक होगये थे। इससे मेरा भय जाता रहा कि वह तिग्रत सरकारको मेरे बारेमें सूचिन न कर दें।

तीन दिनमें ५५ मील चलकर हमलोग ग्यातो तजाम नगर पहुँचे। पहले पहल इसी नगरमें हमने इतने अधिक पत्थरके मकान देखे। यहाँकी भाषा भी कुछ सौम्य थी। ५ मील चलकर हमलोग एक नदीके किनारे पहुँचे और वहीं रात काटी।

नवम्बरका महीना था। कड़ाके की सर्द पड़ रही थी। पर साधियोंने इतना अधिक कण्डा घटोर कर आग जला दी कि जाड़ेका पता ही न लगा। तिसपर मुझे तो काफी

और बिछौना भी दिया गया गया था। बीस मील चलकर हमलोग सीसम गोम्पाके मन्दिरमें पहुँचे। वहाँसे बीस मील चलकर हमलोग साग सांगतजम नगर पहुँचे। रात वहीं काटी। इतनी अधिक सर्दों पड रही थी कि कण्डेकी आगका कुठ भी असर नहीं पड सका। प्रातकाल हमलोग एकदम कुहरेसे घिर गये थे।

अड़तीसवां परिच्छेद

बूचड़खानेमें चौद्धग्रन्थ।

हमलोग दक्षिणपूर्वकी ओर चार मील चलकर एक पहाड के नीचे पहुँचे। वहाँ तीन घर बने थे। मैंने उन मकानोंके ऊपर भेडोंके बहुतसे चमड़े लटकने हुए देखे तो मेरे चित्तकी अद्भुत अवस्था हो गई। इतना ही नहीं यहाँ याक भी मारे जाते थे। मैंने सुना कि यहाँके लोग मासको जाडेके अन्तमें सुखाकर रखते हैं। क्योंकि सर्दोंकी अधिकतासे उसके सडनेका भय नहीं रहता है। इस मासको तिब्बतके लोग अनुपम पदार्थ समझते और कहते हैं कि सन्सारभरमें ऐसी सुखाद वस्तु दूसरी नहीं। वे लोग कहते हैं कि गर्मोंमें घास खाकर इन पशुओंका मास बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। पर तिब्बतके लोग अपने गावमें अथवा अपने खेमोंके पास इस तरहकी हत्या करनेका साहस नहीं

करते । इसलिये यह मकान बना रखे हैं और चारों ओरके पशु यहीं लाकर मारे जाते हैं ।

यह हत्या किसी एक मनुष्य अथवा किसी एक कुटुम्बके लिये नहीं की जाती परन्तु पूरे गावके लिये की जाती है । जिस दिन हमलोग वहा पहुँचे उस दिन २५० चकरिया और भेड़ें तथा ३५ याक मारे गये थे ।

जो रक्त उन पशुओंके शरीरसे निकलता है उसे लोग एक वर्तनमें रोप लेते हैं । इससे वे लोग एक प्रकारका बहुत ही सुखाद भोजन बनाते हैं । जब उन लोगोंको यह भोजन बनाना होता है तो वे जिन्हे याकके शरीरमें चाकू मारकर रक्त निकाल लेते हैं । वे लोग कहते हैं कि इस भाति रक्त निकालकर जो भोजन बनता है वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना मारे हुए पशुके रक्तसे बना हुआ । जिस पशुके शरीरसे इस भाति रक्त निकाला जाता है वह फिर भी जीवित रहता है । कौंसो निर्दयता है ! पर मैं इतने हीमें घबरा गया, यह मेरो भूल थी । लामामें मुझे मालूम हुआ कि अबतूवर, नवम्बर और दिसम्बर इन तीन महीनोंमें प्राय ५० हजार जीव मारे जाते हैं ।

वहामे चलकर १६ नवम्बरको हम तन्नागगोम्बाके मन्दिरमें पहुँचे । वीस तारीखको हम लारङ्ग गावमें पहुँचे । यह गाव मानूई तुसो नामक भौलके किनारे बसा है ।



उन्तालीसवां परिच्छेद



तीसरी राजधानी ।

तिब्बतका तीसरा प्रधान नगर ।

इस भीलके पास मुझे गेहू की खेती देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । जाड़ेकी अधिकताके कारण मैं खेतीकी अवस्थाका निर्णय न कर सका । पर मैंने सुना कि जब १६ सेर बीज बोकर ६४ सेर उत्पन्न हो तो खेती साधारण समझी जाती है और जब ६६ सेर गेहू उत्पन्न हो तो खेती बहुत अच्छी समझी जाती है । पर लासाके पासकी धरतीमें गेहू १२८ या १६० सेर तक पैदा होते हैं ।

इससे तिब्बतकी खेतीकी दुरवस्था प्रगट होती है । यहांके लोग कृषिमें परिश्रम नहीं करते हैं और न धरतीके सुधारनेकी ही चेष्टा करते हैं । मैंने एक किसानसे पूछा कि तुम अपने रोतोंको साफ क्यों नहीं करते और उसमेंसे पत्थर इत्यादि क्यों नहीं निकालते । उत्तरमें उसने कहा—‘हमारे यहां ऐसा करनेकी रीति नहीं है ।’

तिब्बतमें जिन खेतोंमें काग्न होती है उनके ऊपर लगान लगानेकी एक अद्भुत रीति है । पहले ही कहा जा चुका है कि तिब्बतके लोग गणितसे नितान्त अनभिज्ञ हैं । अतएव दो याकोंके घटसे जितनी धरती जोती जा सके उसके नापसे लगान लगाया

जाता है। यदि कोई पूछे तो किसान कहेगा कि मेरे पास आधे दिनकी जोतके अथवा एक दिनकी जोतके खेत हैं। और उसीके हिसाबसे उसे लगान देना पडता है। वहाके चारोंमें आवश्यक बातें जानकर हमलोग आगे बढ़े और प्राय. १२ मील चलकर हमलोग ठहर गये। दूसरे दिन ५ मील चलकर हमलोग नाम सोगोगा झीलके किनारे पहुँचे। इसकी परिधि प्राय १२ मीलकी था। जल इसका बहुत ही निर्मल था। यहासे ७॥ मील चलकर हमलोग ठहर गये। दूसरे दिनसे हमलोग तेजीके साथ अर्थात् २५ मील प्रतिदिनके हिसाबसे चलने लगे। इसका कारण यह था कि अबतक तो हमलोग पहाडों और जङ्गलोंमेंसे होकर जाते थे। इससे जहा कहीं होता था पशुओंको चरनेके लिये छोड देते थे। पर अब घनी वस्तियोंमेंसे होकर जाना पडता था इससे चारोंकी तकलीफ होती थी। २२नवम्बरको १२ मील चलकर हमलोग ब्रह्मपुत्रके किनारे पहुँचे। यहां नदीकी चौडाई प्राय २०० गज थी पर गहराई अथाह थी। अतएव हमलोग घोडोंपर नहीं उतर सकते थे। यहापर उतरनेके लिये हमको नाव मिली जो बिलकुल ही हिन्दुस्तानकी नावोंसे मिलती जुलती थी। इसमें ३०—४० आदमियों और बीस घोडोंके लिये स्थान था। नदीके उस पार होते ही हमलोग ल्हारचे नगरकी सरहदमें पहुँच गये। यह तिब्बतका तीसरा प्रधान नगर है। अब हम कह सकते थे कि हम तिब्बतके भीतर पहुँच गये, क्योंकि तिब्बतका दूसरा प्रधान नगर शिगात्जे केवल पाच दिनकी राहपर था।

यह घाईस नवम्बरकी घटना है। २३ को हमलोग साथ ही उसी सरायमें रहे। २४ को मैं उन लोगोंसे विदा होतवाला था। इससे उनके सत्कारकी प्रशामामें मैंने उन्हें 'होके फ्यू' पढ़ कर सुनाया।

दक्षिणकी ओर एक मरार्य थी जो चीनके लोगोंकी बनगार्ह हुई थी। यह सराय बहुत बड़ी है पर मुसाफिरोंके ठहरनेका कोई बन्दोबस्त नहीं है। इसमें चीनी व्यापारी और सरकारी सिपाही ठहरते हैं। रातको हमलोग इसी सरायमें ठहरे। यहा पहुचकर हमलोगोको सन्तोष हुआ कि मार्गमें किसी तरहका विघ्न नहीं उपस्थित हुआ और चोर डाकुओंसे भी लूटे नहीं गये। इस उपलक्ष्यमें हमारे साथियोंने रात खूब आनन्दमें बिताई।

रातभर उन्होंने शराबखोरी, आमोद और नाचगानमें बितायी। तारीख २४ नवम्बरको मैं अपने साथियोंसे विदा हुआ। विदा होते समय प्रधानने मुझे व्याकरणके पढानेके बदले दस रुपये दिये और कुछ रुपये अन्य लोगोंने दिये। इनमेंसे चन्द मेरे साथ चलनेवाले थे। इससे मैं अकेला नहीं था। लामा, छोटे लामा और एक नौकर नो मेरे साथ शाक्य मुनिके मन्दिरकी ओर चले और बाकी लोग शिगातुजेको रवाना हुए। लामाने मुझे चढनेके लिये एक घोडा दिया था इससे मेरी यात्रा बड़ी ही सुगम हो गई थी।

यहाँसे हमलोग सीधे दक्षिणकी ओर चले। पाच मील

चलनेपर हमें गेहूँके खेत मिले जो बहुत अच्छी अवस्थामें थे । तिब्बतमें ल्हारचे ही एक पेना स्थान है जहां गेहूँ, जौ, मटर और मक्खन सस्ता मिल सकता है । पन्द्रह मील चलकर हमलोग ठहर गये । दूसरे दिन प्राय अठारह मील चलकर हमलोगोंको शाक्य मुनिका भव्य मन्दिर दिखलाई पडने लगा । यह मन्दिर पत्थरकी दीवालोंने घिरा है जिसकी लंबाई २२० गज, ऊँचाई बीस फीट और चौड़ाई छ फीट थी । इस दीवालमें भीतरसे काले रङ्गका मन्दिर जिसके ऊपर सोना मढा था और बुद्धकी विजयपताका फहरा रही थी दिखलाई दे रहा था । बाहरसे मन्दिर बडा ही भव्य और विभूतिमान प्रतीत होता था ।

चालीसवां परिच्छेद

शाक्य मंदिर ।

रातको जिस सरायमें हमलोग ठहरे थे वहाँसे हमलोगोंने एक पथप्रदर्शक लिया और उसीके साथ विहारके दर्शनको चले । वहे फाटकसे भीतर घुसकर अनेक छोटे छोटे कमरोंसे होते हुए हमलोग प्रधान विहारके सामने पहुँचे । पहले तो यही प्रतीत हुआ कि यह भवन एकदम चन्द है पर ध्यानसे देखनेसे मालूम हुआ कि एक आगनसे प्रकाश आता है । सामनेके प्रागणमें प्रवेशकर हमलोगोंने वज्रपाणिकी मूर्तियाँ द्वारके

दोनों तरफ खड़ी देखीं जो प्राय २५ फीट ऊंची थीं। एकका रङ्ग नीला और दूसरेका लाल था जैसा कि बहुधा जापानी मन्दिरोंमें हुआ करता है। प्रत्येक मूर्त्तिका दाहिना पैर कुछ झुका हुआ और बाया पैर कुछ आगे बढ़ा हुआ था। दाहिना हाथ आकाशकी ओर उठा और बाया धरतीकी ओर झुका हुआ था। इन मूर्त्तियोंको देखकर मैं तिब्बतके कारीगरोंकी प्रशंसा किये बिना न रह सका। अन्य देवताओंकी भी मूर्त्तिया थी जो तीस तीस फीट ऊंची थीं। बायी ओरकी दीवालपर देवताओं और साधुओंके चित्र खिचे हुए थे जिनकी लम्बाई चौबीस फीट और चौड़ाई बीस फीट थी। इतने भारी मन्दिरमें एक अंगुल भी स्थान चित्रसे खाली न था। आगे बढ़कर एक और आगम मिला जो ३६ फीट लम्बा और ३० फीट चौड़ा था। साधारण पुरोहित पढ़ते पढ़ाते और आहार करते हैं और बड़े लामा वहीं रहते भी हैं। यहासे हमलोग प्रधान प्रागणमें गये जहां बौद्ध-धर्मके देव देवियोंकी मूर्त्तिया हैं। इसमें दो दरवाजे हैं, दक्षिणके द्वारसे पुरोहित आते जाते हैं और उत्तरवालेसे दर्शक। भीतर घुसते ही सोनेकी जगमगाहटसे हमलोग चकाचौंध हो गये। वह दृश्य वर्णनात्मीय है। छतमें भी सोना मढ़ा हुआ था। खम्भोंपर भी सोना चढ़ा था। मूर्त्तिया जो तीन सौसे भी अधिक थी, सोनेसे मढ़ी थीं। मध्यमें शाक्यमुनि बुद्धदेवकी मूर्त्ति थी। यह मूर्त्ति ३५ फीट ऊंची थी। यह मिट्टीकी बनी थी और ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। इस मूर्त्तिके सामने

सात जलके पात्र, मोमवत्तियां और एक मेज अर्ध देनेके लिये रखी थी। ये सब बढिया सोनेकी थीं।

जिस सिलसिलेसे वे मूर्तिया रखी थीं उन्हें देखकर चित्त खिन्न हो जाता था और उनकी बहुमूल्यता फीकी पड जाती थी। बौद्धशिल्पका यहा अत्युत्तम संग्रह था पर सचय बडा बेसिल-सिलेवार था। इसके पीछे एक और कमरा था जो ६० फीट चौडा और २४० फीट लम्बा था। यहापर प्राचीन बौद्धग्रन्थोंका संग्रह, कुछ पुस्तकें नीले कागजपर सुनहरे अक्षरोंमें लिखी थीं। कुछ संस्कृत पुस्तकें ताडके पत्तोंपर लिखी थीं। इनमेंकी अधिकांश पुस्तकें इस मन्दिरके अधिष्ठाता शाक्य परिडित और उनके उत्तराधिकारी पुरोहित भारतसे ले गये थे।

तिन्वती भापाकी धर्मपुस्तकें हाथकी लिखी थीं। जिस समय हमलोग उस कमरेमेंसे निकल रहे थे और प्रवान प्रागणको निरख रहे थे उस समय बडी दुर्गन्ध आई। ऐसी दुर्गन्ध तिन्वतके मन्दिरोंमें साधारण थी। मुझे बडा आश्चर्य हुआ कि अभीतक मुझे यह दुर्गन्ध क्यों नहीं मालूम हुई थी। और यह कहासे आई? घात यह थी कि प्रत्येक मन्दिरमें घीके दीपक जलते थे। पुरोहित लोग चाय और मक्खनका बच्चा हुआ अंश वहीं फेंक देते हैं जो पडा हुआ सडा करता है। यही दुर्गन्धका कारण था। आश्चर्य तो यह है कि वहाके लोग इस गन्धको उत्तम समझते हैं। इस कमरेके दोनों ओर और भी दो कमरे थे जिनमें अन्य तरहकी मूर्तिया थीं। उनमेंसे एक

मूर्ति पद्म चुंगनेकी थी जो बहुमूल्य पत्थरोंकी बनी हुई थी। पद्म चुंगने प्राचीन लामा सम्प्रदायका जन्मदाता था। कमरेकी दीवारें और फर्श भी बहुमूल्य पत्थरों और रत्नोंसे जड़ित थीं। प्रधान मन्दिरके बाहर और भी मकान हैं जिनमें प्रायः ५०० मनुष्य रहते हैं। दक्षिणकी ओर प्रवान गुरु चम्बा पसाग तिनलेका भव्य निवासस्थान है।

इनसे हमारी भेंट हुई। इनकी मूर्ति बड़ी ही सौम्य थी। ऊपरके कमरेमें वे एक छोटे चबूतरेके ऊपर बिछी चटाईपर बैठे थे। मैंने उनसे शाक्य धर्म और अन्य लामा सम्प्रदायमें धर्मभेदके बारेमें पूछना चाहा, पर उस दिन वे बहुत व्यस्त थे। अतएव उन्होंने दूसरे दिन बुलाया। बाहर और भी अनेक विशाल भवन थे। मेरे साथियोंने बतलाया कि यह मकान शाक्य को मारिन पोचेका है। यह नाम केवल चीनके महाराज और इस मन्दिरके बड़े पुरोहितको ही मिल सकता है। जिस मनुष्यसे ये महाशय बात कर लें वह भी तिब्बतवासियोंकी दृष्टिमें महापुरुष था। जब वह किसीको आशीर्वाद देते हैं तो खाली आशीर्वाद नहीं देते। इनका यह माहात्म्य इस कारण नहीं है कि 'दिग्गज' पण्डित हैं, पर शाक्य पण्डितके वशधर हैं जिन्होंने यह विहार बनवाया था। इसीसे इतना सम्मान है। वह विवाहित हैं, मास भी खाते हैं और कभी कभी मदिरा भी पीते हैं, इतना होनेपर भी केवल सर्वसाधारण ही उनका सम्मान नहीं करते वरन् दलाई लामा भी सामने जाकर तीन बार दण्डबत

प्रणाम करत है। यह सम्मान बहुत बड़े लामाको ही प्राप्त है।

मैं जब उनसे मिलने गया तो उनको तीन बार प्रणाम नहीं किया। इसके लिये मेरे साथियोंने लॉटनेपर मेरा तिरस्कार किया। पर जब मैंने उस तरह प्रणाम न करनेका कारण बतलाया तो मेरे साथियोंने मेरे कट्टरपनपर बड़ा आश्चर्य किया। दूसरे दिन जब हमलोग धर्माचार्यसे मिलने गये तो देखा कि वे एक बच्चेसे खेल रहे हैं और ऐसा ज्ञात हुआ मानो वह उनका ही बच्चा है। मुझे यह देखकर बड़ा सन्देह हुआ कि क्या ऐसे पवित्र पुरुष भी विवाह कर सकते हैं ? पर पीछे मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी आशका ठीक थी।

पहले तो मैंने वहाँ कुछ दिन रहकर अध्ययन करनेका विचार किया था पर ऐसे घृणित आचार्यके पास पढ़नेकी इच्छा न हुई। दूसरे दिन मैं वहाँसे चल पडा। अब मेरा कोई साथी नहीं था, अतएव अपना सामान अपने ही ऊपर लादा। दो दिन चलनेपर फिर तुपार वृष्टि होने लगी।

अतएव मुझे एक गृहस्थके मकानपर ठहर जाना पडा। दूसरे दिन तारोख ३० नवम्बरको सौभाग्यसे ७, ८ व्यापारी मिल गये। इन लोगोंके पास ३० ४० गधे थे। मैंने अपना सामान उन व्यापारियोंके हवाले कर दिया। वहाँसे चलकर थारू नदी पार की और सन्ध्याको एक गाँवमें ठहरे। व्यापारियोंने अपने गधे का बोझ उतारकर छोड दिया और वे खेतोंमें चरने

गये। मैंने गर्धोको खेतोंमें चरते देखकर अपने साथियोंसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिये नहीं तो हम पकड़े जायेंगे। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'नहीं' यह खेत प्रतिवर्ष नहीं धोये जाते हैं। इस समय इन खेतोंमें कुछ नहीं है। प्रति दूसरे वर्ष इनमें गेहूँ धोया जाता है। वहासे आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पहाड़ोंमें एक बड़ा भारी मन्दिर बना है। पूछनेपर मालूम हुआ कि तिव्यत सरकार एक ज्योतिपीके कथनानुसार इस मन्दिरको बनवा रही है। ज्योतिपीने कहा है कि जहांपर यह मन्दिर बन रहा है ठीक उसीके नीचे एक सोता है। यह सोता एक राक्षसका मुख है। जबतक यह मन्दिर बनकर उसका मुख बन्द नहीं कर देगा तबतक इस बातका सदा भय रहेगा कि वह फूट निकले और देशभरको डुबा दे।

इस बातका समर्थन एक पुस्तकसे भी हो गया जो चीनसे आई थी। इसको किसीने चोरी चोरी इसी मतलबसे लिखा था। मैंने उस पुस्तकको देखा। उसमें ऐसी ही डरानेवाली बातें लिखी हुई थी। उसमें लिखा था—ससारमें पाप बहुत होने लगा है अतएव एक भीषण बाढ़ आवेगी और ससारभरकी वस्तुओंको बहा ले जायगी, अकाल पड़ेगा और लडाइया होंगी। यह पुस्तक स्वर्गसे आई है इससे जो मनुष्य इसका विश्वास नहीं करेगा उसको शीघ्र ही मृत्युदण्ड भोगना होगा।

मैंने कहा यह सब झूठी बातें हैं, फिर भी मुझे कोई हानि नहीं पहुँची। यह पुस्तक चाहे किसी अच्छे ही मतलबके लिये

लिखी गई हो पर उसमें ऐसी ही व्यर्थकी बातें भरी थीं। तिब्बतवासियोंको उनके ऊपर ऐसा विश्वास था कि उसका अनुवाद कराकर चारों ओर बाटा जाता था। आश्चर्य इस बातका था कि तिब्बत सरकार इस मूर्खतामें पडकर इतनी बड़ी रकम व्यर्थ व्यय करनेके लिये उद्यत थी। पर किया क्या जाय जब सर्वसाधारण और सरकार दोनों ही इन फकीरों और भूटे भविष्यद्वक्ताओंके हाथमें हैं।

इस मन्दिरसे निकलकर मैंने देखा कि चार पाच गिद्ध पासकी पहाडीपर बैठे हैं। पूलनेपर हात हुआ कि यहा मुर्दोंको गिद्धोंके हवाले करनेकी विचित्र प्रथा है। पर उनके पेट भरने योग्य मुर्दे इस प्रदेशमें नहीं मिलते। फल यह होता है कि उनके पेट भरनेके लिये मन्दिरसे मांस दिया जाता है। मृतशरीर गिद्धोंको कैसे खिलाये जाते हैं इसपर हम लासाके घर्णनमें लिखेंगे।

यहासे आगे चलकर मुझे एक मन्दिर मिला। वहापर लोग साधनके आठ नियमोंपर चलते हैं। जैसे—मौनसाधन अथवा मांसका निषेध। तिब्बतमें मांसका छोडना महत्वका घत समझा जाता है।

दूसरे दिन मैं नरतगके मन्दिरमें पहुँचा। वहा लकडीके घने हुए अक्षरोंका असीम भण्डार है। इन लकडीके अक्षरोंसे यहा पुस्तकें छपती हैं। यही एक छापाखाना है जहा बौद्ध-धर्मकी पुस्तकें छपा करती हैं। यहा तीन सौ लामा इस

कामको निरन्तर करते रहते हैं। 'यहाँके बड़े लामासे मैं मिला। यह मनुष्य धार्तवीतमें बहुत ही चतुर था'। इसने मुझे बहुतसी बौद्धधर्मकी बातें बतलाई और मेरे साथ घड़ने ही सड़भाकसे व्यवहार किया।

इकतालीसवां परिच्छेद ।

शिगातूजे ।

दुमरे दिन ५ दिसम्बरको प्राथ आठ बजे चलनेपर एक प्रासादकी सुनहली छत दिखलाई पड़ी। इसके पास ही पुर्वी हिंदीके रहनेके भी बहुतसे भिकान थे और लाल बङ्कके मन्दिरके भवन थे जो इनसे ऊचे थे। यह दृश्य बहुत ही सुन्दर था। मेरे भवन शिगातूजे नगरमें थे। यह तिब्बतका दूसरा प्रधान नगर है। यह प्रासाद तासो लुनयोका मन्दिर अर्थात् सुमेहागिरि है। इस मन्दिरका निर्माता गेनदुन तव था। इस मन्दिरमें ३३०० पुर्वी हित रहते हैं। कभी-२ यह सख्या बढ़कर ५००० तक पहुँच जाती है। यद्यपि यह दूसरा प्रधान मन्दिर है तथापि प्रतिष्ठामें यह पहलेके ही बराबर है। इस मन्दिरके चारों ओर सर्वसाधारणके भिकान हैं जो प्राय ३५०० हैं। नगरकी जनसंख्या ३०००० है पर यह विश्वसनीय नहीं, क्योंकि यहाँके लोग अङ्कनाणित नहीं जानते।

मन्दिरमें जाकर मैंने पोटुक खाममात स्थानका पता पूछा जहा उत्तरपूर्व प्रदेशके लामा रहने हैं। क्योंकि मैं भी उसी प्रदेशका निवासी बनना था और वहीं जाकर ठहरा। मुझे वहा ठहरकर उन लोगोंसे ग्रथासाध्य ज्ञान प्राप्त करना था।

यहाके लामाका पद प्रधानतामें द्वितीय है। यद्यपि राष्ट्रीय शक्ति उसके पास नहीं है तथापि दर्जमें जो कि चीनके महा राजने उसे दे रखा है दलाई लामासे भी बढकर है। दलाई लामाके मर जानेपर जयतक दूसरा दलाई लामा न हो तबतक यही उस गद्दीपर बैठता है।

इस प्रधान लामाका नाम पनचेन रिनपोचे है। जिस समय मैं वहा पहुचा था उस समय वह कहीं बाहर गया हुआ था इसलिये मुझसे मुलाकात न हो सकी। मैंने सुना कि उसकी अवस्था प्राय अठारह वर्षकी है। यहा आकर मैंने अपना यही काम कर रखा था कि पण्डितों और लामाओंके पास जाऊ और उनके साथ धार्मिक परामर्श करू।

एक दिन मैं द्वितीय लामाके गुरु तसान चेनायसे मिलने गया। इस बृद्ध पुरोहितकी अवस्था प्राय ७४ वर्षकी थी। इसने मेरे ऊपर बडी दया दिखाई। ये महाशय तीन हजार लामाओंमें सबसे उत्तम वैयाकरण माने जाते थे अतएव मैंने उनसे ध्या करणके विषयमें कुछ प्रश्न किये। प्रश्न भी ऐसे किये जो मुझे अधिक ज्ञात थे जिससे मुझे ज्ञात हो जाय कि उनकी कहानक पहुच है। पर वे उन प्रश्नोंका उत्तर न दे सके। उन्होंने कहा

कि 'इनका उत्तर मैं नहीं दे सकता पर लासा जाते समय पतनमें तुम्हें एक वैद्य मिलेगा जो बहुत अच्छा वैयाकरण है। कदाचित् वह तुम्हें सन्तुष्ट कर सके।' मैं प्रसन्नतापूर्वक वहाँसे विदा हुआ। तिब्बतमें भारतवर्षसे आयुर्वेद, इञ्जीनियरिङ्ग, दर्शन, धर्म तथा गायन विद्याका सैकड़ों वर्ष पहले प्रचार किया गया था पर आज एक भी तिब्बती ऐसा नहीं है जो इसका लेशमात्र भी ज्ञान रखता हो। आजकल यहाँ जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं उनकी संख्या परिमित है। अधिकांश संख्या उन्हींकी है जो सरकारी नौकरीमें, सरकारी कागजोंको लिखने पढ़नेके लिये साधारण व्याकरणकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि वहाँके विद्वान बुद्धधर्ममें इतनी रुचि और तत्परता दिखलाते पर इतिहास और विज्ञानके विषयमें कुछ नहीं जानते।

कुछ दिनों वहाँ ठहरकर मैं चलने ही वाला था कि मालूम हुआ कि द्वितीय लामा नगरमें आते हैं। मैं भी उनकी सवारी देखनेके लिये गया। मैं पहले कह चुका हूँ कि तिब्बतमें पत्नी सड़कें नहीं हैं। अतएव जिस पगडण्डीसे लोग बहुत आया जाया करने थे उसीसे होकर सवारी निकली। दोनों ओर लम्बी लम्बी लकड़ियोंमें मशाले जल रही थीं। सड़कके दोनों ओर दर्शकोंके ठहरे हुए थे। थोड़ी देर पीछे द्वितीय लामा एक चुनहरी पालकीमें घेरे हुए निकले। लामा महाशय रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। पालकीके पीछे प्रायः तीन सौ अधारोही थे। उन

गोंके पास दृथिवारोंके बदले बौद्धधर्मके पूजाका सामान । साथमें देशी बाजा और ढोल भी थे । यह दृश्य इतना कर्षक था कि उसे देखकर मैंने अपनेको धन्य समझा ।

रातको आकर मैंने अपने साथी लामाओंको बौद्धधर्मके पर एक व्याख्यान सुनाया । इस व्याख्यानको सुनकर वे डे प्रसन्न हुए । उन लोगोंने कहा कि हमलोगोंकी बौद्धधर्मकी डे शिक्षामें जरा भी तबीयत नहीं लगती क्योंकि हमलोग कुछ मन्त्र नहीं सकते । पर आज मेरा व्याख्यान इतना सरल और रोहर था कि बुद्ध धर्मके प्रति हमलोगोंके हृदयमें एक तरहका साह उत्पन्न हो गया है । यहाके लामाओंकी इस अज्ञतापर ख होता है ।

मुझे मालूम हुआ कि इस मन्दिरके पुरोहित धर्मके धुरत पक्षे । केवल मदिरापान उनमें एक दोष है । इसके चारोंमें एक चित्र कहावत प्रचलित है । एक बार लासाईं दलाई लामा हके प्रधान लामासे मिले । दलाई लामाने कहा कि मुझे इस तका बडा दु ख है कि मेरे लामा लोग तम्बाकू पीते हैं । पन-नारिनपोचेने इस बातपर खेद प्रगट करते हुए कहा कि मेरे हके लामा मदिरापान करत हैं । उन दोनोंने इस बातका र्णय करना चाहा कि इन दोनोंमें कौन घुरा है और इनके डानेकी कोइ व्यवस्था हो सकती है कि नहीं । पर उनके प्रमा-ने भी कोई लाभ न हुआ और वे दुर्गुण अब भी प्रचलित हैं । मदिरापान रोकनेके लिये एक नियम बनाया जय कोइ

लोंमा' बाहरसे घूमकरे' आता था तौ उसे पहरेपर अपने मुंहकी परीक्षा करानी पडती थी। यदि उसके मुखसे मदिराकी गन्ध आती थी तो तत्क्षण ही उसे दण्ड मिलता था। कभी कभी पुरोहित लोंमा मदिराकी बदेवू छिपानेके लिये लहसुन या व्याज खा लिया करते थे। जिसमें कडी गन्धमें मदिराका गन्ध छिप जाया करता था।

तारीख १५ दिसम्बरकी प्राय १० बजे दिनके में मन्दिरसे बिदा हुआ और नगरके बीच होकर दो मील चलनेपर मुझे तसायू नदीका पुल मिला। इस पुलका नाम संवाशार है। इसकी लम्बाई ३६० और चौड़ाई ८ गज है। इसे पुलकी बनावट साधारण पुलोंकी बनावटसे भिन्न है। वहासे चार मील आगे बढनेपर ब्रह्मपुत्र नदी मिली। वहासे बारह मीलपर पी नामक गाव है। रातकी वही एक गरीब किसानके घरपर मैं रुहा। वहापर घासकी जड़े ईंधनके काममें लाई जाती थीं।

वहा मैंने एक बारह वर्षके लडकेको आगेके पास बैठे हुए पढते देखा। उसके हाथमें एक बासेकी कलम थी और वह खडिया मिट्टीसे पोती हुई तख्तीपर लिख रहा था। वह बारबार अपने पिताको दिखा लाया करता और वह संशोधन कर देता था। इमें आर्थिक दुरवस्थामें उनके कठिन परिश्रमको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। पर पीछे मुझे इसका कारण मालूम हुआ। यदि वहाके किसान पढना और हिसाब करना न जानें तो जमीदार उन्हें पूरा दूटते हैं। पढने लिखनेमें ये लोग लासावालीसे कहीं दक्षिण हैं। रातकी मैंने उन्हें धार्मिक शिक्षा

प्रातःकाल ४ मील चलकर एक पहाड़ीपर, मुझे दो मकान दिखलाई दिये। यहीपर वह प्रसिद्ध वैयाकरण रहता था। दो मीलकी पहाड़ी चढ़कर मैं उसके पास पहुँचा। ऊपर पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि एक मकानमें दो, सौ महन्त रहते हैं और दूसरेमें ७२ महन्तिन रहती हैं। रातको मैं वहीं ठहर गया। दूसरे दिन प्रधान पुरोहितसे मुलाकात हुई। उसे व्याकरण और छन्दका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उससे बुद्धधर्मपर साधारण बातचीत हुई। उसने भी उसी व्याकरणीकी चर्चा की।

यहासे विदा होकर मैं उस वैयाकरणके पास पहुँचा और उसे कुछ भेंट दी। साधारण आतिथ्यके बाद उन्होंने मुझसे पूछा—‘तुम तिब्बती भाषा कितने दिनोंसे पढ़ रहे हो?’ मैंने उत्तर दिया, तीन वर्षसे। उन्होंने चकित होकर कहा—‘किसी विदेशी भाषाको सीखनेके लिये यह समय बहुत थोड़ा है।’ उन्होंने व्याकरणके कुछ साधारण प्रश्न मुझसे किये जिनका मैंने सहजमें उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा, तिब्बती भाषामें सबसे अच्छा व्याकरण कौन है। उन्होंने उत्तर दिया कि नगुलचूलामाका। मैं जानता था कि नगुलचूलामाका व्याकरण एकदम अधूरा है। अतएव मैंने पूछा कि सितूलामाके व्याकरणके अनुसार यहा क्यों नहीं पढ़ाई होती। पर आश्चर्यकी बात थी कि सितूलामाका उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। मैंने उनसे पूछा कि तिब्बती भाषामें आप कितने स्वर मानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि सोलह स्वर हैं। पर वास्तवमें १६ स्वर संस्कृतमें ~

लार्मी बाहरसे घूमकर आता था तो उसे पहरेपर अपने मुहकी परीक्षा करानी पड़ती थी। यदि उसके मुखसे मदिरोकी गन्ध आती थी तो तत्क्षण ही उसे दण्ड मिलता था। कभी कभी पुरोहित लोग मदिरोकी बदबू छिपानेके लिये लहसुन या प्याज खा लिया करते थे। जिसमें कहीं गन्धमें मदिरोका गन्ध छिप जाया करता था।

तारीख १५ दिसम्बरको प्राय १० बजे दिनके में मन्दिरसे बिंदो हुआ और नगरके बीच होकर दो मील चलनेपर मुझे तसायू नदीकी पुल मिला। इस पुलका नाम सम्बाशार है। इसकी लम्बाई ३६० और चौड़ाई ८ गज है। इसे पुलकी बना वट साधारण पुलोंकी बनावटसे भिन्न है। वहाँसे चार मील आगे चढ़नेपर ब्रह्मपुत्र नदी मिली। यहांसे बारह मीलपर पी नामक गाव है। रातकी वही एक गरीब किसानके घरपर मैं ठहरा। वहापर घासकी जड़े ईंधनके काममें लाई जाती थीं।

वहा मैंने एक बारह वर्षके लडकेको आगके पास बैठे हुए पढ़ते देखा। उसके हाथमें एक बासकी कलम थी और वह खडिया मिट्टीसे पोती हुई तल्लेपर लिख रहा था। वह बारबार अपने पिताको दिखा लाया करता और वह सशोधन कर देता था। इस आर्थिक दुरवस्थामें उनके कठिन परिश्रमको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। पर पीछे मुझे इसका कारण मालूम हुआ। यदि वहाके किसान पढ़ना और हिसाब करना न जानें तो जमींदार उन्हें पूरा लूटते हैं। पढ़ने लिखनेमें ये लोग लासावालोंसे कहीं दक्षित हैं। रातको मैंने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी।

बयालीसवां परिच्छेद



अद्भुत शक्ति

पोंछे फिरकर मैंने देखा कि दो थलवान मनुष्य हाथमें तिब्यती तलवार लिये खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो। दोनोंमेंसे छोटेने एक पत्थर उठाकर मुझसे घमका कर कहा चुप रहो ! भागे नहीं कि मारे गये। यह सुनकर मैं वहीं पत्थर-पर बैठ गया। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी लाठी पकड़ ली और पूछा तुम्हारे पास क्या है और तुम कहासे आते हो ?

‘मैं यात्री हूँ तिसेले आ रहा हूँ।’

‘तुम्हारे पास कुछ रुपया है ?’

‘हां कुछ है पर आपके लेनेभर नहीं है क्योंकि जगजगमें मैं लूटा जा चुका हूँ।’

‘तुम्हारी पीठपर क्या है ?’

‘कुछ पुस्तकें और भोजनका सामान।’

‘खोलकर दिखलाओ उसमें रुपया भी हो सकता है।’

‘नहीं, रुपया मेरी जेबमें है। गठरीमें नहीं है। मैं पुरोहित हूँ मतपत्र झूठ कदापि न बोलूंगा। तुमको जो कुछ चाहिये ले लो।’

मैं उनको रुपया देना ही चाहता था कि तीन अश्वारोही हमारी ओर आते हुए दिखलाई पड़े। उनको देखते-ही-

तिब्बती भाषामें केवल पाच ही हैं। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि इस भाषामें पाच ही स्वर हैं इस विषयमें आपका क्या मत है। यह सुनकर वह बहुत ही लज्जित हुआ और मुझसे क्षमा मांगने लगा। उनसे मिलकर मुझे विशेष सन्तोष न हुआ। उनके पाससे विदा होकर जब मैं घरपर आया तो एक लामाने पूछा कि वैद्यराजसे किस विषयपर बातचीत हुई थी। मैं उत्तर दिया कि व्याकरणपर। यह सुनकर उसने कहा 'हा ठीक है वे व्याकरणके दिग्गज पण्डित हैं। यहा तसानमें उनके धरावरका दूसरा नहीं है। इस दो धारके मिलनेसे मनुष्यको कुछ लाभ नहीं हो सकता। यदि आपको व्याकरणसे प्रेम हो तो कमसे कम २-३ वर्ष उनके पास पढ़िये। मैं बहुत समयसे उनसे पढ़ रहा हूँ पर अभीतक कुछ भी नहीं आया है।'

लामाकी ये बातें सुनकर मुझे हसी आ गई जो उसे बुरी लगी। दूसरे दिन तारीख १८ दिसम्बरको फिर ब्रह्मपुत्रके किनारे पहुँचे। नदी पारकर मैं आगे बढ़ा और पम्पोरि-ओ चेंके मन्दिरके नजदीक पहुँचा होऊँगा कि सहसा किसीने मुझे पुकारकर रोका।



नेके लिये प्रार्थना करने लगी। मैं इस बातसे तनिक भी न घबराया। मैंने उसको रोगी और निर्वल देखकर सम्भ्रम लिया कि यह धालक बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। अतएव मैंने उससे ऐसा कह दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या इसके बचानेका कोई उपाय है? मैंने कहा कि हा देवाराधनासे सम्भव है। सयोगवश दूसरे ही दिन वह बच्चा सद्यत वीमार हो गया। उसके घरके लोगोंकी मेरी देवीशक्तिपर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने तुरन्त मुझे बुला भेजा और मुझसे देवाराधनाके लिये प्रार्थनाकी। मैं वहा गया, पर धर्मपुस्तक मेरे पास नहीं थी अतएव एक आदमी राग लॉगवाके पास उसका लानेके लिये भेजा गया। इसे धीमे धीमे ध्यानस्थ होकर बैठ गया। थोड़ी देरमें घरमेंसे रौनेका शब्द सुनाई पडा। मेरी सम्भ्रममें कुछ न आया। पर मैंने वहासे उठकर जाना उचित न समझा। थोड़ी देर पीछे गृहम्बामिनी मेरे पास आई और बोली कि वह बच्चा मर गया। तुम उसको चलकर बचाओ। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि मेरी बात क्योंकर सच्ची हो गई। भीतर जाकर देखा तो प्रथा बिलकुल अचेत और ठढा हो गया था।

मैंने नाडी देखी। वह मन्द मन्द चल रही थी। मैंने कुछ पुस्तके वैद्यककी पढी थीं। मुझे मालूम हुआ कि इसके मस्तिष्कपर कोई दबाव पडा है जिससे यह अचेत हो गया है। मैंने ठण्डा पानी मांगा और एक कपडा भिगोकर उसके सिरपर रख दिया और मैं उसके हाथ पैर और गरदन धीरे धीरे मलने लगा।

लोग लाठी इत्यादि सब छोड़कर भागे। इस तरह मैं बच गया।

अश्वारोहियोंने आकर मुझसे पूछा—‘ये लोग कौन थे?’ मैंने कहा ‘ये मुझसे मेरा रुपया और सामान लेना चाहते थे। यह सुनकर उन्होंने कहा ‘नामनेवाले मन्दिरमें चले जाओ वहां तुम निष्कण्टक रह सकोगे।’

मैं उन्हें धन्यवाद देकर मन्दिरकी ओर चला और अश्वारोही पच्छिम चले गये। रातको वहाँ ठहरकर मैं आगे बढ़ा। और नियामोहोता ग्राममें पहुँचा। इसी भाँति यात्रा करते करते तारीख १० जनवरीको मैं एक और मन्दिरमें पहुँचा। यहाँ का पण्डा बड़ा ही गवार था। उसने बिना किसी विचारके मुझसे कहा कि मैं उसके भाग्यकी बात बतलाऊँ। क्योंकि मुझमें सर्वसाधारणकी अपेक्षा उसे कुछ विशेषता मालूम हुई। मैंने यह विद्या कभी नहीं पढ़ी थी पर इन मूढ़ विश्वासी तिव्यतवासियों को मैं फिर शिक्षा देना चाहता था। इससे मैंने कहा मुझे तुम्हारे लिये बहुत दुःख है। तुमको आमदनी काफी होती है। पर दूसरोंके कारण तुम्हें सदा कष्ट भेलना पड़ता है। तुम्हारा भविष्य अन्धकारमय है। यह बिलफुल ठीक निकला। उसको मुझपर विश्वास हो गया। मेरी देवीशक्ति देखकर उसे यहातक आश्चर्य हुआ कि वह अपने पड़ोसी एक अमीरके घर गया और सब हाल जाकर वह सुनाया। उसी दिन सन्ध्याको एक सुन्दरी जो कि उस अमीरकी स्त्री थी अपने बच्चेको लेकर आई और देखा देखा—

खपड़ों ही में साफ करते हैं। कपड़ोंके ऊपर चूल्हों और मकखन
 तमकर वह धमड़ेकी भांति कड़ा हो जाता है। और ऊंचे दर्जेके
 मनुष्य और पुरोहित हाथ मुद्द भी धोते हैं और कपड़े भी साफ
 खते हैं।

इन धुपिकायोंके कारण किसीके यहाका निमन्त्रण
 स्वीकार करते समय मुझे बड़ा क्लेश होता था। तसरगमें रह-
 कर मैंने ऐसीन आदतें डालनेकी चेष्टा की थी पर फिर भी अपने
 चेष्टको पूर्णतया वैसा नहीं बना सका था। इन सब बातोंके
 होते हुए भी वहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो जाता
 था।

इन लोगोंके गोंकी गिनती भी विचित्र प्रकारकी होती है। कौन
 इनका उन्हें पड़ेगा यह कोई नहीं बता सकता। सुमीतिके अनुसार
 क दिन उनके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जब कभी उनकी
 णनामें कुछ बर्क पडता है तो कई आदमी एक होकर निर्णय कर
 ते हैं। ल नये वर्षका समारोह सरकारी वर्षके अनुसार होता
 है। मनुष्योंमें जादू

नये वर्षके दिन लाल रंगके रेशमका एक कपड़ा बनाया जाता
 है वह भूने हुए आटेकी ढेरमें गाढ़ दिया जाता है उसके
 लिये लामा मुखे अंगूर इत्यादि रस दिये जाते हैं। गृहस्वामी पहले
 लोंको उठाता है और तीन घेर घूमकर उनको खा लेता है।
 बाद उसकी स्त्री, मेहमान और नौकर चाकर अनुकरण
 करते हैं। फिर चाय आती है और पाना पीना होता है पर पचाई

अन्यथा संपूर्ण शरीर मेलसे काला होजाता है।
 सम्य पुरुष और पुरोहित लोग कभी कभी अपने मुख
 धो डालने हैं। शेष शरीर ज्यों का त्यों काला
 उनकी गरदन और पीठ इत्यादि वैसी ही काली
 जैसी अफ्रिका के हवशियोंकी हैं। पर उनके हाथ
 हैं, इसका कारण यह है कि आटा
 धाटेमें चला जाता है। अतएव उनके भोजनमें
 मेल मिली रहती है। पर ऐसी घृणित व्यवस्था
 है। उन लोगोंमें मिथ्या विश्वास है कि यदि
 धीवें तो उनका भाग्य भी धुल जावेगा।
 तिव्यतमें नहीं है।

सगाई होनेके समय केवल यहका मुख देखने ए
 चलता है। यह भी देखना पडता है कि
 मेल जमी है। यदि उसकी आंखोंके अनिर्दिक्त
 गन्दे हैं और उसका बख मेल और मक्खनके
 हैं तो वह बड़ी भाग्यशाली बहू है अन्यथा वह
 क्योंकि सफाई करनेमें उसका भाग्य पुल गय
 इसी मूढ विश्वासको मानेनी है। वे भी ते
 हती हैं जो अधिकसे अधिक मेल
 में जानता है कि मेरी बातपर लोग सह
 और जवतक में अपनी आंखों न दे
 यही दशा थी। नीचे दर्जेके लोग

तो ठीक है, नहीं तो वह और भी अधिक क्रोधित होकर अपने तादूके गुल्ले फेंक २ कर मारता है। मानों वह बादलोंको उन गुल्लोंसे चूर्ण कर देगा। यदि इसपर भी ओले न बन्द हुए तो वह अपने कपड़े फाड़ फाड़कर आकाशमें फेंकता है। ओलोंको रोकनेमें वह एकदम पागल हो जाता है। यदि ऐसा करनेसे ओले बन्द हो गये तो गावके लोग आते हैं और उसके इस परिश्रमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको यथाशक्ति भेंट देते हैं। और यदि ओलोंने चेतिका सत्यानाश कर दिया और लामाका परिश्रम व्यर्थ गया तो लामाको जुर्माना किया जाता है। इस सेवाके लिये उनको दक्षिणा भी बहुत मिला करती है जिसके कारण वे लोग मितव्ययिताको पास नहीं फटकने देते। पर साथ ही साथ यदि ओलोंने हानि पहुँचाई तो अर्धदण्ड तो देना ही पडता है उसके अतिरिक्त कभी कभी कोड़े भी खाने पडते हैं।

इसके अतिरिक्त यहाँ एक दूसरी प्रथा प्रचलित है। कौन जिले किसके अधिकारमें रहेगी इसका निर्णय करना लामाके हाथमें रहता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक वर्षकी फसलका वही जिम्मेदार है। इस तरह वह निर्णयका काम भी करता है जिसके लिये उसे पर्याप्त धेतन मिलता है। इस तरह ये लोग बड़े धनी प्रतीत होते होंगे पर तिब्बतके उस सम्प्रदायके लामा दरिद्र रहते हैं। क्योंकि "भुक्त भाल दिल बेरहम" वाली कहावत ये पूर्णतः चरितार्थ करते हैं पर इनको प्रतिष्ठा अधिक है।

इस मन्दिरसे सात मील पूर्व चलकर मैं यासे नगरमें पहुँचा। उसके पूर्व एक पहाड़ है उससे याकचू नामक एक नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्रकी सहायक है। इससे दो मीलपर भील है जो मेरी समझमें नसारभरमें सबसे बड़ी है। नाम यामदोसो है। पर मागोलिक लोग इसका नाम पालती लाते हैं। पालती एक नगरका नाम है जो इस भीलके निकट है। इसकी परिधि १८० मील है। इसके बीचमें एक टापू है जिसके ऊपर पहाड़ है। लोग कहते हैं कि टापू अन्य झीलोंमें है, पर यह टापू सबसे बड़ा है। पर वास्तवमें यह टापू नहीं क्योंकि यह दो तरफसे ग्रामभूमिसे मिला है।

यहाका दृश्य वर्णनानीत है। हिमालयकी तुंग चोटिया कतार बाधकर दक्षिणपूर्वसे आरम्भ होकर दक्षिणपश्चिमकी ओर गती है जिससे भीलके सौन्दर्यने अनुपम रूप धारण कर लिया है। जब कभी तूफान उठता है तो जलकी तरंगें आकर पहाड़ोंसे टकराती हैं। इससे जो गर्जन पैदा होती है उसकी मधुरता शब्दोंमें नहीं कही जा सकती। पहाड़पर खड़ा होकर जो दृश्य मैंने देखा वह आज भी आँखोंके सामने नाच रहा है।

यहासे ४ मील पूर्व चलकर मैं पालती नगर पहुँचा। इस नगरमें एक महल है। उस भीलमें इस महलका प्रतिबिम्ब बहुत ही मनोहर दिखाई देता है।

इसी महलके नीचे मैं ठहर गया, दूसरे दिन प्रातःकाल ४ बजे ही चल पड़ा। मार्गका दृश्य बड़ा ही मनोहर था।

र रास्ता इतना ही बौहड था कि कभी कभी तो ठोकर खाकर गिर पड़ता था और कभी बरफमे घस जाता था ।

यहासे आगे चलनेपर मुझे एक झील मिली जिनका पानी बहुत विषैला है । इसके विषैले होनेका एक अद्भुत किस्सा यहा मैंने सुना । प्राय बीस वर्ष हुए एक हिन्दुस्तानी शरत्चन्द्र शास अंग्रेजोंका भेजा हुआ यहा आया था । उसने ऐसा मन्त्र पढा कि इस सोतेका पानी रक्तवर्ण हो गया । पीछे एक आमाने आकर इस पानीका रङ्ग तो बदल दिया पर विषको दूर न कर सका ।

वास्तवमें इस झीलके पास ऐसी वस्तुएँ हैं जिनके कारण इसका पानी विषैला हो सकता है । यहीं ठहरकर हमलोगोंने भोजन किया । यहा हमको एक नेपाली यात्री मिला । यह बडा ही हसोड था । इसका और मेरा साथ हो गया ।

चवालीसवां परिच्छेद

लासाके पथपर ।

इस नेपाली सिपाहीसे मुझे राटमें बहुत आराम मिला । लासामें नेपालका जो बजीर रहता है उसीके सिपाहियोंमेंसे यह एक था । उसको अपनी माताके दर्शनोंके प्रेमने उसको नेपाल जानेके लिये विवश किया था पर शिगाट्जेमें आकर उसको

अपनी प्रणयिनीकी यादने विवश किया जिसे वह लासा छोड़ आया था। अन्तमें प्रणयिनीका प्रेम ही बलवान रहा और वह सिपाही फिर लासाको लौट गया। उससे मैंने पूछा कि नेपाल सरकारके कितने सिपाही लासामें रहते हैं। उसने कहा कि, यहां कुछ ही दिनसे नेपाली सिपाही रहने लगे हैं।

प्राय दस वर्ष हुए यहां नेपालके पालपो जातिके प्राय ३०० व्यापारी रहा करते थे। वे लोग बड़े ही उद्योगी थे और ऊनी सूती कपड़े, रेशम, मूंगा, हीरा, जवाहिर और सूखे मेवोंका व्यापार करते थे। दैवसयोगसे पालपोके एक व्यापारीने लासाकी एक स्त्रीको एक मूंगा चुरानेका अभियोग लगाकर पकड़ा। पर जब मूंगा नहीं मिला तो वह व्यापारी ऐसा कुपित हुआ कि उसके रोनेपर भी वह उसे पकड़कर अपने घरके भीतर ले गया। जब छुटकारा पाकर वह घरके बाहर निकली तो उसने सारी घटना लोगोंसे कह सुनाई। सेरा विहारके लडाकू पुरोहितोंको यह सुनकर बहुत क्रोध आया और जब उनको पता लग गया कि यह बात ठीक है तो अपने अफसरके पास गये और सब हाल कह सुनाया। यद्यपि उस समय वहाँ के बहुतसे आदमी बाहर थे फिर भी प्राय १००० जमा हो गये। जब लासामें पालपो व्यापारियोंने सुना कि सेरासे एक हजार मनुष्य तलवारों और लोहेके छड़ोंसे मजकूर आ रहे हैं तब सब व्यापारी जो कि प्राय तीन सौ थे भाग गये। सेराके आदमी जब लासा पहुँचे और खाली घर पाये तो उन घरोंकी

बू लूटा। दूसरे दिन जब व्यापारी लोग अपने अपने घरोंको लौटकर आये तो उन्होंने देखा कि जो कुछ उनके पास था वह सब ले गये हैं। उनकी हानि प्राय दो लाख तीस हजार येन की हुई थी।

यह झगडा बहुत बढ़ गया और उसके निपटारेमें पाँच वर्ष लगे। व्यापारियोंकी हानिको तिब्बत सरकारने अपने पाससे पूरा किया और तबसे नेपाल सरकारके पञ्चीम सिपाही लासामें रहते हैं।

इस झगडेको निपटानेमें नेपालकी ओरसे प्रधान जीवबहादुर थे जिनके विषयमें मैं पहले लिख चुका हूँ। वह पहले नेपाल सरकारके अधीन एक मुशा थे पर अब वे तिब्बतमें नेपालके वजीर होकर रहते हैं।

थोड़ी दूर आगे बढ़कर गनपाला पहाडीके नीचे पहुँचा। जिसकी ऊँचाई प्राय २॥ मील थी। उसके ऊपर पहुँचकर मैंने पहली बार लासाको देखा। एक मैदानमें एक पहाडीके उपर दलाई लामाके रहनेका मकान था। इसका नाम तिसेपोताला है। इस मकानके दून्नी ओर लाम्ना नगर बना हुआ है। पहाडोसे उतरकर मैं ठहर गया क्योंकि बहुत थक गया था।

नारीस १७ मार्चको मैं फिर प्राय २॥ मील नीचे उतरा और द्रमपुत्रके किनारे पहुँचा। छ मील किनारे २ पैदल चढ़ कर चकसमपर द्रमपुत्रको नावमें पार किया। इस स्थानपर पहले नावका पुल था जिसका ध्वसावशेष अद्यतक विद्यमान

हे। वहाकी नावें भारतीय नावोंकी तरह चौखूटी होती हैं पर केवल जाड़ेमें ही इनका प्रयोग हो सकता है। गर्मीके लिये ये बिलकुल बेकार हैं। गर्मीमें ये लोग याकके चमडोंकी नावसे काम लेते हैं। तीन याकके चमडोंको एकमें मिलाकर ये लोग सी लेते हैं और जलके लिये उपयोगी बनानेके लिये वे इसे रूढ़ देते हैं। चमडेकी नाव पानीको तेजीसे सोखती है इससे ५ या ६ घण्टेसे अधिक वह काममें नहीं आ सकती, पर धूपमें सुखा कर यह फिर चलाई जाती है। यह इतनी हलकी होती है कि तिब्बती मल्लाह इसे कन्धे पर उठाकर वहावकी तरफ मीलोंतक ले जाते हैं और वहा असवाय लादकर वहाचमें छोड़ देते हैं।

यहाँसे तीन मील नदीके रेतमें चलकर वामडो भीलपर पहुँचा। यह भील ११५०० फीटकी ऊँचाई पर है। अभीतक मैंने बहुत दिनोंसे कोई हराभरा स्थान नहीं देखा था। यह स्थान बडा ही रमणीक प्रतीत हुआ। यद्यपि मेरे सामानके लिये मेरे पास कुली था फिर भी मेरे पैर ऐसे घायल हो गये थे कि अपने लिये मुझे एक घोटा किरायेपर लेना पडा। यहासे आगे बढ़ कर मैं चूशर नगर पहुँचा।

मार्गमें मुझे इससे खराब एक भी नगर न मिला। यहाके निवासी बडे ही निठुर, बडे डाकू और चोर हैं। ये लोग यात्रियोंका सामान चुरा ले जाते हैं और बहुधा पकडे भी नहीं जाते। तिब्बतमें प्रसिद्ध है कि चूशरके बराबर चोर और बदमाश कोई नहीं है। मैं अपने सामानके लिये सदैव ही सतर्क रहा

करता था। ज़र इतने चोर थे और इतने यात्री वहा आते जाते थे तो पाठक समझते होंगे कि अवश्य ही वहा धनिक भी बहुत होंगे। पर मुझे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि इस नगरसे बढकर गरीब और कही नही हें। मैं इतना थक गया था कि पैदल चलना कठिन था। वहासे मैंने एक गधा किरायेपर लिया और जङ्ग नगर पहुचकर गधेको छोड दिया। यहा ठहरा हुआ मैं सोच रहा था कि लासा किस भाति पहु चा जाय कि सहसा मुझे एक दल मनुष्योंका मिल गया जो कि लासाको राजकर देनेके लिये जा रहे थे। उनके पास भी किरायेके घोडे थे। मैंने भी किरायेका घोडा ले लिया और उनके साथ ही साथ नाग नगर पहु चा। वहा रातभर ठहरकर अगले दिन नेथग नगर पहुचा।

— ० —

पैतालीसवां



लासा ।

नेथगमें मोक्षेश्वरी जननीका एक मन्दिर है। ति० इस देवीकी बहुत पूजा होती है। कहते हैं कि यह मन्दिर वर्षके एक योगी अतीथने बनवाया था। उसने वहा अपना सम्प्रदाय भी चलाया। मैं उस मन्दिरमें २१ देवियोंकी पूजा करने गया। वहासे चलकर सिगजोंछा नगरमें पहुचा और

लासा

करता था। जब इतने चोर थे और इतने यात्री
ये तो पाठक समझते होंगे कि अवश्य ही वहां
होगे। पर मुझे पूछने पर ज्ञात हुआ कि इस
गरीब और कही नहीं हैं। मैं इतना थक गया था
ठिन था। वहासे मैंने एक गधा किराये पर लि
पहुंचकर गधेको छोड़ दिया। यहां ठहरा हुआ
कि लासा किस भाति पहुँचा जाय कि सहसा
मनुष्योंका मिल गया जो कि लासाको
जा रहे थे। उनके पास भी किरायेके घोड़े थे।
का घोड़ा ले लिया और उनके साथ ही
पहुँचा। वहा रातभर ठहरकर अगले दिन ने

—:0:—

पैंतालीसवां



करता था। जय इतने चोर थे और इतने यात्री वहा आते जाते थे तो पाठक समझते होंगे कि अवश्य ही वहा धनिक भी बहुत होंगे। पर मुझे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि इस नगरसे बढकर गरीब और कहीं नहीं हैं। मैं इतना थक गया था कि पैदल चलना कठिन था। वहासे मैंने एक गधा किरायेपर लिया और जङ्गल नगर पहुचकर गधेको छोड दिया। यहा ठहरा हुआ मैं सोच रहा था कि लासा किस भाति पहुचा जाय कि सहसा मुझे एक दल मनुष्योंका मिल गया जो कि लासाको राजकर देनेके लिये जा रहे थे। उनके पास भी किरायेके घोडे थे। मैंने भी किरायेका घोडा ले लिया और उनके साथ ही साथ नाग नगर पहुचा। वहा रातभर ठहरकर अगले दिन नेथग नगर पहुचा।

— ० —

पैतालीसवां



लासा ।

नेथगमें मोक्षेश्वरी जननीका एक मन्दिर है। इस देवीकी बहुत पूजा होती है। कहते हैं कि यह वर्षके एक योगी अतीथने धनवाया था। उसने सम्प्रदाय भी चलाया। मैं उस मन्दिरमें २ पूजा करने गया। वहासे चलकर सिंगजोंवा

यहाँ रात काटी । दूसरे दिन तारीख २१ मार्चको मुझे लासा पहुँचना था ।

मैंने एक घोड़ा किराये किया और अपने साथीको अपना सामान सहेज दिया और मैं इधर उधरकी सैर करने निकला । थोड़ी दूर आगे बढ़कर मैंने एक विशाल विहार देखा जो देखने-में एक गावसा बंसा हुआ मालूम होता था । दलाई लामाके अधीन लामाके समीप इससे बड़ा विहार कोई नहीं है । इसमें ७७०० लामा प्रायः रहा करते हैं । कभी २ बढ़कर ६००० तक हो जाते हैं । गर्मीके दिनोंमें बहुतसे लामा दौरेपर निकल जाते हैं । तब भी वहाँ ६००० से कम नहीं रहते हैं । यह तिब्बतका एक विद्यापीठ है । इसके अतिरिक्त दो और भी विद्यालय हैं जिनमें एक सेरामें और एक गनदेनमें है ।

सेरा विद्यालयमें ५५०० छात्र और गनदेनके विद्यालयमें ३३०० छात्र रहते हैं । यह गणना तो नाममात्रके लिये है । आवश्यकतानुसार यह संख्या न्यूनाधिक भी हो जाती है । सड़कके किनारे इस विहारके नीचे एक स्थान है जहा दलाई लामाके भोजनके लिये याक और भेड बकरी मारे जाते हैं । यहाके आदमी बड़े अन्धविश्वासी हैं । दलाई लामाके लिये नित्य सात भेड मारी जाती हैं । उनके ऊन और चमड़े इत्यादिको वे लोन प्रसादकी भाँति ले जाकर रखते हैं । दलाई लामा भेडके अतिरिक्त याक और बकरी इत्यादिका मांस भी पाते हैं । यह मांस वहाँसे आता है ।

एक बड़े आश्चर्यकी घात है कि जब दलाई लामा लासामे रहते हैं तो उनके लिये भेड बकरीका मांस इतनी दूरसे क्यों आता है। इसका यह कारण है कि लासा मन्दिरके बहुत समीप है। वह यह नहीं जानना चाहते कि हमारे लिये पशुओंकी हत्या भी हुई है। वह उनकी हत्याकी आज्ञाका दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। यह मांस उनके पास इस भाँति पहुँचा है मानों उन्होंने बाजारसे मोल लिया है अतएव वह उसके पापके भागी नहीं हैं।

यहासे पाँच मील और आगे बढ़नेपर मैं उस पहाड़ीके नीचे पहुँच गया जिसपर दलाई लामाका महल बना हुआ है। इसीको मैंने गेनपालाकी पहाड़ीपरसे देखा था।

यह महल ऐसा सुन्दर है कि इसका चित्र भी बड़ा ही चित्ताकर्षक है। यहाके त्रिपयमें एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है कि एक मनुष्य कुछ गधोंपर घोड़े कुप्पे लादे हुए लासा होकर जा रहा था कि उसने इस महलको देखा। देखते ही वह ऐसा चकित हुआ कि उसने इसको देवोंका भजन समझा। आश्चर्यसे मुग्ध होकर उसे अपने गधोंकी सुध भी भूल गई। कुछ देर पीछे जब उसे चेत हुआ तो देखा कि गधे कहींकहीं चले गये हैं। खोजनेपर नौ गधे तो उसे मिले, पर एक नहीं मिला। किसीने उससे पूछा—“क्या खोज रहा है।” उसने कहा—“मैं दस गधे लेकर आया था परन्तु मैं महल देखनेमें लग गया था उसी समय कोई मेरा एक गधा चुरा ले गया।” परन्तु वास्तवमें बात यह

थी कि जिस गधेके ऊपर वह चढ़ा हुआ था उसको वह गिनना भूल गया था। वस्तुतः उस महलके सौन्दर्यने ही उसे इतना मोह लिया था। मैं यहासे प्रायः आधा मील चलकर एक पुलपर पहुंचा जो १२० फीट लम्बा और १५ फीट चौड़ा था। इसके ऊपर चीनी ढङ्गकी छत भी बनी हुई थी। पुलसे पार होकर और थोड़ी दूर चलकर मैं लासाके पश्चिमी फाटकपर पहुंचा। यह फाटक भी चीनी फैशनका बना था। फाटक पार करके मैं प्रायः २५० गज ऊँचाईपर पहुंचकर एक मैदानमें पहुंच गया। यहींपर बुद्धदेवका मन्दिर था। राजा स्वगतसानगेभ्योने राजकुमारी अनचिङ्गसे विवाह किया था। वह चीनके थगके कुटुम्बके तासङ्ग राजाकी बेटी थी। उसने अपने पितासे “तिब्बतमें बौद्धधर्म फैलानेका” वचन ले लिया था और साथ ही अपने साथ बुद्धदेवकी एक मूर्ति जो कि हालहीमें भारतवर्षसे लाई गई थी अपने साथ तिब्बतमें लानेकी आज्ञा मागी। राजपुत्रीकी प्रार्थना मान ली गई। कन्याही उस मूर्तिको वहा लाई थी। तबसे ही वह मूर्ति यहांपर स्थापित है।

तभीसे तिब्बतमें बौद्धधर्म फैला। वहां नये प्रकारके बौद्धधर्मके फैलानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई और धर्मप्रचारके लिये नयी लिपि बनानेकी आवश्यकता हुई। अतएव १६ पण्डित-भारतवर्षको बौद्धधर्म सीखने और नयी २ वर्णमाला निकालनेके लिये भेजे गये। तिब्बती भाषाके अक्षर बनाये गये और बुद्धदेवके उपदेशोंका तिब्बती भाषामें उल्था किया गया।

१३००० वर्षतक इसी भाति होता रहा । यह मूर्ति चीनमें न बनी थी । यह भारतवर्षसे बौद्ध शिल्पी विश्वकर्माके हाथकी बनी हुई थी । यह चीनसे होकर तिब्बतमें आई थी ।

जिस समय मैं अपने इष्ट देवताके सामने पहुँचा मैंने भगवानकी ही कृपासे अपनेको यदातक सकुशल पहुँचा हुआ जाना । मेरी आँखोंसे प्रेमके आँसू भर पड़े । मैंने इन कृपाके लिये मूर्तिके आगे दण्डवत् किया । सारी कथाहीसे मेरी बुद्धके प्रति गाढ़ भक्तिका पता लगता है । अन्य बौद्ध देवताओंक प्रति भी मैं उदासीन था तोभी भगवान बुद्धमें मेरी मन्त्रसे अधिक भक्ति थी । मैंने अपनेको भगवानके ही अर्पण कर दिया था । मैं उसके धर्मपर न्योछावर हो चुका था ।

लासामें बहुतसी सरायें हैं परन्तु वे आदर योग्य नहीं हैं । अतएव अपने मित्र तिब्बतके मन्त्रीके पुत्रके घरही ठहरनेका विचार किया । इस नवयुवकसे मेरा परिचय दार्जिलिङ्गमें हो गया था । उसने लासामें अपने घर ठहरानेके लिये मुझे वचन भी दे दिया था । मैं उसको बहुत चाहता था । मैंने उसके लिये बहुत कुछ किया था । मैं प्रत्युपकार नहीं चाहता था । मैं उससे मिलना ही चाहता था । मैं उसके घरपर गया । उसका मकान बन्देशके नामसे पुकारा जाता था । यह एक अच्छा लम्बा चौड़ा भवन था । मैं उसके घरमें घुसा और उसका पता रूगाया । परन्तु मुझे मालूम हुआ कि उसकी पागल हुए श्राव हो वर्ष हुए हैं और उसको पागलपनेकी तरङ्ग नियत

समयपर आया करती है। मैंने सुना कि वह अपने भाईके यहा नैमसेलिङ्ग ग्राममें रहता है। वहा भी मुझे यही सम्वाद मिला। वहा मैं दो घण्टे ठहरा परन्तु वह न लौटा। अन्तमें वहासे सेराविहार लौट आया। मैंने विचार कर लिया था कि यहा रहकर विहारमें प्रविष्ट हो जानेका भी प्रबन्ध हो जायगा। वहासे एक कुलीपर सामान रखवाकर मैं सेराविहारको चल दिया। रीबग विहारके समान यह विहार भी एक पहाड़ी ढलावपर बना हुआ था और दूरसे एक ग्रामसा जान पड़ता था। मैं चार बजे विहारमें पहुँचा। पिटक खामत्सानके शयनागारमें उपस्थित हुआ। यहां तो मैं तिब्बती ही समझा गया। परन्तु अभीतक मैं चीनी बना हुआ था अब मैं तिब्बती बन गया। क्योंकि मैं महीनों नहीं नहाया था, न हजामत ही बनाई थी अतएव तिब्बतवासी बननेमें कोई कठिनता न हुई। हां, यह बात तो अवश्य थी कि तिब्बत निवासियोंकी परीक्षा बड़ी कठिन होती है। परन्तु मैं उन लोगोंसे तिब्बती भाषा भी कुछ कम नहीं जानता था। आखिर मैं तिब्बती समझा गया। इसी भेषमें मैं वहा रहने लगा। उस समय सेराविहारका प्रधान लाठोया नामक एक वृद्ध पुरुष थे। यह बहुत ही सज्जन और दयालु थे। उन्होंने तुरन्त ही मुझे विहारमें ले लिया। आगे चलनेके पूर्व मैं इस विद्यालयका संक्षेपमें वर्णन करना चाहता हूँ।

सेरा विद्यालयके तीन विभाग हैं। पहले विभागमें ३८००, दूसरेमें २५०० और तीसरेमें ५०० पुरोहित रहते हैं। पहले दो

विभागोंमें १८ शयनगृह हैं जिनको खामत्सान कहते हैं। छोटेसे छोटे खामत्सानमें ५० मनुष्योंके रहनेके लिये स्थान है। बड़ेसे बड़ेमें एक हजारसे भी ऊपर लोग रह सकते हैं। जिसमें मैं ठहरा था उसमें २०० पुरोहित थे। प्रत्येक खामत्सानका अलग २ प्रग्रन्थ है। सब खामत्सान मिलाकर सेरा कहलाता है। इसके बड़े २ विभाग यहीं हैं। यहा अधिक विभाग प्रविभागोंका में वर्णन नहीं करता।

छियालीसवां परिच्छेद



सेराके योद्धा लामा

तिग्रतमे दो तरहके लामा हैं। एक तो विद्वान और दूसरे योद्धा। विद्वानोंको लोअनेर और योद्धाओंको थावतो कहते हैं। विद्वान लोग सेरामें पढने आते हैं। उनको तीनसे आठ येन तक प्रति मास खर्च दिया जाता है। जो नियमानुसार पूरा कोर्स लेते हैं उनको ८ येन प्रतिमास मिलता है। उन लोगोंका विद्याभ्यास प्राय बीस वर्षमें पूरा होता है। यह लोग बौद्धधर्मके तर्क और दर्शनशास्त्रका अभ्यास करते हैं। यहा जो लोग पढने आते हैं वे पहले ही पर्याप्त पढकर यहा आते हैं। अनप्य यहाके

स्नातक ३०-३५ वर्षके होकर निकलते हैं। कोई २ अच्छे चतुर विद्यार्थी अट्हाईस वर्षकी वयसमेंही आचार्यकी पदवी पा जाते हैं।

योद्धा पुरोहित प्राय अपनी शिक्षाके लिये रुपया खर्च नहीं कर सकते। अतएव वे याकका गोबर और कांचू नदीसे लकड़ी ढोकर लाते हैं और अपनी मजूरी कमाकर अपना पेट पालते हैं। इस भाति वे लामा विद्यार्थियोंकी सेवा करते हैं। वेहो नित्यप्रति सारंगी, वीणा, वेणु आदि भाति भातिके वाजे बजाकर देवताकी पूजा करते हैं। ये काम ऐसे नहीं हैं जिनको कोई घृणाकी दृष्टिसे देखे। इन कामोंके अतिरिक्त और भी काम हैं जो योद्धा लामाओंको करने पडते हैं। वे नित्यप्रति एक पहाड़ीपर जाकर एक निशानेपर गुल्लोंसे या पत्थर फेंककर अपने बलकी परीक्षा करते हैं। वे कूदते हैं, शीउने हैं, पहाड़ीपर चढते हैं, पहाड़ीपरसे नीचे कूदते हैं और समय २ पर अच्छे गीतोंकी खूब उच्च स्वरमें गाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरका बडा अभिमान होता है। वे गदायुद्धका अभ्यास भी करते हैं। जब मन्दिरमें उनको कोई विशेष काम नहीं रहना है तो तीन २ और पाच २ इकट्ठे होकर बाहर अभ्यास करनेके लिये निकल जाते हैं। पाठकोंको आश्चर्य होगा कि तिब्बतमें इन लामाओंसे क्या काम लिया जाता है परन्तु वास्तवमें ये लोग बडे उपयोगमें आते हैं। इनका एक काम तो यही है कि जब उच्च कोटिके लामा उत्तरी देशमें यात्राके लिये निकलते हैं तो इन्ही लोगोंको अपनी रखवालीके लिये साथ रखते हैं। ये बडे साहसी होने हैं। इन्हें

विवाहका घन्धन न होनेसे मरनेसे भय नहीं लगता। ये लोग कभी पीछे पैर नहीं देते, ऐसे निर्भय और विकट होते हैं कि तिब्बतमें उनका बहुत ही भय है। यद्यपि ये लोग आपसमें बहुत कम झगडते हैं पर ये बहुत युद्धप्रिय होते हैं। ये लोग छोटीसे छोटी बातपर भी मरनेको तत्पर रहते हैं। घनके लिये ये लोग बहुत कम लडते हैं परन्तु सुन्दर युवा लडकोंके पीछे बहुधा लडाइया हो जाया करती हैं। किसी लडकेको चुरानेसे तो अवश्य ही द्वन्द्व युद्ध खडा हो जाता है।

यदि किसी पुरोहितको कोई द्वन्द्वयुद्धके लिये बुलावे तो वह कभी टाल नहीं सकता। यदि लामा महाशय न लडना चाहे तो मन्दिरमें उनका निर्वाह होना कठिन है वरन् वह वहासे निकाल दिया जाता है। इन योद्धा लामाओंके नेता होते हैं जो कि अपने ही कानून काममें लाया करते हैं। कभी २ ये लोग ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो कि कभी भी पुरोहितोंके या अन्योके भी करने योग्य नहीं है। नियमोंको यथोचितरूपसे पालन करनेके लिये अन्य अधिकारियोंको नियुक्तकर जब कोई विशेष घटना हो जाती है तब सभी नायक अपने योद्धाओंके सहित वहा उपस्थित होते हैं। जब किसी द्वन्द्वयुद्धका समय निर्णय हो जाता है, जो प्राय सन्ध्याको हुआ करता है, तो एक नियत जगहपर दोनों योद्धा अपनी २ तलवारें लेकर उपस्थित होते हैं। मध्यस्थ लोग उनकी युद्धरीतिका न्याय किया करते हैं। यदि दोनोंमेंसे कोई पुरुष भीरुता अथवा दुष्टता करे तो मध्यस्थ हट

जाते हैं। ऐसी अवस्थामें उनमेंसे एक दूसरेको मार डालता है। यदि दोनों ही धर्मानुसार लड़ते हैं और घायल हो जाते हैं तो मध्यस्थ दोनोंको अलग कर देता है और आपसमें मेल करा देता है। लासा ले जाकर उन दोनोंको साथ बैठा कर चागा नामक शराब पिलाकर मित्रता करा देता है। यद्यपि सेरा विहारमें मादक द्रव्यका पीना मना है परन्तु फिर भी बहुतसे लामा लासा जाकर शराब पीकर बहुतसे असभ्यताके व्यवहार किया करते हैं।

वहा किसीको किसी भाति यह मालूम होगया कि मैं डाकूरो भी जानता हूँ अतएव लामाओंमें मेरा बड़ा आदर होने लगा। जब कभी वे अपनी युद्धशिक्षाका अभ्यास करते हुए हाथ पैरमें चोट खा जाते थे तो मेरे पास आते और मेरी दवासे तुरन्त ही अच्छे हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि औपधसे जितनी शीघ्रतासे अर्धसभ्य जातियोंको लाभ होता है वैसा सभ्य जातियोंको नहीं होता है। चोट पाये हुए हाथ पैर मेरी औपधसे ऐसी जल्दी अच्छे हो जाते थे कि वे लोग मेरा वहा रहना अनिवार्य समझने लगे। मैं उनकी चिकित्सा बिना फीसके ही करता था वरन् औपध भी बिना मूल्य ही वितरण करता था। यदि कोई लामा कुछ लेनेके लिये आग्रह करे तो मैं उसकी भेंट भी ले लिया करता था। ऐसा करनेसे वे लोग मुझसे प्रेम करने लगे। अपने यहाँके वैद्योंके यदा उनके घाव बहुत देरमें और यद्दुत फठिनतासे अच्छे होते थे, तिसपर भी फीस लगा करती

थी। परन्तु मैं बिना कुछ लिये चिकित्सा कर देता था। इससे मेरा बड़ा आदर होने लगा। सभी लामा मुझे मिलने समय प्रणाम किये बिना न रहते थे।

इनके अतिरिक्त वे लोग सब तरहसे मेरी रक्षा करने थे। वे अपने कर्त्तव्यों और वचनोंके बड़े सच्चे होते हैं। वे देखनेमें कुछ रस्से सभावके मालूम होते हैं तो भी वे शिक्षित लामाओंकी अपेक्षा अधिक सच्चे होते हैं। शिक्षित और उच्च कोटिके लामा पहले देखनेमें सरल और कृपालु मालूम होते हैं, परन्तु भीतरसे वे बड़े धोखेगाज और अपना मतलब साधनेमें लगे रहते हैं। योद्धा लामा प्रायः छली, कपटी और दिलके पुरे नहीं होते। मैंने उनमें और भी बहुतसे अवगुण देखे हैं। लामाओंसे व्यवहार करते हुए मुझे कई बार बड़ा कष्ट हुआ है। वे अपने उन्हीं गरम गरम बोलेकी आडमें कभी कभी बहुत नीचता और उच्छा व्यंग्य करते हैं। जब मैं सेरामें पहुँचा तो एजासत करावे, मुझे दम महीने ही चुके थे। वहाँ एक लामासे जब सिर और दाढ़ीको मुडवाना चाहा तो उसने दाढ़ी मूँडनेके वारेमें बहुत आश्चर्यसे कहा कि क्या आप ऐसी सुन्दर दाढ़ीको भी मुडवाना चाहते हैं। मैंने स्वमन्त्रोंमें हसो कर रहा हूँ। वहाँ लामा टाढोको बड़ा मूढवचन मम करने हैं। उनके दाढ़ी ही नहीं होती। लामपालके निवासियोंके अतिरिक्त शेष तिब्बतभरमें मैंने वही दाढ़ी नहीं देखी। वे लोग दाढ़ी बढ़ानेके बड़े उत्सुक रहना करते हैं। जब उन लोगोंको मालूम हुआ कि मैं डाकू हूँ, तो बहुतसे लोग मेरे

पास आकर दाढ़ी बढ़ानेकी औपध मागा करते थे । वे समझते थे कि 'मैंने भी किसी औपधका प्रयोग करके ही अपनी दाढ़ी ऐसी सुन्दर और इतनी बड़ी की है ।'

मुझको यहां रहकर विद्याध्ययन करना था अतएव मैंने एक टोपी, एक जोडा जूता और एक माला अन्य लामाओंकी भांति मोल ले ली थी । चोला मुझको पहलेसे ही मिल गया था अतएव वह मुझको मोल नहीं लेना पडा ।

जिस विभागमें पढना चाहता था उस विभागके प्रधान अध्यक्ष जीतासिगके पास मैं परीक्षा देनेके लिये गया । मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी पडी । मैंने तिब्बतकी बढ़िया चाय उनको भेंट की । उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि 'तुम कहाँसे आये हो ? तुम मंगोलियन मालूम होते हो ।' जब मैंने स्पष्ट इनकार किया तो उन्होंने बहुतसे भौगोलिक प्रश्न किये । वे वहाके भूगोलसे बहुत अच्छा परिचित थे । मैंने भी उन्हें ठीक २ उत्तर दिया क्योंकि मैं भी पैदल ही घूमा था । उन प्रश्नोंका उत्तर देना मेरे लिये क्या कठिन था । अब मैं विद्यालयमें भरती होनेके योग्य हो गया । अतएव मैंने जिह्वा निकालकर तिब्बतकी रीतिके अनुसार प्रणाम किया । उसी समय अध्यक्षने मेरे सिरपर दाया हाथ रखा और दो फीट लम्बा एक लाल कपड़ेका टुकडा मेरे गलेमें लपेट दिया । विद्यालयमें भर्ती होनेका यही चिह्न था । यही कपडा गलेमें पहनकर मान्य लामाओंके सामने जाना होता था । मुझे मुख्य लामाके पास जाना था जो सब नियमोंका निरी

क्षण किया करता था। उससे भी आशा लेनी थी। मुझे मुख्याध्यक्षसे आज्ञा मिल ही चुकी थी अतः इस निरीक्षक लामाकी आज्ञा भी प्राप्त करनी कठिन न थी। इस प्रकार मैं बड़े लामाके पास जाकर विद्यालयमें पढ़नेका अधिकारी हो गया और अब मैं न्यायशास्त्रकी प्रवेशिका परीक्षाकी तय्यारी करने लगा।

एक अध्यापकके पास मैं पढ़ने लगा परन्तु मैंने देखा कि जो जो शास्त्र मैं पढ़ना चाहता हूँ उनके लिये एक अध्यापकसे काम नहीं चलेगा। अतएव मैंने एक और अध्यापकसे भी पढ़नेका प्रबन्ध किया। मेरे आश्रमके सामनेवाले आश्रममें एक दृष्ट पुष्ट लामा रहता था। वह बहुत विद्वान् मालूम होता था। एक दिन उसने मुझको अपने कमरेमें बुलाया और पूछा, क्या तुम रूतोकी मण्डलीके साथ तो जगथगसे शाक्यमन्दिरमें नहीं आये थे? उस मण्डलीमें एक भद्रपुरुष था जिसने मुझसे बड़ी सज्जनताका व्यवहार किया था। यह वही आदमी था जिसने मुझसे भोजनके लिये पूछा और मैंने मना कर दिया था इसीसे मुझे जगथगसे आया हुआ समझ गया था। पर अब मेरा भेद खुल गया।

लामाने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम चीनी हो, चीनसे आये हो और चीनी भाषा बहुत अच्छी लिखते हो। जब मैंने मान लिया कि मैं तिब्बतनिवासी नहीं हूँ तो उसने बहुत भयभीत होकर शोकसे कहा कि तब तो तुमको पातेखामत्सान जानना चाहिये था। इससे हमारे आश्रमको हानि पहुँचनेकी बहुत सम्भावना है। तुमने हमलोगोंके नीतिके विरुद्ध काम क्यों किया।

इसके उत्तरमें मैंने कहा कि राहमें डाकुओंने मुझे लूट लिया था जैसा कि आपने सुना होगा अतएव चीनी बनकर पातेखामत्-सानमें भर्ती नहीं हो सकता था, क्योंकि वहा प्रति वर्ष कुछ रुपया फीस देनी पडती है। यह मंत्र भेद मैंने उसे कहकर उससे बही रहने देनेके लिये प्रार्थना की। क्योंकि मैं और कहीं जा नहीं सकता था। ईश्वरकी कृपासे वह बहुत सज्जन पुरुष था। उसने कहा कि मेरे शिष्यने तुम्हारे लूटनेके विषयमें कहा है। मुझे पडा शोक है। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं कहता, देखो और कोई सन्देहकी बात न खडी हो। तबसे मैं निर्विघ्न होकर अपने पढ़नेमें लगा। जगन्मन्त्रके लियेमें भी तय्यार हुआ। मैंने खूब स्वाध्याय किया। दैवयोगसे मेरे कन्धोंमें सूजन आगई जिसकी चिकित्साके लिये मुझको फरुद खुलवानेकी आवश्यकता हुई। मैं नगरमें एक दवा बेचनेवालेके पाससे दवा ले आया और आप ही फरुद पोलकर औषध प्रयोगसे मैं शीघ्र ही अच्छा हो गया।



सैंतालीसवां परिच्छेद



तिब्बत और उत्तरी चीन ।

उस समय चीन और * वक्सरकी लड़ाई हो रही थी । सातवाँ अप्रैलको चीनके महाराजके कट्याणके लिये एक विशेष प्रार्थनोत्सवका आयोजन हुआ । यह उत्सव केवल सेरा हीमें नहीं हुआ था वरन् तिब्बतके इन्ही मन्दिगोंमें यह प्रार्थनोत्सव मनाया गया । सेराकी इस प्रार्थनाको मैं भी देखने गया था । जिस विहारमें मैं था उसमें गुतरूपसे सात दिनतक लामा लोग गुप्त पूजा करते थे । ये लोग चीनके विजय-लाभके लिये ही गुप्त उपचार करते थे । पूछनेपर मुझको मालूम हुआ कि पेकिङ्गपर विदेशी लोगोंने आक्रमण कर रखा है और चीनके हारनेकी सम्भावना है । वे कहते थे कि अथ इस पूजासे विजय कार्यमें कोई लाभ नहीं, तोभी वे चीननरेशकी स्वस्थताके लिये उद्योग कर रहे हैं । मैं पूरा २ हाल जाननेके लिये घडा उत्सुक हो रहा था परन्तु विहारवाले मुझसे कुछ भी न कहते थे । सेरामें प्रार्थनाका

* चीनसे विदेशियोंको निकालकर बाहर कर देनेके लिये एक गुप्त समितिका संगठन हुआ था । वह वक्सरकी नामसे प्रसिद्ध थी । उसकी यूरोपके सभी देशोंमें निश्चर १९०० में दबा दिया था ।

काम तसोचन हालमें आरम्भ हुआ। यह कार्य बाजारवालोंके जलूससे आरम्भ हुआ। पहले वशीवादक आये फिर ढाल और लम्बी वासुरीवाले और उनके बाद धूपपात्री और पशाखा लिये हुए भी प्रविष्ट हुए। उनके पीछे तिब्बतके रूपवान दस लडके बौद्धधर्मकी सजीली पोशाकें पहने हाथोंमें धूपपात्रियाँ लिये हुए आये। उनके पीछे पचास भालाबरदार सडकके दोनों ओर थे। प्रत्येक भाला चीनी भालेकी तरह डण्डेपर अस्थिररूपसे फली लगाकर बनाया गया था। फलीकी मूठके नीचे सुनहरी चीनी रेशमकी सोलह २ फीट पट्टियाँ लटक रही थीं। पूरा भाला २५ फीट लम्बा था। भालोंके हथिये सोने या गिल्टके थे। एक इतना भारी था कि मुश्किलसे दो जवानोंके लिये भी उठा लेना कठिन था। इसके बाद ६ फीट ऊँची तिकोनी मेजें थी जिनपर नाना प्रकारकी मक्खनकी बनी हुई बहुतसी मूर्तियाँ रखी हुई थीं। इसके पीछे और मेजें थीं जो चार फ्लीट ऊँची थीं। इसके ऊपर लाल रंगकी मूर्तियाँ थीं जो पके आटे, मक्खन और शहदसे बनाई गई थीं। इन मेजोंको सात या आठ आदमी उठाये हुए थे। इनके पीछे प्रायः दो सौ पुरोहित अच्छे २ भिलमिल करते हुए कपडे पहने हुए निकले। इनमेंसे सौके हाथमें ढोल और सौके हाथमें सरतालें थीं। इनके पीछे प्रधान लामा जिसे गुप्त प्रार्थना करनी थी अपने उच्चपदके अनुसार भव्य पोशाक पहने हुए आया। उसके पीछे उसके शिष्य थे। यह दृश्य बड़ा ही हृदय-ग्राही था। लासाके पुरवासी इस जलूसको देखनेके लिये आये

थे। वह सब जलूस विशाल भवनसे निकलकर बाहर मैदानमें आया और एक झोपड़ीके सामने आकर खड़ा हो गया। वहा प्रधान लामाने मेजपर रखी मूर्तिके सामने स्तुति गाई और दो सौ लामाओंने धर्मपुस्तकोंसे गाथायें पढ़ी और ढोल और परतालें बजाईं। एक लामा खरताल लेकर लामाओंकी कतारोंके साथ २ घूमने लगा। वह सब वाद्य-वादकोंका नायक प्रतीत होता था। क्योंकि वह सबकी गतियोंके साथ उनको ताल देता था। उसके चरणनिपात अन्य नर्तकोंकी अपेक्षा बहुत विपम थे। शीघ्रही मुख्य लामाने अपने भालेको गिरा देनेका संकेत किया जिसपर भालेवालोंने अपने भाले झोपड़ीपर फेंके और आटेकी बनी तिकोनी मूर्तिया भी उसी झोपड़ीपर फेंक दी गईं। तब उस झोपड़ीमें आग लगा दी गई। उसके जलते हुए सब लोग करतलध्वनि करने लगे और सब 'ल्हा किया लो! लहा किया लो!' का शब्द पुकारने लगे। इस शब्दका अर्थ है 'ईश्वरकी जय हो।' इस प्रकार यह उत्सव समाप्त हुआ। दूसरे दिन विहारके सब लामाओंको लासामें बुलाया गया। वहा उन लोगोंसे दलाई लामाके कल्याणके लिये प्राय एक महीने तक प्रार्थना कराई गई। मैं भी लासा गया था और एक पालपो व्यापारीके घर ठहरा।

लासामें मुझको बक्सरकी लड़ाईका बहुत कुछ हाल मालूम हुआ। यह संवाद या तो चीनसे आये हुए व्यापारी लाये होंगे अथवा नेपाल या भारतवर्षके व्यापारियोंने दिया होगा।

यह सब उपहास योग्य था। इनमेंसे कोई भी विश्वसनीय नहीं था। कोई कहता था कि चीनके राजा गद्दीसे उतर गये हैं, उन्होंने अपने घेरेको गद्दीपर बैठा दिया है। कोई कहता था कि चीनका राजा हार गया है और सीनानमें रहता है। कोई कहता था कि ये सब दुःख उस दुष्ट वजीरके कारण हुए हैं जिसने राजाका एक विलायती रमणीसे विवाह कर दिया है। कोई कहता था कि जापान एक देश है, वहाँकी फौजें बड़ी बलवान हैं। उन्होंने पेकिङ्ग ले लिया है। कोई कहता था कि चीनमें अकाल पडा है इससे वहाँके मनुष्य मर गये हैं।

यद्यपि यह बातें नितान्त निर्मूल थी तथापि जापानका नाम सुनकर मुझे हर्ष हुआ। किसी व्यापारीने मुझसे कहा कि जापान बड़ा बलवान है। ज्योंही उसने पेकिङ्गपर अतिकार किया त्योंही उसने जहाज भर भरकर चावल, गेहूँ और कपड़े चीनमें पहुँचा दिये और हजारों चीनियोंको अकालसे बचा लिया। किसी किसीने यह भी कहा कि जापान बड़ा चतुर है वह किसीके साथ मित्रता नहीं करता। अंग्रेजोंको तरह उसने भूमिपर अपना कब्जा करनेके लिये यह सब नीति चली है। इसी प्रकार अफवाहोंपर अफवाह सुनी जाने लगी। पर किसीका विश्वास नहीं था। इतना अवश्य पता लगता था कि चीनसे किसी देशका युद्ध छिडा हुआ है। इसी समयमें पालपोका व्यापारी जिसके यहां मैं ठहरा हुआ था नेपाल जानेके लिये तैयार हुआ। मैंने उसको दो पत्र ढाकमें डालनेको दिये जिनमें एक जापानी

मित्रके नाम था। यह मनुष्य बहुत ईमानदार था। इसने मेरे दोनों पत्र ठीक ठिकानेपर पहुँचा दिये। यहाँ तिब्बतमें इस कामके लिये घड़ी चतुरताकी आवश्यकता है। यहाँके मनुष्योंपर विश्वास करना बड़ा ही कठिन है।

चोएन-जो अर्थात् दलाई लामाके कल्याणार्थ पूजा मंने कभी न देखी थी। शाक्यमन्दिरमें यह पूजा हुई। मुख्य लामाओंके अतिरिक्त और किसीको भीतर जानेका अधिकार नहीं था। प्रायः बीस हजार लामा इस पूजामें लगे थे और दर्शक भी प्रायः २५ हजार थे। सवेरे पाँच बजे घड़ी बजाकर मन्दिरमें लामा लोग बुलाये गये। वे लोग धर्मपुस्तककी गाथाये उच्चारण करते थे। आधे २ घण्टेके पीछे इनको मक्खनमिश्रित चाय दी जाती थी। इन बीस हजार लामाओंमें पूजा करनेवाले बहुत थोड़े थे। कुछ तो योद्धा पुरोहित थे और कुछ आधारा लोग थे जो केवल पेट ही भरनेके प्रयोजनसे आये थे। मन्त्रोच्चारणके बदले या तो वे अश्लील गीत गाते, आपसमें झगडा फसाद करते या अश्लील हास्य परिहास करते थे।

इस गिरोहमें कुछ लामा ऐसे थे जो शान्तिरक्षाका काम कर रहे थे। उनको चायसे कुछ काम नहीं था। लड़ते, देखते तो बिना पूछताछ किये ही वे उन्हें घेत मार देते थे। उनसे लामा बहुत डरते थे। वे लोग ऐसी निर्दयतासे मारते थे कि कभी २ पिटनेवाले मर भी जाते थे। परन्तु इसमें उनका कोई अपराध नहीं माना जाता था। यदि दङ्गा करनेवाला मर

गया तो उसकी लाशको गिद्धोंके लिये बाहर फेंक दिया जाता था ।

योद्धा लामा सचेरेकी दो घण्टे अभ्यास करते हैं । इस समयमें उनको रोटी, चाय, मास और भात मन्दिरकी ओरसे मिलता है । उन्हें एक थाली भात और ३ प्याले चाय दिया जाता है । जब वे अपने वासस्थानको लौटते हैं तो अमीर लोग उनको भिक्षा देते हैं । तिब्बतके अमीर और जमोन्दार लोग बहुत ही उदार होते हैं । वे इन लामाओंको ८ या ६ हजार रुपयेतक दान देते हैं । इस कामके लिये मङ्गोलिया तकसे भी बहुत रुपया आता है ।

एक बार इन पुरोहितोंमें एक रूसका गुप्तचर भी मङ्गोलियासे आया था । वह डाक्टर था । उसको इस विषयकी सान नी-किनकेकी पदवी प्राप्त थी । वह बहुत दान देता था । उसकी ख्याति भी इससे बहुत हुई थी । बहुतसे व्यापारी अपने व्यापारकी दृष्टिसे बहुत दान करते हैं । यह डाक्टर इतनेसे ही सन्तुष्ट था कि दानसे पुण्य बढ़ता है । इस प्रकार पुरोहितोंको बहुत आय हो जाती थी । सालभरके लिये उत्सवोंके अवसर ही पुरोहितोंके बड़े लाभके होते थे । परन्तु श्रद्धाशून्य मनसे दान देनेसे उसके आत्माकी कुल भी उन्नति न हुई । इन लामाओंके लिये यही समय वर्षभरमें सबसे बढ़कर आनन्ददायक है । समृद्धि ही दुराचारको बढ़ाती है । इन दिनोंमें वे लोग बड़े भ्रमङ्गलू हो जाते हैं । यदि उनका आपसमें झगडा हो जावे तो

वे लासामें द्वन्द्वयुद्ध नहीं करते थे। अपने आश्रमोंमें जाकर ही यह झगडा करते हैं। लासामें तो मजिस्ट्रेट लामाके कठोर शासनमें रहते हैं। इससे लासामें वे लोग लडने झगडनेका साहस न करते थे।

जब महापूजा समाप्त हुई तो चार मनुष्य देवराजका रूप बनाकर और आठ मनुष्य राक्षसोंका रूप बनाकर चले। एक २ दलके साथ तीन सौसे पाच सौतक लामा थे। धार्मिक समारोहमें जो गाम्भीर्य होना चाहिये वह गाम्भीर्य इन लोगोंके पास भी फटकने नहीं पाया। यह लोग आपसमें युद्धकीडा करते हुए यहातक कि दृशकोंसे भी परिहास करते जाते हैं। चिरकाल होनेसे इसके सम्बन्धमें विशेष छोटी २ बातें मुझे स्मरण भी नहीं रहीं और उनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक भी नहीं।

अड़तालीसवां परिच्छेद



सेरा कालिजमें प्रवेश ।

मैंने तिब्बतके सब त्यौहार नहीं देख पाये क्योंकि मुझको अपनी प्रवेशिका परीक्षा इन त्यौहारोंसे पहले ही पास कर लेनी चाहिये थी। अतएव मैं समय पाते ही अपने अवकाशका समय भी तैयारी करनेमें लगाता था। अधिक परिश्रम

करनेसे मैं बीमार हो गया परन्तु औपधसे फिर शीघ्र ही ठीक हो गया। इससे मेरे साथियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे लोग पूछने लगे कि क्या तुमने डाक्टरोंकी पढ़ी है। मुझको भी कह देना पड़ा कि हाँ मैंने कुछ पुस्तकें देखी हैं। इस कारण मुझको उन लोगोंकी भी चिकित्सा करनी पड़ती थी।

त्यौहार समाप्त हो जानेपर तारीख १८ अप्रैलको मैं चालीस और विद्यार्थियोंके साथ परीक्षाके लिये गया। मुझे लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षायें देनी पड़ीं।

इनके अतिरिक्त धर्मपुस्तकोंके स्वाध्याय और पठनकी भी परीक्षा हुई। यद्यपि यह परीक्षा कुछ कठिन न मालूम हुई परन्तु फिर भी चालीसमेंसे केवल सात ही पास हुए। पास होनेवालोंमें कुछ योद्धा लोग भी थे। ऋण लेकर इन्होंने कठिन परिश्रम करके इस परीक्षाको पास किया था। यह लोग विद्या-व्ययनके अतिरिक्त कुछ और भी चाहते थे। इन विद्यार्थियोंको यहा १ से १५ येनतक छात्रवृत्तियाँ मिला करती हैं, और उसीके पानेके लिये वे लोग परीक्षा देकर पास हुए थे। मैं पहले दर्जेमें भर्ती किया गया। इसमें १५-२० वर्षके लगभग ४०-५० वर्ष-तकके छात्र थे। यहा तिब्बती ढङ्गका बौद्धतर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। गुरु-शिष्य पढ़ते पढ़ाते समय ऐसे उत्साहसे धात-चोत करते हैं मानों परस्पर विवाद करते हों। पढ़नेकी रीति भी नयी ही है। प्रश्नोत्तर भी नये ही ढङ्गसे होते हैं। तार्किक एक विशेष मुद्रामें बैठा रहता है। प्रश्नकर्त्ता बायें हाथमें

माला लिये हुए नामने घडा हुआ प्रश्न करता है। प्रश्न करते समय वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर दाहिना हाथ उठाकर बायें हाथपर घलपूर्वक मारकर कहता है—“ची। चितोन-चाओ चान” ‘जगतके प्रत्यक्ष सत्यके आधारपर थाओ हमलोग तर्कमें प्रवृत्त हों।’ (चीका तात्पर्य मञ्जु श्री बोधिसत्वका हृदय है। उसका स्मरण करना उससे एक हो जानेके बराबर समझा जाता है। उसको तत्त्वज्ञानमय माना गया है।) इतना कहकर न्यायशास्त्रके अनुसार प्रश्नोत्तर आरम्भ होता है। जैसे प्रथम प्रश्न है—‘बुद्धदेव मनुष्य थे कि नहीं?’ चाहे उत्तर निषेधमें हो या स्वीकारमें प्रश्नकर्त्ता आगे फिर प्रश्न करेगा—“बुद्ध तो मृत्युको पार नहीं कर सके, क्या मृत्युको पार कर गये थे?” यदि इसका उत्तर ‘हां’में हो तो वह कहेगा नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, बुद्ध साधारण मरनेवाले व्यक्तिसे भिन्न था। यदि इसका उत्तर कुछ और अधिक प्रतिभाका होगा तो वह बहेगा, “हां बुद्ध भगवान स्वयं मृत्युसे परे थे तोभी मानवदेहसे मृत्युके वशवर्ती थे।” वह यह भी बतलावेगा कि बुद्धके तीन शरीर थे जिनको सस्कृतमें ‘धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय और तिग्मती भाषामें क्रमसे चोपकू, लोनचोपकू, और तुलकू कहते हैं। इनका तात्पर्य यह है—धर्मकाय या चोपकू वह शरीर है जो सत्यके पवित्र धर्मोंसे बना हुआ है। वह स्वयंमें व्याप्त है। सम्भोगकाय या लोनचोपकू वह देह है जो उसके मुख्य राशिले उत्पन्न होकर सत्यके प्रकाशके साथ पूर्ण आनन्दका अनुभव करता है।

तीसरा निर्माणकाय या तुलकू वह देह है जो उसके ऊपर दया और सब भूतोंके प्रति हित कामनाओंसे बना है।

उसके उत्तरमें यदि कुछ निर्वलता रह जाय तो प्रश्नकर्त्ता अवश्य उसका लाभ उठाता है और कहलाकर छोड़ता है कि बुद्ध भगवान मनुष्यरूपसे भारतवर्षमें उत्पन्न हुए थे। चाहे उत्तर निषेधमें हो या स्वीकारमें, प्रश्नकर्त्ता लगातार प्रश्न करता जाता है और प्रत्येक प्रश्नको हाथ पर हाथ बजाकर सबल करता जाता है और पैर भी नीचे पटकता है। गुरु शिष्यको यह भी सिखा देता है कि पैर इतने बलसे पटकना चाहिये कि पाताल-तक टूट जाय और हाथ पर हाथ इतने बलसे बजाना चाहिये कि ज्ञानके शखनादके निर्भयहृदय और उत्साह भरे भावोंसे सब जगतके पापी दैत्य भी भय खा जाय। प्रश्नोच्चरूपसे वाद-विवाद करनेका यही अभिप्राय है कि ससारसे मुक्त होकर सत्यकी गहरी तह तक पहुँच जाय और नरकवासी पापियोंको बल न पकड़ने दे।

एक बार एक देहाती उस विहारमें दर्शन करने आया। जब वह भीतर पहुँचा उस समय गुरु लोग विद्यार्थियोंको पढ़ा रहे थे। दैवयोगसे पढ़ाते २ भगविद्यापर विवाद हो रहा था। उसका नाम तिब्बतीमें 'कानसा' है। उसका अर्थ हुबेकी नली भी होता है। इसी समय गुरु उत्तेजित हो उठे और साथ ही साथ विद्यार्थीने भी चही भाव धारण कर लिया। देहातीने समझा कि इन दोनोंमें हुकेके ऊपर लड़ाई हो रही है। यह

समझकर वह बड़ा ही विस्मित हुआ क्योंकि विवादके जोशमें आपसमें धूसोंतककी नौबत आ गई थी। तीसरे वर्ष वही देहाती फिर दर्शनोंको आया। उस समय भी प्रश्नोत्तर हो रहे थे। फिर भी उसने यही समझा कि हुक्रेपर ही यह नोकझोंक हो रही है। उसने तुरन्त ही वहाँपर जाकर गुरुजीको अपना हुका भेंट कर दिया, और कहा कि महाशय! आपलोग तो बड़े विद्वान हैं परन्तु फिर भी ऐसी छोटीसी वस्तुके ऊपर वादविवाद कर रहे हैं। मेरा हुका ले लीजिये और इस पुराने भगडेको समाप्त कीजिये। इस देहातीकी यह बात सुनकर सब लोग हस पड़े।

यह विवाद इतने जोश और आवेशमें होता है कि किसी प्रकारकी शिष्टता और विनयकी सीमा नहीं रहती थी। तोभी उन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये साधारण योग्यता नहीं चाहिये प्रत्युत बहुत अधिक स्वाध्यायकी आवश्यकता होती है।

तिब्बती लामाओंमें तर्कहीकी प्रधान शिक्षा होती है। विद्यार्थी भी इस तर्कशास्त्रको इतनी उत्सुकतासे पढ़ते हैं कि विदेशोंसे भी विद्यार्थी बड़े कष्ट सहकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँसे पढ़कर आचार्य होकर निकलनेमें कमसे कम बीस वर्ष लगते हैं। इस विद्यालयकी इस शास्त्रके लिये दूर २ तक ब्याति फँली हुई है। मंगोलियाके भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। जिस समय में वहाँ था उस समय भी प्राय ३०० मंगोलियन पढ़ते थे। यह विद्यालय एक बहुत रमणीक उपवनमें होता है।

धरतीपर श्वेत बालू बिछी होती है और ऊपरसे वृक्षोंकी छाया होती है वहीं गुरु-शिष्य-सम्वाद हुआ करता है। जब प्रथम वादविवाद समाप्त हो जाता है तब गुरु अपने सारस्वत उपवनमें चले जाते हैं। वह भी एक सुन्दर नाना भातिके फूलोंसे सजी पुष्पवाटिका होती है जिसके चारों ओर पत्थरकी बाड और चीनी फैशनका द्वार होता है और वृक्षोंके नीचे श्वेत बालू बिछी होती है। वहा सब लामा लोग इकट्ठे होते हैं और धर्म पुस्तकका पाठ शुरू होता है। पढ़नेके बाद परस्पर प्रश्नोत्तर शुरू होता है। यहां बठकर किसीको किसीसे प्रश्न करनेकी मनाई नहीं है, परस्पर कोई उच नीच नहीं होता। इससे उनकी सहजमें ही ज्ञानवृद्धि होने लगती है। अन्य स्थानोंपर एक प्रश्न कर्त्ता और समाधाता होता है। शेष सब श्रावक होते हैं। एक एक कक्षामें पचास २ श्रावक होते हैं। समय समयपर प्रश्नकर्त्ता और उत्तरदाता बदल सकते हैं। विद्याउपवनोंमें कोई रोकटोक नहीं होती। वृद्ध और युवा सभी परस्पर प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। इससे वहां कीलाहल हो जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

नये विद्यार्थी जो विद्यालयमें भर्ती होते हैं वे मांग २ कर ई धन भी जमा किया करते हैं। मुझको भी ई धन मागनेके लिये दो दिनके लिये लासा जाना पड़ा था। परन्तु तीसरे दिन मेरे घासस्थानके पास ही दो लामाओंमें झगड़ा हुआ और एककी घाह उतर गई। जिसकी घाह उतर गई थी वह अपने गुरुका बड़ा प्रिय शिष्य था। गुरुको इस घातका बड़ा दुःख हुआ

कि मेरे शिष्यका हाथ बिगड़ जायगा। यहा तिज्यतमें हठीका बैठाना फोड़ नहीं जानता। वे गरम लोहेसे जला देते हैं और कुछ औषध पीनेको देते हैं। यम, इतनी ही चिकित्सा यथेष्ट समझी जाती है। मैंने जब उस लडकेको रोते चिल्लाते सुना तो मुझको बहुत दुःख हुआ। मैंने उन लोगोंसे कहा कि इसको किसी डाक्टरके पास ले जाओ। जिसके उत्तरमें उन्होंने यह कहा कि इससे कुछ भी लाभ न होगा और रुपया व्यर्थ खराब हो जायगा। जब मैंने उन लोगोंको समझाया कि उतरी हुई हड्डी ठीक हो सकती है तो उन लोगोंको यहा आश्चर्य हुआ और मुझको उस रोगीके पास ले गये। मैंने जो स्थान सूज गया था वहा सूईसे छेदकर रक्त निकाल दिया और थोड़े ही समयमें वह लडका बिलकुल ठीक हो गया।

उनचासवां परिच्छेद

साक्षात् बोधिसत्वसे भेंट ।

मेरे इस कामसे मेरी ख्याति और भी बढ़ गई। लोग दिन-पर-दिन मेरे पास आने लगे जिससे मेरी पढाईमें विघ्न होने लगा। जितना ही मैं, उन लोगोंसे बचता था उतनाही वह लोग और भी अधिक घेरते थे। शीघ्रमें मुझे लासामें एक चीनी अन्तार

थीन होयांगके पाससे कुछ औषधियाँ ले आनी पड़ीं । मैं जो कुछ औषध रोगीको दे देता था बहुधा, उससे वह रोगी अच्छा हो जाया करता था । कुछ तो मेरे ऊपर उनका विश्वास होनेके कारण अच्छे हो जाते थे और कुछ दवाकी तासीर थी। तिब्बतमें जलोदर यडा कष्टसाध्य रोग, समझा जाता है । तिब्बतवाले इस रोगका इलाज नहीं जानते । मैंने इस रोगके लिये भी एक औषध तैय्यार कर और ईश्वरकी कृपासे प्रति दस रोगियोंमें ७-८ मेरी चिकित्सासे अच्छे भी होने लगे । परन्तु चिररोगी मेरी शक्तिसे बाहर थे ।

इस कामसे मेरी ऐसी ख्याति बढी कि पहले तो मैं अपने विहारमें ही चैद्य माना जाता था । परन्तु अब लासामें ही नहीं बल्कि शिगारेजतक मैं प्रसिद्ध हो गया । मेरे बुलानेके लिये बहुधा तीन २ दिनकी यात्राके-स्थानोंतकसे लोग घोड़े भेज दिया करते थे । मैं गरीबोंसे फीस नहीं लेता था । उनको बिना दाम ही दवा दिया करता था । इससे मेरी ख्याति और भी बढती जाती थी और मैं औषधियोंका देव माना जाने लगा ।

तिब्बतमें क्षयरोग भी कई भातिका होता है । जो रोगी मेरे पास रोगकी प्रथम अवस्थामें आ जाते थे उनको चिकित्सा करके मैं चंगा कर देता था । परन्तु जो चिररोगी रोगके बढ जाने पर आते थे उनको कोई औषध नहीं देता था और उनसे ईश्वरके भजनमें लवलीन रहनेके लिये कह देता था । ऐसा करनेसे क्षयके रोगी मुझसे भयभीत होने लगे क्योंकि वह जानते थे कि

जिसको मैं औपच नहीं देता और ईश्वर भजनके लिये कहता हूँ वे अवश्य ही मर जाते हैं। बहुतसे मृत्युकी बात सुनना नहीं चाहते थे। विशेष करके स्त्रिया इससे बहुत घबराती थीं। तिब्बतवासियोंमें एक विचित्र रीति है कि जब वे बीमार होते हैं तो ज्योतिषीसे पूछते हैं कि वे किस वैद्यसे चिकित्सा करावें। इसके लिये दुष्ट वैद्य उन ज्योतिषियोंको निरन्तर घूस देते हैं कि वह उनको ही चिकित्साके लिये बतलावें। जब इन ज्योतिषियोंको मेरी व्यातिके विषयमें मालूम हुआ तो वह रोगियोंको मुझसे चिकित्सा करानेकी सलाह देने लगे। मैंने कभी किसी ज्योतिषीसे कुछ नहीं कहा था, न मैं किसीके पास गया ही। कदाचित् किसीने मुझे कभी देखा भी न होगा। केवल मेरी ख्याति सुनकर ही वह मेरे पास रोगियोंको भेजता होगा। यदि कोई उच्च पदाधिकारी अथवा पुरोहित बीमार होता तो ज्योतिषी मेरा ही नाम बतला देते। कभी घोडा और कभी परिचयपत्र लिये हुए वे स्वयं मेरे पास आ जाते। कभी बड़े आदरसे प्रार्थनापत्र भी भेजते। जहा कहीं भी मैं जाता मेरे ऊपर लोग बड़ा प्रेम दिखलाते और आदरसे स्वागत करते थे। क्योंकि रोगीके जीवन-मृत्युको मेरे ही अधीन समझते थे।

ख्याति हवाकी भांति चारों ओर फैल गयी थी। मेरा नाम राजप्रसादमें भी पहुँच गया। वहासे मेरे लिये बुलावा आया। वास्तवमें दलाई लामा बीमार नहीं थे। केवल मुझे देखना चाहते थे। तिब्बतमें दलाईलामाके दर्शन करना कोई सहज बात नहीं है।

यदि उनकी सवारी निकल रही हो तो चाहे कोई द परन्तु उनसे घातें करनेका सौभाग्य साधारण पुरोहित क्या बड़े २ लामा तकको भी प्राप्त नहीं होता। अतएव मेरे लिये यह बड़े सौभाग्यकी घात थी। मैं घोड़ेपर सवार होकर राज-महलोंको चल दिया। दलाई लामा उस समय पोर्टालामें नहीं थे। वे नगरके बाहर देहातमें नोल पुलिकामें थे। यह महल नया जगलमें अभी ही बना था। गर्मियोंके दिनोंमें वह वहीं रहा करते थे।

मैं एक चौड़ी सडकपर प्रायः १५० गज चला होऊंगा कि एक पत्थरकी २० फीट ऊंची दीवारके पास पहुंच गया। पश्चिमी फाटकसे घुसनेपर भीतर सडकके दोनों किनारोंपर बहुतसे श्वेत सन्दूक रखी हुई देखे जोकि डाकके खम्भोंकी भांति दिखाई देते थे। प्रत्येक सन्दूक छ गजकी दूरीपर रखी हुई थी। जब दलाई लामा सडकपर निकलते हैं तो इनमें धूप इत्यादि सुगन्धित पदार्थ जलाए जाते हैं। यद्यपि घहापर खुला हुआ मैदान भी बहुत बड़ा था परन्तु सडकके किनारेपर बड़े २ ऊंचे वृक्ष लगे हुए थे। वहांसे आगे बढ़नेपर एक मैदान मिला जिसमें पुरोहितों और लामाओंके रहनेके स्थान थे। प्रत्येक मकानमें एक २ फुलवाडी थी। जितने वृक्ष और पौधे तिब्बतमें मिल सकते हैं वे प्रायः सभी वहा सुशोभित थे।

अहातेके किनारे २ कुत्तोंके लिये कठघरे बने हुए थे। उनमें ५०-६० भयानक कुत्ते जखीरोंसे बंधे थे। यह बड़े मीषण रूपसे

भूँकते थे। लोग कहते हैं दलाई लामाको कुत्तोंसे इतना प्रेम है कि यदि कोई मनुष्य उनके लिये कोई मजबूत कुत्ता लावे तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं और लानेवालेको बहुत कुछ इनाम भी देते हैं। अतएव बहुत दूर २ से आये हुए कुत्ते वहापर बधे हुए थे। इनसे पहलेके दलाई लामाओंमेंसे किसीको भी कुत्तोंसे ऐसा प्रेम नहीं था। फाटकसे प्राय पचास गजकी दूरीपर एक मकानपर पहुँचकर मैं घोड़ेसे उतर पडा और राजवैद्यके मकानमें पहुँचाया गया।

राजवैद्यके मकानमें चार बड़े बड़े कमरे थे। एक बैठक, स्वाध्यायालय, भृत्यगृह और एक पाकशाला थी। मकानतक पहुँचनेका मार्ग एक रमणीक उपवन था जिसके अन्तमें एक पर्दा टगा हुआ था। उसको पार करनेपर एक और बाग मिला। उसके एक तरफ मिलनेकी बैठक थी।

मिलनेके कमरेमें चीनी ढगके सरकानेवाले श्वेत किचाड लगे हुए थे। उनमें काँच लगे थे। इस कमरेमें दो मूर्तियाँ सुनहरी चौकीपर रखी हुई थीं जिनमें एक बुद्धदेवकी और एक तसाग खापाकी थी। यह भी एक नये सम्प्रदायके प्रवर्तक थे। उनके साथ नाग, मोर और पुष्पोंकी छटा थी। इस मकानमें घादीके दीपकोंमें मोमवत्तिया और घीके दीपक जल रहे थे। वैद्यराज एक त्रिव्यती फैशनकी दरीपर बैठे हुये थे। उनके सामने दो डेस्कें रखी हुई थीं। उन्हींके सामने समूरका बिछौना अति-धियोंके लिये बिठा हुआ था। मुझे उसी बिछौनेपर बैठनेकी

आज्ञा मिली। बैठते ही एक नौकर बहुत बढ़िया चाय लाया जिसको पहले उसने वैद्यराजके प्यालेमें और फिर मेरे प्यालेमें डाला। मैंने सुना था कि वैद्यराज बड़े दयालु हैं। आश्चर्यकी बात है कि उनका मुख मेरे मुखसे ऐसा मिलता जुलता था मानों हम दोनों सगे भाई हैं।

वैद्यराजने मुझसे कहा कि 'दलाई लामा बीमार नहीं हैं। केवल तुम्हारी ख्यातिको सुनकर उनकी इच्छा तुम्हें देखनेकी है। मुझे आज आपसे बातचीत करनेका अवकाश नहीं है। काम बहुत है। लामा महाशयसे आप थोड़ी ही देर बातें कीजिये। लामा महाशयको जो कुछ आपसे पूछना है उस विषयमें मैं आपको समझा दूंगा।'

इतना कहकर वैद्यराज मुझ दलाई लामाके महलकी ओर ले चले। द्वारपर एक लामा पहरेदार था। यह लामा एक तग आस्तीनोंवाला चोगा पहने हुआ था। हरएक लामा वसा कोट पहननेका अधिकारी नहीं है। यह लामा लट्ट हाथमें लेकर पहरा देता था। भीतर एक और द्वार था जिनपर चार लामाओंका पहरा था। इन चारोंके पास भी छोटे २ चार दण्डे थे। इस फाटकके भीतर घुसकर मैंने देखा कि दोनों दीवारोंपर एक भयानक मंगोलियनके चित्र बने हुए हैं वह लगामोंसे एक सिंहको लिये जा रहा है। अन्दरसे दलाई लामा प्रगट हुए।

दलाई लामाके आगे आगे राजप्रतिनिधि दन-पेन-चेनमो, और धर्म प्रतिनिधि चोप-चोन-केनवो थे। और उनके पीछे यजनी विन-

पोचे धर्मगुरु थे । दाहिने हाथकी कुर्सीपर दलाई लामा विराज गये । दो वजीर दोनों ओर खड़े थे । धर्मगुरु सामने कुछ नीची कुर्सीपर बैठ गये । सात आठ प्रधान लामा सामने बैठ गये । वेंचराज मुझे दलाई लामाके सामने ले गये । मैंने तीन बार प्रणाम किया । दलाई लामाने मेरे सिरपर हाथ रख दिया तब मैं लगभग चार गज पीछे हटकर वेंचराजके पास जा पडा हुआ ।

दलाई लामाने कहा कि 'तुमने सेरा विहारमें रहकर बहुत अच्छा काम आरम्भ किया है । तुम लामाओंकी चिकित्सा करके उनको बहुत सहायता पहुँचाते हो । मेरी इच्छा है कि तुम कुछ समय और भी यहा ठहरकर इस कामको जारी रखो । मैंने उत्तर दिया, कि 'श्रीमान्की जैसी आज्ञा है वैसा ही करूँगा।' मैंने सुना था कि दलाई लामा चीनी भाषा बहुत अच्छी जानते हैं । अतएव मुझे भय था कि यदि वह मुझसे चीनी भाषामें बातें करने लगेंगे तो मेरी कलाई पुल जायगी । परन्तु मैंने अपने मनमें दृढ विचार कर लिया था कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सत्य कह दूँगा कि मैं जापानी हूँ । क्योंकि दलाई लामासे भेंट कर लेना जापानीके लिये कुछ कम गौरवकी बात नहीं है । भाग्यवश उन्होंने चीनी भाषामें कोई बात नहीं कही । तिब्बती भाषामें ही चीनके बौद्धधर्मके विषयमें पूछते रहे जिसका मैंने उचित उत्तर दिया । उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुमको यहा कोई उच्च पद दूँ । मेरा मान बढ़ानेके लिये मुझे चायका प्याला दिया गया जिसको मैं रीति अनुसार पीने लगा । मैं उसे-

पूरा पी, भी न पाया था कि इतने हीमें श्रीमान् उठकर चले गये। दलाई लामाकी पोशाक साधारण लामाओंकीसी नहीं थी। उन्होंने कन्धेपर एक रेशमी पोशाक खुली नीचेतक लटकती हुई पहनी हुई थी जिसे सघारो कहते थे। कमरमें तिब्बती ऊनका पटकल लपेटा हुआ था। नीचेकी तरफ 'नेमा' पहने हुए थे जो चीनी ऊनका बना हुआ था। उनके सिरपर एक धार्मिक मुकुट था। प्रायः दलाई लामा बिना मुकुटके नगे सिरही रहा करते हैं। उनके बायें हाथमें एक माला थी। उस समय उनकी वयस प्रायः छत्तीस वर्षकी होगी। लम्बाई पाच फुट आठ इंच थी। तिब्बतमें प्रायः यही साधारण कद होता है।

दलाई लामा देखनेमें बहुत वीर थे। मौँहें ऊपर उठी हुई थीं। उनकी आखें बड़ी तेज थीं। एक बार एक चीनी ज्योतिषीने कहा था कि तिब्बतके दलाई लामाके समय एक युद्ध अवश्य होगा जिससे देशमें बड़ा त्रिद्रोह फैलेगा, क्योंकि वीर पुरुष होने पर भी उनके मुखपर दूरदृष्टिके चिह्न दिखलाई पडते हैं। उनका चेहरा बहुत रोबदार था। उनके सामने आकर कोई भी मनुष्य सिर झुकाये बिना नहीं रह सकता था। मुझे उनसे मिलनेका कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी बातोंसे उनकी रुचि राजनीतिकी ओर धर्मकी अपेक्षा अधिक प्रतीत होती थी। वे बौद्ध-याताघरणमें पले थे। उनकी उसी धर्ममें श्रद्धा भी बहुत थी। वे इस धर्म और उनके अनुयायियोंके सब दोषोंको जडसे सुधार देना चाहते थे। राजनीतिक विषय सदैव ही, उनके चिन्तमें घूमा

करते थे। वह अग्रेजोंसे बहुत भयभीत थे और सदैव ऐसीही चेष्टा करते रहते थे कि जिसमें वे लोग तिव्यतके भीतर न आने पावें। उनके पास उनके घैरी भी बहुत रहा करते थे। यदि वह अपने घचावका ध्यान न रखते तो अभीतक कई चार विपके प्रयोगसे मर गये होते। जब ऐसे पड्यन्त्री पकड़े जाते थे तो उनको फासीपर चढा दिया जाता था।

चौथेसे नवें लामातक पाच लामाओंमें कोई भी पच्चीस वर्षको अवस्थातक नहीं पहुँचा। सब ही १८ से २२ वर्षके भीतर ही विप देकर मार डाले गये। यह बात वहाँके 'प्राथ' सभी लोग जानते थे। जब कोई चतुर दलाई लामा गद्दीपर बैठता तो उसके द्वारी अपने इच्छानुसार अपने स्वार्थ नहीं साध सकते थे। इनमेंसे कई एक बहुत चतुर हो गये थे, क्योंकि वे २२-२३ वर्षतक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। इतिहाससे पता चलता है कि सर्वसाधारणके उपकारार्थ उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं।

जिस मनुष्यके घरपर मैं टिका हुआ था वह किसी समयमें मालका घंजीर था। उसने जब इन भूतपूर्व दलाई लामाओंका यह हाल मुझे सुनाया तो मैं आखोंसे आसू टपकाये बिना न रह सका।

दलाई लामाका द्वार द्रोही चोरोंके छिपनेका छोह था। ये चोर दलाई लामाके द्वारी कहाते थे। वे अपने भरसक प्रयत्नसे राजभक्त द्वारियोंका बल कम करनेमें लगे रहते थे।

राजमक दर्बारी सख्यामें भी कम थे और उनका बल भी कुछ न था। इन्हीं कुचक्रियोंकी कुटनीतिसे यह भूतपूर्व माल वजीर अपने सहयोगी दल सहित दरबारसे बाहर निकाल दिया गया था। ये कुचक्री लोग लोगोंके सामने पवित्र धर्मके महाराज दलाई लामाको बड़ा मान सत्कार दर्शाते हैं। नहीं तो वे अपने आसनपर कभी जम न सकते। उनके स्वार्थके विघातक कोई भी कारण उपस्थित होते तभी वे आपसमें गुप्त मन्त्रणामें लग जाते और राजमक दरबारियोंपर झूठा दोषारोपण करनेका ढंग करने लगते। वे कभी २ प्रगटमें उनको निर्लज्जतासे गालिया-तक देने लगते और कहा करते कि अमुक २ पुरुषने दलाई लामाका समुचित सत्कार नहीं किया। वे इस अपमान करनेके अपराधी हैं। इस धूर्त कपट नीतिसे वे दुष्ट दर्बारी ही सब्बे भक्त विद्वान लामा सिद्ध होते और दलाई लामा सदा ऐसे भुजग लामाओंसे घिरे रहते हैं।

फलत दलाई लामा बड़े ही संकटमें रहते हैं। वह अपने खाने पीने तकमें बड़े सावधान रहते हैं कि कहीं भोजनमें ही उन्हें विष न दे दिया जाय। ऐसे कुचक्री धुतोंसे भरा दरबार सारे ससारमें और कहीं भी न होगा। यह सोचकर मैं आखोंसे आसू बहाये बिना न रह सका। वर्तमान दलाई लामा इतने बुद्धिमान तथा सावधान रहते थे कि धूर्त बदमाश दर्बारी उनके विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तब भी वे बड़े संकटमें थे। अपनी अघस्थाकी अपेक्षा वे बहुत अधिक बुद्धिमान थे। यद्यपि-

भवस्या छोटी थी तोभी वे दु खित दीनोंके प्रति घडे दयालु तथा अपनी प्रजाके प्रेम और आदरके पात्र थे। स्थानीय शासक पदाधिकारी उनसे बहुत विरुद्ध थे क्योंकि वे उन्हें उनके पदोंसे हटाकर उन्हें दण्डित करना चाहते थे। उन्हें कैदमें डालकर उनके दुष्ट कार्यों का दण्ड दिया चाहते थे। मैंने दलाई लामाके भीतरके महल भी कई बार देखे। वे बहुत ही सुन्दर थे। यह चीनी, तिब्बती और भारतीय ढंगपर थे। उनके बागमें बनावटी क्रीडाशैल चीनी ढंगपर बना था। इसके भीतर एक हरा मैदान कुछ फुलचारीसे घिरा था। वह स्थान नि सन्देह बडाही मनोहर था। महलका भीतरी भाग तिब्बती ढगका और छत चीनी ढगका और शेष भाग भारतीय ढगका था। राजकीय उद्यानमें बहुतसे कृत्रिम शैल बने हुये थे और जहाँ तहाँ आड, झाऊ, चीड और देवदार आदिके वृक्ष लगे थे। तिब्बतमें कुछ एक फूलदार पौधेही गर्मियोंमें खिलते हैं। सर्दियोंमें खूब फूल होते हैं। गुलाब, गेन्दा गैनियाँ, सूर्यमुखी आदि नाना फूल बरामदेमें खिल रहे थे। फर्शपर बेशकीमती जडाऊ पत्थर, हीरे माणिक चमक रहे थे और भीतोंपर नाना प्रकारके चित्र अंकित थे। भवनमें एक ओर तिब्बती ढगकी दो चटाइयोंपर दलाई लामाका राजसिंहासन था। उसके एक तरफ चीनी ढगकी दरी बिछी थी। जिसपर चीनी ऊनी गद्दा बिछा था। दरीपर एक बढिया कीमती चीकी रखी थी। इसी प्रकार और भी बहुतसे कमरे थे जिनमें मुझे जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वे बाहरसे भी बहुत सुन्दर थे।

मैं बहुधा वैद्यराजके यहा आता जाता था।। उन्होंने मुझे बहुत सी दवायें बतलाईं। उन्होंने बतलाईं, सही परन्तु मैंने जो विद्या किताबोंसे ग्रहण की थी वह उसके पास नहीं थी। इसके आधारपर ही मैं उनसे बहुत देरतक विवाद कर सकता था। इसी कारण वह मेरा बहुत आदर करते थे। उन्होंने कहा कि "मैं दलाई लामासे कहूंगा कि वह तुमको राजवेद्य कर दें।" मैं इसपर सहमत नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं विद्या पढ़ना चाहता हूँ और मेरा विचार है कि भारतवर्ष जाकर संस्कृत पढ़ें। यह सुनकर उनको बहुत दुःख हुआ। लाला नगरमें इस समय कोई अच्छा वैद्य भी नहीं था। उसने कहा—“बौद्धधर्मावलम्बीके लिये केवल यही काम है कि दूसरोंकी रक्षा करें।” इसके उत्तरमें मैंने कहा—“वेद्य तो मनुष्योंको केवल इस लोकके साधारण कष्टोंसे बचा सकता है। परन्तु वह आत्माकी मुक्तिके लिये कुछ भी नहीं कर सकता। डाक्टर चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो क्या वह रोगीको मरनेसे बचा सकेगा ?”

कभी नहीं ! इसके अतिरिक्त मुझे भय है कि उनका परोपकार करनेकी अपेक्षा मैं उनको अधिक हानि पहुंचा दूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ थोड़ी सी इनी गिनी दवाइयाँ हैं। मैं उनके रोगोंको भले ही शमन कर दूँ, परन्तु मैं उनकी आत्माको शान्ति नहीं दे सकता। बौद्ध उपदेशक लोगोंको बहुत अधिक दुःखदायक और चिरकालिक रोगोंसे मुक्त कर सकता है। उस भवरोगको शान्त करनेका उपाय जानना बड़ा आवश्यक है। बुद्ध

सबसे बड़ा वैद्यराज था। उसने ८४ हजार हृदयरोगीके लिये ८४ हजार औषधियोंका उपदेश दिया है। हम उसके शिष्य हैं हमें उपाय सीखना चाहिये। यह सुनकर वैद्यराजने मेरा पक्का निश्चय जानकर कहा कि यदि ऐसाही है तो मैं दलाई लामासे कह दूंगा कि वह तुमको लासामें रखे, बाहर न जाने दें। यह सुनकर मुझे बहुत भय हुआ कि मैंने अपना रहस्य क्यों खोल दिया। तुरतही उसको ठंढा करनेके लिये मैंने चार्तालापका विषय बदल दिया। तिसपर भी अब मुझपर ऐसी घटना घटी जिसका मुझे स्वप्नमें भी विचार न था।

पचासवां परिच्छेद

सेरा विहारकी जीवनचर्चा

अब सेरा विहारमें इस बातपर विचार आरम्भ हुआ कि जो मनुष्य ऐसा माननीय है कि दलाई लामा और बड़े २ दर्बारी उसे बुलाते हैं, उसे क्या साधारण लामाओंके साथ रहने दिया जाय। सोच विचार होनेके पश्चात् यह निर्णय हुआ कि मेरे लिये एक बढिया मकान सबसे पृथक् बना दिया जाय। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि सर्वसाधारणके रहनेके कमरे बहुत मैले, दुर्गन्धयुक्त और अन्धकारमय थे। मैं २१ जुलाईको दलाई लामाके पास गया था। उसी महीनेके अन्तमें मुझे पृथक्

साफ सुथरा कमरा मिल गया। विद्यालयमें यह नियम था कि कोई नया विद्यार्थी अकेले कमरेमें नहीं रह सकता है और यदि कोई धनी अपना धन खर्च करना चाहे तो उसको भी मैलेसे मैला एक कमरा मिल सकता था। परन्तु मैं मैला कमरा भी लेनेमें समर्थ न था। हर एक लामाको चतुर्थ श्रेणीका कमरा भी वहा मैली कुचैली अन्धेरी कोठरीमें १६ साल रहनेके बाद मिलता था। ३ वर्षके बाद उसे तृतीय श्रेणीके आश्रममें स्थान मिलता था। परन्तु यह बात याद रखनी चाहिये कि यह सब बात रुपयेपर निर्भर थी। वह जब आचार्यकी पदवी पा लेता था तब उसे दूसरी श्रेणीका आश्रम मिलता था। उच्च कक्षाका आश्रम केवल पूर्वजन्मके उन लामाओंको दिया जाता था जो वहा स्वाध्यायके लिये आते थे। परन्तु मुझे फिर भी दूसरे दर्जेका कमरा मिल गया था। यह मकान दोमजिला था। भोजन बनानेका भी सामान था। ऊपरकी मजिल बहुत अच्छी थी। इस मकानके लिये सामान और भृत्योंकी भी आवश्यकता थी। भाग्यवश मेरे पास इतना रुपया हो गया था कि मैंने उस मकानमें उपयुक्त सामान मोल ले लिया।

यहांके लामा लोग भिन्न २ आश्रमों और कक्षाओंमें थे तोभी वे तीन भागोंमें बाटे जा सकते हैं। उत्तम, मध्यम और निरुष्ट। मध्यम लामाओंका व्यय प्रति मास सात येन है। मकानका किराया उनको देना नहीं पडता है। यदि विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं तो विद्यार्थी अपने लिये आप ही अपना स्थान खोज लेते

है। ऐसी अवस्थामें उसको केवल तीन येन किराया देना पड़ता है, मैले कमरेके लिये भी पच्चीस सेन देने पड़ते हैं।

विद्यार्थियोंके कपड़ोंमें एक ऊनी टोपी, एक कुर्ता, एक जोडा जूता और एक लामाओंका लबादा होता है। इन सबके लिये उसे बीस येन देने पड़ते हैं। सवेरेको चाय मखन और सेंकी रोटी मिलती है। यद्यपि तीन बड़े २ देग चायके विहारमें आते हैं परन्तु जो लामा धनी हैं वह अपनी चाय आप ही तय्यार करा लेते हैं। तीसरे पहर फिर चाय मिलपी है। इसके साथमें मास भी मिलता है। वह प्राय सूखा और कभी २ कच्चा होता है। रातको रोटी, मूलीकी, तरकारी और घी मिलता है। यद्वाके लोग चाय अधिक पीते हैं। क्योंकि मासके साथ खानेको तरकारी कम मिलती है। चायका प्याला चादीके ढक्कनसे ढका रहता है। चाय ठढी हो जानेपर पी जाती है। उसके बाद उसमें और चाय डाल दी जाती है और बीस मिनट तक उसे ठढा होने देते हैं। सरदियोंमें पाच छ मिनट हीमें ठण्डी हो जाती है। इस बीचमें परस्पर विवाद ही किया करते हैं। मध्यम श्रेणीके लामाओंके भोजनोंकी यही रीति है। बहुतसे लामाओंके पास धरती भी है। वह लोग याक, घोड़े, भेड, और बकरी भी पालते हैं। परन्तु मध्यम श्रेणीवालोंके पास पचास याक और दस घोड़ोंसे अधिककी सम्पत्ति नहीं होती है। यह पशु खेत जोतनेके काममें भी लाये जाते हैं। इस निजी सम्पत्ति या वैम-किक व्यापारके बिना उनका गुजरान नहीं चलता, इनकी

मन्दिरसे आय और भक्तोंके दानसे भी पर्याप्त गुजरात चलती है।

कोई २ लामा और काम भी करते हैं अर्थात् व्यापार करते हैं। पशु पालते हैं। बौद्धधर्मके पूजाकी वस्तुयें तैयार करते हैं। बुद्धदेवको तस्वीरें बनाते हैं। वे दर्जी, चढ़ई, राज, मोची और सगतराशीका काम भी करते हैं। उनके पास एकसे छ सौ तक भूमिके टुकड़े हैं। एक टुकड़ा भूमिको एक जोड़ी याक अच्छी तरहसे एक दिनमें जोत सकते हैं। ५ लाख येनकी पूजीसे व्यापार करनेवाले लामा हममेंसे तीन चार ही थे। वे बड़ी शानसे रहते थे। उनकी पोशाक भी चढिया तिब्बती ऊनकी बनी होती थी।

चढिया चाय बनानेके लिये छ घण्टेतक उसको उबालते हैं। इतनी देरमें वह गहरे भूरे रंगकी हो जाती है। तत्पश्चात् याकके घी और नमकमें मिलाते हैं। पहले पहल में इस चायको न पी सकना था क्योंकि इसके ऊपर तेलसा तैरता मालूम होता था।

तिब्बतके उच्च श्रेणीके लोगोंमें यही पान बड़ा उत्तम समझा जाता है। वे इसके साथ नित्य प्रातः 'त्सु' या रोटी भिगो कर खाते हैं। त्सुमें खांड, मलाई और घी मिला होता है। तिब्बती लोग प्रातः भोजनमें कच्चा पका हुआ सूखा मास भी खाते हैं। लामा लोग मध्याह्नमें चावल भी खाते हैं, चावल तिब्बतमें नेपालसे जाता है। वे चावलके साथ अगूर, खांड और घी मिलाकर

खाते हैं। चावलके बाद वे रोटी या अण्डेकी खीर खाते हैं। रातको वे आटेका हलवा वा मासको खीरके साथ मिलाकर खाते हैं। मासकी खीर, मास, कन्दा, मलाई और घी मिलाकर पकाई जाती है। यह उच्च श्रेणीके लोगोंका भोजन है। वे बिना मासके एक दिन भी नहीं रह सकते। यदि एक दिन भी उनको मास न मिले तो वे अपनेको कमजोर होता हुआ मानने लगते हैं।

उच्च श्रेणीके लोग बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं। उनके अपने बगले होते हैं, अपने सुन्दर भवन और मन्दिर होते हैं। उनको अपनी जायदादसे बड़ा धन मिलता है। वे अपने घरोंपर सत्तर-अस्सी नौकर रखते हैं। इन्हीं नौकरोंमेंसे खजानची और नम्बरदार भी होते हैं।

नीची श्रेणीके लोगोंकी दशा बड़ी ही शोचनीय होती है। लेखनी उनकी दशाका आधा भी वर्णन नहीं कर सकती। योद्धा-लामा लोग भी अपनी रक्षा अपने आप कर लेते हैं। वे किसान और पहरेदारी कर लेते हैं। वे अपने घरके पेशेसे भी कुछ कमा लेते हैं। तिसपर भी अपने पेटभर ही कमा पाते हैं। कुछ लामा-इनसे भी गरीब होते हैं, ये विद्यार्थी लामा होते हैं जिन्हें अपने पठनकालमें ही अपने पेटके लिये भी कमाना होता है। उन्हें अपने विद्यार्थीपनेके खर्च भी उठाने पड़ते हैं। उन्हें स्वाध्यायसे ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें अपने द्रव्य कमानेका अधिक अरकाश ही नहीं मिलता। श्रद्धालुओंके दान और मन्दिरकी छात्र-

वृत्ति दोनों मिलकर भी दो तीन येनसे अधिक नहीं होते। यह उनके गुजारेके लिये पर्याप्त नहीं होता। चाय तो उन्हें मन्दिरसे मुफ्त मिल जाती है परन्तु रोटी जो मुख्य भोजन है बिना कमाये नहीं मिलती। तर्कशिक्षाके बाद तात्संगमें इन्हें ३ प्याले चाय मिलती है परन्तु एक मास उनकी परीक्षामें ही लग जाता है। इस दशामें उनको ५० सेन और अपनी गाठसे लगाने पड़ते हैं। उन्हें हाथ सँकनेके लिये ई धन भी दरकार होती है। उन्हें फिर तरोताजा होनेके लिये भोजन भी चाहिये। धनियोंकी उयाल कर रही करके फेंकी हुई चायको ही वे उयाल २ कर अपनी चाय बना लेते हैं। याकका गोबर ही वे ई धनके लिये बर्तते हैं। याकके गोबरकी पाथियोंका एक बोरा ३५ सेनमें खरोदना पडता है। एक आदमीको सालमें ४ बोरे लगते हैं। गरीब लोग एक ही बोरेमें काम चला लेते हैं। गरीब लामाके मकानमें एक भेडकी चालोंवाली खाल, एक लकड़ीका प्याला, एक माला और एक मैली कुच्चैली गद्दी जिसे रातको बिछाकर सो जाता है- बस इतनी ही कुल सम्पत्ति होती है। कोनेमें एक चूल्हा, एक मिट्टीका तसला और एक घडा धरा होता है। बस एक कमरेमें इससे अधिक सामग्री नहीं होती। एक कोनेमें खूटीपर एक झोली टगी होती है। जिसमें आटेकी रोटिया रखी जाती हैं। यह झोली शायद ही कमी पूरी भरती है। उनकी सबसे अधिक मूल्यवाली सम्पत्ति तर्कशास्त्र होती है। ऐसा कोई ही लामा

४, ५, पुस्तकें तक भी न होंगी। यह भी उनकी चिरस्थायिनी सम्पत्ति नहीं होती क्योंकि परीक्षाके उपरान्त वे इन पुस्तकोंको बेच देते हैं। रातके समय उनके बिस्तरेमें केवल ओढनेका लबादा और एक चादर होती है। इसके अतिरिक्त एक मैला कुचैला कम्बल होता है। एक कम्बल प्रायः कइयोंकी संयुक्त सम्पत्ति होती है। कई कमरोंमें मिट्टीका बर्तन भी कइयोंका एक होता है।

मैं एक बार गरीब विद्यार्थियोंकी बीमारीकी दशामें टपने गया। मुझे उनका दुर्दशा देखकर पडा दुःख होता था। ये इतने गरीब होते थे कि इनको बिना मूल्य औषधके साथ २ कभी २ द्रव्यकी सहायता भी मुझे देनी पडी। इन गरीब विद्यार्थियोंके विषयमें मुझे यहा तक भी पता लगा कि इन्हें कभी २ दो २ दिन फाका भी करना पडता है। जब उनको थोडा भी रुपया मिल जाता है वे तभी रोटी खरीदनेके लिये लासा चले जाते हैं। बहुतसे लौटने समय मीधे अपने आश्रममें आकर मारे भूपके होटलोंमें चले जाते हैं। वहा उनका सब रुपया खर्च हो जाता है। वे फिर वैसेके वैसे ही दरिद्र हो जाते हैं। मैं जब भी ऐसे दरिद्र विद्यार्थियोंसे मिलता था उन्हें कुछ देता ही था। वे इस कारण मेरा इतना आदर करते थे कि वे मुझे देखते ही खडे हो जाते और मेरे गुजरते हुए प्रणाम करते थे।

इक्यावनवां परिच्छेद

मेरे तिव्वतके बन्धु और दाता ।

मुझे चिकित्सा करते रहनेके कारण बहुतसी औषधियाँ मोल लेनी पडती थीं । अतएव चीनी अत्तार चीन होथङ्गके यहा बहुधा जाना पडता था । चीनमें प्रत्येक औषध उवालकर उसका अर्क बनाकर प्रयोग करते थे । परन्तु तिव्वतमें सब औषधियोंके चूर्ण बना लेते हैं । यहातक कि सींग और पत्थरको भी चूर्ण कर लेते हैं । कभी कभी इन औषधियोंके लिये मुझे उसके यहा दो दो दिनतक ठहरना पडता था । मैं लासाभरमें उसका सबसे बडा ग्राहक था । अतएव वह मेरा बडा आदर किया करता था । उसने मुझको वैद्यकी एक पुस्तक भी पढनेको दी जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ था । अब मैं हरएक रोगीको निधटक अपने हाथमें ले लेता था । यद्यपि ऐसा काम करनेमें मैं बहुत भूल करता था क्योंकि 'नीम इकीम खतरण जान' । मैं शरीर-विज्ञान अच्छा जानता था । कोई दूसरा वैद्य इतना भी नहीं जानता था ?

इस दूरानके स्वामी लीटसूशूकी वयस प्राय तीस वर्षकी थी । उसका मकान बहुत सुन्दर था । इस घरमें उसकी स्त्री, पुत्र और एक कन्या थी । इनके अतिरिक्त लीटसूशूकी

सासु और तीन दासिया भी थीं। यह लोग मुझे अपने घरकासा समझती थीं। मैं भी जो घस्नुयें अपने इष्ट मित्रोंसे पाता वे उनकी मंड कर देता था। यदि कोई मुझको रोटी, शकर, ईख और अगूर इत्यादि इतने अधिक दे जाता था कि मेरे त्वर्चसे बच रहते तो मैं अत्तारके घर जाकर उसके बर्शोंको गट देता था। वे मेरी सदा जोहमें रहते थे। किसी कारण यदि मैं उसके घर दो दिन भी न जाता तो घरके सब लोग घबरा जाते थे। बर्शोंसे मेरा ऐसा प्रेम हो गया था मानों वर्षोंसे साथ रहे हों। इस बर्शोंके मेलने जब मैं तिव्यतसे बिदा हुआ उस समय बड़ा लाभ पट्टु चाया था।

इन अत्तारके यहा दया लेने बड़े बड़े मनुष्य आया करते थे। इनमेंसे एक व्यक्ति मात्साग भी था जो कि चीनी अम्पानका मन्त्री भी था। यह व्यक्ति बहुत पढालिखा और अनुभवी पुरुष था। यद्यपि उसका पिता चीनी था परन्तु उसकी माता तिव्यती थी और तिव्यतमें ही इसका जन्म भी हुआ था। यह चीनी और तिव्यती दोनों ही भाषायें बहुत अच्छी बोलता था। उसने चीनी भाषा खूब पढी थी और दो बार पेकिङ्ग हो आया था। वह तीन बार भारतवर्ष जाकर कलकत्ता और घम्पईमें सौदागरी करके बहुतसा ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसके आफिसमें काम थोडा होता था अतएव वह प्राय खाली रहा करता था और अत्तारसे उसकी मित्रता थी इस कारण बहुधा अत्तारके यहा आया जाया करता था। इसी कारण उससे मेरी भी जान पहचान हो

थी। उसने मुझे तिब्बतके बहुतसे गुप्त भेद बतलाये। तिब्बतवासियोंके अच्छे और बुरे सब तरहके आचार बनलाए। उसकी बातोंसे मालूम हुआ कि वह जो कुछ कहता है सत्य ही कहता है।

चीनी अम्बानका मन्त्री था। अतएव उसको इन दोनों सरकारोंका बहुत कुछ ज्ञान था। वह ऐसा बातूनी था कि मेरे पूछनेके पहले ही सब बातें कह दिया करता था। उसी जान पहचानसे यह लाभ हुआ कि जत्र मैं पढ़ते-२ थक जाता तो उसकी बातोंसे दिल बहलानेके लिये अत्तारकी दूकानपर जा पहुंचता था।

एक दिन मैं अत्तारके द्वारपर खड़ा हुआ था कि एक अमीर पुरुष एक सेवकके साथ दूकानके सामनेसे निकला। कुछ आगे जाकर उसने नौकरसे कहा—‘यह वही है’। वह पुरुष फिर लौटकर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि ‘क्या तुमही हो? पहले तो मैंने नहीं पहचाना परन्तु फिर शीघ्र ही पहचान लिया। यह वही पारा वजीरका लडका था जिससे दार्जिलिङ्गमें मेरी भेंट हुई थी। आजकल वह कुछ कृश हो रहा था। वह देखनेमें पागल मालूम नहीं होता था। वह किसी आवश्यक कामके लिये जा रहा था परन्तु मुझे देखकर अत्तारके घरके भीतर चला आया। अत्तारकी स्त्री उसको जानती थी। उसने उसको बैठनेके लिये कुर्सी दी। मैंने उसको समझा दिया कि यहापर हमारी दार्जिलिङ्गके भेंटके विषयमें कोई बात न होनी चाहिये। वह

गो इस बातको जानता था कि यह बात छिपी ही रहनी चाहिये।

उसने जितनी देर घड़ा घेठकर यातचीत की उससे यह प्रतीत न होता था कि उसमें किसी भातिका पागलपन है। वह बहुत समझदार मालूम होता था। और बातोंके प्रसङ्गमें उसने कहा कि 'तीन महीने हुए मेरे एक नौकरने चोरी की थी। उसके लिये मैंने उसको कुछ अधिक दण्ड दिया जिसके कारण उसने मेरे काफ़में छुरी घोप दी। वह इतनी गहरी चली गई कि बात बाहर दिखाई देने लगी। इसी कारण मैं इतना दुबला हो रहा हूँ।' अब वह अन्तारके यहासे बिदा हुआ तो अन्तारकी स्त्रीने मुझसे कहा कि 'इम मनुष्यने अपने घावके विषयमें सब कूट कहा है। यह चोट उसके अपने ही कामोंसे लगी है। मुझे घरका सब हाल मालूम है। पहले मेरा विवाह इसके बड़े भाईसे हुआ था। मैं निर्धनकी लडकी थी इससे उसने मुझे अपने घरसे निकाल दिया। यह मनुष्य बड़ा फजूलखर्च था। इसके ऊपर बहुतोंका कर्ज हो गया था। इसी कारण इसको यह चोट खानी पडी थी। यह मनुष्य पागल नहीं है, समय २ पर आवश्यकतानुसार पागल बन जाया करता है। दूसरोंसे रुपया उधार लेनेमें यह मनुष्य बड़ा चतुर है।'

तिब्बतमें भी वसन्तोत्सव होता है। यहाका वसन्त बहुत थोड़े दिनों रहता है। इस समय वहाके घासी अपने २ खेमे

खेतों और जगलोंमें जाकर लगाते हैं। इस उत्सवको वहा लिका कहते हैं। एक बार मैं भी इस उत्सवमें बुलाया गया था। बहुत खेमे खेतोंमें लगे हुए थे। इन लोगोंमें एक ६० वर्षकी बूढ़ी लामाइन थी जिसके साथ सात आठ और भी लामाईनें थीं। इसने खेमेके स्थानपर एक लकड़ीका मकान खड़ा किया था। उसके भीतर रंगीन पर्दे और बाहर श्वेत कपड़े लगे हुए थे। यह मकान भी अस्थिर था, जब चाहे उठाया जा सकता था। यह स्त्री प्राय १५ वर्षसे बीमार थी और उसको भी मालूम होता था कि उसकी दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है। उसने कहा कि 'मैं समझती हू कि मेरी यह बीमारी असाध्य है। यदि आप मेरी नाडी देखकर कोई औषध दें, क्योंकि आप बहुत अच्छे डाक्टर हैं, तो सम्भव है कि कुछ लाभ हो जावे।' मैंने उसको देखा तो ज्ञात हुआ कि उसको गठिया थी। मैंने उसको थोडासा टिक्चरकेम्फर दिया, और कुछ दवा पेटके लिये भी दी क्योंकि उसके पेटकी अवस्था भी अच्छी नहीं थी। विश्वासमें बडी शक्ति है। इस औषधने उसको बहुत लाभ पहुंचाया। पन्द्रह वर्षके पुराने दर्दमें बहुत कमी हो गई। रातको नींद भी अच्छी आने लगी। कुछ ही दिनोंमें वह कुछ चलने फिरने भी लगी। उस समयके उसके हर्षकी सीमा न थी। उसने अपने आरोग्यलाभके विषयमें अपने घर सम्वाद भेज दिया। पीछे मुझे मालूम हुआ कि उसका विवाह, यद्यपि धर्मानुसार नहीं, अर्थसचिवके साथ हुआ था। वह नये सम्प्रदायका पुरो-

भी था। बौद्धधर्मके लिये कितनी लज्जाकी बात है कि वह लामाइनके साथ बधा हुआ था। अमीर लामा प्राय स्त्रिया हैं। वे भी उनसे नाजायज तौरपर सम्बन्ध रखती हैं। वे तो अपनी औरतोंको अव्यत्र रखते हैं। लामाइनें उनको गर्भके लिये उचित जान पड़ती हैं। यह बूढ़ी तो अब बूढ़ा-कारण दोहरी हो गई थी।

गोठे दिनों पीछे अर्थसचिवका एक नौकर बीमार हुआ। विश्वास था कि मैं ही बुलाया जाऊंगा। क्योंकि इनका मेरे ऊपर विश्वास जम गया था। पर मैं समझता था कि मेरी आत्मा ही इतना अद्भुत कार्य कर रही है। अस्तु! मैंने यहाँ चिकित्साके लिये गया। मेरा इससे भी परिचय था। यह बड़ा विद्वान पुरुष था। इसकी लम्बाई ७ फीट की थी। तिब्बतमें इतना लम्बा मनुष्य मैंने नहीं देखा। उसकी पोशाकमें और लोगोंसे दुगुना कपडा लगता था। बुद्धोंको खूब जानता था। वह व्यापारमें भी चतुर था। वह दयालु, श्रद्धालु और सच्चा था। उसमें दोष था तो मैंने उसने स्वीकार लोडी थी। मेरे सामने दोनोंहीने अपने-अपने पश्चात्ताप किया। उसका दिल घुरा नहीं था। उसके भावने ही उसकी पवित्रतापर ध्वंसा लगा दिया। उसपर मेरी विचारोंका बड़ा प्रभाव पडा था। उसे मेरी दशासे सहानुभूति थी। वह मुझे बार बार कहा करता था कि बड़ा शोक है कि तुम्हें सेरामें और भी बीमार देखने के ऐसे-



दशामें मैंने तुम्हें यहा आनेका कष्ट दिया । उसे इससे भी ब
 दुःख हुआ कि मुझे पढनेके लिये कम अवसर मिलता थ
 उसने मुझे सावधान कर दिया और कहा कि 'तुम्हारी या
 पर बहुत ख्याति हो रही है सम्भव है कि कोई तुम्हें ईर्ष्यासे
 दे देवे क्योंकि यहा बहुधा ऐसी बातें हुआ करती हैं । क
 मुझसे बहुतसे वैद्योंकी रोजीमें हानि पहुची थी ।' उसने यह
 कहा कि यदि मैं साधारण रूपसे अपनी जीविका चला स
 और अपने पढनेमें लग जाऊ तो वह मेरे लिये बन्दोबस्त
 सकता है । मैं इसपर सहमत हो गया और चिकित्सा कर
 छोडकर उसीके घरपर रहने लगा । यदि कोई रोगी बहुत ब
 बीमारीका आता और मुझे लेजानेके लिये हठ करता तो मैं च
 भी जाता था । उससे मुझको दो लाभ हुए कि मेरी पढाई
 ठीक होने लगी और लासाके वैद्योंसे स्पर्द्धा भी न रही ।

बावनवां परिच्छेद

लासामें जापान ।

मेरे दिन बढे आनन्दसे गुजरने लगे क्योंकि मैंने बहुत रूप
 इकट्ठा कर लिया और यदि किसी अन्य वस्तुको आवश्यकत
 होती थी तो अर्थसचिव प्रस्तुत कर दिया, करता था । मैं
 अपने सेरा विहारके कमरेको एक नवयुवककी देखरेखमें क

दिया और आप अर्थसचिवके यहां चला आया। मैंने उस लडकेको समझा दिया था कि वह किसीसे न कहे कि मैं अर्थ-सचिवके घर चला आया हूँ और यह भी कह दिया कि जहातक हो सके रोगियोंको वह और और घंटोंके यहां भेजनेका उद्योग करता रहे। मैंने उस लडकेके खाने पीने तथा पढनेका भी यन्त्रोपकरण कर दिया था। बीच २ में मैं सेरा विहारमें भी जाया करता और तर्कका अध्ययन किया करता था। अर्थसचिवने मुझे को बहुत अच्छा मकान रहनेके लिये दे रखा था, उसमें भीतोंपर सुन्दर रङ्गीन चित्र और फर्शपर दूरी खींची हुई थी, जिसपर सुन्दर फूल तिरवती ढगपर बिते हुए थे। एक आवनूसकी बनी मेज और छोटा सा बुद्धदेवका मन्दिर भी था। सामान सभी पर्याप्त और बहुत साफ सुधरा था। यहां मुझे मेरे गुरु लामा लोग भी बाहर घुलाकर स्वाध्यायमें विघ्न नहीं करते थे। सब प्रकारसे यहां सब भातिका सुख था। यदि दुःख था तो केवल इतना ही कि यह स्थान सेरा विहारसे कुछ दूर पड़ता था।

सौभाग्यवश मुझे एक गुरु बहुतही अच्छे मिल गये। अर्थ-सचिवके सौतेले भाई थे जिनका नाम टीरिन पोचे था। इनके पिता भी चीनी थे। वह सात ही वर्षकी अवस्थामें पुरोहित हो गये थे। अब उनकी अवस्था ६७ वर्षकी थी। गैरइनकी गद्दीपर दलाई लामाके अतिरिक्त और किसीको बैठनेका अधिकार नहीं था। परन्तु दलाई लामाके लासामें रहनेके कारण यही उस गद्दीपर बैठाये गये। टीरिनपोचेने तीस वर्ष

रहस्यमय शिक्षा पाई थी और डाकूर पदवी प्राप्त करके अधिकारी हुये थे। इस गद्दीको दलाई लामाके पास पा सकता था जिसने ५०-६० वर्ष विद्याध्ययन किए जातिका कसाई, लुहार, शिकारी या किसी और छोटे पुरुष विद्वान होकर भी इस पदको नहीं पा सकता था।

इससे प्रत्यक्ष है कि टोरिन पोचे बहुत विद्वान विद्वानोंको अपना गुरु बनाकर मैं अपनेको बड़ा संसमझने लगा। यह रियायती अधिकार तिब्बतमें प्राप्त नहीं दिया जाता। इसमें जाति-बन्धनकी बड़ी मुख्यता है इस कारण ऐसे बड़े पुरुषके साथ वार्तालाप कर साधारणके लिये बड़ा कठिन है। अस्तु, मुझे इस तिब्बती बौद्धधर्मके रहस्य जाननेका बड़ा उत्तम मौक़ा हुआ। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और सच कहा परन्तु परोक्ष भावसे मुझे जनाया कि यहां मेरे ही हैं। मुझे भी उससे भय मालूम हुआ। तोभी उसने मुझे पात्र पाया और सच्चे हृदयसे मुझे पढ़ाया। सच्चा रूप मुझे बतलाया गया। मैं इसके लिये बहुत हतबुद्ध हूँ। बहुतसे विद्वानों, अनुशीलकों, धार्मिक उपसंन्यासियोंसे भी जिनके साथ मेरी भेंट हुई थी मैंने प्रहण न किया था जितना इस महानुभावसे सीखा। गुरु थे जिनका प्रभाव भूतपूर्व अर्थसचिवपर भी उन्हींकी आज्ञासे उसने अपने किये पर बड़ा पश्चात्ताप

इसकी स्त्री भी कुल कम न थी। दोनोंने ही पापसे छुटकारा पानेके लिये २० वर्ष पूर्व नैपालके काठमाण्डुनगरकी तीर्थयात्रा की थी। उनकी तीर्थयात्रा तथा तितिक्षाकी कथा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे जैसे दान-पुण्य उन दोनोंने किये थे उनको जानकर मैं उसको दोषी नहीं मानकर उनसे अधिक सहानुभूति अनुभव करने लगा। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि मोहक प्रेमका कितना बल होता है। उसने मुझे इससे बचानेके लिये सावधान कर दिया था। ज्यों ज्यों मेरा परिवचय इस परिवारसे बढा मुझे इसके विषयमें और भी अधिक अनुभव होने लगा। मुझे उस परिवारकी दशा और भृत्योंकी अवस्थाका पता लगा और घरकी सब विशेष बातोंका पता लग गया। वर्तमान अर्थसचिवसे मिलनेका मुझे बहुत कम अवसर मिला।

इसी बन्धुकी कृपासे मैं वर्तमान अर्थसचिवसे मिला जोकि मोमकानके पास ही रहता था। यह बडा शान्ति और दृढ इच्छाका पुरुष था। उसने भी मुझसे अपने घरका सा सम्यन्ध रखा। वह भी मुझे अपना पुत्र सा समझता था। वह अपनी अर्थसचिवकी कुर्सीपर बैठकर अपनी सरकारका आवश्यक रहस्य भी मेरे सामने खोल देता था। हम दोनों बडे विश्वास-पूर्वक आपसमें बातें किया करते थे। जब कभी कोई गम्भीर बात दरबारमें उपस्थित होती थी वह पहले अपनी सम्मति नहीं देता था। प्रत्युत अपने मित्र भूतपूर्व अर्थसचिवसे सलाह ले लेता था। वह उसे अपनेसे बडा समझता था। भूतपूर्व

सचिव इन विषयोंपर नाना दृष्टियोंसे विवाद कर लेनेके बाद अपनी सम्मति देता था। भूतपूर्व अर्थसचिव और भी ऊँचे धर्मपथपर चला जाता यदि उसका आचारविषयक कलंक बाधक न होता। दोनों सचिव कभी कभी सलाहें करते हुये मुझसे भी सलाह ले लेते थे। इससे तिब्बतकी राजनीतिमें मेरा पर्याप्त प्रवेश हो गया था। तिब्बतकी राजनीतिके विषयमें बहुत कुछ मालूम हो गया। यदि मैं सेरा विहारमें ही पढ़ता रहता तो और लामाओंके तर्कके अतिरिक्त और कुछ भी मालूम न होता। विहारोंमें तो लामा लोग यही जानते हैं कि दलाई लामाके आगे कैसे सिर झुकाना चाहिये। वे शासनके रहस्योंके विषयमें तिलमर भी नहीं जानते। लामाओंसे शासनके सभी रहस्योंको छिपाया जाता था। इन दोनों सचिवोंकी कृपासे मुझको तिब्बतका चीन, इंग्लैण्ड, रूस और नेपालके साथ राज-नैतिक सम्बन्ध मालूम हो गया।

एक दिन मैं लासाके बाजारकी पोर्का गलीमें जा रहा था जहा बहुत सी दूकानें लगी हुई थीं। इधर उधर देखते देखते मुझे एक दूकानपर जापानी दियासलाई दिखलाई पड़ी। और आगे बढ़नेपर जापानी चिकें और काचके बर्तन भी दिखलाई पड़े। जापानी वस्तुयें देखकर मुझको बड़ा हर्ष हुआ और दूकानोंको विशेष रूपसे देखता हुआ बढ़ने लगा और आगे बढ़कर मैंने एक दूकानपर बहुत अच्छा साबुन रखा हुआ देखा। मुझको साबुन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा बढिया

सायुन भी तिब्यतमें बिक जाता है। मैं दूकानमें गया और सायुनके दाम पूछे। उसने कुछ उत्तर न दिया और मेरे मुखकी ओर ताकने लगा। मुझे भी ध्यान आया कि ऐसा चेहरा मैंने कहीं देखा है। उसे कदाचित् दार्जिलिंगमें देखा था। मैंने मन ही मन समझ लिया कि सम्भव है दार्जिलिंगवाले सोदा गरका यह कोई मध्यस्थी हो परन्तु उससे कुछ न बोला। मुझे निश्चय हो गया था कि यह वही व्यापारी त्सारोंगवा है। उसने मुझे न पहचाना, क्योंकि मैं दार्जिलिंगमें जापानी वेपमें रहता था और दाढी मूछ मुड़ाये रहता था। परन्तु यहाँ मैं तिब्यती लामाओंके वेपमें था इसके अतिरिक्त मैंने मूछ दाढी भी बराबर बढ़ा रखी थी। इस कारण वह मुझे वादमें भी न पहचान सका। थोड़ी देर पीछे उसने कहा कि इस सायुनके दाम बहुत हैं और दूसरा सायुन मुझे दिखाया। मैंने कम दामोंवाला न लेकर उसकी ही दो टिकिया ले लीं और घर चला आया। अर्थसचिवको वह सायुन बहुत पसन्द आया। उसने एक टिकिया मुझसे मागी परन्तु मैंने उसको दोनों ही दे दीं।

दो दिन पीछे मैं उसी सायुनवालेकी दूकानपर फिर गया और वही सायुन इस भयसे परीदना चाहा कि कदाचित् फिर न मिले। सायुन देनेके बदले वह मेरे मुखकी ओर देखकर मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। उसकी बोली सुनकर मैं साफ पहचान लिया कि यह मेरा दार्जिलिंगका मित्र त्सारोंगवा ही है।

मैं हस पड़ा और बोला—“हां मैं पहचानता हूँ।” वह तुरन्त ही उठा और मुझे अपने घर चलनेके लिये कहने लगा। नौकरोंसे दूकान बन्द कर देनेको कहा क्योंकि सन्ध्या समय हो आया था। उसका मकान यद्यपि छोटा था परन्तु साफ सुथरा था। वह मुझे छतपर बैठकमें ले गया। वहां उसकी स्त्री भी मिली जो दार्जिलिंगसे उसके साथ आई थी। मैंने उसको तुरन्त ही पहचान लिया परन्तु वह मुझे न पहचान सकी। उसके स्वामीके कहनेपर भी वह मुझको न पहचान सकी। जब स्वामीने याद दिलायी कि तुम दार्जिलिंगमें बीमार हुई थी तब इन्होंने ही दवा दी थी तब उसको याद आई। याद आते ही वह इतनी प्रसन्न हुई जिसका कुछ ठिकाना नहीं।

उन दोनोंको इस बातसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजधानीमें तिब्बतवासीतक तो घुस नहीं सकते फिर ये दूसरे देशका घासी यहा कैसे पहुँचा। मैंने उनसे कहा कि मैं जगथागकी राहसे आया हूँ तोभी उनको विश्वास नहीं हुआ और कहने लगे कि उस सड़कपर तो कडा पहरा रहता है, उस सड़कसे आना असम्भव है। मैंने सब तरह समझाया कि मैं जगलों पहाड़ोंके रास्तोंसे होकर आया हूँ परन्तु उन दोनोंको तिसपर भी विश्वास न आया। अब मुझे बड़ी विपद्का सामना आ पड़ा कि इन दोनोंके सामने मैंने अपना भेद प्रगट कर दिया। यदि इन्होंने किसीसे कह दिया तो अर्धसचिवकी असीम कृपायें और विहारके लामाओंकी दयालुता सब मनोमोदक हो जायेंगे।

यदि इस सौदागरने लोभवश मुझे पकडवा दिया तो सब परिश्रम व्यर्थ जावेगा ।


सोचते २ मैंने एक युक्ति निकाली । मैंने गम्भीर भावसे उनकी आँखोंपर तीव्र दृष्टिसे देपते हुए उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक लाभकी बात सुनाता हूँ कि तुम मुझे पकडकर सरकारमें ले जावो और कह दो कि यह जापानी लामा तिब्बती वेपमें छिपा पाया गया है । मैं यदि आपही जाकर कहूँगा तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा और यदि तुम यह काम करो तो मुझे यह कष्ट उठाना न पड़ेगा और अधिकारी लोग विश्वास कर लेंगे । इसके अतिरिक्त तुम्हें बहुत कुछ द्रव्य भी इनाम मिलेगा ।

मेरे शब्द सुनते ही लोके मुखपर जर्दी आ गई और कांपने लगी । मैंने दोनोंके मुखोंपर प्रगट हुए त्रिकारोंपर दृष्टि की परन्तु मुझे मालूम हो गया कि इन दोनोंमेंसे किसीकी भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे पकडवा दे जैसा कि मैंने अनुमान किया था । सौदागरने बुद्धदेवके मन्दिरकी ओर हाथ उठाकर कहा— “चोहो रिन योचे, मैं ऐसा धोका कभी नहीं दे सकता चाहे प्राण जायं ।” इस शपथको सुनकर उसकी ली भी काप गई । मुझे भी उनकी सत्यतापर विश्वास हो गया । यही शपथ सबसे पकरो समझी जाती है । यद्यपि यह बात सत्य है कि तिब्बतके लोग शपथ बहुत खाया करते हैं और उनके साथमें रहनेसे मुझे भी ४०-५० शपथें याद हो गई थीं परन्तु उन सब शपथोंसे यह “चोहो रिन योचे” बहुत कड़ी शपथ है और उस सौदागरने ऐसे

भावसे यह शपथ खाई थी कि मुझे उसपर पूरा विश्वास ही गया कि यह मेरे साथ धोखा न करेगा।

चलते समय उन्होंने मेरा ठिकाना पूछा। जब मैंने कहा कि मैं सेराका वैद्य हो गया हू तो वह बड़े प्रसन्न हुए। उनको बड़ा चिस्मय हुआ कि मैं ऐसी उच्च पदवीपर कैसे पहुच गया। उनको इस बातका गर्व भी हुआ कि लासाके ऐसे उच्च पदाधिकारीसे उनकी मित्रता है। तबसे मैं बहुधा उनके यहा जाता रहा और जब कभी जाता अच्चार मित्रकी भाति उनको भी कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे आता था।

तिरपनवां परिच्छेद



तिब्बतके छात्र ।

तिब्बतमें तीन विद्यालय हैं परन्तु इन तीनोंमें केवल तिब्बतवासी ही नहीं पढते हैं और लोग भी पढते हैं। सबसे अधिक सख्या मगोलोंकी होती है। इससे कम तिब्बतवालोंकी और सबसे कम खामलोगोंकी होती है। इन तीनों स्थानोंके छात्रोंकी रहन सहन रीति नीति एककी दूसरेसे पृथक् पृथक् है। तिब्बतके छात्र शान्त, शिष्ट और बुद्धिमान होते हैं। परन्तु श्रमकी दृष्टिसे बड़े आलसी हैं। मैले रहनेका अभ्यास भी उनमें उनके इस जातीय आदत आलस्यके कारण ही है। जाड़ेके दिनोंमें तिब्बतका साधारण विद्यार्थी या तो अपनी धर्मपुस्तकका पाठ करता है

अथवा रसोईघरमें चाय और रोटीके लिये चक्कर लगाता है। गर्मके दिनोंमें वह अपनी कोठरीके सामने बैठकर धूप सेंकनेके अतिरिक्त कुछ नहीं करना।

वह उनके एक मैले टुकड़ेको जिससे वह अपनी नाक साफ किया करता है, सिरपर रखकर उ घते उ घते सुखाया करता है। इससे अधिक और उसके आलस्यका क्या प्रमाण होगा। किसी बूढ़े मनुष्यके लिये यह कोई बड़ा दोष नहीं है परन्तु बहुतसे युवा पुरुष भी इस भाति बैठे रहा करते हैं। तिब्बतवासी कितने आलसी होते हैं यूरोपवासी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।


परन्तु मंगोलियन ऐसे नहीं होते। उनको कभी किसीने आलस्य करते न देखा होगा। वह लोग विद्याध्ययनमें बड़ा परिश्रम करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि वह दूर देशसे विद्याभ्यासके लिये ही आये हैं। मंगोलियन विद्यार्थियोंमें पाच सौमें चार विद्यार्थी अच्छे व्युत्पन्न होते हैं। परन्तु तिब्बतमें पाच सौमें साढ़े चार सौ किसी कामके नहीं होते हैं। हा, योद्धा लामा प्राय तिब्बती ही हुआ करते हैं।

मंगोलियन और खामवालोंकी इनमें गिनती बहुत कम है। मंगोलियनोंमें भी एक दोष होता है कि वे लोग बड़ी जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं। तनिक सी बातपर वे आपसे बाहर हो जाते हैं। यह लोग अहकारी भी बहुत होते हैं क्योंकि वे स्वयं जानते हैं कि वे स्वयं श्रमी और लगनवाले हैं और आचार्यकी पदवी

भावसे यह शपथ खाई थी कि मुझे उसपर पूरा विश्वास ही गया कि यह मेरे साथ धोखा न करेगा ।

चलते समय उन्होंने मेरा ठिकाना पूछा । जब मैंने कहा कि मैं सेराका वैद्य हो गया हू तो वह बड़े प्रसन्न हुए । उनको बड़ा विस्मय हुआ कि मैं ऐसी उच्च पदवीपर कैसे पहुँच गया । उनको इस बातका गर्व भी हुआ कि लासाके ऐसे उच्च पदाधिकारीसे उनकी मित्रता है । तबसे मैं बहुधा उनके यहाँ जाता रहा और जब कभी जाता अन्धकार मित्रकी भाँति उनको भी कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे आता था ।

तिरपनवां परिच्छेद



तिब्बतके छात्र ।

तिब्बतमें तीन विद्यालय हैं परन्तु इन तीनोंमें केवल तिब्बतवासी ही नहीं पढ़ते हैं और लोग भी पढ़ते हैं । सबसे अधिक सख्या मगोलोंकी होती है । इससे कम तिब्बतवालोंकी और सबसे कम खामलोगोंकी होती है । इन तीनों स्थानोंके छात्रोंकी रहन सहन रीति नीति एककी दूसरेसे पृथक् पृथक् है । तिब्बतके छात्र शान्त, शिष्ट और बुद्धिमान होते हैं । परन्तु धर्मकी दृष्टिसे बड़े आलसी हैं । मैले रहनेका अभ्यास भी उनमें उनके इस जातीय आदत आलस्यके कारण ही है । जाड़ेके दिनोंमें तिब्बतका साधारण निद्यार्थी या तो अपनी धर्मपुस्तकका पाठ करता है

हैं। उनकी पोशाक कोई सुन्दर नहीं होती और न उनका कोई रूप ही अधिक मनोहर होता है। पर तिब्बती स्त्रिया अपने पतियों, भाइयों और पिताओंके समान ही बाहरसे भोली भाली मनोहर होकर भी दिलमें क्रूर और छल कपटसे भरी होती हैं। तिब्बती लामाओंके विद्याभ्यासका एकमात्र उद्देश्य धूप रुपया कमाना और अपने सकुचित क्षेत्रमें प्रसिद्धि पाना होता है। सत्यकी खोज, धार्मिक तपस्या, स्वयं मुक्त होने तथा दूसरोंको दुःखोंसे छुड़ानेके लिये ज्ञान प्राप्त करनेका विचार उनके चित्तमें तिलमर भी नहीं होता। उनका सारा विद्याभ्यास, प्रसिद्धि, रोबदाव और ध्व्यलाभके लिये होता है। वे रपर्द्धाके ससारमें परिश्रम करनेसे बड़ा घबराते हैं। वे यहा भी आलस्यमें रहकर स्वर्गकासा मजा लेनेमें लगे रहते हैं। एक हजारमें ६६६ को तो अपने भावो जीवनका कोई विचार ही नहीं होता। उनके धार्मिक जीवनमें कुछ भी गम्भीरता नहीं होती। देनेकी अपेक्षा लेना उनका ध्येय है। यही कारण है कि लामा जिनको बड़ा उच्च जीवनका होना चाहिये था, इतने नीच स्वभावके होते हैं।

यदि किसीके पास रुपया है और विद्या नहीं है तो वही सब पद प्रतिष्ठाका भागी है। यह नगदको ही नारायण समझते हैं। वे रुपया जिस भाति भी मिले उसी भातिका उचित और अनुचित सब काम करनेके लिये तय्यार रहते हैं। बहुतेसे व्यापार और खेतीवारी भी किया करते हैं। पुरोहित लोग यजमानोंके घरोंपर जाकर धर्मगाथाए सुना २ कर दक्षिणा यदोरा करते

उनमेंसेही बहुधा पाया करते हैं। यद्यपि ये लोग सर्व गुण-सम्पन्न होने हैं परन्तु इस अहंकारके कारण उनका हृदय सकुचित हो जाया करता है। चंगेजखांकी भांति इन लोगोंमेंसे प्रत्येक विद्यार्थी एक उत्साही नेता बननेका साहस करता है। इनका उत्साह शीघ्रही उठकर शीघ्र ही ठण्डा हो जाता है अतएव ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं और स्थिरता और धीरतासे अपने देशकी उन्नति नहीं कर सकते।

खामवासी इस विषयमें मंगोलियावासी और तिब्बतवासी दोनोंहीसे नम्वर ले गये हैं। यद्यपि इनका देश चोरों और लुटेरोंका गढ़ समझा जाता है परन्तु वे लोग सहजमें ही आपसे घाहर नहीं हो जाते। वे धीर और विवेकी होते हैं। ये लोग शरीरमें भी दोनों जातियोंसे बलवान होते हैं। ये लोग वीर, सत्यवादी और खुशामदके बड़े द्वेषी होते हैं। सेरा विहारमें रहकर मुझे यही मालूम हुआ कि खामके विद्यार्थी अधिक सरलस्वभाव और विश्वासी होते हैं। मंगोलियनको जब किसी व्यक्तिसे कुछ वस्तु लेनी होगी तो वह इतनी खुशामद करेगा कि जिसकी सीमा नहीं। यह घुराई तिब्बतवालोंमें उनसे भी बढ़कर है। परन्तु खामवाले ऐसे मनुष्योंसे मित्रता ही कभी नहीं करते। खामवासियोंके लिये कहा जाता है कि वहाँके डाकू भी यदि आवश्यकता पड़े तो निर्बल, निर्धन और सकटमें पड़ेकी बहुत कुछ सहायता करते हैं। खामलोगोंकी छियां और बच्चे भी मनुष्योंकी उदासतामें भी बड़ी सहानुभूति प्रगट करते

चौवनवां परिच्छेद



विवाह और विवाहित जीवन ।

मैं अर्थसचिवके यहा रहा करता था अतएव मुझको और सचिवोंसे मिलनेका भी सौभाग्य प्राप्त होता था । इनमेंसे एक गोषागवा नामक प्रधानसचिव भी था । तिब्बतमें चार प्रधान सचिव और तीन अर्थसचिव रहा करते हैं । इनमेंसे एक सबका प्रधान हुआ करता है । और वही सब कामोंका उत्तरदाता होता है । शेष सचिव उसके सहायक होकर काम करते हैं । गोषागवा द्वितीय सचिव था । जब मैं लासामें था तो उसकी श्रीका विवाह यूटकके राजकुमारसे हुआ था । इस विवाहमें मैं निमन्त्रित था । वहां जो कुछ मैंने देखा उसका वर्णन कर से पहले मैं दो चार रीतियोंका तिब्बतके विवाहके विषयमें लेख करता हू । कोई भी एक सामान्य रीति ऐसी नहीं है जो अबतभरमें समानरूपसे वर्ती जाती हो । देश २ की प्रथा शरीर है । बहुतसे अगरेजोंने भी विवाहके विषयमें कई पुस्तकें प्रकीर्ण हैं परन्तु ऐसा मालूम होता है कि वे लोग लासा तक नहीं पहुंच सके थे । ये तो चीनी तिब्बततक अथवा तिब्बतके उत्तरी सीमाप्रान्तोंतक पहुंचे थे । अतएव उसका

हैं। इस देशमें जो छात्र बिना छात्रवृत्ति या अन्य किसी सहायताके उपाधि पानेके लिये श्रम करते हैं उनकी अवस्था बड़ी शोचनीय है।

कालिजकी सर्वोच्च उपाधि पानेमें प्रायः २० वर्ष लगते हैं। इतने दिनोंमें कठिन परिश्रम और दुःख उठाना पडता है। आधे जीवनको केवल इसी आशासे दुःख सहते हुए काटते हैं कि जीवनका शेष भाग सुखसे कटेगा। सर्वोच्च उपाधि पानेके लिये विहारके सब शिक्षकोंको एक भोज देना पडता है। इस भोजमें मासका शोरवा और रोटी देनी पडती है। ऐसा भोज ५०० येनसे कममे नहीं हो सकता है। अवश्य ही किसी दरिद्र पुरुषका इतना रुपया इकट्ठा करना सहज काम नहीं है। परन्तु उपाधि पानेकी लालसा भी थोड़ी नहीं होती है अतएव किसी न किसी भाति इतना रुपया प्राप्त कर ही लेते हैं। धनी लामा जो पहले गरीब विद्यार्थियोंको घृणाकी दृष्टिमे देखते हैं इस अवसरपर सूदके लालचसे बड़ी प्रसन्नतासे उधार देते हैं परन्तु इस उधार लिये हुए रुपयेका चुकाना चादमें और भी कठिन हो जाता है। वास्तवमें यहाका छात्रजीवन बड़ा कठिन है।



माई बहिनमें और चचेरे माई-बहिनोंमें भी विवाह समाज कानून दोनों दृष्टियोंसे वर्जित है।

पत्नीके पतिके ऊपर अधिकार भी विचित्र हैं। स्त्रीके जितने भी हैं वह सब रुपया कमाकर स्त्रीको लाकर देंगे। यदि कई मेशोंमें कोई स्वामी औरोंसे कम रुपया लाता हो तो स्त्रीको कार है कि वह उसको जैसे चाहे कठोर वचन कह सकती तथा किसी स्वामीको कुछ रुपयोंकी आवश्यकता होगी तो वह उतना रुपया माग ले और उसे अपना अभिप्राय भी वैसे रा पूरा कहे, जैसे पुत्र अपनी मातासे मागा करता है। यदि तो मालूम हो जावे कि उसका अमुक पति अपनी पूरी पूरी ई उसे नहीं देता है तो वह क्रोधमें आकर स्वामीको थप्पड़ मार देती है। संक्षेपमें स्त्री ही अपने स्वामियोंपर शासन करती है।

स्त्री ही अपने पतियोंको दूकानपर जाने अथवा और औरोंमें लगानेकी आज्ञा दिया करती है। स्वामीका धर्म केवल है कि पत्नी जो आज्ञा दे उसीके अनुसार काम करके तो प्रसन्न रखनेकी चेष्टा सदैव करता रहे। यदि दो अथवा क मनुष्योंमें किसी बातपर विवाद होता है तो वे लोग अपने घर जाते हैं और अपनी स्त्रीसे सलाह लेते हैं, उसे कोई उज्र न हो तो फिर अपना निघटारा करनेके लिये है। यद्यपि तिब्बतमें सर्वत्र बहुपतित्वकी प्रथा है परन्तु जहा भीका स्त्रीपर वश है वहा एक ही पति भी हो सकता है।

वर्णन ठीक भी हो सकता है परन्तु, वह उसी देशका होगा लासाका प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक और बात है। ऐसे यात्रीको जो केवल यात्रा करते हुए चले जाते हैं उन्हें ऐसी रीतियोंका जान लेना असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है। ये रीतियां पग पगपर बदलती हुई चली गई हैं उनके विषयमें ठीक २ लिखना असम्भव है। परन्तु मैंने जो बातें लिखी हैं वह विवाहोंमें निमन्त्रित होकर और जिनके यहा निमन्त्रित हुआ हूं, उनके घरोंमें एक कुटुम्बीकी भांति रहकर आँखोंसे देख देखकर लिखी हैं।

यह बात बहुत लोग जानते हैं कि तिब्बतमें एक नई रीति यह है कि एक स्वामीकी कई स्त्रियां न होकर एक स्त्री कई २ स्वामी भी होते हैं। यह काम तीन तरहसे होत है। एक तो, जब कई भाई एक ही स्त्रीसे विवाह करनेमें राजी हों। दूसरी अवस्था जब दो या तीन मनुष्य चाहे वह भाई न भी हों परन्तु आपसमें सलाह करके एक स्त्रीसे विवाह करनेमें लिये राजी हो जाय और तीसरी अवस्थामें स्त्री अपने स्वामीके ऊपर अपना प्रभाव डालकर दूसरे मनुष्योंसे विवाह कर लेनेपर उसको राजी कर लेवे। ऐसी अवस्थामें कि जब एक कुटुम्बीका बृद्ध माँ मर जावे तो चाहे पिता चाहे पुत्र और विवाह कर लेत और वही कुटुम्बीभरकी स्त्री हो जाती है। किसी भी सभ्य देशमें ऐसी चाल नहीं है और न वह लोग ऐसे सभ्यन्तोंको लजाजन ही समझते हैं। इसपर भी उनके यहा कुछ अपवाद भी हैं, जैसे

गे भाई बहिनमें और चचेरे भाई बहिनमें भी विवाह समाज और कानून दोनों दृष्टियोंसे वर्जित है।

पत्नीके पतिके ऊपर अधिकार भी विचित्र हैं। स्त्रीके जितने स्वामी हैं वह सब रुपया कमाकर स्त्रीको लाकर देंगे। यदि कई स्वामियोंमें कोई स्वामी औरोंसे कम रुपया लाता हो तो स्त्रीको अधिकार है कि वह उसको जैसे चाहे कठोर वचन कह सकती है। जब किसी स्वामीको कुल रुपयोंकी आवश्यकता होगी तो वह स्त्रीसे उतना रुपया माग ले और उसे अपना अभिप्राय भी वैसे ही पूरा पूरा कहे, जैसे पुत्र अपनी मातासे मागा करता है। यदि स्त्रीको मालूम हो जावे कि उसका अमुक पति अपनी पूरी पूरी इमाई उसे नहीं देता है तो वह क्रोधमें आकर स्वामीको थप्पड़ मार देती है। संक्षेपमें स्त्री ही अपने स्वामियोंपर शासन किया करती है।

स्त्री ही अपने पतियोंको दूकानपर जाने अथवा और और कामोंमें लगनेकी आज्ञा दिया करती है। स्वामीका धर्म केवल इतना ही है कि पत्नी जो आज्ञा दे उसीके अनुसार काम करके उसको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा सदैव करता रहे। यदि दो अथवा अधिक मनुष्योंमें किसी बातपर विवाद होता है तो वे लोग हले अपने घर जाते हैं और अपनी स्त्रीसे सलाह लेते हैं, यदि उसे कोई उज्र न हो तो फिर अपना नियंतारा करनेके लिये जाते हैं। यद्यपि तिथ्यतमें सर्वत्र बहुपतित्वकी प्रथा है परन्तु जहां स्वामीका स्त्रीपर घरा है घरा एक ही पति भी हो सकता है।

जहांतक मुझे तिब्बतवासियोंके विषयमें ज्ञान है, स्वामीको स्त्री स्वयं नहीं चरती। यह काम उसके मातापिता है, यहांतक कि इस विषयमें सलाह तो क्या वह कोई बात नहीं कर सकती। कन्याके मातापिता जिससे विवाह क चाहें उसके लिये वह इनकार नहीं कर सकती है। केवल इतना ही नहीं है बल्कि जबतक विवाहका दिन नहीं आ जाता कन्या यह बात किसी भांति प्रगट नहीं होती कि किस पुरुषसे उस विवाह होनेवाला है। ऐसे ही विवाह प्रायः बादमें टूट जा करते हैं। कहीं कहींपर दूर देशमें और लासामें भी कन्या अपने भावी पतिको पसन्द करके पितासे कह देती है, परन्तु यही रीति बहुत ही कम पाई जाती है।

यहां विवाहसम्बन्धका तोड़ देना भी कोई कठिन काम नहीं है। स्त्री पतिको न चाहे अथवा पति स्त्रीको न चाहे इतने पर विवाहसम्बन्ध टूट सकता है। तिब्बतमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष बहुधा २० से २५ वर्षतककी वयसमें विवाह हुआ करता है। समवयस्क होनेके सिवा ऐसे विवाह भी हुआ करते हैं जिनमें पुरुषकी वयस स्त्रीसे बहुत बड़ी हो। यदि किसी स्त्रीके पुत्र हो तो उसके पतियोंमेंसे सबसे बड़ा भाई ही उस पुत्रका पिता मान जायगा, शेष भाई चचा माने जायेंगे। एक अंगरेजने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि ऐसी अवस्थामें बड़ा भाई बटा पिता और छोटा भाई छोटा पिता माना जाता है परन्तु यह बात मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आई।

यह काम मातापिताका ही है कि पुत्रके विवाह योग्य होनेपर जाति, पाति, धन और पदमें अपने ही तुल्य कुटुम्बको गिजकर उसका विवाह कर दें। ज्योंही उनको कोई ऐसा घर मिल जाता है त्योंही घरका पिता पुत्रके मातापिताके पास किसी मनुष्य द्वारा सम्वाद भेजता है कि क्या वह अपनी पुत्रीको उसकी पुत्रपधू बननेके लिये दे सकता है। यदि लडकीका पिता केवल इनकार करता है तो मध्यस्थ समझ लेता है कि यह काम नहीं होगा और यदि वह कहता है कि 'देखा जावेगा' यथा ऐसे ही कोई और उत्तर दे देता है तो वह मध्यस्थ चार-बार लडकीके मातापिताके पास जाता है और भाति भातिसे वह उसके घर और घरकी प्रशंसा करता है। चारम्बार जानेसे लडकीका पिता किसी विशेष शर्तपर विवाह करनेको सहमत हो जाता है और किसी ज्योतिषी अथवा किसी उच्चकोटिके लामाके पास जाकर इस विषयमें पूछताछ करता है कि यह विवाह निष्कारक तो नहीं होगा। यह पूछ लेनेपर मध्यस्थको पूरा उत्तर दिया जाता है।

यह सब घातें सगाई हो जानेके यादतक भी घर और कन्या दोनों ही गुप्त रखी जाती हैं। घर और कन्या दोनों विवाहके ततक एक दूसरेको नहीं देखते और न किसीको अपने विवाहके विषयमें कुछ मालूम होता है। वे विवाहके दिन ही दोनों एक दूसरेको देख पाते हैं। कुछ लडकेकी धोरसे कोई तय्यारी नहीं होती है। कन्याको अवश्य छूय सजाया जाता है क्योंकि यदि

ऐसा न किया जावे तो कन्यावालेकी बहुत निन्दा होती। घर-पक्ष कुछ रुपया लडकीके दूधकी पिलवाईके नामसे कन्यावालेके पास भेज देता है। इतना हो चुकनेपर घर और दोनोंके ही पिता फिर ज्योतिषीके पास जाकर सब हाल पूछते उसके पीछे विवाहकी तय्यारिया होती हैं।

विवाहके दिन सवेरे कन्याके मातापिताको मालूम होता है कि मध्यस्थ मनुष्य कथ वरके घरसे आवेगा। वे सह कन्यासे कहते हैं कि 'आजका दिन बहुत अच्छा है हमारी इच्छा है कि मन्दिरको जावें और तुम भी हमारे साथ चलो। हाथ धो डालो और अपने बाल गुधवालो क्योंकि वहां लिकाकी जे नार होगी।' अथवा वे इसी भातिको और किसी उत्सव नाम ले देते हैं। यह सुनकर लडकी बहुत प्रसन्न होती है और अच्छे अच्छे कपडे पहन लेती है। परन्तु कोई २ लडकी अपने प्रपर युद्धिसे मामला समझ लेती है कि उसे अपने घरसे विदा होना होगा अतएव वह रोने धोने भी लगती है।

जो कन्या इस बातसे अनभिज्ञ होती है वह भाति भातिक अपना श्रद्धार करती है। यद्यपि तिश्वतमें सर्वसाधारण कभी हाथ मुह नहीं धोते हैं परन्तु धनी मनुष्य नित्य ही सवेरे सोतेसे उठकर हाथ मुह धोते हैं। जिस भाति वह लोग अपना मुह धोते हैं वह भी मजाक ही है। जब वह सोतेसे उठता है तो दासी अथवा दास एक बर्तनमें गरम पानी लाता है। धनी उसमेंसे थोडा सा पानी अपनी चुल्हूमें लेकर मुखमें रख लेता

है। थोड़ी देर मुखमें रखनेके बाद उसे फिर हाथमें लेकर उसी पानीसे मुख धोता है। जब मुँहमें पानी नहीं रहता है तो हथेलीपर कई बार थूक २ कर उससे ही मुखको साफ किया करता है। बहुतसे चौड़े वर्तनमें भी मुँह धोते हैं परन्तु अधिक प्रचलित रीति यही है।

अबोध कन्यायें अपने मा बापकी आज्ञा सुनते ही बड़ी प्रसन्न होती हैं और हाथ मुँह धोकर अपना शृङ्गार करने लगती हैं। वह अपने कघेसे बाल काढकर सूई लगा लेती हैं। इधर माता पिता नये कघे, सूई और शृङ्गारकी अन्य वस्तुयें उसके पास लाते हैं (यह सामग्री गुप्त भावसे दूटहाके घरसे आती है जिनको कि मध्यस्थ मनुष्य दे जाता है) और लडकीसे कहते हैं कि 'बेटी तुम्हारा यह कघा और सूई इत्यादि बिलकुल पुराने हो गये हैं हम तुम्हारे लिये सब नया सामान और साथ ही बढिया तैल भी शिरके लिये लाये हैं। तुम बहुत ही अच्छी तरहसे शृङ्गार कर लो।' जब यह सब हो चुकता है तब मातापिता लडकीसे कहते हैं कि तुम्हारी अमुक लडकीसे सगाई हो गई है। आज तुम्हारा उससे विवाह होगा। यह एक ऐसी रीति है जो कि लासामें ही नहीं बरन् शिगातुजेतकमें प्रचलित है।

परन्तु जो लडकी अपने मातापिताके बिना कहे ही समझ लेती है कि उसका विवाह है वह अपने बाल इत्यादि नहीं सम्भालती बरन् रोने बैठ जाती है और कहती है, "हाय हाय मैं अपना घर नहीं छोडना चाहती। मेरे मातापिताने यह काम अच्छा

नहीं किया कि ऐसे पुरुषसे विवाह किया जिसे कि सम्भव है कि मैं नया हू। इसे मेरा कैसे छुटकारा होगा ?" ऐसा कह कहकर वह बहुत दुःखित होती है और अपने शृङ्गारकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती। ऐसी अवस्थामें उसकी सहेलिया उसको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती हैं और मातापिताकी आज्ञा माननेकी कहती हैं और उसका शृङ्गार करनेमें हाथ बटाती हैं।

इस तय्यारीके हो चुकनेपर बनी मातापिता प्रायः दो सप्ताह तक या कुछ दिन और भी जेवनार किया करते हैं और निर्धन लोग तो केवल दो ही तीन दिनतक करते हैं। इस समयमें कन्या-पक्षके आत्मीय और कुटुम्बी लोग आ आकर कोई रुपया, कोई पाच सामग्री और कोई कपड़े इत्यादि मातापिताको भेंट करते हैं। इसकी कोई नियत सख्या नहीं। वे सब प्रायः अपनी हिसियत और सम्बन्धके अनुसार भेंट देते हैं। यदि आत्मीयगण धनी हैं तो बहुत भेंट आ जाती है नहीं तो साधारण ही रहती है। मेहमानोंका चाय और शराबसे आतिथ्य किया जाना है। वे लोग चाय और शराब पेट भर २ कर पीते हैं। इस समयको वे लोग 'चाकग पेमा' कहते हैं अर्थात् इससे बढकर सुखमय जीवन और नहीं है।

जिस समय ये लोग चाय और शराब पीते हैं उस समय वे कुछ नहीं पाते। तीसरे पहरको मास और रोटी पाते हैं। बहुधा ये लोग घाकका मास खाते हैं, उसके अतिरिक्त बकरी, भेंड और सुअरका मास भी पाते हैं। परन्तु गायका मांस बहुत कम

खाया जाता है और विशेष करके विवाहमें तो कभी भी नहीं खाते हैं। इनके यहां विवाहमें तीन तरहका अर्थात् कच्चा, सूखा, और उबाला हुआ मास काममें आता है। भूना हुआ कभी काममें नहीं आता है। उबाला हुआ मास तेल और नमकमें राध लिया जाता है। कभी २ नमक और पानीमें भी तय्यार किया जाता है। रातको भी मेहमानोंको भोज दिया जाता है। इस प्रकार दिनभरमें ३-४ बार भोज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय और मदिरा भी बीच २ में उडती रहती है। इस भोजमें पुख्त और खिया मालाके दानोंकी भांति चक्र बाधकर नाचते रहते हैं। वे घाजेके सुर और तालोंके ऐसे अनुकूल नाचते हैं जैसे घैण्डपर सिपाही लोग कवायद करते हैं। इससे उनके सद्भोजोंमें कोई चिन्छेद नहीं पडता। उनके देवनेमें बडा आनन्द आता है। इस नाचमें एक घाजा काममें आता है जिसका नाम उडेमन्यान है।

ये भोज विवाहसे पहले ही हुआ करते हैं जिनको कि निर्धन मनुष्य नहीं किया करते। अस्तु, इनके हो चुकनेपर विवाहके नियत दिनकी सन्ध्याको घरके मातापिता अपने कुछ आदमियों और मध्यस्थको कुछ नौकरोंके साथ कन्याके घर उसको विदा करा लानेको भेजते हैं। यद लोग अपने साथ कुछ भेंट लाते हैं जिसको कि नूरिन अर्थात् कन्याके धात्री शुल्कके नामसे कन्याके पितामाताको देते हैं। वे लोग उसके लेनेमें पहले बहुत कुछ आनाकानी किया करते हैं और ऐसा शात होता है

मानों वह उस रुपयेको लेना नहीं चाहते परन्तु कुछ शिष्टाचार दिखलाकर पीछे ले लेते हैं। नूरिनकी कोई बधी हुई तादाद नहीं है। दो डालरसे पाच सौ डालरतक लडकेवालेकी आर्थिक दशाके अनुसार हुआ करती है। बहुत तो नहीं परन्तु कोई २ इस रुपयेको नहीं भी लेते हैं और कहते हैं कि "हम अपनी ही प्यारी पुत्रीके लिये धात्री शुल्क नहीं चाहते हैं। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि वह जहा रहे प्रेमसे रहे और अपने कुटुम्बमें भी सुखी रहे।

यह सुनकर मध्यस्थ बध्ने पहननेको घरके मां बापकी ओरसे कपडे, कमरबन्द, चीनी जूने और जो वस्तुयें विवाहके समयमें आवश्यक होती हैं सब देता है। इनको लेनेसे बधू इनकार नहीं कर सकती। यदि वह उसके शरीरपर ठीक न भी हो तो भी उसको पहननी पडती है। इन वस्तुओंके साथ २ एक बहुमूल्य रत्न भी दिया जाता है। यह रत्न लासामे प्रायः सब ही स्त्रिया मत्तकपर पहना करती हैं। यद्यपि यह रत्न सौभाग्यवती होनेका चिह्न है परन्तु लासामे मैंने देखा कि बहुधा कुमारी कन्यायें भी पहन लेती हैं। शिगातूजे और इसके आस पासके नगरोंमें कुवारी कन्यायें यह रत्न नहीं पहनती बल्कि केवल विवाहित स्त्रिया ही इसे शिरके सीमन्त भागपर पहनती हैं जिससे देखनेवालेको घात हो जाता है कि यह स्त्री विवाहिता है। जब कोई स्वामी अपनी स्त्रीको छोडना चाहता है तो राजद्वारमें न जाकर केवल उस स्त्रीके शिरका वह रत्न ही उतार लेता

है। केवल इतनेसे ही पतिपत्नीका सम्बन्ध टूटा हुआ समझा जाना है।

जो वस्तुयें घरकी ओरसे आती हैं उनके सिवा और भी वस्तुयें कन्याको उसके मातापिता देते हैं जिनमें मुख्य ५-६ आभूषण होते हैं। रातको घरके घरके आदमी वही रहते हैं और घरवालोंके साथ मदिरा इत्यादि पीते हैं।

इस रातको घरपक्षके मध्यस्थ और और मनुष्योंको सचेत रहना पडता है। यदि वे लोग मदिरा पीकर अचेत हो जावें तो लडकीवालोंका यह धर्म है कि उनकी जो वस्तु पावें चुरा ले जावें। यदि लडकीवाले इस चुरानेके काममें छूतकार्य हो जाते हैं तो प्रातः काल जब सय मेहमान एकत्र होते हैं उस समय वह चुराई हुई वस्तु सामने लाई जाती है और कन्यावाले इसका बडा गर्व करते हैं। बीस टड्डु तिग्रतके दण्ड स्वरूप लडकीवालोंसे लिये जाते हैं। अतएव घरपक्षके जहातक बनता है मदिरा नहीं पीते और उनके तकल्लुफपर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं। जहातक हो सकता है खूबही मदिरा पिलाते हैं। पाठक समझ सकते हैं कि ऐसी ऐचातानीमें कितना कोलाहल होता होगा। परन्तु कोलाहलमें भी कन्यावाले अपनी पुरानी रीतिको हाथसे नहीं जाने देते। यदि कभी रीतिके पुवाहर कोई काम हो जावे तो उन्हें जन्मभरके लिये लजासागरमें डूबना पडता है। घरपक्षवाले मदिराके न पीनेके लिये विशेष रूपसे बहाने बनाते हैं। वह कहते हैं कि “चगसे थडकर संसारमें

मानों वह उस रुपयेको लेना नहीं चाहते परन्तु कुछ शिष्टाचार दिखलाकर पीछे ले लेते हैं। नूरिनकी कोई बधी हुई तादाद नहीं है। दो डालरसे पांच सौ डालरतक लडकेवालेकी आर्थिक दशाके अनुसार हुआ करती है। बहुत तो नहीं परन्तु कोई २ इस रुपयेको नहीं भी लेते हैं और कहते हैं कि "हम अपनी ही प्यारी पुत्रीके लिये धात्री शुल्क नहीं चाहते हैं। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि वह जहा रहे प्रेमसे रहे और अपने कुटुम्बमें भी सुखी रहे।

यह सुनकर मध्यस्थ बधुके पहननेको चरके मा वापकी ओरसे कपडे, कमरबन्द, चीनी जूते और जो वस्तुयें विवाहके समयमें आवश्यक होती हैं सब देता है। इनको लेनेसे बधू इनकार नहीं कर सकती। यदि वह उसके शरीरपर ठीक न भी हो तो भी उसको पहननी पडती हैं। इन वस्तुओंके साथ २ एक बहुमूल्य रत्न भी दिया जाता है। यह रत्न लामामे प्राय सब ही स्त्रिया मत्तकपर पहना करती हैं। यद्यपि यह रत्न सौभाग्यवती होनेका चिह्न है परन्तु लासामें मैंने देखा कि बहुधा कुमारी कन्यायें भी पहन लेती हैं। शिगातुजे और इसके आस पासके नगरोंमें कुंवारी कन्यायें यह रत्न नहीं पहनती बल्कि केवल विवाहित स्त्रिया ही इसे शिरके सीमन्त भागपर पहनती हैं जिससे देखनेवालेको ज्ञात हो जाता है कि यह स्त्री विवाहिता है। जब कोई स्वामी अपनी स्त्रीको छोडना चाहता है तो राजद्वारमें न जाकर केवल उस स्त्रीके शिरका वह रत्न ही उतार लेता।

। केवल इतनेसे ही पतिपत्नीका सम्बन्ध टूटा हुआ समझना है।

जो वस्तुयें घरकी ओरसे आती हैं उनके सिवा और भी तुयें कन्याको उसके मातापिता देते हैं जिनमें मुख्य ५-६ भूषण होते हैं। रातको घरके घरके आदमी वही रहते हैं और वालोंके साथ मदिरा इत्यादि पीते हैं।

इस रातको घरपक्षके मध्यस्थ और और मनुष्योंको सचेतना पडता है। यदि वे लोग मदिरा पीकर अचेत हो जावें तो कोवालोंका यह धर्म है कि उनकी जो वस्तु पावें चुरा ले जावें। लडकीवाले, इस चुरानेके काममें कृतकार्य हो जाते हैं तो काल जब सब मेहमान एकत्र होते हैं उस समय वह चुराई वस्तु सामने लाई जाती है और कन्यावाले इसका बडा करते हैं। बीस टड्डु तिज्यतके दण्ड स्वरूप लडकेवालोंसे ले जाते हैं। अतएव घरपक्षके जहातक घनता है मदिरा पीते और उनके तकल्लुफपर विलकुल ध्यान नहीं देते हैं। तक हो सकता है खूबही मदिरा पिलाते हैं। पाठक कह सकते हैं कि ऐसी ऐचातानीमें कितना कोलाहल होता है। परन्तु कोलाहलमें भी कन्यावाले अपनी पुरानी को हाथसे नहीं जाने देते। यदि कभी रीतिके बाहर कोई हो जावे तो उन्हें जन्मभरके लिये लज्जासागरमें डूबना है। घरपक्षवाले मदिराके न पीनेके लिये विशेष रूपसे चेनाते हैं। वह कहते हैं कि “अगसे बढकर संसारमें

कोई विष नहीं है। वह वस्तु भगडेकी जड और ज्ञानका शत्रु है।” इसी भातिकी और भी बहुत सी बातें उनको अपने बचावके लिये किवदन्तीके रूपमें कहनी पड़ती हैं। परन्तु पुराने रीति रिवाजके बाहर कोई बात नहीं होती।

यदि मदिरा पीनेपर खून नोकभोंक न हो तो सर्वसाधारण समझते हैं कि अभी विवाह ठीक प्रकारसे हुआ ही नहीं।

पचपनवां परिच्छेद

विवाहकी रीतियां।

जिस दिन विवाह होनेवाला होता है उस दिन प्रातः कालको कन्याके घर भोज होता है। उसी समय लामा जो कि बहुधा लाल टोपीवाले कहलाते हैं, बुलाये जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि गावके नामसे और कुटुम्बके देवताओंके नामसे पूजा प्रारम्भ करो। इस पूजाका आशय यह है कि देवताओंसे यह प्रार्थना की जाती है कि आज हमारी लडकी श्वशुरालय जाती है वे हमारी रक्षा करें, किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित न होने दें। इसके बदलेमें वे देवताओंको भेंट चढ़ाने और धर्मपुस्तकोंसे स्तुति करनेका प्रण करते हैं। ये सब पूजा पाठकी पद्धतियां लाल टोपीवाले पुरोहितोंके मन्दिरोंमें होती हैं। साथ ही कन्याके गृहमें तिब्बतके प्राचीन धर्मके अनुसार थोन सम्प्रदायके देवता लूई-ग्यालयो या नागराजकी पूजा की जाती है। तिब्बती पुराणोंके

अनुसार वह देवता हर एक गृहका देवता समझा जाता है। यह साधारण विश्वास है कि यदि यह देवता रूठ जाय तो घर बरकी सय सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिये कहीं वह देवता कन्याके साथ न चला जाय और शेष घरको दरिद्र न कर दे इस भयसे वे उस देवताको कन्यासे पृथक् ही रखते हैं। थोन धर्मपुस्तकोंसे जो मन्त्र पढे जाते हैं उनका आशय बडा मनोरञ्जक है। वे कहते हैं कि कन्याका पहला घर अधिक सुखसम्पन्न है। नागराजको कन्याके साथ जाना उचित नहीं। यहा रहकर उसे सहस्रों सुख मिलेंगे इत्यादि। तिब्बतमें यह सर्वत्र विश्वास फैला हुआ है कि यदि देवता अप्रसन्न हो जावे तो कुटुम्ब मरका सत्यानाश कर देगा। यह देवता लडकीके साथ चला जावेगा और कुटुम्बके ऊपर विपद् आ पडेगी।

जब भोज समाप्त हो जाता है तो एक लामा जिसे पहलेसे ही उपदेश याद रहते हैं लडकीको उपदेश देता है। ये उपदेश बहुत ही सरल भाषामें होते हैं। वह उपदेश नीचे लिखे अनुसार हैं—'जब तुम अपने पतिके घर जावो तो सय लोगोंके ऊपर दया भाव रखो। अपनेसे बड़ोंका कहना मानना अपना कर्तव्य समझो। फेरल स्वामीके मातापिता ही नहीं घरन् स्वामी और उसके भाई बहनोंसे भी वैसेही भाव रखो जैसा तुम अपने भाई बहनोंसे रखती हो। नौकरोंके साथ ऐसा व्यवहार करो मानों वह तुम्हारे पुत्र हैं।' इन उपदेशोंके बीचमें उपदेशक एक कहानी भी सुना देता है जिससे लडकीके हृदयपर बहुत अच्छा

प्रभाव पड़ता है। जब उपदेशका काम पूरा हो चुकता है तो लड़कीके मातापिता आकर लड़कीके सामने बैठते हैं और आँसुओंमें आसू भरकर वही उपदेश सुनाते हैं। उनके पीछे आत्मीय और कुटुम्बी आते हैं और उच्च स्वरसे रो रोकर बधूके हाथ पकड़कर उपदेश सुनाते हैं। इन रीतियोंके हो चुकनेपर लड़की अपने घरसे विदा हो जाती है। दहेजकी मात्रा कोई नियत नहीं है जो धनी हैं वे अपनी पुत्रीको धन, रत्न और भूमि तक देते हैं और जो धनी नहीं हैं वह कुछ कपड़े ही देकर सन्तुष्ट हो जाते हैं।

जब लड़की विदा होने लगती है तो बड़े उच्च स्वरसे रोने लगती है, उसको घोड़ेपर बैठाना बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाता है। वह भूमिपर गिर पड़ती है और वहासे न उठनेके लिये यथासाध्य हठ करती है। उस समय उसकी सूरत ऐसी हो जाती है मानों वह अपने मातापितासे अलग होना नहीं चाहती। ऐसी अवस्थामें उसके कुटुम्बी पकड़कर उसे घोड़ेपर बैठा देते हैं। यहाकी स्त्रियां अग्रेजोंकी भाँति नही चढ़ती हैं। वे जैसे पुरुष चढ़ते हैं वैसे ही चढ़ती हैं। यहा रिकाषें बहुत छोटी होती हैं। पहले पहल जब मैं वहाँकी रीतिके अनुसार चढा तो मेरे पैरोंमें थोड़ी ही दूर चलनेपर बहुत पीडा होने लगती थी।

जब लड़की घोड़ेपर सवार होकर श्वशुरालयको विदा होती है तो उसके शरीरपर वही वस्त्र होते हैं जो उसके श्वशुरालयसे आते हैं और शिर और हाथोंपरके आभूषण पिताके दिये हुए होते हैं। उसके शिर और मुखपर एक ऊनी कपड़ा

पडा रहता है जिसका नाम रिनचेन नानगा है। यह बहुमूल्य कपडा मेंडकी ऊनसे बनाया जाना है और उसमें लाल, पीली, काली, हरी और श्वेत धारिया रहती हैं। इस कपडेके कारण उसका मुख कोई देख नहीं सकता। एक रेशमी धारीदार कप डेकी एक छोटी भूडी पोछे गर्दनपर लगाई जाती है जिससे गर्दन भी ढकी रहती है। यह सौभाग्यकी भूडी कहलाती है। यह प्राय १४ इंच लम्बी हुआ करती है।

जब कन्या विदा होती है तो जो विदा करने आते हैं और जो विदा कराकर ले जाते हैं दोनों ही घाड़ोंपर चढकर साथ च जाते हैं। राहमें दोनों ओरसे भोज हुआ करते हैं। यह ज्योनारों तीन एक ओरमे और तीन दूसरी ओरमे दी जाती है। दो दो अथवा तीन तीन मीलपर जैसी दूरी हो उसी हिसाबसे दी जाती है। अन्तिम भोजके बाद ही घरका घर समीप आ जाना है।

इन ज्योनारोंमें मद्रिरा बहुत थोडी पी जाती है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि हमलोग एक बडा भारी काम कर रहे हैं और इसके उत्तरदाता हम ही हैं। हमारा धर्म है कि चढू अपने घर आरामसे पहुच जाय। अतएव कोई किमीको अधिक मद्रिरा पीनेपर दयाय भी नहीं देना है। निमन्त्रण देनेवालेका धर्म है कि निम्नलिखित पुरुषोंके आगे बहुत ही आदरसे अच्छे अच्छे भोजन रखे और उन्हें खानेको कहे और खानेवालोंका धर्म है कि एकदम भोजनोंपर टूट न पडे। ऐसा करनेसे वे गंधार और असभ्य समझे जाते हैं।

जब वह अपने श्वशुरालयके पास पहुँच जाती है तो कुछ लोग उसके स्वागतके लिये आते हैं। कोई भी यह आशा नहीं करता कि द्वारप्रवेशके समय कोई अडचन होगी। परन्तु बात सर्वथा विपरीत होती है। जहाँ वह द्वारपर पहुँचा है कि द्वारके भीतरसे साकल बन्द है। यह रिवाज विदेशियोंकी आँखमें बड़ा अद्भुत लगता है। जो आदमी स्वागतके लिये आते हैं उनमेंसे एक आदमी आटे इत्यादिकी मिली हुई एक तलवार लिये रहता है जिसको तोरमा कहते हैं। इस तोरमाके ऊपर लाल रंग चढ़ा होता है। परन्तु जिसके पास यह होती है उसके अतिरिक्त और किसीको मालूम नहीं होता कि तोरमा किसके पास है। यह किसी लामाके हाथसे बनवाई जाती है और मन्त्रसे अभिमन्त्रित होती है। इस मनुष्यका यह काम है कि वधूके साथ बाहरसे जो दुष्ट आत्माये' या छूतकी बीमारी आ रही हों उनको मार भगावे। ज्योंही वधू आगे बढ़ती हुई उस मनुष्यके पास पहुँचती है त्योंही वह अपनी तोरमाको वधूके मुखपर मारता है। तोरमाके मुखपर लगकर टूटते ही उसके मुखका कपड़ा लाल रङ्गका हो जाता है। वह मनुष्य तोरमा फेंककर ही घरके भीतर भाग जाता है और तुरन्त ही उसके लिये द्वार भी खुल जाता है। ज्यों ही वह घबराकर घुसा कि द्वार फिर बन्द हो जाता है। यदि उन लोगोंसे पूछा जाय कि यह रीति क्यों रखी गई है तो उत्तर मिलता है कि लड़की जब अपने घरसे विदा होती है तो उसके

घरके और गांवके देवता उसका साथ छोड़ देते हैं। राहमें जब उसकी रक्षाके लिये कोई देवता नहीं रहना है तो बाहरके भूत प्रेत और छूतकी बीमारिया उसके साथ हो जाती हैं। यदि ऐसी ही अग्रस्थामें वधू घरमें चली जावे तो भूत प्रेत इत्यादि घरमें जाकर नव दम्पतिको हानि पहुँचावें इसीलिये, तोरमाका प्रयोग किया जाता है।

फिर तोरमा फेंकनेवाला मनुष्य तोरमा फेककर घरके भीतर क्यों भाग जाता है ? और घरका द्वार फिर क्यों बन्द किया जाता है ? यह इसलिये कि तोरमा फेंकनेके बाद कन्या पक्षके लोग जो उसके साथ आते हैं घरपक्षके उन लोगोंको पकड़ते हैं जो घरके बाहर रह जाते हैं। जितने मनुष्योंको कन्यापक्षके पकड़ लेते हैं उन सबसे २ टका प्रति मनुष्य दण्ड लेते हैं। इसी भयसे वह घरके भीतर भाग जाता है कि कहीं वह न पकड़ जावे। जब वह पुरुष घरके भीतर पहुँच जाता है तो भीतर वाले जोकि वधूके आनेकी राह देण रहे थे लडकीके साथ आनेवालोंसे कहते हैं कि हमको शैया गाकर सुनाओ तब हम वधूको भीतर घुसने देंगे। (शियामें कुछ थोड़ेसे अच्छे २ शब्द और घरवालोंकी प्रशंसा कही जाती है) कन्यापक्षके पुरुषोंमें जिसका काम शैया सुनानेका होना है वह उत्तर देता है कि हम शैया कहना तो चाहते हैं परन्तु आता नहीं है इससे नहीं कह सकते हैं। यह सुनकर घरके भीतरवाला पुरुष थोड़ा किवाह खोलकर उसमेंसे काता दिपाता है और कहता है कि

काता यह है और यह कहकर शीघ्र ही उसे छिपा लेता है। काता एक प्रकारका रेशमका रूमाल होता है। इस काताको छुपानेका कारण यह है कि यदि उस काताको वधूकी ओरका कोई पकड ले तो घरके भीतरवाले मनुष्यको पकडनेवालेको २० टका दण्ड देना पड़े। इसीलिये काताको शीघ्र ही छुपा लिया जाता है। काताको देख लेनेपर शोया कहनेवाला पुरुष इस भाँति शोया आरम्भ करता है—“यह उस भवनका द्वार है, हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े हैं। जहाँ सोनेके खम्भे और चाँदीके द्वार हैं। इसके भीतर एक पूजाभवन है और एक महल बना हुआ है जिसमें ऐसे मनुष्य रहते हैं जो गुणमें देवताओंके समान हैं।” इस शोयाकी समाप्तिपर द्वार खुल जाता है।

यहापर यह कह देना भी आवश्यक है कि जब वधू किसी गावमें होकर निकलती है तो गाववाले उसको पकडकर अपने घर ले जाते हैं कि उसके साथके भूतप्रेतादिक उस गावकी ओर उसको खेतीको हानि पहुँचावेंगे। अतएव उसके साथी जब उस हानिके बदलेमें कुछ रुपया दे देते हैं तब वधूको छोड देते हैं। परन्तु जहातक मैंने देखा है नगरोंमें यह रीति प्रचलित नहीं है। दूर दूर गांवोंमें ऐसा अवश्य होता है और यह रीति भी प्रायः सभी देशोंमें आती है जब कण्णवाले पडोसवालोंसे अधिक परिचित नहीं होते।

जब घरका द्वार खुलता है तो घरकी माता थोडा दूरी

और चेमा (एक प्रकारका हलवा) लेकर बाहर आती है और उसमेंसे थोडा थोडा सबको दिया जाता है। यह भोग सबके हथेलीपर दिया जाता है और तुरन्त पा लिया जाता है। इसके बाद सब लोगोंको घरमें ले जाती है और वहा सब लोगोंको भोज दिया जाता है। इसी समय प्राचीन सम्प्रदायका लामा बुलाया जाता है और देवताओंको और ग्रामवालोंको भी सम्बोध पढु चा देता है कि एक वधू घरमें और आगई है। देवताओंसे प्रार्थना करता है कि इसकी रक्षाका भार भी वह अपने ऊपर ले लें।

इस रीतिके हो चुकनेपर दुलहेके मातापिता वधूके प्रत्येक साथीको एक एक काता देते हैं। तत्पश्चात् फिर भोज होता है। यह भोज कमसे कम २-३ दिन और अधिकसे अधिक महीनेभर चलता है। इसी अवसरपर सम्बन्धी लोग अपनी अपनी भेंटें भी लाकर देते हैं। यदि धनी घरकी कन्या है तो वह अपने घरके एक दो नौकर सदैव ही अपने साथ रख लेती है। कन्यापक्षके लोगोंके चले जानेके पीछे एक महीने अथवा एक वर्षके पीछे वधू अपने मयके जाती है। उसके साथ पति भी जाता है और कुछ दिन वहा रहकर अपने घर लौट आता है। एक या तीन मासके बाद जिस दिन श्वशुरालय लौटना है उसका स्वामी आकर उसको फिर ले आता है।

यदि पतिके कोई भाई हुआ तो नव वधूका छ महीनेसे १२ महीनेतकके बीचमें उससे भी विवाह कर दिया जाता है


यह विवाह पतिके घर ही पर बिना धूमधामके ही हो जाया करता है। इसमें मध्यस्थका काम बरकी माता ही करती है। बड़ा भाई जिससे पहले विवाह हुआ है जब किसी प्रयोजनसे कहीं बाहर चला जाता है उस समय यह विवाह किया जाता है। यदि भाईके तीन चार भाई भी हों तब भी कोई कठिनता नहीं होती है। प्रत्येक भाईका भी उससे इसी भाति बारी बारीसे विवाह हो जाता है। कभी २ स्वामीके भाइयोंसे बिना कुछ रीति रस्मके ही विवाह हो जाते हैं।

तिव्यतमें बहुपतित्वकी रीति इस प्रकारकी है। इसी रीति-को सासूम कहा जाता है। जब किसी स्त्रीके कई पति होते हैं तो बहुधा देखा गया है कि घरपर सब इकट्ठे नहीं रहते। अपनी २ बारीपर प्रत्येक भाई घरपर उपस्थित रहा करता है।

अबतक भी वहा वह बहुपतित्वकी रीति बराबर जारी है। यदि वहाका कोई व्यापारी बाहर जावे और लोग वहाकी इस रीतिपर उपहास करें तो वह उन्हें झूठा समझकर उनकी उपेक्षा कर देता है और उत्तर देता है कि, 'लक सूमिण्ड' अर्थात् वहा ऐसी रीति नहीं है। यह रीति उस समयकी चली हुई है जब वहा बोन धर्म प्रचलित था। यद्यपि अब वहां बौद्धधर्मका प्रचार है परन्तु वे लोग बौद्ध धर्मको कर्तव्य व्यवहारोंमें नहीं लाते और न उस धर्मके सिद्धान्तोंको अधिक स्पष्टरूपसे जगतमें फैलानेका उद्योग करते हैं। इसीसे वहा ऐसी घृणित रीति चली जा रही है। यह दोष वहाके लामा-

ओंका है जो कि ऐसी रीतियोंके प्रचलित रहनेके लिये उत्साहित किया करते हैं न कि बौद्धधर्मका ।

छपनवां परिच्छेद



तिब्बतमे राजदण्ड

अक्टूबरके आरम्भमे एक दिन मैं घरसे निकलकर बाजारकी ओर चला । पारकर लासाका एक प्रसिद्ध बाजार हे । यहापर अपराधियोंको सर्वसाधारणके समक्ष दण्ड दिया जाता है और यहा भाति भातिसे दण्ड दिया जाता है । किसीके हाथोंमें हथकडी हैं । किसीके पैरोंमें बेडी हैं । किसीके हथकडी और बेडी दोनों ही रहती हैं । उस दिन मैंने प्राय २० अपराधी देखे । कई खम्भोंसे बंधे हुए थे और किसीके बेडिया पड़ी हुई थीं । यह सब अच्छे कपडे पहने हुए थे और उनकी गर्दनोमें लकडीका एक एक तख्ता पडा हुआ था जो तीन तीन फीट लम्बा चौडा और १-५ इंच मोटा था । इस तख्तेके बीच गर्दनकी मुटारके धराबर एक छेद था । उसके दो टुकडे हो जाते जिन्हे गर्दनमें पहनाकर तालेसे बन्द कर दिया जाता है । साथ एक कागज लटकता रहता है जिसपर अपराधीके नाम और नियत दण्डका सब विवरण लिखा रहता है । तादात्त तीन सौसे सात सौ तक हुमा करती है ।

इच्छा बहुत थी कि सब लोगोंके अपराध विवरण पढ़ लू परन्तु बहुतसे लोगोंको दण्ड मिले थे । दो तीन अपराधियोंके कागजमें पढ़ सका । मुझे मालूम हुआ कि यह अपराधी टेंगेलिंग विहारके हैं । यदि दलाई लामा मर जावे तो इसी विहारके लामाको वह गद्दी दी जाती है । इस विहारकी पदवी बहुत ऊंची है और यहा लामा भी बहुत रहा करते हैं ।

लासामें मेरे पहुँचनेसे कुछ पहले टेमोरिनयोचे नामक एक लामा बहाका प्रधान बनाया गया था । उसके नीचे नारपूचे-रिंग नामक लामा था । उसके ऊपर यह अपराध लगाया गया था कि उसने भूत प्रेतोंकी सहायतासे दलाई लामाको अभिचार क्रियासे मारनेकी चेष्टा की थी । अभिचार भी बौद्ध-मन्त्रसे नहीं प्रत्युत् वोन धर्मके अनुसार किया था । उसने एक कागजपर कुछ मंत्र लिखकर दलाई लामाके जूतोंकी एडीमें छुपा दिया था । यह जूते दलाई लामाको भेंटमें दिये गये थे । इस मंत्रका यह प्रभाव था कि जब जब दलाई लामा उस जूतेको पहनते तो अवश्य किसी न किसी रोगसे पीडित हो जाते थे । परन्तु भाग्य-वश दलाई लामाके एक नौकरने जूतीमें लगे इस कागजका पता लगा लिया था ।

इस पड़यन्त्रमें बहुतसे लोग पकड़े गये । टेमोरिनयोचे शाय उस पड़यन्त्रके मुखिया समझे जाकर पकड़े गये । ऊपर यह दोष लगाया गया था कि दलाई लामाको इस मारकर उनके पदपर वे स्वयं गद्दीपर बैठना चाहते

थे । उसने नारपूचेरिगको जो कि उनका प्रधान मन्त्री था, ऐसा दुष्ट कार्य करनेके लिये उत्साहित किया था । इसके अतिरिक्त नारपूचेरिगने और बहुतसे निरपराध मनुष्योंको बड़ी बेरहमीसे मारा था । उसके शत्रुओंने इस अवसरपर दिल खोलकर उसके अत्याचारोंको खूब पोल खोल दी । इस कारण वे दोनों कैद कर दिये गये ।

यह घटना मेरे लासा पहुचनेसे पहलेकी है । जब मैं लासा पहुचा तो टेमोरिनयोचे मर चुका था और नारपूचेरिग अभी तक कैदमें कठिन दण्ड भोग रहा था । बन्दीगृहके छतमें ही कैद एक छिद्र था । इसमेंसे कैदीको भोजन पहुचाया जाता था और उसमेंसे बीच बीचमें उसकी परीक्षाके निमित्त बाहर निकाला जाता और बड़ी यन्त्रणा दे देकर अपराध स्वीकार कराया जाता था । भाग निकलनेकी आशा तो दुराशामात्र थी परन्तु समय समयपर उसको सूर्यरू दर्शन भी कराये जाते थे । उस दिन उसकी यन्त्रणाका ठिकाना नहीं रहता था । उस दारुण दुःखको सुनने मात्रसे मेरा हृदय काप जाता था । नारपूचेरिगके नाखूनोंमें घासकी पच्चरिया ठोकी जाती थीं । जब पच्चरे ठोकते २ नाखून निकल जाता था तो उसके चमड़े और मांसमें डडिया ठोकते थे । एक समयमें एक ही उगलीके नपकी यह दुर्गति की जाती थी । इसी भांति उसकी दसों उगलिया फोड दी गई थीं ।

अभागा नारपूचेरिग अभीतक इन कष्टोंको सहता चल

जिस समय मैंने देखा उस समय वह बेचारी प्रायः अचेत थी। उसका मुख पीला पड़ चुका था। फिर भी बहुतसे लोग बड़ी उदासीनतासे देख रहे थे। उनके दिलमें वहाँ पहुँचकर सहानुभूति प्रगट करने तकका विचार नहीं उठता था। मैंने सुना था कि वहाँ धनी लोगोंने दण्डाज्ञाकी ऊँचे २ पढा। उसमें इतने कोड़े लगाने और सात दिनके लिये काठमें ठोंककर अपमानित करने और अन्तमें किसी दूरदेशमें कालेपानी भेजकर भी उसे बेडियोंमें जकड़े रखनेका दण्ड दिलाया था। बहुतसे दर्शक उस महिलापर ठट्ठातक उडा रहे थे और कहते थे “इनकी खूब गत यनाओ—इन्होंने जो दूसरोंको बडा कष्ट दिया था उसीका यह फल है।”

इन हृदयहीन लोगोंके दुष्ट हृदयका वर्णन करना असम्भव है। नारपूचेरिङ्गके घशपर आई इस विपत्तिपर खुश होनेवाले वे ही लोग थे जो नारपूवशकी समृद्धदशामें उनका कृपापात्र बननेके लिये स्पर्द्धालु थे। ये पशुहृदय पुरुष इस दया-धर्म को समझ ही नहीं सकते थे जो हमें यह सिखाता है “पापसे घृणा करो और पापीपर दया करो।” फिर भी उनको मनुष्य समझकर उनसे हमदर्दीकी आशा की जा सकती थी। पर उनकी ऐसी निर्लज्जताके दारुण व्यवहारको देखकर मैं इस परिणामपर पहुँचा कि यहा तिव्यनमें राजनैतिक फूट इतनी पराकाष्ठातक है कि निर्दोष महिलाओंपर तक घोर अत्याचार हो सकता है। मुझे नारपू महिलाके लिये बडा दुःख था।

जब मैं घर पहुँचा तो जो कुछ देखा था अर्थसचिवको कह सुनाया। उसको भी उस खोकी दुरवस्था सुनकर बहुत दुःख हुआ। उसने कहा कि एक दिन वह था कि नारपूचेरिंग और उसकी खोकी घुराईके विषयमें कोई एक शब्द भी मुखसे निकालनेका साहस नहीं करता था। यह अवश्य है कि नारपूचेरिंगमें दो एक अग्रगुण अग्रश्य थे परन्तु टेमोरिन पोचे बड़ी साधुप्रकृतिका मनुष्य था। वह नितान्त निरपराध होनेपर भी अपने नौकरोंके षड्यन्त्रसे आपत्तिमें फँसा। यह सय बातें मैं आपसे गुप्तरूपसे कहता हूँ। तिव्यतमें बड़ी राक्षसी निष्ठुरतासे दण्ड दिया जाता है। उसका वर्णन करना असाध्य है।

नाखूनोमें चासके पथरें ठोकनेके विषयमें मैं पहले कह आया हूँ। अपराधीके शिरपर शिलाओंका बोझ रख देते हैं। शिलाएँ एक एक करके रखी जाती हैं और कष्टकी सीमा नहीं रहती। पहले तो उसकी आँखोंसे पानी निकलना आरम्भ होता है। पीछे एक २ शिलाओंका बोझ बहुत बढ़ जानेसे उसकी आपत्ति निकल पडती है। यों तो कोहोंका दण्ड माधारण दण्ड है परन्तु वहाँ बिलो वृक्षकी हरी लकड़ीसे अपराधी पीटा जाता है। यह लकड़ी नगे पत्तीरमें घुस जाती है और शरीर क्षतविक्षत होकर रुधिरकी रदिया बह निकलती है। यह दृश्य कैसा भयानक है। जयतक कोहोंकी पूरी गिनती न हो जाये कोहों निरन्तर लगने ही रहते हैं। कभी २ यन्त्रणाको और भी कठोर करनेके लिये कोहोंको मारना थोड़ी देरके लिए बन्द करा दिया जाता है। अपराधीको

थोडा पानी पिलाकर फिर कोडा लगाना आरम्भ किया जा है। इस दण्डके दश अपराधियोंमेंसे नौ तो अवश्य ही मरण-मुख हो जाते हैं। ऐसे बहुतसे घायल अपराधी चिकित्सा लिए मेरे हाथमें आये। उनके घाव देखकर बड़ा रोमाञ्च जाता है।

सभी जेलखाने देखनेमें बड़े भयानक हैं परन्तु तिब्बतके जेलखाने तो बहुत ही भयानक हैं। अच्छे २ जेलखाने भी मिट्टी चहारदीवारीसे घिरे होते हैं। लकड़ीका नीचे फर्श होता। दोपहर दिनको भी उसके भीतर उजला नहीं पहुँचता। वे ठण्डे देशमें मकानके भीतर धूपका न पहुँचने देना ही। दारुण दण्ड है।

यहाके कैदियोंको एक बार दो मुट्ठी अन्न भोजन मिलता इससे पेट भरना असम्भव है। अतएव कैदी अपने मित्रोंसे भोगानेकी चेष्टा किया करते हैं। परन्तु जो वस्तु बाहरसे आ जाती है वह पूरी २ चहा नहीं पहुँच सकती। क्योंकि अधिक तो जेलर अपने गलेके नीचे उतार देते हैं।

सबसे साधारण दण्ड जुर्माना है। उससे बढ़कर कोडें लगाना, आपोंका निकालना और हाथोंका काट लेना पहले हाथोंको खूब कसकर बाध दिया जाता है। इस २ २४ घण्टे बाँधे रहनेसे वह भाग चेतना रहित हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि जिसके हाथ काटने होते हैं उन कलाइयोंमें रस्सी बाधकर उसे वृक्षोंमें लटका दिया जा

और बाजारू लडकोंसे कह दिया जाता है कि इसको पकड़ २
 कर लींचो। ऐसा करनेसे हाथ कलाईसे टूट जाते हैं। यह
 दण्ड बहुधा उन चोरों और डाकुओंको दिया जाता है जो कि
 १६ बार उसी दोपमें पकड़े जाते हैं। लासामें ऐसे फकीर
 बहुत हैं जिनके हाथ कटे हैं और आपें फूट गई हैं। वहां ऐसे
 मन्धोंकी ही अधिक सख्या है।

इनके अतिरिक्त और भी दण्ड हैं जिनमें कान फाट लेना
 और नाक फाट लेना बड़े रोमाचकारी हैं। यह दण्ड उन खी
 सुरगोंको मिला करता है जो चाल चलनके थच्छे नहीं होते।
 यह दण्ड उस खीका स्वामी ही दे सकता है और पीछे राजद्वार-
 में उसकी इच्छिला दे देता है।

देशनिकालेकी यहा दो रीतिया हैं। एक तो यह है कि
 अपराधीको किसी दूर देशमें भेज दिया जाता है और दूसरा
 यह कि उसे किसी वहींके जेलखानेमें भेज दिया जाता है।
 सबसे बडा प्राणदण्ड यहा पानीमें डुबाकर मारनेका है। इसकी
 दो रीतियां हैं। एक तो यहाके अपराधीको चमड़ेकी मशकमें
 बन्द करके पानीमें डाल देते हैं और दूसरी यह कि उसके हाथ
 पैर बाधकर शरीरमें शिला बाधकर लटका देते हैं और इस
 भाति वह डूब जाता है। उसे बाहर निकालकर देखा जाता
 है। जब अपराधीके प्राण निकल जाते हैं तभी उसके शरीरके
 टुकड़े २ कर दिये जाते हैं, और सब टुकड़े पानीमें फेंक दिये
 जाते हैं, केवल शिर रख लिया जाता है। यह शिर ३ दिनसे

७ दिनतक सर्वसाधारणको दिखलाकर एक मकानमें रख दिया जाता है जो कि इसी कामके लिये बना होता है। इस विषयमें एक और बात प्रसिद्ध है कि जिसका शिर उस मकानमें रखा जाता है उसका इस ससारमें फिर जन्म नहीं होता।

इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे दण्ड हैं परन्तु उनके यहाँ लिखनेकी में आवश्यकता नहीं समझता हूँ। पाठक इतनेसे ही समझ सकते हैं कि तिब्बतके अज्ञात देशमें दण्डविधान कैसा है।


मैं लासामें सन् १९०१ के अक्टूबरके मध्यतक रहा। वहाँसे मैं सेराको आया। मेरे मित्रने कृपा करके अपना एक घोड़ा मुझे दे दिया था। कलकी रातसे बरफ गिरनी आरम्भ हो गई थी।

इस मौसममें यह बरफ पहली ह बार गिरी थी। राहमें थोड़ी दूरपर एक नदी है। यह सरदियोंमें सूख जाती है। यहाँपर लामाओंके कुछ लडके बरफकी गेंदें बना बनाकर खेल रहे थे। यह लडकोंका खेल मुझे बहुत उत्तम लगा। मैं बहुत देरतक खड़ा हुआ उसको देखता रहा। इसे देख मुझे अपनी बचपनकी बातें याद आने लगीं। मैंने देखा कि बच्चोंकी प्रकृति प्रायः सारे ससारमें एक जैसी होती है।

इसी समयमें एक मनुष्य लासाको ओरसे आ रहा था। वह मेरे पास आकर मेरे मुखपर ताकने लगा। मैंने उसको देखते ही पहचान लिया कि मानसरोवरकी यात्रामें मार्गके साथी यह उन तीन भाइयोंमेंसे छोटा भाई था जिसने मेरे मुखपर

बिदाईके समय प्रेमसे चुम्बन किया था। वह मुझे देखकर बड़ा विस्मित हुआ चरन् भयभीत हो गया क्योंकि उसने पहले फटे कपड़े पहिने फकीरोंकी भाति यात्रा करते हुए देखा था परन्तु अत्र मैं अमीरी ठाठसे जा रहा था। कुछ भी हो वह मुझे देखकर कतराया और जल्दी २ पैर बढ़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने उसको रोका और पूछा कि क्या तुम मुझे भूल गये हो? उसे कहना पडा कि 'पहचानता हूँ' मैंने उसे सेरा चलनेको कहा। मैंने उसे अपने साथ ले लिया और बिहारमें अपने मकानमें बड़े आदरसे ठहराया। जब वह बिदा हुआ तो उसको कुछ भेंट भी दी। अत्र मैंने उससे कृतज्ञता प्रकाश की कि मेरी यात्रामें उसने मेरी बड़ी सहायता की थी तो उसकी आँखोंसे आंसू आ गये। सिर झुकाकर बड़ा लज्जित सा हुआ। बिदा होते समय उसने अपने भाइयोंके विषयमें कहा कि वे अपनी जन्मभूमिमें ही सुखसे इकट्ठे रहते हैं।

सन्तावनवां परिच्छेद



घोर अन्त्येष्टि और घोरतर चिकित्सा

मैं मासिक परीक्षासे कुछही पहले सेरा बिहारसे लौट आया था और परीक्षाकी तय्यारी कर रहा था कि इस समयमें मेरा एक परिचित मित्र मर गया। मुझे भी उसकी अन्त्येष्टि क्रियाके

समय उपस्थित रहना पडा। ऐसी अन्त्येष्टि क्रिया मैंने ससारांमें कहीं भी न देखी। यहां न कफनकी आवश्यकता है न टिकटी की। केवल दो लम्बे डण्डोंमें कुछ छोटे २ कंडेपर दो लकडिया आड़ी २ बांध दी जाती हैं। इस लकडीके चौखटेमें रूसी धुनी जाती है और इसके ऊपर एक चादर गिठाकर मुर्दा रख दिया जाता है। मुर्देके ऊपर एक श्वेत कपडा ओढ़ा दिया जाता है। दोनों ओरसे दो मनुष्य डण्डोंके बीचमेंसे शिर निकालकर उसको उठा लेते हैं।

मृत शरीरकी अन्त्येष्टि क्रिया ३४ दिन पीछे होती है। इस बीचमें और और भी क्रियायें होती हैं। सबसे पहले एक लामा बुलाया जाता है और अन्त्येष्टि क्रियाके लिये अच्छा दिन पूछा जाता है। और फिर विधि पूछी जाती है। लामा अपनी सब सम्मति क्रियापद्धतिके विषयमें दे देता है। अपनी धर्मपुस्तक खोलकर मृत पुरुषके सम्बन्धियोंको उसके विशेष विशेष स्थलोंका पाठ करनेके लिये कह देता है। अन्त्येष्टिके लिये विशेष दिन नियत कर देता है। और घड़ी मुहूर्त आदि सब नियत कर देता है। वही सब पद्धति भी बतला देता है। अन्त्येष्टि करनेकी पद्धति चार-तरहसे की जाती है। पानीमें बहाना, अग्निमें जलाना, धरतीमें गाडना, और पक्षियोंको खिलाना।

इन चार रीतियोंमेंसे अन्तिम रीति अर्थात् पक्षियोंको खिला देना ही सबसे अच्छा समझा जाता है। इस विधिको तिब्बतमें

बागापो कहते हैं। इससे दूसरे नगरपर अग्निदाह, तीसरे नगरपर जलसमाधि और चौथे नगरपर कब्रमें गाडना समझा जाता है। यह अन्तिम क्रिया तबही काममें लाई जाती है जबकी रोगी चेचकसे मरा हो। इस विधिके विषयमें वे खूब समझते हैं कि चेचकसे मरे हुए शत्रुको पक्षियोंको खिला देना अथवा नदीमें बहा देनेसे अन्य गाँवोंमें भी यह रोग फैल जाता है। अतएव उसको धरतीमें गाड देते हैं। मुर्दोंको जला देना भी बहुत अच्छा समझा जाता है परन्तु ई धनकी इस देशमें बहुत कमी है। याकफे गोबरकी पाधियोंसेही शत्रुको जला दिया जाता है। प्राय अमीरोंके लिये ही यह रीति रखी गई है। पानीमें समाधि देनेकी विधि प्राय सर्वप्रचलित है। यह विधि प्राय महानदियोंके तटपर की जाती है। जलमें समाधि देनेके पहले शत्रुका अंग काट काटकर अलग अलग कर दिये जाते हैं और टुकड़े २ करके पानीमें डाले जाते हैं। यह रीति इसलिए रखी गई है कि यदि समस्त शरीर पानीमें डाल दिया जावे तो उसको आलोंसे ओझल होनेमें बहुत देर लगेगी।

यह चारों रीतिया भारतवर्षके शास्त्रीय सिद्धान्तोंके आधार पर की जाती हैं। उनके अनुसार मानव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्त्वोंका बना हुआ है वे समझते हैं। वे तत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुमें ही मिल जाने चाहिये। यों कब्रमें गाडना शरीरको पृथ्वीतत्त्वमें मिला देनेके समान है। इसी प्रकार दाहसे शरीर अग्निमें और जल समाधियों

से जलमें और पक्षियोंको खिला देनेसे वायुतरंगमें मिला दिया जाता है। लामाओंके शरीर पक्षियोंको ही खिलाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऊँचे दर्जेके मनुष्योंको दलाईलामा तथा उसके अधिनस्थ उच्च अधिकारियोंको तथा अन्य माननीय लामाओंको बोधिसत्वका अवतार समझा जाता है। उनको विशेष रूपसे समाधि दी जाती है।

मेरे जान पहचानवाले लामाके लिये वायु समाधि ही पसन्द की गई जिसका वर्णन मैं सक्षेपसे देता हूँ। “हमलोग उसके शवको लेकर एक नदीके किनारेपर पहुँचे। इस नदीके किनारेपर एक पहाड़ी थी जिसपर सहस्रों मांसाहारी पक्षी बैठे हुए थे। शवको ले जाकर एक बारह गजके ऊँचे पत्थरपर रखा। यह पत्थर ऊपरसे समतल १५ अंगुलके लगभग चौरस था। यही स्थान था जिसके ऊपर यह अन्त्येष्टि की जाती थी। ज्योंही शव चट्टानके ऊपर रखा गया त्योंही उसके ऊपरका कपडा हटा दिया गया और लामा पुरोहित धर्मपुस्तकमेंसे ढोल आदि बाजेके साथ २ मन्त्र पढ़ने लगा। इसी समय एक मनुष्य एक बहुत चौड़ी तलवार हाथमें लेकर शवके पास आया और उसने उसका पेट काटकर आतें निकालीं। इसके पीछे सब अंग अलग अलग कर दिये गये। उसके पीछे एक पुरोहित और कई और मनुष्य आये। उन्होंने हड्डीसे मांस अलग किया जैसे डोम किया करते हैं। इस इतने समयमें गिद्ध उतर २ कर चहापर इकट्ठे होने लगे। बड़े बड़े मांसके टुकड़े जधे आदि गिद्धोंके सामने फेंके गये। मांसके

फेंकनेकी देर थी कि गिद्धोंने उसको बड़ी वीमत्सतासे खा डाला। अब हड्डीकी चारी भाई। परन्तु हड्डी इसी तरह नहीं फेंकी गई। उस चट्टानपर छोटे २ दस गढे थे। इनमेंसे एक गढेमें उन हड्डियोंको डालकर एक भारी पत्थरसे उनको पीसा गया। जब वह बारीक आटा सो बन गई तो उनमें थोडासा पका हुआ आटा मिलाया गया। आटा मिल जानेपर वह भी गिद्धोंके भेंट किया गया। यदि कोई वस्तु मुर्देकी बची थी तो वह उसके बाल थे।

वास्तवमें तिव्वतवासी एक प्रकारके नरमक्षक हैं। मैं इस रीतिको देखकर भौंचक रह गया। कफनका कपडा यमदूत वालोंको दे दिया गया। यद्यपि उन लोगोंका नाम यमदूत रखा गया है परन्तु वास्तवमें उनका काम शव मासका काटना और हड्डिया पीसना है। पुरोहित लाग भी उनको इस काममें सहायता करते हैं क्योंकि हड्डीका पीसना कोई सहज काम नहीं है। जब हड्डी पीसनेवाले पीसते २ थक जाते और चाय पीने लगते थे उतनी देरमें पुरोहित महाशय वह काम करते थे। चाय तय्यार करनेसे पहले वे रक्तसे भरे हुए हाथ भी नहीं धोते। हाथोंमें मास और रक्तके छिछले लगे रहते हैं उन्ही हाथोंसे वे चाय पका डालते हैं और रोटिया भी पका लेते हैं। अधिकसे अधिक वे हाथोंको झड लेते हैं जिससे बड़े २ रक्त मासके लोथड़े झड जाते हैं। इस प्रकार अपने भोजन और चायके साथ मास, हड्डिया और भेजेका भाग पकाकर खाही जाते हैं।

उनको इस बातकी कुछ भी परवा नहीं है। उन्हें अपने इस कार्यमें कुछ भी वीभत्सता या घृणा मालूम नहीं होती। वे इस बातके आदी हो चुके हैं।

मैंने उनसे कहा कि चाय बनानेसे पहले हाथ धो लेने चाहिये तो वे बड़े चकित हुए। उन लोगोंने मेरा परिहास करके कहा कि इन्ही हाथोंसे चाय बहुत सुखादु मालूम होती है। इसके अतिरिक्त यदि मुर्देके शरीरका कुछ अंश हमलोगोंके पेटमें चला जावे तो वह आत्मा भी बहुत प्रसन्न होती है। यह मैंने पहले भी सुना था कि तिब्बतवाले राक्षसके वशके हैं। परन्तु जब मैंने यह दृश्य देखा तो विश्वास हो गया कि अवश्य ही यह लोग नरभक्षक हैं जो अरनक भी अपनी वशपरम्पराकी आदतको नहीं छोड़ते।

जितनी देर यहा यह काम होता रहता है मुर्देके पास भी मन्त्र पाठ होता रहता है। यहांसे सब लोग उसके घर जाकर खूब भोजन करते हैं। इस समय लामाओंको मदिरा नहीं दी जाती।

जब कोई उच्च पदाधिकारी मरता है तो उसको एक सन्दूक में रखते हैं और उसके ऊपर इतना नमक डालते हैं कि वह चारों ओरसे नमकसे ढक जाता है। जबतक यह काम होता है तबतक बाजे ढोल इत्यादि बजते रहते हैं और धर्मपुस्तकका पाठ होता रहता है। इसके पीछे वह सन्दूक तीन महीनेतक एक मन्दिरमें रखा रहता है। इस इतने समयमें उसपर घैसे

ही भेंट पूजा चढ़ती रहती है जैसे जीवित समयमें चढ़ती है और शिष्य लोग निरन्तर पहरा देते रहते हैं। सोने चादीके पाश्र्वोंमें धीके दीपक जलते रहते हैं। सन्दूकके सामने सात पाश्र्वोंमें अभिमन्त्रित जल रखा रहता है। इन्हीं पाश्र्वोंका जल और फूल उसके ऊपर चढ़ाये जाते हैं। उस सन्दूककी हर कोई पूजा कर सकता है। जो पूजा करने आता है वह कुछ रुपयेकी भेंट भी चढ़ाता है। तीन महीनेमें शयनमकके कारण बिलकुल सूण जाता है और शयन लकड़ीके अनुसार फडा हो जाता है। मुझे ऐसा घात होता है कि यहांके मकमें सोडा इत्यादि कोई क्षार भी मिला रहता है अथवा नमकमें कोई और वस्तु मिला दी जाती है तब उसे मुर्देपर डालते हैं।

जब यह शयन सन्दूकसे बाहर निकाला जाता है तो बिलकुल सुकड़ा हुआ होता है। आंखें गडढोंमें घुस जाती है। शयनको निकालकर एक प्रकारकी मिट्टीमें चन्दनका घुरादा और कुछ विशेष औषध मिलाकर शरीरपर लेपन करनेसे शरीर फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। उसपर असली रंग आ जाता है, सुखापन नहीं रहता है। तब उसको उस सन्दूकमें रखकर एक छोटेसे मकानमें रख दिया जाता है। यह समाधिमन्दिर इसीके लिये बनाये जाते हैं। ऐसी समाधिया शिगात्जेमें मैंने बहुत देखी हैं। इनकी छतोंपर चादी और सोनेका काम भी किया जाता है।

कुछ भी हो इन शवोंकी, क्या छाटा क्या बडा, सब ही पूजा करते हैं। लामा और सर्वसाधारण सभी इन समाधियोंकी

पूजा करते हैं। बहुतसे चीनी लोग इस प्रकारसे तिब्बतियोंकी शव-रक्षा विधिपर बडा आक्षेप करते हैं। उनका कथन है कि तिब्बती लोग मुर्देको भूमिमें गाडना अधम क्रिया समझते हैं। क्योंकि मुर्देको गाडनेसे आत्मा नरकको चली जाती है। दलाई लामाके शवकी यह रक्षाविधि एक प्रकारसे भूमिमें गाड देनेके बराबर ही है। इस प्रकारसे दलाईलामाका शव न तो पक्षियोंको काट कर खिलाया जाता है, न जलाया जाता है, न पानीमें डाला जाता है, परन्तु नमकमें रखनेके बाद मिट्टीमें ही रखा जाता है। अब मैं एक अद्भुत औपधिका उल्लेख करता हू। प्रथम तो वह नमक जिसमें मुर्दा गाडा जाता है। यह नमक बडा पवित्र समझा जाता है। इसका भोग प्रायः अमीरोंको ही मिलता है। इस भाति विशेष मिट्टीमें शवका रखना धनी लोगोंके वंशकी विधि है। सर्वसाधारण इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। मुर्दोंका नमक बहुत ही दामोंपर और बडे सिफारिशसे मिलता है। यह सब रोगोंपर एक असली दवा मानी जाती है उनका विश्वास है कि इसको जलमें घोलकर पीने या खानेसे ससारका कोई रोग शरीरमें नहीं रह सकता है। यह भी हजारों रोगोंको अच्छा करता है परन्तु मुझे विश्वास है चाहे इसके रोग-नाशक गुण किसी प्रकारके हों तो भी अशिक्षित व्यक्तियोंके सब प्रकारके रोग अग्र्य इससे दूर हो जाते होंगे। उनका हिया तो शान्त हो जाता होगा। नमकके साथ ही मुझे एक और ऐसी ही सर्व रोग-हर औषध याद आ गयी है कि इससे रोग तो क्या दूर होते

हैं उसकी यदि कोई वास्तविकता भी सुनले तो नीरोग भी रोगी हो जाय क्योंकि यह औषध दलाईलामा अथवा और उच्च पदाधिकारी लामाओंके मलमूत्रसे बनाई जाती है। इस मलमूत्रमें और कुछ पदार्थ मिलाकर गोली बना लेते हैं और उनको लाल रंग देते हैं। यह औषध बाजारोंमें नहीं मिलती। यदि कोई चाहे तो उसको बड़े २ आदमियोंसे सिफारिशसे मिल सकती है। और दाम भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तिब्बतवासी इस गोलीको बहुत रुपया खर्च करके भी अपने पास रखनेकी इच्छा करता है। इसको बहुमूल्य मोदक 'त्साचेनारपू' कहते हैं। यह एक मृत्यु जयमणि समझा जाता है। जब रोगीके ऊपर सब औषधियां निष्फल हो चुकती हैं उस समय यह गोली दी जाती है। बहुधा इसके विश्वासके कारण रोगी अच्छा भी हो जाता है और यदि न भी अच्छा हुआ तो भी गोलीकी शक्ति कम नहीं समझी जाती है वर' यह समझ लिया जाता है कि रोगीकी मृत्यु ही आ गई थी। इन गोलीयोंके बनानेकी रीति सख गुप्त रखी जाती है। इस गुप्त नुस्खेका रहस्य केवल दलाई-लामाके बहुत ही अन्तरंग सेवकोंको मालूम रहता है।

अष्टावनवां परिच्छेद

विदेश पर्यटन और तिब्बतकी वर्जन नीति

नवम्बर १९०१ के आरम्भमें ही मैं अपने मित्र अर्थसचिवके यहां लासा लौट आया। हालमें जो अर्थसचिव था वह मेरे मित्रकी पत्नीका भतीजा था। आजकल काम कुछ कम रहनेके कारण वह मेरे मित्रके यहां बहुधा आया करता था। कभी २ में भी उसके घरपर चला जाता था। एक दिन बातों ही बातोंमें एक पादरिन अङ्गरेजकी खर्चा आ गई जिसने लासातक आनेकी चेष्टा की थी। अर्थसचिवने मुझसे पूछा कि मैं यह नहीं समझ सकता हू कि अङ्गरेज यहां आनेके लिये इतने उत्सुक क्यों रहा करते हैं। उनको यहांपर ऐसा क्या आवश्यक काम है। अभी ८-९ वर्ष हुए होंगे कि एक अङ्गरेज पादरिन तिब्बत और चीनकी हद्दपर नरुचूखाततक आई थी। उसके साथ दो नौकर थे। लासा आनेकी उसने बहुत चेष्टा की थी।

मैं सुनते ही समझ गया कि अर्थसचिवका मतलब Miss annie R Taylor एक मिशनरी स्त्रीसे है जिसने उत्तरी चीनसे लासा होते हुए दार्जिलिङ्ग जानेकी चेष्टा की थी। मेरे मित्रको उसका नाम इत्यादि कुछ मालूम नहीं था। परन्तु मैं उसके विषयमें दार्जिलिङ्गमें सब हाल सुन चुका था। उस

खोके साथे जो मनुष्य पथप्रदर्शक होकर गया था उससे भी मैं मिला था। मुझे जो कुछ - "खलूम था उसमेंसे एक शब्द भी मैंने अपने मित्रसे नहीं कहा वर उस कहानीके सुननेके लिये मैंने बड़ी उत्सुकता दिखाई। अर्थसचिवने सब हाल कह सुनाया कि कैसे तिब्बत निवासियोंने उसे रोक लिया। भाग्यवश उस समय वहाँका अधिकारी बड़ा दयालु था नहीं तो वह अवश्य मारी जाती। यह सम्राट वहाँके मजिस्ट्रेटने लासाफो भेजा। अतएव मेरा मित्र अर्थसचिव वहाँको भेजा गया कि उस विदेशी महिलाके साथ उचित व्यवहार करे। आशय यह था कि वह मिशनरी स्त्री तुरन्त ही वहाँसे हटा दी जाये। मन्त्री महाशय अपने साथ दो नौकर और बहुतसे कुली लेकर गये। वे सब मिलाकर तीस व्यक्ति थे।

नकचूखामें पहुँचकर उन्होंने शीघ्र ही मिशनरी स्त्रीको बुला भेजा। यद्यपि मिस टेलर तिब्बतकी भाषामें ही बातचीत कर रही थी परन्तु उसकी बातें मन्त्रीकी समझमें कुछ न आईं। क्योंकि उसकी बोली लासाकी आम बोलीसे बिल्कुल भिन्न थी। बहुत कठिनतासे उन्होंने मिस साहिबाके कथनका अर्थ समझ पाया कि वह तिब्बतके बौद्धधर्मके विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आई हैं। इसी उद्देश्यसे वह लासाकी यात्रा करके दार्जिलिङ्ग होती हुई घरको लौट जाना चाहती है। इसके पीछे उसने पासपोर्ट भी दिखलाया जो चीनके महाराजने उसको दिया था। अर्थसचिवने कहा कि "मैं आपके इस विचारका

अट्टावनवां परिच्छेद

त्रिदेश पर्यटन और तिब्बतकी वर्जन नीति

नवम्बर १९०१ के आरम्भमें ही मैं अपने मित्र अर्थसचिवके यहां लासा लौट आया। हालमें जो अर्थसचिव था वह मेरे मित्रकी पत्नीका भतीजा था। आजकल काम कुछ कम रहनेके कारण वह मेरे मित्रके यहां बहुधा आया करता था। कभी-कभी मैं भी उसके घरपर चला जाता था। एक दिन बातों ही बातोंमें एक पादरिन अङ्गरेजकी खर्चा आ गई जिसने लासातक आनेकी चेष्टा की थी। अर्थसचिवने मुझसे पूछा कि मैं यह नहीं समझ सकता हू कि अङ्गरेज यहां आनेके लिये इतने उत्सुक क्यों रहा करते हैं। उनको यहांपर ऐसा क्या आवश्यक काम है। अभी ८-९ वर्ष हुए होंगे कि एक अङ्गरेज पादरिन तिब्बत और चीनकी हद्दपर नकचूआततक आई थी। उसके साथ दो नौकर थे। लासा आनेकी उसने बहुत चेष्टा की थी।

मैं सुनते ही समझ गया कि अर्थसचिवका मतलब Miss annie R Taylor एक मिशनरी स्त्रीसे है जिसने उत्तरी चीनसे लासा होते हुए दार्जिलिङ्ग जानेकी चेष्टा की थी। मेरे मित्रको उसका नाम इत्यादि कुछ मालूम नहीं था। परन्तु मैं उसके विषयमें दार्जिलिङ्गमें सब हाल सुन चुका था। उस

इतना सुननेपर मिस टेलरने आगे बढनेका विचार छोड दिया और चीनको लौट जाना चाहा । यह सुनकर मन्त्री महा-शयने मिस टेलरको कुछ आवश्यक वस्तुएं मँट करके चीनको विदा किया ।

इतना हाल सुनाकर अर्थसचिवने एक चार आश्चर्यसे कहा कि मैं बहुत चेंष्टा करनेपर भी नहीं समझ सका कि ये लोग यहा आनेके लिये इतने उटसुक क्यों रहा करते हैं ।

मैंने और कुछ न कहकर केवल इतनाही कहा कि मेरी समझमें भी यह बात नहीं आती । यह मैंने सुना है कि विदेशियोंके लिये साहस कर यहा आना कोई नई बात नहीं है । अर्थसचिव स्वयं भी जानते थे । उस छोके समान और भी बहुत से लोगोंने यहातक आनेकी चेंष्टा की है । इसके बाद बात चीन तिब्बतके पुराने इतिहासके विषयमें होने लगी ।

सबसे पहले विदेशी यात्री जिसके विषयमें तिब्बतके इतिहासमें भी कुछ घुत्तान्त मिलता है वह पोरडिनोडका फ्रायर ओडरिक नामक एक रोमनकेथोलिक पादरी था जो कि अपना धर्म फैलानेके लिए १३२८ ई०में तिब्बतमें आया था । परन्तु वहा उसका प्रयत्न सफल न हो सका क्योंकि तिब्बतके लिये उसके पास कोई नयी बात नहीं सीखनेको थी और उस समयमें तिब्बतमें बहुत अच्छे लामा थे ।

फ्रायर ओडरिक भी वहाका क्रिया-कर्म देखकर बहुत चकित था । वहाके बहुतसे सिद्ध स्वयं ईसाके समान बहुतसे

बहुत पसन्द करता हूँ परन्तु बड़े दुःखकी बात है कि हमारे दलाईलामाकी बहुत कड़ी आज्ञा है कि कोई भी परदेशी तिब्बतके भीतर न जा सके। यदि कोई इस निषेध करनेपर भी आगे बढ़नेकी चेष्टा करे तो सम्भव है कि उसके ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े। क्योंकि जिस परदेशीको तिब्बत सरकार भीतर जानेको रोक रही है और जानेवाला नहीं मानता है तो उक्त सरकार इस वन पर्वतोंकी भूमिमें उसके मरने जीनेकी उत्तरदाता नहीं हो सकती। सरकार नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजनके दूसरेके देशमें जाकर व्यर्थ संकटोंमें पड़े। अतएव अच्छा है कि आप यहींसे लौट जायें।” यद्यपि यह बात अर्थ-सचिवने बड़े आदरसे तो भी बड़ी दृढ़तासे कही।

श्रीमती टेलर भी अपने 'सिद्धान्तपर अटल रहीं। वह अपनी प्रार्थना एक दो दिन नहीं बल्कि लगातार ४-५ दिनतक करती रहीं। उनका कथन था कि जब मुझे चीनके महाराजने पासपोर्ट दे दिया है और तिब्बतभी उसके मातहत है, फिर क्या कारण है कि तिब्बत सरकार मुझे लासा जानेसे रोकती है। मन्त्रीने कहा कि यह बात सत्य है कि किसी २ विषयमें तिब्बत सरकार चीनके अधीन है परन्तु इस वर्जननीतिमें वह चीन सरकारकी मातहत माननेके लिये तय्यार नहीं है। और यदि आप अब भी अपना विचार छोड़नेको तय्यार न हों तो मैं आपके दोनों पथ-प्रदर्शकोंको, पकड़वाकर तिब्बती कानूनके अनुसार दण्ड दूंगा।

बढ़ी कि लासा सरकारने केवल उनको ही नहीं परन्तु परदेशी लोगोंको भी वहा जानेसे रोक दिया। सन् १८७१में रूसका वासी कर्नल प्रीजरेस्की खाम देशसे होकर तिब्बतमें पूर्वी सीमासे प्रविष्ट होकर जा पहुंचा। लासासे जब ५०० मील दूर रह गया तब रोक दिया गया। यही व्यक्ति दूसरी बार फिर चीनकी ओरसे तिब्बतमें घुसा परन्तु लासासे १७० मील दूरपर रोक दिया गया।

सन् १८८६में एक अंग्रेज कैप्टेन हिलने तिब्बतमें जानेकी चेष्टा की परन्तु चीन और तिब्बतकी सीमापर वह भी रोक दिये गये। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र मन्त्री महाशयने यह भी कहा कि दो जापानी लामा भी वहां आये थे परन्तु वह भी भीतर न जाने पाये। उनके विषयमें यह स्पष्ट ज्ञात नहीं हुआ कि वास्तवमें बौद्ध लामा थे कि और किसी पेशेके थे।

अन्तिम यात्री शरत्चन्द्रदास मेरे गुरु थे जो कि सन् १८८१-८२ में आये थे। इन्होंने तिब्बत सरकारसे एक अद्भुत रीतिसे पास ले लिया था जिसकी सहायतासे वह शिगातजे तक पहुंच गये। शिगातजेमें दो महीने रहकर वह भारतवर्ष लौट गये। उनके अनुसन्धानका सम्वाद ब्रिटिश सरकारने सुना और उसी तरहका एक पास और भी उनको देकर सन् १८८२में उन्हें वहा भिर भेजा गया। दूसरी बार वह शिगातजे होकर लासा पहुंचे। उन्होंने बहुत ही होशियारीसे काम लिया था अर्थात् दिनको

जनक चमत्कार करनेमें समय था। ओडरिकने तिब्बतियोंको लिखानेके स्थानमें स्वयं उसने बहुत कुछ सीखा। वह बहुत सी घातें लिखकर ले गया था। उसने अपने भ्रमणवृत्तान्तका बहुत सा भाग अग्निसात कर दिया था। अतएव उसके विषयमें बहुत थोड़ा हाल तिब्बतकां ज्ञात है।

दो भाई ब्रुवर और डा० आरविले जो कदाचित् फ्रांसीसी युवक थे सन् १६६१ ई०में तिब्बत आये थे। मालूम नहीं वह लासातक पहुंचे कि नहीं परन्तु यह कहा जाता है कि ये पेकिनसे लासा होकर नेपालकी राह भारतवर्षमें आये थे। जिस समय वारेनहेस्टिज भारतवर्षके चाइसराय थे उन्होंने सन् १७७४ में तिब्बत और भारतवर्षके बीच व्यापारप्रयोजनसे कमिश्नर जार्ज बोगलको तिब्बत भेजा। वे अपनी पत्नीके साथ तिब्बतको रवाना हुए परन्तु शिगात्जेतक ही पहुंचे। सन् १७८१में हेस्टिजने फिर कैप्टेन टर्नरकी अधीनतामें एक कमिश्नरको भेजा। टर्नर महाशय दो वर्ष तिब्बतमें रहे। केवल एक मनुष्य सन् १८११ ई० में लासा पहुंचा। उसका नाम था टामस मेनिग।

जबतक हेस्टिज भारतवर्षमें रहे तबतक भारतवर्ष और तिब्बतके बीच व्यापार चलता रहा। उनके चले जानेपर वह फिर एकदम बन्द हो गया और भी बहुतसे परस्परके सम्बन्ध थे सो सब दूर हो गये। इसी समयमें पादरी लोग लासा और तिब्बतके और नगरोंमें खच्छुन्दता पूर्वक आने जाने लगे और अपना काम करने लगे। धीरे-धीरे उनकी खच्छुन्दता यहातक

दुस्तिकासे सग्रह करके लिखा गया है। इसका एक उदाहरण मैं यहापर लिखता हू कि एक व्यक्ति प०शोभाडो कोरोस एक हथी-घासी विद्वान है जिसने तिब्बती भाषाका अग्रजोमें कोश बनाया था। परन्तु उसने तीन वर्ष लद्दाखमें रहकर एक लामासे तिब्बती भाषा पढ़ी और वह कोश बनाया। लद्दाख नगर तिब्बतके दक्षिण पश्चिमके कोनेपर है। यहां यह शोभा महाशय प्रायः तीन वर्ष रहे थे। लेखक इस कोशको लिखनेके लिये स्वयं तिब्बत जाना चाहता था परन्तु सीमाप्रान्तके पहरेवालोंने उसकी आकांक्षाको पूरा न होने दिया। सोचते सोचते उसने दार्जिलिङ्गकी राहसे प्रवेश करनेकी ठानी और वहीं पहुंचा। दुर्भाग्यवश वहा वह जङ्गली बुखारसे पीडित होकर मर गया। तिब्बती भूमिमें पैर भी न रख सका। उसकी कब्र अबतक वहापर विद्यमान है। सम्भव है कि यह कब्र उसी स्थानपर है जहा वह बीमार पडा था। लेखकोंने लिखा है कि यह शोभा महाशय कई वर्ष लासामें रहे थे। परन्तु यह घात कदातक सत्य है इसको पाठक स्वयं ही जान सकते हैं। एक और महाशयने एक कोश इसी कोशके आधारपर बनाया परन्तु वह इससे अच्छा है। परन्तु यह महाशय भी तिब्बतमें कभी नहीं गये, इनको भी लेखकोंने यह सीमान्य दिया कि वे लासा बहुत दिनों-तक रहे। यह भूलें जापानी और पश्चिमी दोनों ही लेखकोंने की हैं।

इन लोगोंके अतिरिक्त रूसी पादरी अथवा गुप्तचर बहुधा

बहुत कम बाहर निकलते थे। यदि निकलना पड़ता था तो इस बातका ध्यान रखते थे कि किसीका भी ध्यान उनकी ओर न खिंचे। वह बहुधा एक मन्दिरके एक-कमरेमें रहा करते थे। वह लासामें केवल बीस दिन रहे। इतने ही दिन-रहकर तिब्बतके और नगरोंमें चले गये। सालभरके भीतर ही वे दार्जिलिङ्गको लौट गये।

मैं पहले किसी परिच्छेदमें लिख आया हू कि जब तिब्बतवासियोंको मालूम हुआ कि बाबू शरत्चन्द्र दास किस कामके लिये आये थे तो देशभरमें हल चल सी मच गई। जिस मार्गसे वे तिब्बतमें प्रविष्ट हुए थे उस मार्गके प्राय सब अधिकारियोंसे जवाब तलब किया गया और आगेके लिये बड़ी ताडना की गयी। जिस जिस मनुष्यका उनसे कुछ भी सम्बन्ध पाया गया उनकी दुर्गति का ठिकाना न रहा। उन लोगोंको बन्दीगृहमें डाल दिया गया और उनकी धन सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और बहुतसे मार डाले गये। इसके पीछे तिब्बतने और भी अधिक रुकावट कर दी।

इसके पीछे और भी बहुतसे लोग आये जिनमेंसे २५-२६के नाम तो मैंने सुने थे उनके अतिरिक्त भी सब मिलाकर ४०,५० होंगे परन्तु कोई लासातक न पहुच सका। मैंने बहुधा जापानी अखबारों और मासिक पत्रोंमें बहुतसे लोगोंके तिब्बतके विषयमें लेख पढ़े परन्तु उनका वर्णन कुछ भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जो कुछ लिखा गया है वह सब कुछ तिब्बतके विषयमें निकली

इ विश्वास हो गया है कि वे इसलिये तिब्बतमें आना चाहते कि वे वहाकी सोनेकी खानोंपर अधिकार किया चाहते हैं। नु यद् बात मेरी समझमें नहीं आई। मैं जहातक समझता अंग्रेजोंका अभिप्राय यही है कि वे लोग तिब्बतमें रुसका अधिकार वहा नहीं चाहते जिसका कि भय है। क्योंकि यदि अत रुसके हाथ पहुच जावे तो भारतवर्षकी रक्षामें बडा देह हो जाय।

तिब्बतके खजानेके मन्त्रीने एक बार मुझसे कहा था कि वत किसी राज्यके अधीन होकर उसको कर देने लगे तो के लिये बडे दुःखकी घात होगी परन्तु सबसे बडे दुःखकी यह है कि ऐसा होतेही हमारे यौद्धधर्मपर कोई और धर्मघात। इसलिये तिब्बत सब हानिया सहकर भी विदेशियोंके प्रकारके उपायोंका विरोध करेगा। विदेशियोंकी राजगद्दीके होनेवाला हेरफेर और परस्पर प्रतिद्वन्दिताका सर्वथा लगना चाहिये। यदि उनको इसका थोडासा भी भेद जाय तो वे तुरन्त इस अन्त कोपको अपनी भेदनीतिसे हस्तगत करके अपना मनोमिलपित स्वार्थ पूरा कर लें। ठये तिब्बत सरकारको अपनी सब धार्ते एक समस्या रखने तथा सबसे अपरिचित स्थिति रखनेके लिये विदेशियोंको प्रविष्ट न होने देनेका कडा प्रयत्न करना चाहिये। अकार यह वर्जन नीति जो केवल धर्मरक्षाके लिये चलाई गी अब एक राजनीतिक रूपसे चरती जाने लगी। जयसे

जाते आते रहे हैं यद्यपि तिब्बतवासी परदेशी लोगोंका बहुत आदर करते हैं। परन्तु इन पादरियों और गुप्तचरोंने जा जाकर तिब्बत सरकारकी शांकाको बहुत कुछ बढ़ा दिया है। तिब्बत सरकारको सदैव इस बातकी चिन्ता रहती है, और ऐसा ही चीन सरकारने उसको समझा भी दिया है कि यदि तिब्बत सरकार परदेशी पादरियोंको अपने यहाँ आने देगी तो बौद्ध धर्म नष्ट होकर ईसाई धर्म प्रचलित हो जावेगा। इस बातसे तिब्बत सरकार बहुत घबरा गई परन्तु फिर भी वर्जननीतिकी कठोरता उतनी नहीं थी जितनी कि शरत बाबूके जानेके पीछे हो गई। तबसे तो तिब्बतकी यह अवस्था हो गई है कि वहाँकी सारी जाति गुप्तचरों और पहरेदारोंका काम करती है।

- यद्यपि वह वर्जन नीति सब ही जातियोंके लिये है तथापि अङ्गरेजोंके लिये यह बहुत ही कठोर प्रतिबन्ध है। जिस समय मैं लासामें था उस समय डा० सेवनहेउनने उत्तरकी ओरसे कई बार भीतर आनेकी चेष्टा की थी परन्तु उनकी चेष्टाएँ सब निष्फल हुईं। अन्तमें उन्होंने तिब्बतमें जानेका विचार सर्वथा त्याग दिया।

विदेशी यात्रियोंका - इस प्रकार चार २ तिब्बतमें जानेके लिये प्रयत्न करनेसे ही तिब्बतके लामाओं और अन्य निवासियोंको इन यात्रियोंके हार्दिक भावोंपर सन्देह हो जाता है कि हो न हो विदेशी लोगोंके हृदयमें अवश्य कोई तिब्बतके लिये अपकार करना है। अङ्गरेज लोगोंके विषयमें तिब्बतवालोंको


लासासे पूर्वमें इस चक्रके किनारेपर एक स्थानपर याकोंके सींगोंसे बनी हुई पादसे घिरा एक पाडा था जो प्राय २४० गज लम्बा और १२० गज चौड़ा होगा। इस याटेमें कितने सींग लगे होंगे इसकी सत्या करना तो असम्भव था। यह स्थान याकोंके मारनेके लिये बनाया गया था। इसको मैंने प्रथम इतने ध्यानसे न देखा था परन्तु आज बहुत ध्यानसे देखा। जब मैंने मन्त्रो महाशयसे कहा कि देखिये कितने जीवोंकी यहापर हत्या हुई होगी तो उन्होंने भी इस बातपर शोक प्रकाशित किया।

शीघ्र ही हम उनके द्वारपर पहुच गये। भीतर झाकनेसे बात हुआ कि आज भी तीस याक मारनेके लिये लाये गये हैं। तिब्बतके समान चीन देशमें ये पशु बड़े बुरे तरीकेसे मारे जाते हैं। क्योंकि मारनेके पूर्व उनके पशुके शिर स्पर्शादिके समय मन्त्र आदि भी नहीं पढा जाता। पशुओंका घात बहुत ही अधार्मिकतासे केवल पेशेके मतलबसे किया जाता है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि लासामें केवल चीनी मुसलमान ही इस कामको करते हैं। वे इस बातका कोई विचार नहीं रखते। मरनेवाले पशुके पास ही और भी पशु खड़े-२ धरते रहते हैं। यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी दया आई।

अर्थसचिवको भी यह दृश्य देखकर बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा कि इस समय मुझको ऐसी घृणा है कि मासका एक ग्राम भी मेरे मुहमें जाना असम्भव है परन्तु मनुष्यका स्वभाव ऐसा है कि वह शीघ्र ही दया भूल जाता है और घर पहुचनेपर यदि

शरत्चन्द्र दासका गुप्त भेद खुला तबसे कोई भी विदेशी अन्दर नहीं जाने पाता। इस प्रसङ्गमें अर्थसचिवने कहा कि इस घटनासे तिब्बतवालोंने विदेशियोंके फुचक्रसे बचनेके लिये अपने द्वार और भी कड़ाईसे बन्द कर लिये।

उनसठवां परिच्छेद



गन्दसे भरी राजधानी।

अर्थसचिवसे गत परिच्छेदमें वर्णित बातें करनेके थोड़ी देर पीछे पुराने अर्थसचिव और उसके नौकरोंके साथ मैं लासा नगरकी प्रदक्षिणाके लिये चला। यह चक्र छ मीलका था। तिब्बतके लोग इस प्रदक्षिणाको बड़ा पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि इस परिक्रमाका करना लासाके सब मन्दिरों और तीर्थोंके दर्शनके बराबर है। इस परिक्रमाके करनेकी कई विधियाँ हैं। एक साधारण परिक्रमा, दूसरी प्रति पगपर दण्डवत् प्रणाम करते हुए, तीसरी प्रति तीसरे पगपर दण्डवत् प्रणाम करते हुए। परन्तु हमलोग इस समय धार्मिक अभिप्रायसे नहीं जा रहे थे केवल साधारण सैरके लिये निकले थे। इस समय में बड़ी कठिनतामें पड़ गया था। कारण मेरा साथी बहुत लम्बा पुरुष था। उसकी टांगे भी बहुत लम्बी, उसका कदम भी बहुत बड़ा पड़ता था, उसके साथ चलनेके लिये दौड़ना पड़ता था।

इसी बातका है कि नगर इतना मैला होनेपर भी नगर निवासी बीमार क्यों नहीं होते हैं। मेरी समझमें यह बात है कि लासाकी जलवायु बहुत ही अच्छी है इसीसे यहा रोग नहीं फैलता है। जाहेमें यहा बहुत ठण्ड हुआ करती है दिनमें भी थर्मामीटर ४०—५० डिग्री तक जाता है। गर्मीके दिनोंमें ८० डिग्री हो जाता है। यही कारण है कि इतने मैले रहनेपर भी वहाके लोग अधिक रोगग्रस्त नहीं होते। यही विचार मेरे मनमें मार्गभरमें बंठते रहे।

साठवां परिच्छेद

तिब्बतमें लामा धर्म

यहापर मैं थोडासा तिब्बतके धर्मके विषयमें लिखूंगा क्योंकि उसके बिना जाने बहाकी राजनैतिक अवस्थाओंका समझना कठिन होगा। यह लामा धर्मके दो सम्प्रदाय हैं जिनमेंसे एक पुराना और एक नया है। पुराने धर्मके अनुयायियोंको लाल टोपी वाले और नयेको पीली टोपीवाले कहते हैं।* पुराने सम्प्रदायकी और भी बहुतसी उपशाखायें हो गई हैं जैसे शाक्य, कर्माप,

* प्राचीन ग्रन्थोंमें रक्षावर या रक्तपरा और पीतांबरके भेद भीधाम मिलते हैं। इन्हींको रक्षावर और पीतांबर समझना चाहिए।

मांस पानेको न मिले तो क्रोध आता है। वह भी इस परिणाम-पर पहुँचे बिना न रह सका कि वास्तवमें तिब्बतके लोग राक्षसों की जातिके हैं और अब भी उनके शरीरोंमें वही रक्त बह रहा है।

सरकारकी तरफसे इस चक्रकी सड़ककी सदैव मरम्मत होती रहती है। क्योंकि इसकी प्रदक्षिणाके लिये बहुतसे यात्रे आया करते हैं।

इस सड़ककी लासाकी और सड़कोंसे कुछ तुलना नहीं है। और सड़कोंपर केवल इतना ही नहीं कि गड़ढे पड़े हुए हैं वर बीच बीचमें मल मूत्र करनेके चौबच्चे बने हुए हैं जिनमें कि स्त्री पुरुष दोनों ही खुले तौरपर मल मूत्र करते हैं। पानी, कीचड़ और कूड़ा कर्कट विशेष करके गर्मोंकी ऋतुमें अवर्णनीय है। यद्यपि कुत्ते उस मलसे अपने पेट भरते रहते हैं परन्तु फिर भी कुत्तोंकी सख्या इतनी नहीं है कि उस कामको पूरा कर सकें। पासके ही उथले कुओंसे लोग पानी पीते हैं। इस परिस्थितिके साथ लासा नाम बड़ा असङ्गतसा जान पड़ता है। क्योंकि लासा शब्दका अर्थ है 'देवताओंकी भूमि' अतएव यह स्थान बहुत पवित्र समझा गया है। पालावन अतीशने भी तिब्बतमें एक स्थानका उल्लेख किया है जिसमें सब गन्दे घृणा-जनक पदार्थ भरे पड़े हैं।

मैंने चीनके नगरोंके मैलेपनका हाल भी सुना है परन्तु मैं समझता हूँ कि वे भी लासेके समान और घृणित नहीं हो सकते। इन लोगोंको स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान त्रिलकुल नहीं है। आश्चर्य

आजाती है और इस प्रकार सहजमें वह परम पद तक पहुँच जाती है। मदिरा मनुष्यको हर्ष और आनन्द देती है हम उसे पी-
कर ही आनन्दमय जीवन बिता सकते हैं। इसी प्रकारके विवेकसे हम परमगति पा सकते हैं। सक्षेपत पुराने सम्प्रदायके अनुसार मद्य मास और मैथुन आदि भोगवासनाओंके साथही साथ पवित्र विवेकके परमपद पा सकता है। इस सम्प्रदायका विस्तारसे मैं यहाँ उल्लेख स्थानाभावसे नहीं बल्कि अत्यन्त घीभट्मता और अश्लोताके कारण नहीं कर सकता। तो भी इतना अवश्य कहूँगा कि यह सम्प्रदाय बुद्ध धर्मकी अधीनतामें इन भोग्य इच्छाओंको पूरी करनेकी आज्ञा देता है।

जापानमें भी शिगोन सम्प्रदायकी तातेकावा शाखा ऐसे ही भ्रष्टाचारकी घातोंका प्रचार करती थी। परन्तु अब वह लुप्त-
प्राय है। इस सम्प्रदायकी धर्मपुस्तकें प्रायः संस्कृतमें हैं जिनकी रचना भारतमें हुई परन्तु तिब्बतवाले उनपर अपनी तिब्बती टीकाओंके साथ उनकी रक्षा करते हैं। अब वह अपने पुराने रूपसे बहुत कुछ परिवर्तित रूपमें हो गया है। क्योंकि लामा लोगोंने उस सम्प्रदायके मन्तव्योंको अपने विचारोंके अनुसार उसमें बहुत कुछ बदल डाला है। क्योंकि इस सम्प्रदायकी तिब्बती धर्मपुस्तकोंमें अपने मूल शिक्षाओं और मन्तव्योंसे बहुत भिन्न रूप दिया गया है। यह पुराना धर्म बहुत अधिक प्रचलित है प्रायः इसीपर लोगोंकी बहुत अधिक श्रद्धा है।
इस धर्मकी मैं लासासे कई पुस्तकें अपने साथ लाया था।

दुःखर्षा, जोक्चे नया आदि । परन्तु मूल सिद्धान्तोंमें तथा निर्माणमें इनमें कोई भेद नहीं है ।

इस पुराने मतका चलानेवाला एक तान्त्रिक था जिसका नाम लोवन पद्मचुम्बे था । उसका यह नाम इसलिये पडा था कि उरकेन राजाके राज्योंमें, जो काबुलमें है । राजाके उद्यानमें दानकोश नामक तालाबमें वह एक पद्मके फूलसे उत्पन्न हुआ था । इस तान्त्रिकके विषयमें बहुतसी विचित्र २ कहानिया प्रचलित हैं । यह यद्यपि ब्राह्मण था तोभी उसने मांस, मदिरा और मैथुनका ही अपने शिष्योंको उपदेश दिया । उसने बड़े विचार और युक्तिपूर्वक अपने इन मन्तव्योंको बुद्धदेवके सिद्धान्तोंके साथ मिलाकर रखा और बतलाया कि आनन्दमय जीवन चिताना परम गतिका रहस्य है । इसी साधनसे इस ससारका प्राणी पांच प्रकारके पापोंसे भरे ससारमें शीघ्र ही बुद्ध पद तथा मुक्ति या निर्वाण पदको पा सकता है ।

पांचों प्रकारकी भोग वासनाओंको तृप्त करनेका (पञ्चमकार) सिद्धान्त भी इसी स्थानपर आश्रित है कि पांचों वासनाएँ महाबोधिकी प्रकृतिके भाग हैं । सबसे बडा मनुष्यका मानसिक विकल्प काम है । अतः वह मैथुनसे ही महाबोधिपदको पा सकता है । उसीसे वह आत्माकी सत्ताका प्रथम तत्त्व अर्थात् अपने आपको भूलकर भग्नताको पा सकता है । पशु-मांस खानेकी दूसरी मनोवासना है यह दया धर्मकी पोषक है । क्योंकि पशुकी आत्मा खानेवालेमें विद्यमान बोधिसे उपकारक प्रभावके नीचे

जा जाती है और इस प्रकार महाजमें यह परम पद तक पहुँच जाती है। मंदिरा मनुष्यको एवं और आनन्द देगी है एव एवं गी-
कर ही आनन्दमय जीवन बिता सकते हैं। इसी प्रकारके विधिकारी
इस परमगति पा सकते हैं। संक्षेपतः पुराने सम्प्रदायके अनुयाय
म्य मास और मेधुन आदि भोगवासनाओंके नाशही बनाए रखने
विशेषके परमपद पा सकता है। इस सम्प्रदायका विचारार्थ ही
यह उल्लेख स्थानाभावसे नहीं थकिक जयग्न भीतरगता ही
मूलोक्तताके कारण नहीं कर सकता। तो भी इसका अर्थ
कहूंगा कि यह सम्प्रदाय धुंध धर्मकी शर्मागर्भाई इस भी
छाओंको पुरी करनेकी आशा देता है।

जापानमें भी शिगोन सम्प्रदायकी गतिका ज्ञान ही
प्रथाचारकी बातों का प्रचार करनी थी। यह सम्प्रदाय
पाय है। इस सम्प्रदायकी धर्मपुस्तकें प्रायः संस्कृत ही
रचना भारतमें हुई परन्तु तिब्बतप्रांति इसका अर्थ ही
टाकाओंके साथ डाकी रक्षा करती है। अथ मूल रूपमें
इससे बहुत कुछ परिवर्तित रूपमें ही गया है। क्योंकि
लोगोंने उस सम्प्रदायके मूल्योंको अपने विचारोंके अनुसार
उसमें बहुत कुछ बदल डाला है। अर्थात् इस सम्प्रदाय
तिब्बती धर्मपुस्तकोंमें अपने मूल शिष्टांशों और तथा
बहुत मिश्र रूप दिया गया है। यह पुराना धर्म ही
प्रचलित है प्रायः इसीपर लोगोंकी बहुत थकिक
इस धर्मकी मैं लासाए का पुस्तकें धरने

परन्तु यह पुस्तकें बड़ी अश्लील और महाभ्रष्ट हैं। सर्वसाधारणके पढ़ने योग्य नहीं हैं। अतः मैंने उन्हें अपने सन्दूकमें ही रख छोड़ा है। पाच सौ वर्ष पहलेतक यह मत तिब्बत भरमें बड़े जोर शोरसे फैला था। यह इस देशके लिये बड़े भारी अधःपतनका कारण हुआ। इसके विरुद्ध आवाज उठी तथा नये सम्प्रदायके रूपमें प्रगट हुआ। इसके अनुयायी पीली टोपीवाले पीताम्बरी कहलाते हैं।

इस मतके फैलानेवाले महात्मा पालधन अतीश थे। यह भारतवर्षसे ईसाकी ग्यारहवीं सदीमें आये थे। इनके तीन सौ वर्ष पीछे जेतसोंगखाया नामक महात्माने इसको और भी वृद्धि की।

उसने अपना मुख्य आधार यही मन्तव्य रखा कि लामाको अवश्य तपस्वी होना चाहिये। तपस्यासे शून्य लामा नहीं कहा जा सकता, सब दशाओंमें भोग वासनाओंका परित्याग आवश्यक है। लामा भी इन्हीं भोग तृष्णाओंकी तृप्ति करनेमें फसा हुआ साधारण व्यक्तिसे अधिक नहीं। तेसांगरवपाने अपने सिद्धान्तोंको प्रथम स्वयं पालन करके अपनेको आदर्श बनाया। उसने प्रथम लामाओंके लिये सदाचारके विशेष नियमोंका प्रतिपादन किया, परन्तु इन नियमोंकी दीक्षा लेनेवाले बहुत कम लामा निकले, अन्तमें उसके अनुयायियों और प्रचारकोंका सघ घनाया गया और उसीके आधारपर आन्दोलन शुरू किया गया। गन्दने स्थानपर अपने सम्प्रदायकी धर्मपनाका खड़ी कौ, यह स्थान लासासे ४० मील दूर है।

नया धर्म यद्यपि जातीय भ्रष्टधर्मके मुक्ताविलेके लिये उठा पर आप भी उस जातीय भ्रष्टाचारसे मुक्त न रह सका। यह भ्रष्टाचार प्राय तिब्बतके सभी धर्मों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। नये सम्प्रदायने भी अपने मन्तव्यमें पुराने सम्प्रदायोंसे कुछ भिन्न २ रूपमें भ्रष्टाचारकोंकी कतिपय बातोंको स्थान दिया। नये सम्प्रदायने पुराने सम्प्रदायकी मूर्तियोंका विरोध नहीं किया, यद्यपि वे प्राय स्त्री पुरुषोंकी नियमित मूर्तिया ही थीं जिनमें अश्लीलभाव स्पष्ट ही प्रगट हुआ करता था। नये सम्प्रदायने उन सब मूर्तियोंके रूपोंकी नयी भावात्मक व्याख्याएँ प्रकाशित कीं। मूर्त्तिगत पुरुषको समुचित साधन (शिव) और स्त्रीको महाविद्याका प्रतिरूप माना गया। और यह सिद्धान्त निकाला गया कि दोनोंके समुचित सयोगसे ही बुद्ध उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बुद्धोंकी उत्पत्ति इस नये सम्प्रदायके अनुसार तृष्णाभोगोंसे नहीं है।

मासको दयाका रूप माना गया। और उसको जाना उचित नहीं मतलाया। मदिराको बुद्धिका प्रतिरूप माना। इसका अभिप्राय यही समझाया गया कि यह मनुष्योंको अपनी आध्यात्म बुद्धिका सदुपयोग सिखानेके लिये रखी गयी है।

इस प्रतिनिधित्वके अनुसार नये सम्प्रदायने अपने पुराने सम्प्रदायके सब उपदेशोंकी व्याख्या की। पुरानी सभी मूर्तिया भी सम्मत मानी गयीं। उनकी नयी व्याख्याएँ की गयीं। बाहरसे दोनों सम्प्रदायोंकी भिन्नता भी प्रतीत नहीं होती। दो

सकता है परिस्थितियोंसे बाधित होकर नये सम्प्रदायको ऐसा रूप धारण करना पडा। अस्तु, मैं साम्प्रदायिक मन्तव्योंकी विशेष गम्भीरतामें न जाकर इस प्रकरणको यहीं छोडता हूँ और तिब्बतमें फैले अवतारवादपर कुछ प्रकाश डालता हूँ।:

तिब्बतमें अवतारवाद बडा ही प्रबल है, उन लोगोंको विश्वास है कि साधु सन्तही फिर उत्पन्न होकर जीवोंका उद्धार करते हैं। जिस किसी मनुष्यमें कुछ भी विशेषता हो जाती है वह स्वयं अपनेको फिरसे जन्म लेकर मुक्ति पानेकी सोचा करता है। परन्तु इस अवतारवादमें भी वर्त्तमानमें बहुत परिवर्तन हो गया है जिसका आगे वर्णन करेंगे।

इकसठवां परिच्छेद

तिब्बतमें लामा शासन

चार सौ वर्षसे अधिक हुए कि भेंदनतूब नामक एक पुरोहित नये धर्मका एक प्रचारक हो गया है। इसीने सबसे पहले भविष्यवाणी कहनेकी प्रथा चलाई। यह भावी अवतार रूपमें जान लेनेकी प्रथामें बदल गयी। कहते हैं कि भेंदनतूबने अपने मरनेके समय कहा कि मैं अमुक स्थानपर अमुक घरमें जन्म लूंगा। अनुसन्धानसे मालूम हुआ कि ठीक उसी स्थानपर और उसी घरमें एक बालकने जन्म ग्रहण किया। इससे भी बढ़कर आश्च-

यकी घात यह है कि जिस समय वह बालक बोल भी नहीं सकता था उसी समय उमने कहा कि मुझको तशीलुनयोके मन्दिरमें ले चलो। यह वही मन्दिर था जहा मेंदनतूपकी मृत्यु हुई थी। इस घातसे उसके भक्त शिष्योंके हृदयोंमें विश्वास हो गया कि उनके गुरुने जन्म ले लिया है। अतएव वह बच्चा उसी मन्दिरमें लाया गया और द्वितीय प्रधान लामा बनाया गया। उसका नाम मेंदनग्याम्तसो रक्खा गया।

तृतीय और चतुर्थ लामाके समयमें कोई विशेष घात नहीं हुई। परन्तु पाचवें और छठे लामाओंके समयमें यह अवतार-वाद बहुत प्रबल हो उठा। पञ्चम लामाके समयमें जिम्का नाम गाकवांग ग्याम्तसो था यद्यपि नये मतका प्रतिनिधि था परन्तु उसने पुराने सम्प्रदायकी पुस्तकोंसे ले लेकर इस सम्प्रदायको बहुत बढ़ाया। भविष्यवाणीका गम्भीर कार्य ४ मन्दिरोंको दिया गया। नीचग, सामयी, लामों और गोनाग। पञ्चम लामाके समयसे लामा शासनका प्रचार तिब्बतमें हो गया। पहले प्रधान लामाओंको धार्मिक अधिकार ही था देशके शासनमें उनका कोई अधिकार नहीं था। उनके पास कुछ राज्य ही नहीं था। पञ्चम लामाके समयमें एक मंगोलियन गीमतेन जिन, घोगयाल नामक धीरने तिब्बतपर चढ़ाई की थीर छोटी २ तरह जातियोंको सदादलित किया। प्रत्येक जातिके दश २ सहस्र घर थे अर्थात् उस सम्पत्ति भवनमें एक लाख ३० हजार घर थे। इस भाति समस्त तिब्बतको विजय करके उस समय जो लामा गद्दीपर था उसके

ही हवाले करके वह अपने देशका ज्वल दिया । तबहीसे तिब्बतके अधीश्वर लामा चले आते हैं । तबसे ही वहा पुरोहित शासन प्रणाली चली आती है ।

प्रथम लामा पेनडूलव मरते समय कह गये थे कि उनका जन्म कहा होगा । उनके पीछे किसी लामाने यह बात नहीं कही । तिब्बतके लोगोंका विश्वास है कि प्रधान लामाकी मृत्युके ४६ दिनके भीतर ही वह कहीं न कहीं जन्म ले लेता है । अतएव जब मरनेवालोंने कुछ न कहा तो उनका जन्मस्थान खोजना बड़ा कठिन हो गया । अतएव यह काम उन चार मन्दिरोंके पुरोहितोंपर पडा जिनके विषयमें मैं ऊपर कह आया हू ।

जा लोग इस बातका पता लगाते हैं उनके कामोंपर यदि ध्यान दिया जाय तो वह पागल मालूम होंगे । कई एक पुरोहित मिलकर देवज्ञका काम करते हैं और इनमेंसे ही एक मामूल होता है । शेष पुरोहित उसके सहायक होते हैं अर्थात् ढाल इत्यादि वाजे बजाते हैं । और लोग मन्त्र-पाठ करते हैं । मामूल बहुत अच्छे रेशमी सुन्दर २ वस्त्र पहनकर बैठता है । वह अधलेटा हुआ आसँ खोलकर अपनेमें देवताका आवाहन करता है और इसी समयमें उसके सहायक वाजे बजाते हैं । थोड़ी देर पीछे वह कांपने लगता है । थोड़ी देर काँपकर या तो पीठके चल गिर पडता है अथवा उछलता है और इसी समयमें उसके शरीरमें देवताका आविर्भाव होता है । और उसी कापती हुई अवस्थामें कह देता है कि अमुक लामाका जन्म अमुक स्थानपर

अमुक घरमें हुआ है। घरका द्वार अमुक दिशामें है। और इतने मनुष्य उस घरमें हैं। अमुक दिन अमुक घरमें बालक उत्पन्न हुआ है वही उपरोक्त लामाका अवतार है। इसके कथनानुसार खोज की जाती है और बालक खोज लिया जाता है। जबतक बालक दूध पीता रहता है तबतक वह अपनी माताके पास ही रहता है। इसके बाद मन्दिरमें लाकर उसको विद्याभ्यास कराया जाता है और इस बातका उसको विश्वास दिलाया जाता है कि अमुक लामाका वह अवतार है।

पञ्चम लामाके समयसे यह भविष्यद्व्याणी कहनेकी रीति बहुत अधिक बर्ती जाने लगी और छोटे बड़े सब ही कामोंमें इसका उपयोग होने लगा। तिब्बतके चार विहारोंमें ही यह काम होता है और नेचगका विहार ही चारोंमेंसे अधिक सम्मानित है।

प्रधान लामाके मरनेपर इन चारों विहारोंके पुरोहित इकट्ठे होते हैं और वे लामाके पुन जन्मग्रहणका हाल पता लगाते हैं। बहुधा ऐसा होता है कि चारों विहारोंके चार चक्र बैठते हैं। चारोंका निर्णय भिन्न २ होता है। ऐसी अस्थानमें वे तीन या चार बालकोंका निर्णय कर लेते हैं।

जब यह चारों बालक पांच वर्षके होते हैं तो लासां लाये जाते हैं और देश भरके बड़े २ सम्भ्य बड़ा एकत्र होते हैं। चीनके प्रतिनिधि जो लासामें रहते हैं, प्रधान लामा, प्रधान मन्त्री और उपमन्त्री, और प्रधान लामागण यहापर इकट्ठे होते हैं। पहले

ही हवाले करके वह अपने देशका ज्वल दिया। तयहीसे तिब्बतके अधीश्वर लामा चले आते हैं। तयसे ही वहा पुरोहित शासन प्रणाली चली आती है।

प्रथम लामा पेगडुलव मरते समय कह गये थे कि उनका जन्म कहा होगा। उनके पीछे किसी लामाने यह बात नहीं कही। तिब्बतके लोगोंका विश्वास है कि प्रधान लामाकी मृत्युके ४६ दिनके भीतर ही वह कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। अनएव जब मरनेवालोंने कुछ न कहा तो उनका जन्मस्थान खोजना बड़ा कठिन हो गया। अनएव यह काम उन चार मन्दिरोके पुरोहितोंपर पडा जिनके विषयमें मैं ऊपर कह आया हू।

जा लोग इस बातका पता लगाते हैं उनके कामोंपर यदि ध्यान दिया जाय तो वह पागल मालूम होंगे। कई एक पुरोहित मिलकर दैवज्ञका काम करते हैं और इनमेसे ही एक मामूल होता है। शेष पुरोहित उसके सहायक होते हैं अर्थात् ढोल इत्यादि बाजे बजाते हैं। और लोग मन्त्र-पाठ करते हैं। मामूल बहुत अच्छे रेशमी सुन्दर २ वस्त्र पहनकर बैठता है। वह अबलेटा हुआ आँखें खोलकर अपनेमें देवताका आवाहन करता है और इसी समयमें उसके सहायक बाजे बजाते हैं। थोड़ी देर पीछे वह कापने लगता है। थोड़ी देर काँपकर या तो पीठके बल गिर पडता है अथवा उछलता है और इसी समयमें उसके शरीरमें देवताका आविर्भाव होता है। और उसी कापती हुई अवस्थामें कह देता है कि अमुक लामाका जन्म अमुक स्थानपर

होता होगा परन्तु वर्तमानमें ऐसे चुने हुए अवतार तो पूर्वकी शुद्ध चरित्र आत्माओंका अवतार न होकर सब हीनचरित्र तथा पापोंके अवतार होते हैं।

एक बार मैंने एक तिब्बतवासीसे कहा भी था कि यह लामा बनानेकी रीति बहुत घुरी है। इसमें घेईमानीके सिवाय कुछ नहीं है।

इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इन लामाओंमें दशमेंसे आठ साधारणतः बहुत बातोंमें अच्छे होते हैं। कारण यह है कि उनकी देखरेख भली भांति की जाती है और साधारण शिष्योंकी भांति कठोर दण्ड न पाकर बड़े आदरसे शिक्षित किये जाते हैं। जब वे कोई ऐसा अपराध भी करते हैं जो इनको कभी न करना चाहिये तो भी कठोर दण्ड न देकर उन्हें उनके मान और आदरका खयाल दिलाकर उनकी आत्मिक चेतनाको जगाया जाता है। बच्चोंको वास्तवमें इसी प्रकारसे शिक्षा देनी चाहिये। अपराध हो जानेपर उनको ब्रह्म मूर्ख तथा निश्चरित्र समझने तथा उनको घुरा मला कहनेसे उनके हृदयपरसे आत्मसम्मानका, आत्मविश्वासका भाव उड़ जाता है और न उन्हें नैसर्गिक उन्नतिका अवसर ही मिलता है। सदा शिक्षा ऐसी विधिसे देनी चाहिये जिससे वे अपना आत्मसम्मानका भाव न खो बैठें। तिब्बतवासी इस प्रकारकी शिक्षा विधिको इस प्रकार उन्नति शिक्षापद्धतिके विचारसे नहीं काममें लाते प्रत्युत उसके प्रति उनका बड़ा आदर होता है। अवतार निर्णय की विधिको सर्वसाधारणसे बहुत छिपा

इन चारों लडकोंके नाम चार कागजके टुकड़ोंपर लिखे जाते हैं और इन चारों कागजोंको एक सोनेके पात्रमें रखकर बन्द कर देते हैं। सात दिनतक इस पात्रकी पूजा होती रहती है। सात दिन पीछे वेही सब लोग फिर एकत्र होते हैं और चीनी प्रतिनिधि दो हाथी दांतकी छोटी २ लकड़ियां हाथमें लेकर भाँझोंपर पट्टी बांधकर एक गोली कागजकी उन लकड़ियोंसे पकड़कर उठा लेता है। उस कागजपर जिसका नाम होता है वही दलाई-लामा बनाया जाता है।

यद्यपि इस काममें धेरें पानीके लिये बहुत कम अवसर मिलता है परन्तु मैंने सुना है कि इन चारों बालकोंके पिता चीनी प्रतिनिधिको बहुत बड़ी २ रकमें घूसमें देते हैं। क्योंकि जिस बालकका नाम निकलता है उसके पिताको चीनके महाराज ड्यूककी उपाधिके अतिरिक्त बहुत सम्पत्ति भी मिलती है। मैं निश्चित रूपसे इस बातको नहीं कह सकता परन्तु मैंने सुना अवश्य है कि बड़ी घूसें दी जाती हैं।

यह देवह लामा बड़े धनी होते हैं। मैंने सुना है कि नेवंग लामा बलपती हैं। घूस लेनेका एक प्रमाण और भी है कि जो बालकप्रधान लामाके लिये चुना जाता है वह किसी धनीका ही पुत्र हुआ करता है कभी निर्धनका बेटा लामा नहीं हुआ। कोई २ धनी अपना बालक उत्पन्न होनेसे पहले ही इन लामाओंसे बहरा लेते हैं कि मेरा पुत्र ही प्रधान लामा बनाया जाय। इस प्रकार अवतार निर्वाचनका चाहे पहले कोई विशेष लाम

समय आता है तो उसमें भी धर्माधिकारी या पदाधिकारी दैवज्ञ-के पास देवताकी अनुमतिके लिये जाते हैं। दैवज्ञ तो पहले ही सोनेकी बेडियोंसे बंधा रहता है। वह उसके अनुकूल ही देवताकी मामूलमें आवाहन करके कहता है, इसे छोड़ दो, इसने जान-कारीमें अपराध नहीं किया है। यह उत्तम हृदयका मनुष्य है, यदि इसको दण्ड मिलेगा तो देशके ऊपर कोई बड़ी विपद् आ पड़ेगी। या तो सरकार उसे छोड़ ही देती है या उसे नाममात्रका दण्ड दे दिया जाता है।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मन्त्री या बड़ा अधिकारी नेचग को घूस नहीं देता। परन्तु उस अवस्थामें नेचग महाशय उसके विरुद्ध उसपर बड़ी भारी विपत्ति डालते हैं और भविष्यवाणीको उसके विरुद्ध घुलघा कर उससे बदला लेते हैं। उसकी बहुत निन्दा की जाती है। इनके विरुद्ध अपराधीकी तो बड़ी बमबातना भोगनी पड़ती है। इसलिये भविष्यवाणी करानेवाले लामाओंके हाथोंमें वस्तुतः बड़ी ही दानवी शक्ति है। पदाधिकारी लोग इनसे इतना अधिक डरते हैं जितना वे अपने ऊपरके बड़े अधिकारीसे भी नहीं डरते। नेचङ्गका वस्तुतः भी बहुत है। बद्यपि उपस्थित दलाई-बूझकर काम करते हैं परन्तु फिर भी नेचङ्गके उनकी देशकी प्रधाके विरुद्ध है।

हे कि कोई ऐसी समन्या आ पड़ती
महाशयकी समझमें ही नहीं आता

कर रखा जाता है। लामाके अवतारोंके विषयमें उच्च पदके लामाओंकी तरफ बहुत सी गढन्त कथाएँ फैलाई जाती हैं जिन पर सर्वसाधारण आख मीचकर विश्वास कर लेते हैं। जो लोग इन सब रहस्योंको जानते हैं वे इन सब छल कपटोंसे बड़ी घृणा करते हैं। वे इस अवतार विधिको कोरी घूस खोरी समझते हैं। वस्तुतः यह भविष्यवाणी करनेवाले लामाओंका छल कपट है जो धनियों और जमींदारोंके पैसेके बश होकर किया करते हैं। इसीसे उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। उनको इस बातका पूरा २ अवसर दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपनेको सन्हालें, और ज्ञानकी वृद्धि करें।

इस भविष्यवाणीका प्रयोग जैसा कि मैं लिख चुका हूँ केवल बड़े २ नहीं बर छोटे २ कामोंमें भी किया जाता है। यदि किसी मन्त्रीसे कोई भूल हो जावे तो वह तुरन्त ही उसके प्रतिकारके लिये किसी, भविष्यद्वक्ताके पास विशेषतया नेचङ्गके पास जाता है और उसको एक हजार येनसे दस या बीस हजार येन-तक जैसा उसका अपराध हो उसके अनुसार उसे घूस देता है। वह उसके दण्डमें कुछ न्यूनता अथवा परिवर्तन कर देता है।

जब उसके किये हुए अपराधके लिये मन्त्री सरकारमें बुलाया जाता है तो वह चुपचाप जाकर राजदरबारमें बैठ जाता है। क्योंकि उसको विश्वास होता है कि छूट जानेके लिये वह यथेष्ट घूस दे चुका है। जब उसके अपराधके दण्ड-विधानका

परन्तु बहुत सम्भवत यह वृत्तान्त बहुत सत्य है जो मुझे बहुत ही विश्वस्त पुरुषसे पता लगा है। उसका कथन है कि तसाई-लामा सेरा विहारके मेताके-सङ्ग नामके एक बड़े विद्वान पुरुषके पुत्र हैं। वे पुराने सम्प्रदायके ग्रन्थोंका खूब स्वाध्याय करके अपनी धुनमें पागल हो गये और देश भरमें घूमते रहे। एक गूगी औरतसे एक पुत्र उत्पन्न किया, वही पुत्र अब इस सम्मान्य पदका अधिकारी हुआ। लोग कहते हैं, तसाईलामाकी सूरत बहुत कुछ उस पागल विद्वानसे मिलती है। यह सब बात भी सेराके एक बड़े विश्वासी विद्वान व्यक्तिसे ज्ञात हुआ था जिसकी सचाईके लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दे सकता।

वासठवां परिच्छेद



राज्यव्यवस्था ।

यद्यपि इस परिच्छेदमें मैं पुरोहिती शासन या लामाई शासन (इस सम्वन्धमें और विषयोंमें भी) के विषयमें जो कुछ लिखूंगा वह सब उसका आधार मेरा वही ज्ञान है जो मैंने लामामें प्राप्त किया। इसका वर्णन मैं पूरा २ नहीं लिख सका हूँ। कारण प्रथम तो मुझे उसके विषयमें कुछ ज्ञान ही न था और दूसरे जो बातें मुझे मालूम हुईं वे सब लोगोंसे बातों ही बातोंमें मालूम हुईं। यदि मैं उसके विषयमें किसी मित्रसे कुछ पूछताछ करता तो

है। जैसे यदि तिब्बत और इङ्ग्लैण्डके विषयमें कोई प्रश्न उपस्थित हो तो वह बेचारे क्या उत्तर दे सकते हैं और उनको भले बुरेका ज्ञान ही क्या है। ऐसी अवस्थामें भी मध्यस्थ देवताका आवाहन किया जाता है परन्तु मामूल फांपते रहनेके अतिरिक्त मुखसे कुछ नहीं कहता। वह फांपते २ गिर कर अचेतसा हो जाता है। यह अवस्था देखकर उसके सहायक कानाफूसी करने लगते हैं और दलाईलामाके पूछनेपर कहते हैं कि ज्ञात होता है कि देवता ऐसे अपवित्र प्रश्न करनेसे अप्रसन्न हो गया। अतएव यह प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता है और राजदरबारमें जैसी व्यवस्था उचित समझी जाती है वैसा ही किया जाता है।

तिब्बतके पढे लिखे और सच्चे धर्मप्रेमी लोग इन भविष्यवाणीके ठेकेदार पुरोहितोंके इन सब कार्योंसे बहुत घृणा करते हैं परन्तु प्रकाशमें उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकालते, वे इन्हें दैत्योंके मन्त्री और धर्मके शत्रुके नामसे पुकारा करते हैं। यहा दो लामा हुआ करते हैं—एक दलाईलामा और दूसरे तसाईलामा। भाग्यवश यह दोनों लामा केवल इन नेचडू चतुरोंके हाथसे नहीं चुने जाते।

मैं प्रसंगवश यहा कुछ घर्षण तसाईलामाके विषयमें करना चाहता हू। इस समय जो तसाईलामा है वह एक अज्ञात पुरुषके चीर्यसे और एक गूंगी मातासे उत्पन्न है अतएव उनके पिताका नाम किसीको मालूम नहीं है। कोई कहता है कि उनके पिता एक तपस्वी और कोई कहता है कि वे एक पुरोहितके लडके हैं।

परन्तु बहुत सम्मयन यह घृत्तान्त बहुत सत्य है जो मुझे बहुत ही विश्वस्त पुरुषसे पता लगा है। उसका कथन है कि तसार्इ-लामा सेरा विहारके मेताके-सङ्ग नामके एक बड़े विद्वान पुरुषके पुत्र हैं। वे पुराने सम्प्रदायके ग्रन्थोंका खूब स्वाध्याय करके अपनी धुनमें पागल हो गये और देश भरमें घूमते रहे। एक गूंगी औरतसे एक पुत्र उत्पन्न किया, वही पुत्र अब इस सम्मान्य पदका अधिकारी हुआ। लोग कहते हैं, तसार्इलामाकी सूरत बहुत कुछ उस पागल विद्वानसे मिलती है। यह सब बात भी सेराके एक बड़े विश्वासी विज्ञ व्यक्तिसे ज्ञात हुआ था जिसकी सच्चाईके लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दे सकता।

वासठवां परिच्छेद



राज्यव्यवस्था ।

यद्यपि इस परिच्छेदमें मैं पुरोहिती शासन या लामार्इ शासन (इस समयमें और विषयोंमें भी) के विषयमें जो कुछ लिखूंगा वह सब उसका आधार मेरा वही ज्ञान है जो मैंने लामामें प्राप्त किया। इसका वर्णन मैं पूरा २ नहीं लिख सका हूँ। कारण प्रथम तो मुझे उसके विषयमें कुछ ज्ञान ही न था और दूसरे जो बातें मुझे मालूम हुईं वे सब लोगोंसे बातों ही बातोंमें मालूम हुईं। यदि मैं उसके विषयमें किसी मित्रसे कुछ पूछताछ करता

सम्भव था कि मेरे ऊपर शङ्का करने लगते। इसी कारण मैं बहुत पूछ भी नहीं सकता था। जो बात पूछी भी गई है वह गोलमाल शब्दोंमें पूछी गई कि जिसमें सन्देहका पात्र न बन सकूँ। अतएव अब भी बहुत सी बातें रह गयी हैं जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं।

राज्यके उच्च पदाधिकारियोंमें पुरोहित और गृहस्थ दोनों ही विभाग हैं। इन दोनोंहीकी सख्या बराबर है। ऊचे दर्जेके पुरोहित जो इस काममें नियुक्त हैं वह 'त्सेदङ्ग' कहलाते हैं और अन्य गृहस्थ अधिकारियोंको 'उङ्गखोर' कहते हैं। इन दोनों विभागोंके ऊपर चार २ महामन्त्री हुआ करते हैं। पुरोहितोंके महामन्त्री 'टङ्गयकचेनमो' कहलाते हैं और गृहस्थोंके महामन्त्री 'शाव' कहलाते हैं। इन चारोंमें एक अफसर होता है और उसीको वास्तविक अधिकार हुआ करते हैं। शेष तीन उसके सहायक हुआ करते हैं।

केबिनेटमें चार प्रधानमन्त्री, तीन अर्थसचिव, दो युद्ध-मन्त्री, एक नगर-मन्त्री, एक धर्म-सचिव, एक न्यायमन्त्री और चार महामन्त्री रहा करते हैं।

इन स्थानोंपर क्या पुरोहित और क्या गृहस्थ सबही उच्च जातिके लोग रखे जाते हैं। गाक्याचोनचो शालगो जातिके लोग इन स्थानोंपर नहीं रखे जाते हैं।

तिब्बतकी राज्यव्यवस्थाका कोई कायदा नहीं है। तिब्बतकी शासन-व्यवस्था वर्तमानमें मिली जुली है। एक ओर ताल्लु-

देशी और दूसरी ओर नवीन पद्धतिकी स्थानीय सरकार भी है। जमीन्दारों और सर्वसाधारणका सम्यन्ध ताल्लुकेशरीका सा है। पहले यह भूमि उनको राजसेवाके पारितोषिकके रूपमें दी गयी थी परन्तु उसीमेंसे ताल्लुकेशरीका उद्भव हो गया। जमीन्दार लोग अपनी जागीरमें रहनेवाली प्रजाके पूर्णतया स्वामी हैं। वे उनके ऊपर 'पालटैक्स' कर लगाते हैं और जैसा जो अमीर गरीब होता है उससे वैसाही कर भी एक टकासे लेकर सौ टकातक लिया जाता है। यदि कोई मनुष्य टैक्स देनेसे इन्कार करे अथवा न दे सके तो उसका फोडोंका दण्ड दिया जाता है। उसकी धनसम्पत्ति जब्त कर ली जाती है। केवल लामाही इन् टैक्ससे बचते हैं। इस कारण बहुतसे लोग पुरोहित लामा बन बैठते हैं। टीरिंगपोचेने मुझसे कहा कि 'मैं नहीं समझ सकता कि इतने फकीरोंको तिब्बतमें देखकर हर्षित होना चाहिये कि दुःखी होना चाहिये। बहुतसे लोग कहते हैं कि यह हमारे देशकी धार्मिक उन्नतिका चिह्न है अतः प्रसन्न होना चाहिये। परन्तु मैं समझता हू कि कुछ एक हीरे हजारों ईंट पत्थरके टुकड़ोंसे कहीं अच्छे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तिब्बतके धर्ममें फूडा फरफट बहुत है और रत्नोंकी संख्या बहुत ही कम है।

जब इस बातपर विचार करते हैं कि सर्वसाधारण प्रजापर कितना भार है तो उनका लामा या पुरोहित बनकर अपनेको बचा लेना कोई आश्चर्यकर नहीं मालूम होता। यहाके गरीब पुरोहितोंकी

अवस्था भी सर्वसाधारणसे बहुत अच्छी है क्योंकि प्रति मास सरकारकी ओरसे उनको कुछ न कुछ मिलता ही है। इसके अतिरिक्त धनी दाताओंकी ओरसे भिक्षामें भी बहुत मिलता रहता है। परन्तु गृहस्थ मनुष्यके लिये यह कुछ भी नहीं है। वह अपना और अपने कुटुम्बका पेट आपही परिश्रम करके भरता है। इसके अतिरिक्त उसको अपना कर भी देना पडता है। प्रायः उसके द्वारपर दारिद्र्यका व्याघ्र सदा मँडराया करता है। ऐसी दशामें वह गृहस्थ बेचारा अपने कुटुम्बके पालन पोषणके लिये ताल्लुके-दारोंका कर्जदार हो जाता है। जब वह कर्जको न चुका सके तो वह अपने लडके या लडकी अपने महाजनको सेवकरूपमें दे देता है। ऐसा देना गया है, कि जिस गृहस्थने १० येन कर्ज लिये धे उसे भी अपना लडका १०-१५ वर्षके लिये सेवामें दे देना पडा है। उन बच्चोंकी अवस्थापर पाठक विचार कीजिये। सचमुच ये जमीन्दारोंके गुलामसे घन जाते हैं। उनके विकासका द्वार उनके मा बाप अपने हाथों बन्द कर देते हैं।

मेरे इस कहनेका यह आशय नहीं है कि तिब्बतमें जागीरदारी ही है। नहीं, वहा केन्द्रिक शासन-पद्धति इसके साथ ही साथ चलती है। क्योंकि जागीरदार लोग सदा अपनी जागीरमें ही नहीं रहा करते बल्कि वे अपना काम अपने अधीनस्थ लोगोंके ऊपर छोडकर चले आते हैं और सरकारकी ओरसे उनको और सूबोंका प्रबन्ध भी करना पडता है।

अतएव तिब्बतमें दो तरहकी रिआया है अर्थात् एक वह जो

आगीरदारोंके अधीन हैं और एक वह जो कि मुख्य सरकारके अधीन है दोनों अधीन शासन एक दूसरेकी सीमामें ले जाते हैं। इससे प्रायः प्रजाको पालटैक्स ताल्लुकेदारोंको देकर मुख्य सरकारको भी कर देने पड़ते हैं।

मालगुजारी एकत्र करनेके लिये दो तीन कमिश्नर नियुक्त किये जाते हैं जो कि उच्च पदाधिकारी लामाओं अथवा गृहस्थोंमेंसे चुने जाते हैं। इनको न्याय-दान और शासन दोनों ही प्रकारके अधिकार हुआ करते हैं। यह लोग दौरा करके सामान टैक्स और चुगी इत्यादि वसूल करते हैं।

मालगुजारी बहुत नामोंसे वसूल की जाती है। इन नामोंमें सबसे पहला नाम लामाओंकी आजीविकाका है। यह आजीविका लासा और बाहर दोनों ही स्थानोंके लामाओंको मिला करती है। केवल लामामें २५ हजार लासा सरकारी वृत्ति पाते हैं। मंदिरों और धार्मिक कामोंके लिये भी बहुत रुपया वसूल किया जाता है। सरकारी नौकरोंको तनखवाहें बहुत कम पता लगती हैं। प्रधानमन्त्रीकी सालभरकी आय छ सौ फोक्क अर्थात् ४ हजार बुशल गेहू है। तनखवाहोंमें प्रायः अनाज ही दिया जाता है। अजानेके मन्त्रीको ३६० फोक्क मिलते हैं। एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि बहुधा सरकारी नौकर अपनी तनखवाहें लेना छोड़ देते हैं। मेरे मित्र अर्थसचिवने निरन्तर दस वर्षतक नौकरी की परन्तु कभी भी अपनी तनखवाह नहीं ली। मैंने विस्मित हाकर उससे पूछा कि तुमने अपनी तनखवाह क्यों नहीं ली तो उसने

उत्तर दिया कि मेरी जागीरसे ही मुझे इतनी आय हो जाती है कि मैंने दलाईलामाको इसके लिये कष्ट देना उचित न समझा। उसने यह भी कहा कि तिब्बतमें और भी ऐसे बहुतसे सरकारी नौकर हैं जो या तो लेते ही नहीं अथवा वेतनसे बहुत कम लिया करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी पूरी तनखाह ले लिया करते हैं। यह भी एक आश्चर्यकी बात है कि वह अफसर जिन्होंने अपनी तनखाहें छोड़ दीं हैं वे भी रिश्तत लेनेमें सकोच नहीं करते हैं। यदि सत्य पूछा जाय तो तिब्बतमें जैसी घूसखोरी है ऐसी कहीं भी न होगी। और इसको यहां ऐसा बुरा भी नहीं समझते जैसा और सभ्य देशोंमें समझी जाती है। मेरा मित्र अर्थसचिव बहुत ही शुद्ध चालचलनका था परन्तु जो भेंटें उसके सम्मानके कारण उसके पास आया करती थीं उनको वह ले लिया करता था।

सरकारी नौकरोंमें १६५ लामा और १६५ गृहस्थ हैं। उनको भाति २ के काम करने पड़ते हैं। कभी वे लोग किसी सूबेके गवर्नर बनाये जाते हैं कभी न्याय-विभागमें नियुक्त किये जाते हैं। ऐसी अवस्थामें एक पुरोहित अथवा एक गृहस्थ नहीं भेजा जाता है। वर दोनों हीमेंसे एक एक भेजा जाता है। कभी कभी दो दो और कभी कभी चार २ भी भेजे जाते हैं। ऐसी अवस्थामें भी कभी २ घूसके कारण अन्याय हुआ सुनाई पड़ता है। ऐसी दशामें उपस्थित दलाईलामा उन जजोंकी धन सम्पत्ति जप्त करनेमें कुछ भी आगा पीछा नहीं करते। यदि

भगडा भारी दृष्टा तो दलाईलामा आप ही उसका न्याय करते हैं।

यह कहना चाहिए कि दलाईलामाके कामका निश्चय नहीं है। वह धर्मकी शिक्षा देनेवाला है। वही न्याय भी करता है और माणदण्ड और देशनिकाला भी देता है। धर्ममें जिस प्रकारकी दण्डाज्ञाका निषेध भी है। दलाईलामाको जज बनकर वह दण्डाज्ञा भी देनी पड़ती है। वह स्वयं गृहस्थ नहीं, वह मद्यदि किसी मादक द्रव्यका सेवन नहीं करता। उसका यह पद वस्तुतः बहुत ही असाधारण रूपसे उच्च है। सब लामा दलाईलामाका शिष्य होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। मुझे भी ऐसी दीक्षा लेनेके लिये कहा गया था परन्तु मेरी अश्रद्धा इस कार्यमें बाधक थी। तो भी मुझे गूढ शिक्षाओंके लिये भी आज्ञाए मिल चुकी थीं। इस दीक्षाका मेरे धार्मिक विश्वासोंसे कोई भी सरोकार न था। दलाईलामाकी स्वयं स्थिति ऐसी बनावट्टी थी या अन्य लामा भी उसी प्रकारके थे। वे अशत लामा थे और अशत साधारण गृहस्थ थे। कभी २ उनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। जैसा मैंने पहले कहा था कि तिब्बती लामा जमीन्दारी और व्यापार भी करते हैं और वे ही अपने नवयौवनमें सिपह गिरीका काम करते हैं।

मेरे इस कहनेका तात्पर्य यह है कि यहाके लामा और गृहस्थोंमें कोई भेद है तो यही कि लामा सिरपर बाल नहीं रखते हैं और पुरोहिताईका लघादा पहनते हैं। मुझे यह कहते

हुए बड़ा दुःख है कि यहा लामाधर्म बड़ी अवनत दशामें है। जेत्सांग खापाने इसे जो उन्नतरूप दिया था वह अब कहीं लुप्त हो गया है।

तिरसठवां परिच्छेद



शिक्षा और जातियां

शिक्षाका तिब्बतमें बहुत विस्तार नहीं है। शिगात्जेके आस पास प्रदेशके वासी प्राय तीन काम सीखते हैं अर्थात् लिखना, पढ़ना और हिसाब। परन्तु और स्थानोंमें मातापिताके पास इतना भी धन नहीं है कि इतनी शिक्षा भी दे सकें। सिवाय विहारोंके और स्थानोंके लडके और लडकिया—और विशेषत लडकिया बिलकुल ही अशिक्षित रहती हैं। यहा शिक्षालय बहुतही थोड़े हैं जो कि लासा और शिगात्जेके अतिरिक्त और कहीं नहीं हैं। यदि कही लडके पढ़ते भी हैं तो घरेलू स्कूलोंमें ही पढ़ते हैं।

यदि कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो लामा बनकर सरकारी विहारमें ही पढे। अन्यत्र कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहा उच्च शिक्षा मिल सके। सर्वसाधारण श्रेणीके विद्यार्थियोंको यहा स्थान मिल जाता है नहीं तो सरकारी स्कूलोंमें नीची श्रेणियोंके विद्यार्थियोंको प्रवेशही नहीं मिलता। नीची जातिके बालकोंके

लिये तो उनका द्वार सदा ही बन्द रहता है। तिब्बतमें सबसे नीची एक ही जाति है। उसीकी उपजातिया हो जाती हैं जो मडुआ, मल्लाह, सुनार, लुहार और फसाईका काम करती हैं। लुहार एक कारणसे नीच समझे गये हैं कि वे लोग ऐसे हथियार बनाते हैं जिनसे जीवोंकी हत्या भी की जाती है। यह सबसे बड़ा पाप है। इन लोगोंको लामा या पुरोहित बनने नहीं दिया जाता। यदि वे किसी प्रकार विहारमें प्रविष्ट भी हो जाते हैं तो प्रायः उनको छल कपटसे अपनी जाति छिपानी पडती है। इस प्रकार उनमेंसे भी बहुतसे अपने जन्मस्थानसे पर्याप्त दूर देशोंमें जाकर लामा बन गये हैं। इन नीची जातियोंकी अपेक्षा साधारण लोग अधिक लाभमें रहते हैं।

सरकारी शिक्षालयोंमें भर्ती होनेका अधिकार केवल चार जातियोंको है। एक नेस्पा जो कि राजाके कुटुम्बी हैं। दूसरे गापा जो लामाओंकी औलादमेंसे हैं। तीसरे वे लामा हैं जो प्राचीन सम्प्रदायके अनुयायी थे और चौथे शालगो कहलाते हैं। ये लोग पुराने अमीरोंकी औलादमेंसे हैं।

गेरपा जातिमें वही लोग हैं जो पहले कालके महामन्त्रियों और सर्दारोंकी औलादमेंसे हैं। ये लोग यावृशो कहाते हैं। ये वर्तमान और भूतकालके सब मिलाकर दलाईलामाओंके ३३ घर हैं। इसी जातिमें तिब्बतका सबसे प्रथम राजवश टिचेनल्हा वारीशा भी सम्मिलित है। ये सब सर्दार कहाते हैं। प्रथम राजवशज अभी तक भी विद्यमान हैं। उनके मुरय

पद भी दलाईलामाके समान उच्च ही है। लामाई शासनके उच्च पद याव्शी लोगोंको सुगमतासे मिल जाते हैं। ये प्रधान मन्त्री, महामन्त्री तथा अन्य राज्यके उच्च पद पाते हैं। साथही वे इन उच्च पदोंके लिये योग्य समझे जाते हैं। यदि उनको वे उच्च पद न मिलें तो उनसे उतर करके जो पद हों वेही उनको दे दिये जाते हैं। त्शीलुनयोंके याव्शी और होते हैं। उनके अधिकारी पूर्वोक्त याव्शी लोगोंसे कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। दलाईलामा तथा प्रथम राजके वंशज प्राय तिब्बतके राजवंश कहाते हैं। सुगमताके लिये हम इनको एक अलग जाति मान सकते हैं। यद्यपि ऐसे घराने भी हैं जो इनसे जाति और अधिकारमें बहुत भिन्न नहीं हैं। उनमेंसे एक देपानचेका है। यह जाति सेनापतियों और सर्दारोंकी श्रेणी है। ये लोग प्राय तभी विशेष पदोंपर नियुक्त होते हैं जब कि तिब्बत किसी विशेष युद्धमें लगा होते हैं।

इनसे कुछ नीचे इतिहासप्रसिद्ध पुरुषों और राजसेवामें विशेष आदर पावे मन्त्रियोंके सन्तानोंकी जातिया होती हैं। यद्यपि इनको नाम सर्दारोंकी गणनामें बहुत पीछे होता है तो भी योग्य व्यक्ति समझकर इनको मन्त्री आदि पद सुप्राप्य होता है।

तिब्बतमें प्राय योग्यता और मान एक साथ नहीं रहते। क्योंकि चाहे वेचनेवाले कमही होते हैं अधिकार पदोंकी प्राय खरीद फरोस्त होती रहती है। योग्य उच्च अधिकारियोंको उनके सहयोगी सदा घृणाको दृष्टिसे देखते हैं। प्रायः उन्हींके गुप्त

पह्यन्त्रोंके कारण पदच्युत कर दिये जाते हैं। इस प्रकारसे बहुतसे उच्चपद खरीदनेवालोंके पास ही रहते हैं।

गेरपासे उतरकर दूसरी जाति झापाका पास हैं। इस विभागमें सिद्ध लोग हैं। ये सिद्ध लामाओंकी सन्तान हैं। इन लोगोंने धर्मको तोड़कर विवाह किये और घरबसा लिये। इन लामाओंने विशेष चमत्कारों या मायाके कार्यों को औरोंसे ऐसा छिपाया कि वे सब भेद केवल उसी जातिके लोगोंमें सीमित हो गये। इस वर्गका तिब्बतमें बड़ा मुख्य भाग है। ये गर्मोंकी ऋतुमें पालटैक्स इकट्ठा किया करते हैं। इस प्रकारसे शासनका कार्य भी करते हैं। नगर और प्रान्तके अधिकारी लोग भी इनसे बहुत भय करते हैं क्योंकि वे शक्तिके मायावी होते हैं। साधारण लोगोंका विश्वास है कि यदि इनमेंसे कोई झापामें अपनेसे रुष्ट हो जाय तो वह बहुत आपत्तिमें डाल सकता है। वे इस प्रकार भय दिखाकर सबसे पडा पडनेका कर इकट्ठा करके द्रव्य संग्रह कर लेते हैं। इतने नफेमें रहकर भी ये लोग बहुत ही गरीब होते हैं। वे साक्षात् दरिद्रनाको मूर्ति होते हैं। तो भी उनको इस घातसे बड़ा सन्तोष होता है कि सभी प्रजामें उनके पास सबसे अधिक शक्ति है और प्रजापर उनका इतना दयदया है। सद्दर लोग भी मार्गमें आते झापाको देखकर अपने घोड़ेसे उतरकर उसको प्रणाम करते हैं।

तीसरी जाति योन बो है। बुद्धधर्मके प्रचारके पहले बोन-बो धर्म ही तिब्बत धर्ममें माना जाता था। इस धर्मके पुरो-

हितोंको विवाह करनेकी आशा थी। इसलिये उन लोगोंकी अब-तक भी बराबर सन्ताने चलो आ रही हैं। सर्वसाधारणमें भी वे एक विशेष रूपसे रहते हैं। वे अपने ही देवताओंको पूजते हैं और उन्हीको प्रसन्न करनेके लिये वे विशेष क्रिया काण्ड किया करते हैं। जब कोई भी विवाह करता है तो वह बोन-बोके पास जाकर ही स्थानिक देवताओंकी पूजा करनेकी प्रार्थना किया करता है। वह कभी २ अभिचार और अम्युदय दोनों प्रकारके साधनोंके लिये भिन्न २ पद्धतिया और पूजायें किया करता है।

इस जातिके लोग प्राय देशभरमें मिलते हैं। परन्तु इनकी सख्या बहुत न्यून होती है। दूर २ के ग्रामोंमें, हिमालयके पासके प्रदेशोंमें प्राय यही लोग बसे हैं। साधारणत एक गांव या वस्तीमें इस जातिके एक या दो घर ही होते हैं। इस कारण बोन-बो लोगोंका भी बडा मान रहता है। वे कभी स्थानिक शासक और मजिस्ट्रेटका भी काम किया करते हैं। यदि वे और पेशा भी करे तो भी उनको बडे मानसे देखा जाता है।

यद्यपि बोन-बो लोग प्राचीन धर्मसम्प्रदायके वंशज नहीं हैं तो भी अब वे पुरोहित नहीं हैं क्योंकि वे अपना धर्म और मन्तव्य और लोगोंको नहीं सिखाते और न औरोंको अपने धर्ममें आनेके लिये प्रोत्साहित करते हैं। वे इसीसे सन्तुष्ट है कि वे अपने प्राचीन धर्मग्रन्थोंकी अपने वंश परम्परासे रक्षा करते चले आ रहे हैं। इसीसे वे भी तिब्बती प्रजामें अपनी भिन्न स्थिति बनाये हुए हैं। वस्तुतः नव दीक्षित बोन-बोका बडा ही आदर

होता है। इस वर्गका आदर भी प्रायः वशकी उच्चताके कारण होता है।

चौथी जाति शालङ्गो है। ये उन वर्गोंमेंसे हैं जिन्होंने पूर्व कालमें अपने धन और मानके कारण अपने ग्रामों और नगरोंमें कभी पहले शक्ति और अधिकार अपने हाथमें कर लिया था। तिब्बती लोग स्वभावके बहुत ही मानी होते हैं इसलिये वे अपने वश-परम्पराके स्वभावोंको कभी नहीं छोड़ते। उनकी बहुप्रतिव्वकी रीतिका भी यही फल है। इससे उनके घरकी सम्पत्तिका बटवारा न होकर कुटुम्ब भर एकत्र ही रहा करता है। प्रायः शालङ्गो लोगोंमेंसे सभीकी कुछ न कुछ जायदाद ही है। गरीबसे गरीब शालङ्गों भी बराबर उसी प्रकार सम्मानित रहता है।

इन चार जातियोंके अतिरिक्त सर्वसाधारणके दो विभाग हैं। और उनके नाम टोंगवा और टोंगडू हैं। इनमें टोंगवा लोग खेतोका काम तथा और और छोटे काम भी करते हैं। परन्तु वे कभी कर्जेके फन्देमें पडकर गुलामीमें नहीं फँसते। टोंगडू लोग उनसे भी छोटी जातिके हैं। वे बहुत ही नीच सेवाओंके कार्य करते हैं। तो भी वे गुलाम नहीं कहे जा सकते। उनको गरीब पेटिहर कहा जा सकता है। पहले इन लोगोंका जमीन्दारोंके साथ सीधा सम्बन्ध था। वे जमीन्दारोंके पेटिहर थे। परन्तु उनकी अब वह स्थिति नहीं रही। टोंगडू लोग टोंगवाकी अपेक्षा बहुत गरीब होते हैं। चाहे टोंगवा कितनी ही

स्थितिमें हो जाय और टोंगडू चाहे कितना ही ऊंचा चढ़ जाय तो भी दोनों जातिमें बड़ा भेद रहता है। सर्वसाधारणका दोनोंसे पूर्ववत् व्यवहार रहता है। मानों उनकी स्थितिमें कोई भेद ही नहीं आया। टोंगडू लोगोंके साथ बैठकर अन्य लोग भोजन नहीं कर सकते और न विवाह कर सकते हैं। यही छुआछूतका कठोर नियम नीच जातिके पूर्वोक्त चार विभाग—मछुए, मल्लाह, लुहार और बूचड लोगोंके साथ भी बरता जाता है। इनमें भी मछुए और मल्लाह, लुहार और बूचड लोगोंसे ऊंचे समझे जाते हैं। वे सर्वसाधारणके साथ एक घरमें बैठकर अपने ही बर्तनोंमें खा सकते हैं परन्तु लुहार और बूचड लोग एक घरमें बैठकर खानेके योग्य भी नहीं समझे जाते हैं। इन चारों छोटी जातोंको सर्वसाधारणसे बहुत नियमोंसे पृथक् किया गया है। वे आपसमें विवाह नहीं कर सकते।

यदि कोई उच्च जातिका पुरुष या स्त्री किसी नीच जातिवालेसे विवाह कर ले तो वह सदाके लिये अपनी जातिसे च्युत समझा जाता है। वह सम्बन्ध छूट जानेपर भी मृत्यु समयतक कदापि जातिमें नहीं आ सकता है। यदि इस दम्पतिसे औलाद होती है तो उसकी अपनी एक जाति बन जाती है। वह अपने मा यापसे भी नीची समझी जाती है। उसका नाम 'टाक-टारिल' यानी दोगली जाति है। निम्नतममें नीचाति नीच जाति यही है।

एक और भी नई जाति है वह सभ्य लुहार है। वे अपनी

प्रवृत्तिके अनुसार चतुर कारीगर होते हैं और लुहारीका पेशा करते हैं। तो भी इस पेशाके कारण अपनी जातिके अधिकारोंसे वञ्चित नहीं समझे जाते।

उच्च जातिवाले सामाजिक रीति रिवाज और कानून दोनों हीमें नीच जातिवालोंसे अधिक अधिकारवान हैं। ऊँची जातिका लडका अपने खेलके साथी नीच जातिवालेसे आदर और सम्मान पानेका अधिकारी है। यदि खेलते हुए वह लडका उच्च जातिवालेको कोई गाली दे तो चाहे वह निरपराध ही क्यों न हो उसको दण्ड अग्रश्य मिलेगा। यदि ऊँची जातिवाला मन्दिरके चूहेके बराबर गरीब क्यों न हो तब भी नीच जातिके धनीको उसका आदर करना ही पड़ेगा।

ऊँची जातिवाले अपने विशेष सम्पन्न चरित्रके कारण तुरन्त ही नीच जातिवालोंसे पहचाने जाते हैं। उन्हें अपनी इज्जतका बड़ा विचार रहता है। परन्तु मध्यम जातिवालोंमें सचाईका बड़ा गुण है कि उनके पास चाहे खानेको न हो और भूखों मर रहे हों परन्तु वे चोरी कभी नहीं करते। इसके विपरीत नीच जातिवाले चोरी, डाका मारने और हत्या करनेकी प्रवृत्तियोंके लिये प्रसिद्ध हैं। यह लोग चोरी और डाका भी मारते हैं और भीख भी मागते हैं। वस्तुतः भीख माँगनेवाले फकीरोंकी अपनी अलग भी एक जाति है। उनका पोढी दर पीढीसे भीख मागनेका पेशा रहता है। सर्वसाधारण इनको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। वे शकल सूरतसे इस व्यवहारके योग्य

होते हैं। उनमें झूरता, नीचता, पापाचार कूट कूट कर भरा होता है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ ऊँची जातिके लड़के सरकारी स्कूलोंमें भर्ती हो सकते हैं परन्तु जो घातें वहा सिखलाई जाती हैं वह बिल्कुल अधूरी हैं। पढ़ाईमें केवल तीन बातें हैं— पाठ कण्ठस्थ करना, लिखनेका अभ्यास करना और गणित करना, सबसे मुख्य पाठोंका कण्ठस्थ करना है। लेखकके अभ्यासमें बहुत देर लगा करती है। गिनती पत्थरके टुकड़ों, लकड़ीके टुकड़ों, घोंघों और कौड़ियोंसे सिखाई जाती है। वे पहले बौद्धधर्मका पुस्तकोंको कण्ठाग्र कराते हैं। फिर व्याकरण और इसके बाद व्याख्यान आदि। व्याख्यानको यह लोग बहुत चावसे याद करते हैं। यदि कोई निवेदनपत्र इत्यादि दलाईलामा अथवा और किसी उच्च पदाधिकारीको देना होता है तो वे खूब अलकारिक मुहावरेदार पुरानी भाषामें लिखकर देते हैं कि जो तिब्बतके सर्वसाधारणकी समझमें भी नहीं आती। इसीमें वे अपना पाण्डित्य समझते हैं कि उनके लिखे हुएको कोई समझ न सके। वे लेख भी पाण्डिताईके समझे जाते हैं जिनके अक्षर भी बहुत पुरानी चालके चित्र विचित्र बनाकर बड़े दुर्बोध बनाकर लिखे जाय।

यहाके गुरु पढानेके समय एक चासकी चपटी लकड़ी अपने पास रखते हैं और उसको शिक्षाके लिये बहुत उपयोगी समझते हैं। जो कविताएँ सहजमें नहीं आती हैं उनको कण्ठाग्र करना

बहुत आवश्यक समझा जाता है। गुरु समझते हैं कि छडीसे पीटनेसे उनके शिष्यकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। गुरु और शिष्यका सम्बन्ध यद्वा ऐसा है जैसा जेलके दारोगा और कैदीमें हुआ करता है। शिष्य बेचारे अपने गुरु और उनकी छडीको बँकतेही काप जाते हैं और कमी भी ऐसा नहीं होता है कि अपने पाठको याद न करके लायें। वे भयके मारे छुपते फिरते हैं, वे जानते हैं कि पाठमें यदि तनिक भी भूल हुई तो छडी पीठपर पड़ने लगेगी। साधारण रीतिसे तीस रूल शिष्यकी वाई हथे लीपर लगाये जाते हैं। समझदार शिष्य बाधा पाते ही अपना हाथ दण्ड पानेके लिये तुरन्त ही बाहर निकाल देता है यदि हाथके निकालनेमें तनिक भी देर अथवा आनाकानी हुई तो दण्ड दुगुना हो जाता है। ऐसी अवस्थामें ३० के बदले ६० बेल लगाये जाते हैं। किसी बच्चेको ऐसी अवस्थामें हाथ बाहर किये और आसू बहाते हुए देखना बड़े फटोर हृदयका काम है। वास्तवमें यह शिक्षा नहीं केवल क्रूरता है।

मैंने एक बार अपने मित्र अर्थसचिवसे शिकायत की थी कि इस भाति दण्ड देना बड़ा अनुचित है। वह भी अपने शिष्योंपर अपने दण्डका उड़ी उदारतासे प्रयोग करता था यद्यपि वह तिज्रतके और गुरुओंकी भाति शिष्योंको रात भर रस्तीमें बाधने और रातकी खाना न देने आदिका क्रूर दण्ड न देता था। पहले तो उसने मेरी बातको न माना और मेरे साथ सहमत भी नहीं हुआ, परन्तु पीछे उसने मेरा भाव समझा और दण्ड

देना छोड़ दिया। तबसे वह शिष्योंको डांट ही दिया करता था। इसके बहुत दिन पीछे उसने मुझसे एक दिन कहा कि जयसे मैंने आपके कहनेके अनुसार लडकोंको दण्ड देना छोड़ दिया है तबसे उनकी शिक्षामें बहुत कुछ वृद्धि हुई है। यहां मन्द-बुद्धि विद्यार्थियोंको गालिया देना भी आवश्यक समझा जाता है। यथा—पशु, मिछमगा, शैतान, गधा, मा बापका मांसखोर आदि अपशब्द बहुधा प्रयोग किये जाते हैं। शिष्य लोग भी इन्हीं अपशब्दोंको सीखकर बड़े होनेपर अपने शिष्योंपर भी इनका प्रयोग किया करते हैं।

सर्वसाधारण गृहस्थोंके लडके तो इस भाति पढाये जमते हैं परन्तु लामाओंके शिष्योंका कुछ और ही हाल है। उनके गुरु उनको बहुत स्वतन्त्रता दे देते हैं कि वे स्वयं सब काम किया करते हैं। फल यह होता है कि उनकी विद्यामें कुछ भी उन्नति नहीं होती है। बहुतसे विद्यार्थियोंके आचार उनके अध्यापकोंकी विलासप्रियताके कारण बहुत ही बिगड जाते हैं। बहुतसे अपने शिक्षाके दोषोंको स्वीकार कर लेते हैं और वे अपने नवयुवकोंके आचार न बिगडने देनेके लिये बड़े सावधान रहते हैं। ऐसे सावधान गुरुओंके शिष्य ही योग्य पुरोहित और लामा बनते हैं।

कण्ठाग्र करानेका भार शिष्योंको बहुत हानि पहुँचाता है। एक वर्षकी पढाईमें १६, १७ वर्षके विद्यार्थियोंको प्राय ५०० पृष्ठ अपनी धर्मपुस्तकके याद करने पडते हैं। वर्ष पीछे उसमें

उनकी परीक्षा हुआ करता है। जिसकी स्मरणशक्ति निर्यल है उसको भी १०० से कम पृष्ठ याद नहीं करने पड़ते हैं। १८ से ३० वर्षके विद्यार्थियोंको ८०० से १००० पृष्ठोंतक याद करने पड़ते हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तिव्वतके लोग इतना अधिक कैसे कण्ठाय कर लेते हैं। मैं छ महीनोंमें कठिनतासे ५० पृष्ठ याद कर सकता हू। इतना कार्य तो निर्यल-से निर्यल बुद्धि विद्यार्थियोंको दिया जाता है।

चौसठवां परिच्छेद

तिव्वतका व्यापार और कारीगरी

यहापर मुझे नवम्बर १९०१ की एक बात याद आ गई है। जब मैं यहा आया था उस समय मैंने एक पत्र अपने घरको भेजा था। यह बात १८ नवम्बरकी है। दार्जिलिङ्गमें मुझसे एक तिव्वती व्यापारी त्सारोंगवासे भेंट हो गई थी उसीके हाथों यह पत्र भेजा था। यह मनुष्य सरकारकी ओरसे लोहा खरीदनेके लिये कलकत्ते जा रहा था। मुझे इसके ऊपर विश्वास था अतएव शरत्चन्द्र दासके नाम एक पत्र उसको दे दिया था। उसीमें जापानी मित्रोंके लिये भी कई एक पत्र रख दिये थे। यह लोहा छोटे २ हथियारोंके निमित्त लासाके दक्षिण किनारे बसे हीवके कारखानेके लिये भंगाया गया था।

यह कारीगरी यहां प्रायः आठ वर्षसे प्रचलित हुई थी। इसको एक तिब्बतवासी लात्सीरंग दार्जिलिङ्गमें बहुत समयतक रह कर सीख आया था और तिब्बत सरकारकी आज्ञा पाकर वह अपने साथ दस कारीगर और भी लाया था जो कि हिन्दू और काश्मीरी मुसलमान थे। जिस समय मैं लासा पहुंचा उस समय उनमेंसे केवल दो रह गये थे। शेषमेंसे कुछ मर गये और कुछ अपने देशको चले गये थे। परन्तु तिब्बतके बहुतसे लुहारोंने उनसे यह काम सीख लिया था अतएव उनके मर जाने और चले जानेसे भी कारखानेके कार्यमें कुछ हानि नहीं हुई थी। तिब्बतके लिये यह बड़ा भारी सुधार था। क्योंकि इससे पहले वहां चकमक पत्थरसे चलनेवाली बन्दूकें थीं। और ऐसी भी भारतवर्षसे वहां नहीं पहुंच सकती थीं। तिब्बत सरकारने यह कारीगरी अपने यहां जारी रखी अतएव उसके लिये लोहेकी आवश्यकता होनेपर मेरे मित्रको कलकत्ता भेजा गया था।

आजकल तिब्बतके व्यापारी प्रायः बाहर जाते और आते हैं। यह लोग भारतवर्षकी ओर बहुत जाते हैं। उससे कम चीन और उससे कम रूस जाते हैं। रूसमें जाते आते अवश्य हैं परन्तु वहांसे व्यापारिक सम्बन्ध वैसा नहीं जैसा कि राजनीतिक है।

तिब्बतसे भारतवर्षको ऊन बहुत जाती है। इसके अतिरिक्त कस्तूरी, याककी पूछे, समूर और चमड़ा भी जाता है। 'बौद्ध'

धर्मकी मूर्तियों और पुस्तकोंकी भी भारतवर्षमें बड़ी माग है परन्तु यह वस्तुयें प्रायः जन्त हो जाती हैं अतएव लोग उन्हें नहीं लाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी वस्तुएँ हैं परन्तु वे सब बहुत थोड़ी २ जाती हैं।

पहले चीनी चाय भी बहुत जाती थी पर अब उसका चलान बन्द हो गया है।

ऊन पाच छ हजार पञ्चर भरकर दार्जिलिङ्ग जाती है। प्रायः १५०० पञ्चर भूटानको जाती है। २५०० पञ्चर नेपालको और प्रायः तीन हजार पञ्चर लद्दाखको जाते हैं। यह सख्या ठीक नहीं है क्योंकि यह तो चुगोके आफिसोंसे मिल सकती है। मैंने वही संख्या लिखी है जो व्यापारियोंसे पूछनेपर प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ ऊन चीन और मानसरोवरको भी जाती है। परन्तु मैंने वे देश नहीं देखे अतः उनके विषयमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

यहा वह मुश्क पाया जाता है जो कि हरिणके शरीरसे निकलता है। मुश्कविलायका मुश्क यहा नहीं होता है। मुश्की हिरन यहा सब स्थानोंपर पाया जाता है। यह जीव साधारण बिल्लीसे २॥-३ गुना बडा हो ता है। और यद्यपि वह जापानी हरिणसे मिलता जुलता होता है परन्तु उतना बडा नहीं होता है। यह घास खाता है और गहरे भूरे रंगका होता है। यह चेहरेसे बहुत भोला मालूम होता है। इसके मुखमें दो छोटे दात होते हैं जो हाथीके दातोंके भाति मुखके ऊपरके भागसे बाहर

रहते हैं। मुश्क केवल नर हरिणके ही निकलता है यह एक थैलीमें हिरनके पिछले भागमें हुआ करता है। कहते हैं कि यह थैली चन्द्रमाके महीनेके हिसाबसे घटती रहती है। महीनेके आरम्भमें वह बढ़ने लगती है और महीनेके अन्तमें बहुत छोटी रह जाती है। इस कारण शिकारी उसको मासके बीचके दिनोंमें मारते हैं।

कस्तूरी हरिण वन्दूकसे मारे जाते हैं परन्तु जिन जङ्गलोंमें शिकार करनेका निषेध है—जैसे लासा तथा अन्य पवित्र स्थानोंके आसपासके जङ्गलोंमें यदि कोई शिकार करे तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता है—वहा शिकारी लोग चोरीसे उनको जालमें फसाकर पकड़ते हैं। यद्यपि यह जीव तिव्यतमें प्रायः सर जगह होता है परन्तु अधिकतर 'कॉम्बोत्सारी' और लोमें मिलता है। यहापर मुश्क बहुत सस्ता मिलता है। जापानकी अपेक्षा कस्तूरीका मूल्य यहा एक दशवा भाग है। यहा कुछ मिलावट भी नहीं होता परन्तु और जगह जाने ही लोग उसमें मिलावट कर देते हैं। लोकी कस्तूरी विशुद्ध और सस्ती हुआ करती है क्योंकि वहाके असभ्य लोग जो कि आधे नगे रहा करते हैं उसमें मैल मिलाना जानते ही नहीं। यह लोग तिव्यती भी मालूम होते हैं और हिन्दू भी मालूम होते हैं। परन्तु अधिक उनकी प्रवृत्ति तिव्यतियोंके समान नहीं है।

जो कस्तूरी ये लोग हरिण मारकर निकालते हैं उसको शीशा, फाचके दाने, लोहेके बर्तन, दरोही, चाकू, आटा, मिठाई,

और नन नूताने वाली वस्तुओंके बदले दे देते हैं। यद्यपि उन वस्तुओंके बदले बहुत सस्ते दामों मिल जाया करते हैं परन्तु बाहरी कठिनाइयाँ और डाकूओंका नश्व इतना है कि बहुत ही सस्ता व्यापारी घटा जाकर फन्सूरी ला सकता है साधारण व्यापारी घटाके गान्धियोंके पास जा भी नहीं सकता।

यद्यपि भारतवर्ष भेगनका शान्ता चीनसे सहज है परन्तु फिर भी तिग्धतरी फन्सूरी टाचिनट्टूके मार्गसे चीनका ही अर्थिक भेजा जाता है। घटासे यूगान् टाकर जापान चला जाता है। जापानमें यूगानो कस्तूरी अच्छे दामोंपर बिकती है क्योंकि यह शुद्ध तिग्धतरी होती है। एक विशेष हरिणका अधिरमय सोंग भी चीनमें बहुत बिकता है। इससे घटाके वंश एक वीर्य-उर्द्धक औषध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यह औषध जीवन को बढ़ाती तथा बहुतसे रोगोंपर आशातीत काम करती है। चीना व्यापारों पर जोड़ी अच्छी साँगोंकी ५०० येनतकमें ले लेता है। घटिया साँग दो दो तीन तीन येनको भी बिक जाते हैं परन्तु उच्च औषधके काममें नहीं आते, केवल गृह सजानेके काममें आते हैं। घटिया साँग पहचाननेके लिये बड़ी सधी आँसुकी आवश्यकता है। येनी सधी आँसु बहुत कम होती हैं। घटिया साँगोंकी जोड़ी में भी जापान ले गया था। पहचाननेवालेने मुझसे कहा कि वह वास्तवमें बहुत घटिया है।

यह विशेष हरिण तिग्धतके दक्षिणपूर्व और उत्तरपश्चिम उगली इलाकोंमें बहुत मिलता है। यह एक अच्छा घटा

वर है। यह ऊँचाईमें घोड़ेसे भी ऊँचा होता है। इसका आकार भी हरिणकासा होता है। इसपर भूरे बाल होते हैं। कइयोंके देहपर भिन्न २ रंगकी समूर भी होती है।

इनके सींग ही विशेषरूपसे मूल्यवान समझे जाते हैं। इनके सींग चैत्रमें चन्द्रमासके अनुसार निकलने शुरू होते हैं। नव उत्पन्न सींगोंपर रोयेंघाली खमड़ी भी रहती है। उसके सींगमें सिवाय घनीभूत सधिरके और कुछ नहीं होता। आषाढ़ सावनके दिनोंमें वह सींग कठोर होने लगता है। सींगका मूलभाग कठोर हड्डीके समान हो जाता है। परन्तु अग्रभाग वैसाका वैसा ही रह जाता है। ज्यों २ समय गुजरता जाता है त्यों २ वह और कठोर होता जाना है। मार्गशीर्षमें वह सींग पूरा बढ़ चुकता है। इसके बाद सींगमें परिपक्वता आने लगती है और माघमें वह झड़कर गिर जाता है। यह १३ इञ्चतक लम्बा हो जाता है। ये सींग सारे रोयेंसे ढके रहते हैं।

बहुमूल्य शीषध बनानेके लिये आषाढ़ मासके सींग ही बहुमूल्य और बहुत उसम समझे जाते हैं। उसी समय जंगली लोग उनका शिकार करते हैं। इसका शिकार इतनी चतुरतासे करना होता है कि पहली गोलीपर ही मर जावे। वे प्रायः उसके शिरपर ही गोली मारते हैं। यदि हरिणको पहली लीगोंमें न गिरा दिया जाय तो वह घायल होकर मारे दुखके वृक्षोंके तनोंमें अपना माथा भार मारकर अपने सुन्दर सींगोंका सत्यानाश कर देता है। आषाढ़ सावनमें अपने सींगोंकी रक्षा-

करनेके लिये ये हरिण चले प्रदेशोंमें घले जाते हैं जहा घने जङ्गल और बने पहाड न हों। इसी स्वभावके कारण ये शिकारी लोगोंके हाथमें भी बहुत जल्दी आ जाते हैं।

नेपालको पहासे ऊन, याककी दुग्ध, नमक, शोरा और कुछ और भी वस्तुएं आती हैं। चीन और मंगोलियाके उत्तरपश्चिमके प्रदेशोंमें भी ऊनी सामान और बौद्धधर्मकी पुस्तकें जाती हैं। तिब्बतकी यनी बौद्ध पुस्तकें और तसवीरें भी मंगोलियासे जाती हैं। यद्यपि यह तसवीरें बढिया गिनी जाती हैं परन्तु वास्तवमें वह किसी कामकी नहीं होतीं। पहले अवश्य ही उनमें बडी चित्रकला होती थी परन्तु पहलेकी कारीगरी और अबकीमें बड़ा अन्तर है। अबकी तसवीरें बहुत भद्दी, निरर्थक तथा भावोंसे भी अश्लील बनाई जाती हैं। जिनमें प्राय एक ही शरीरमें नर मादाके चिह्न दर्शाये जाते हैं। एक बार मुझे ध्यान भी आया कि तिब्बतवालोंमें चार दोष हैं, मन्नीनता, अन्धविश्वास, अनैसर्गिक रीति-रिवाजों (एक स्त्रीके कई विवाह इत्यादि) और अनैसर्गिक कारीगरी।

तिब्बतमें बाहरसे जो सामान आता है वह बहुतसा भारत-वपसे ही आता है। जिसमें ऊनी कपड़े मन्दिरोंके सजानेके लिये हैं, इनके अतिरिक्त रेशमी रुमाल, बनारसा कलाबत्तूका काम, रेशमी डोरा और सूत है। श्वेत सूती कपड़ोंकी यहां बहुत मांग है। नीले रङ्ग और सुर्खों माइल रंगके कपड़े भी खपते हैं। चीटें भी वहाके लोग लिया करते हैं।

चीनसे यहा रेशमी कपड़े, कलावसूके कपड़े, टसररी रेशम और साटन आतां हैं। चादीकी ईंट और औपधिया भी चीनसे आती हैं परन्तु चाय बहुत आती है। मैंने मोटा हिस्सा लगाया था कि नालभरमें लासामें चीनसे पचास हजार छ सौ येनकी चाय आती है। इससे कहीं अधिक चाय तिब्बतके और भागोंमें जाती होगी। जो निर्धन लोग चाय मोल नहीं ले सकते वे लोग अभीसोंके एक वारकी उवालो हुई चाय ही मोल ले लेते हैं और उसीको दुधारा उवालकर पीते हैं। चायके दाम यहा कुछ अधिक लगते हैं अर्थात् साधारण चायका एक बक्स अर्थात् एक फुटकी ६॥ इंच चौड़ा और ३ इंच मोटा चायके बण्डलका दाम दो येन (अर्थात् पांच सेन लानाके) होते हैं। पढिया चायका एक बण्डल पांच येनसे कममें नहीं आता है।

भूटान और शिकमसे टसररी रेशमके कपड़े, ऊन और सूती सामान आता है।

भारतवर्ष, काश्मीर और नेपालसे तांबेके वर्तन, अनाज, सूखे अमूर, सूखे आडू, राजूर औपधिया, हीरा, लाल इत्यादि आते हैं। फीरोजा और मूगा बहुतसे आते हैं। क्योंकि तिब्बतके लोग इनको वालोंमें गूँथा करते हैं। इस कामके लिये एक अच्छे फीरोजाका दाम हीरासे भी बढ़ जाता है। पढिया फीरोजा जो कि कानी उगलीकी नोकके बराबर बड़ा हो उसके १२०० येनतेक लग जाते हैं। मूगा जिसमें दाग न हो कम मिलता है। ऐसे मूगे तिब्बतकी छिया बहुत पहना करती हैं। यह

लोग लाल रंगके अथवा मँगे लाल बहुत पसन्द करते हैं। यह बढिया मूंगे चीनसे आते हैं। बढिया मूंगा १२० येनसे १३० येनतकमें आता है। भारतवर्षका मूंगा बढिया नहीं होता। मूंगोंकी मालायें भी चीनसे आती हैं। निर्धन मनुष्योंका काचकी मालाओंसे भी, काम निकल जाता है और जापानसे झूठे मूंगे बनकर आते हैं वे भी खूब विकते हैं। पहले पहल जब यह चले थे तो वेईमान व्यापारियोंने खूब रुपया कमाया परन्तु अब उचित मूल्यपर बिका करते हैं। सस्ती मन लुभानेवाली वस्तुएँ और जापानी दियासलाई भी यहा बहुत विकती है।

कपड़ेके लेने बेचनेकी रीति भी निराली ही है। उसके नापके लिये गज काममें नहीं लाया जाता, केवल हाथसे नापा जाता है। दो माप ही अविक्र चलने हैं। एक दोनों हाथोंको फैलाकर दूसरा कोहनोसे अगुलीके पोरुओंतक। ऐसी अवस्थामें लग्ना खरीदार लाभमें रहता है और बेचनेवाला हानि उठाता है। यह रीति वहींके बने हुए कपड़ोंके लिये है। बाहरके आए हुए कपड़ोंको उनके अर्जसे नापा जाता है। जितना कपड़ेका अर्ज है उसीसे इसको नाप लिया जाता है। खरीदारको भी इसी हिसाबसे दाम चुकाने पड़ेगे। इस लग्नाईको 'खा' कहते हैं।

यहाके व्यापारी नफा भी बेहिसाब लेते हैं बहुत विश्वासपात्र व्यापारी भी उचित दामोंसे २०, २५ सैकडा अधिक लेते हैं। बहुतसे कपटी व्यापारी तो एक रुपयेके वस्तुकी पाच अथवा छ रुपये मांगनेमें न हिचकेंगे।

जब कोई मनुष्य इन व्यापारियोंपरसे कुछ सामान ले चुकता है तो व्यापारी उसको आशीर्वाद देता है और कहता है—'ईश्वर करे तुमने जो सामान मोल लिया है यह तुम्हारी बीमारी और दुःखका हरण करे। इन वस्तुओंके ले लेनेसे तुम आग्यशाली बनो। इससे भी अधिक धनवान होओ। भण्डार धनवाओ और हमसे बहुत बहुत माल खरीदो।' धर्मपुस्तकोंके बेचनेमें यह आशीर्वाद विशेषरूपसे दिया जाता है और विशेषकर तब जब बेचनेवाला कोई पुरोहित हो। पुस्तक करीबनेवालेके शिस्तक, पुस्तकको उठाकर पुरोहित यह आशीर्वाद दिया करता है—'इस धर्मग्रन्थसे श्रीमान् सच्चा ज्ञान ग्रहण करें, इसके सत्य प्रकाशके अनुसार आप कार्य करें। जिससे आप सम्मति, सद्वृद्धि, सच्चरित्र बनें और निर्घाणके पदके योग्य और सभके हितैषी बनें।'

खरीदारको भी इस समय एक तमाशा करना पड़ता है। यह काम चाहे वह हृदयसे न करता हो परन्तु बाहरी भावसे भी इस काममें स्वार्थ दिखाई देता है अर्थात् जब वह व्यापारीको दाम चुकाने लगता है तो वह मैले रुपयेको अपनी जिह्वासे चाटता है और हाथमें लेकर अपनी गर्दनके कपड़ेसे पोंछता है। इतना कर चुकनेपर वह व्यापारीके हाथमें देता है और ऐसी दृष्टिसे रुपयेकी
 छूटनेसे उसको कडा
 यह आशय है कि
 और पोंछ
 मानों

लिया अब व्यापारीके वस्त्रमें कुछ नहीं रह गया। अतएव जो रुपया व्यापारीके पास जा रहा है वह किसी कामका नहीं रहा है।

यद्यपि यह रीतिया बड़े व्यापारियोंने विशेष करके घायबानोंके छोड़ दी है परन्तु और २ लोग अभीतक भी वैसा ही किया करते हैं।

लोग समझे ने कि जब तिब्बतसे इतना थोड़ा माल बाहर जाता है और इतना अधिक बाहरसे आता है तो देश निर्धन क्यों नहीं हो जाता परन्तु यह बात नहीं है। कारण यह है तिब्बतमें मंगोलियासे बहुतसा सोना आता है जिसमें बहुत बड़ा भाग तो वह है जो कि लामाओंके पास मंदिररूपसे आता है और थोड़ासा भाग तिब्बतकी वस्तुएँ खरीदनेसे आता है। इस सोनेके कारण तिब्बतकी अर्थस्था ज्योंकी त्यों बनी रहती है। और इसको वह धन्य भी नहीं कर सकता है क्योंकि यदि ऐसा करे तो मंगोलियाकी सोनेसे हाथ धोना पड़े।

जब चीन और जापानमें लड़ाई हुई थी और जब आन्ध्र-काल शुरू हुआ था उस समय मंगोलियासे तिब्बतका सम्बन्ध टूट गया था। उस समय तिब्बतके ऊपर बड़ी आर्थिक आपत्ति आ पड़ी थी।

यहां तक कि जो मंगोलियन यहा चिहवारोंमें पढ़ते थे उनके घरसे भी खर्चका आना बन्द हो गया था। अतएव उन लोगोंको मजदूरी करके पेट पालनेकी आवश्यकता हुई थी।

एक और भी कारण है जिससे तिब्बत इस

रोक सकता। वहाके लोग दिन पर दिन शौकीन होते जाते हैं। यदि बीस वर्ष पहलेके तिब्बतसे आजके तिब्बतसे तुलना करें तो बहुत अन्तर मालूम होगा। बाहरकी दिखावटी वस्तुओंके लेनेकी चाह उन लोगोंमें बहुत बढ़ रही है अतएव प्रतिवर्ष बहुतसे तिब्बती भारतवर्ष, नेपाल और चीन जाकर उन आवश्यक वस्तुओंको लाया करते हैं।

यदि किसी प्रकार तिब्बत अपने व्यापारियोंको बाहरके व्यापारमें न लगने दे तो जैसा कुछ कष्ट उनको उठाना पड़ेगा वह वर्णनातीत है। खैर वह भी सहा जा सकता है परन्तु एक कठिन समस्या और भी आ पडती है जो किसी भाति न रूक सकेगी। अर्थात् जब भारतवर्ष, चीन और नेपालसे माल रोक दिया जावेगा तब वहाका जा भी नहीं सकता है। ऐसी अवस्थामें जो उन तिब्बतमें तय्यार-होती है उसका चलान बन्द हो जावे।

उनकी भारत देशमें बहुत अधिक खपत है। वह सब उन तिब्बतमें खर्च नहीं हो सकता। तिब्बतमें बहुत बड़ी जन-संख्या केवल उन तय्यार करनेकाही काम करती है। उनके उनका व्यापार बन्द हो जानेसे वे भूखों मर जावेंगे।

यदि मंगोलियासे उसका सम्बन्ध टूट भी जावे तब भी तिब्बत और देशोंसे सम्बन्धको नहीं तोड सकता है।

बूढा और असमर्थ पुरुषोंको छोड़कर प्राय सभी लोग किसी न किसी व्यापारमें लगे रहते हैं। किसान भी एक अंशमें व्यापारी होते हैं। सर्दिके दिनोंमें खेतीका काम ढीला पड जाता है।

री तिब्बतमें जाकर पारी भीलोसे नमक ला कर अपना भरा करते हैं। उसके बाद वे भूटान, नेपाल और में जाकर अपना माल बेचा करते हैं।

गामा पुरोहित लोग छोटा मोटा व्यापार न करके बड़े बड़े करते हैं। इसी प्रकार प्राय विहार राज्य व्यापारमें लीन है। सरकार म्बय व्यापारी है। वहा स्वय सीधी व्या- नहीं करती परन्तु उसका व्यापार दलालों और ठेकेदारोंसे है। ऐसे दलालो और ठेकेदारोंको सरकार मार्गको चुगी आदिकी बहुतसी रियायतें देती है। सर्दार लोग अमीर उमराओंमें बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी भूमिकी से ही मन्तुष्ट रहते हैं। प्राय बहुतसे तो व्यापार ही करते हैं। पर छोटा मोटा व्यापार तो प्राय सभी करते हैं। यदि किसी अमीर सर्दारके घरपर उसके पास भेंट करने जाता है उसके घरपर कोई सामान बहुत बढ़िया देपता है तो प्राय दर्शक उस सामानका मोल भाव कर लेता है और यह कोई धुरा भी नहीं समझा जाता। वस बातोंमें सब सौदा तय जाता है।

विहारोंके विद्यार्थी भी अपने ढगके व्यापारमें लगे रहते हैं। बाजारमें कोई वस्तु उनकी आपमें चढ जाती है वे उसके रुपया जुटाने लग जाते हैं। वे उसे खरीदकर गावमें लेते हैं और अच्छे काफो मुनाफेपर बेच देते हैं या बदलेमें उ अन्य वस्तुए के हाथ सौंप देते हैं।

इस धनियेपनेको प्रवृत्तिके साथ एक भयानक दोष भी पैदा हो जाता है वह यह कि उनमें छल कपटका व्यवहार बहुत होता है। हर एक दूसरेका अपने पेशेमें झटक लेना चाहता है।

पैसठवां परिच्छेद

सिका और छापनेके ब्लाक।

तिब्बतमें या तो बदला चलता है या नगद दामसे वस्तुएं मील ली जाती हैं। तिब्बतमें केवल एक ही सिका है और २४ सेनका चादीका है। आवश्यकतानुसार इस सिकेको दो टुकड़ोंमें काट डालते हैं और प्रत्येक टुकड़ा बारह १ सेनका समझा जाता है। कभी २ ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि एक टुकड़ा दो तिहाई और एक टुकड़ा एक तिहाई होता है। इन दोनों टुकड़ोंको सोलह सेन और आठ सेनका समझते हैं। यद्यपि यह टुकड़े बिलकुल ठीक नहीं कटते और उनके कटे हुए सिरे बहुत खुरदुरे होते हैं। किसी २ में बीचमें छेद भी होता है परन्तु इसकी यहाँवाले लोग कुछ चिन्ता नहीं करते। लासामें ४ सेन सबसे छोटी रकम समझी जाती है। परन्तु इसका कोई विशेष सिका नहीं होता। ४ सेनकी वस्तु खरीदनेवालेको अपने साथ १६ सेनका २३ सिका देकर १२ सेनवाला १२ सिका ले लेना चाहिये। इसी प्रकार यदि बेचनेवाले के पास १२ सिका न हो तो खरीददारको चाहिए कि १२ और २३ दोनों देकर एक टंका घापिस ले ले। १ टंकाका मूल्य

५४ सेन होता है । ८ सेनकी खरीदपर १ ट का देनेपर २।३ सिक्का कौटा देता है ।

यह चार सेन सबसे छोटी रकम मानी गयी है । चार सेनका नाम काकग, आठ सेनका नाम कर्मा, और धारह सेनका नाम खेका, सोलह सेनका शोकंग, बीस सेनका नाम कायची और बीबीस सेनका नाम टंका है ।

लासा और शिगातुजेके अतिरिक्त औरछोटे नगरोंमें एक टकासे कमकी वस्तु नहीं मिल सकती क्योंकि उपरोक्त नगरोंके अतिरिक्त टंकाके कटे हुए टुकड़े और कहीं नहीं मिलते हैं । और भी कई एक सिक्के कहींर चलते हैं, जैसे मारतवर्ष और तिब्बत सरहदपर एक और छोटा चादीका सिक्का चलता है जो कर्ज बोलाकार है परन्तु वह भीतर तिब्बतमें नहीं चलता है क्योंकि तिब्बत सरकार उसको स्वीकार नहीं करती ।

यहापर मैं ऐसी घटनाका उल्लेख करता हू जिसमें कि मुझको इस लेन देनेके ऋगढ़ोंमें पडना पडा । पहले मैं कह चुका हू कि मेरी पाराके एक फजूलपुर्च लडकेसे जान पहचान हो गई थी । एक दिन उसने अपने एक मौकरके हाथों मेरे पास एक किट्टी भेजी । उसमें कुछ रुपया मुझसे तिब्बत जानेके लिये उधार मागा था । जितना रुपया उसने मागा था उस समय मैं उतना नहीं दे सकता था । यद्यपि उसकी इच्छा रुपयेको लेकर फिर कौटालेनेको नहीं थी तथापि जितना उसने मांगा था मैंने उससे मांगा उसके पास भेज दिया और एक पत्र भी साथ

मेरे इस कामसे उसकी बड़ा क्रोध आया और मैंने सुना कि उसने इसमें अपनी बड़ी मानहानि समझी। उसने यहातक कहा कि क्या मैं भिक्षा थोड़े ही मागता था? इत्यादि। उसने रोपमें आकर जो रुपया मैंने भेजा था सब लौटा दिया। मैं समझता हूँ कि उसने यह समझकर लौटाया होगा कि मैं उसकी अप्रसन्नताका ध्यान करके जितना उसने मागा था वह सब भेज दूंगा। कुछ दिनों पीछे उसको एक चिट्ठी मेरे पास फिर आई जिसमें फिर उतना ही रुपया माँगा था। मैं पहले केने भगडसे बचना चाहता था अतएव जितना रुपया उसने मागा था उसके पास भेज दिया। जैसे मालिक होते हैं वैसे ही उनके नौकर भी हुआ करते हैं। नौकरने कही अपनी मालिकसे सुना होगा कि मैं जापानी हूँ अतएव वह भी मेरे पास आया और उसने भी पचास येन मुझसे माँगे। उसको भी मैंने पचास येन दे दिये और समझा कि अब धारम्बार ये लोग मुझे तग न करेंगे।

इस समय मैं पढ़नेसे जो समय बचता था उसमें पुस्तकें इकट्ठा क्रिया करता था क्योंकि मेरे पास इस समय रुपया बहुत हो गया था। यह पुस्तकें किसी पुस्तक विक्रेताके पास नहीं मिलतीं। इन पुस्तकोंके ब्लाक किसी न किसी विहारमें रखे रहते हैं और जिसको उनसे छापनेका अविकार है उसको पुस्तकका मूल्य देनेपर उन्हीं ब्लाकोंसे वह छापकर दे दिया जाता है। इन पुस्तकोंकी छपाईमें कुछ तो भेंट दी जाती है जो कि बहुधा दूसरी रेशम होता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकोंकी छपाई दी

जाती है जो कि 'सी तख्तोंके लिये पच्चीस सेनसे एक येन और बीससेनतक हुआ करती है। छपवानेकी आशा मिल जानेपर छपवानेवालेको ही छापनेवाले भी लाने पड़ते हैं। छापनेवालोंका प्रतिदिनका घेतन प्रायः पचास सेन हुआ करता है।


इन लोगोंका काम कुछ ऐसा घेढगा हुआ करता है कि उसमें बहुत देर लगा करती है। कागज जो इन पुस्तकोंके छापनेके काममें लाया जाता है वह चहीके वृक्षसे बनाया जाता है जिसकी जड़ और पत्ते विपैले होते हैं। यह कागज बहुत मजबूत होता है परन्तु रंगका कुछ साफ नहीं होता।

पुस्तकों वेचनेवाले तिग्रतमें अपने घरपर नहीं बेचते है वे शाक्य मुनिके मन्दिरके पश्चिम द्वारके सामनेके मैदानमें रखकर बेचते हैं। मैंने लासामें ऐसे पुस्तकों बेचनेके दस स्थान देखे। शिगात्जेमें दो अथवा तीन हैं। और २ देशोंमें पुस्तकविक्रेता अपनी पुस्तकोंको खोलकर रखते हैं कि जिससे उनके परीदार देखते ही पहचान लें परन्तु यहा उनको ढेर करके रखे रहते हैं।

जो पुस्तकों मैंने मोल ली थीं अथवा मूल्य देकर छपाई थीं वह पहले मेरे उस मकानमें रखी थीं जो कि मुझे सेरा विहारमें मिला था। परन्तु मेरे कमरेके पासवाले विद्यार्थी मेरी पुस्तकों का ढेर देखकर विस्मित होकर कहते थे कि जितनी पुस्तकों तुम्हारे पास है इनकी तिहाई पुस्तकों भी तिग्रतके पडेसे यडे आचार्य पद्मी धारी पण्डितके पास भी नहीं देखीं। तुम इतको अपने घर कैसे ले जावोगे ? मैं उन सबको अपने मित्र अर्ध-

सचिवके घरपर उठा लाया जिससे उन लोगोंको शंका करनेका कोई अवसर न मिले।

छियासठवां परिच्छेद ।



दीपमालिकाका उत्सव

४ जनवरी १६०२ को यहा एक उत्सव था। यह दिन एक बड़े भारी लामा सुधारकका मृत्युदिवस था। उनका नाम जीत्साग खापा था। इस उत्सवको दीपोत्सव कहा जा सकता है। इस उत्सवकी रातमें लासा और और नगरोंमें सब छतोंपर दीपक जलाये जाते हैं। विहारोंके ऊपर सहस्रों घीके दीपक उस रातको जलते दिखलाई देते हैं। यह सागजोका दीपमाला उत्सव दो सप्ताहतक रहता है। इस उत्सवमें क्या लामा और क्या गृहस्थ सब ही आनन्द मनाते हैं। नाच रङ्ग होता है और भोज होते हैं। ऐसा कदाचित् ही किसी देशमें देखा जा सके।

इस उत्सवमें एक और भी नई रीति प्रचलित है वह यह है कि जो मनुष्य किसी दूसरेसे पदवीमें छोटा है वह अपने बड़ेसे भिक्षा माग सकता है। बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस समयपर भेंटको भिक्षा मागनेमें लज्जित नहीं होते। मेरे यहां भी बहुतसे लोग मिलनेकी आये थे और मुझे भी प्रायः पाच येन खर्च करने पड़े थे। मेरे एक मित्रने मुझसे कहा कि पर साल इसी उत्सव

तुमको इससे तिगुना फर्च करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी
जान पहचान बहुत बढ़ती जाती है।

विहारमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको रातको चारह बजेसे
बेरे तक जागरण करके धर्मपुस्तक पढ़नी पड़ती है।

सैरा विहारमें इस उत्सवमें मुझपर घस्तुत बड़ा प्रभाव
डा, लामा लोगोंकी गम्भीर मन्त्रपाठकी ध्वनिका मुझपर बड़ा
प्रभाव हुआ। प्रायः सभी बातें गम्भीरता लिये होती हैं।
बड़े विशाल भवनमें झिलमिल २ करते हुए सुन्दर २ पर्दे लट-
ते होते हैं। धर्मोंपर लाल ऊनकी पट्टियाँ लिपटी होती हैं।
तपर सफेद और लाल फूल कढ़े होते हैं। दिवारों और
झोंपरके ऊपरके भागोंपर तिव्यती ढंगके सुन्दर चित्र बने होते
। इन सबको सहस्रों घृत दीपकोंसे उज्ज्वल किया जाता है।
एक शुद्ध उज्ज्वल किरणोंसे चमकते होते हैं। उनको देखकर
उन लैम्पोंकी याद आजाती है।

ऐसी शुभ पवित्र परिस्थितिमें बैठकर पवित्र धर्मग्रन्थका
वण करते हुए हृदयमें पवित्र भावोंका उदय होने लगता है।
सा प्रतीत होता था मानों मैं बुद्धलोकको चला गया।

यह सागजोका उत्सव दान पुण्यका भी उत्तम अवसर है।
टि २ पुरोहित और शिष्य सबेरे ही उठकर भिक्षाके लिये
हैं। इस समय लोग धर्मापूर्वक छुले हाथों भिक्षा
परन्तु पुरोहित, इस अवसरका बड़ा दुःखपयोग करते
लिये लज्जा-जनक घात है। कोई २ एक ही दिनमें

दो दो और तीन तीन बार भिक्षा मागने निकलते हैं। एक और अचभ्मेकी बात है कि जो लामा अनुचित कामोंका रोकने लिये नियत हैं वह ही उन अनुचित भिक्षाओंको ग्रहण करते हैं। यदि कोई शिष्य दूसरी बार इस प्रकारकी भिक्षाके लिये जानेसे इन्कार करे तो उसको दण्ड दिया जाता है और कोदेतक लगाये जाते हैं।

यह काम बहुधा योद्धा लामा ही क्रिया करते हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। इन लोगोंका फैशन और लामाओंसे विभिन्न होता है। कोई तो शिरको मुँडा हुआ रखते हैं और कोई कनपट्टियोंपर दोनों ओर पट्टे रखवाते हैं। विहारके लामा गुरु इन पट्टोंको बहुत बुरी दृष्टिसे देखते हैं और यदि उनकी दृष्टि पड जावे तो तुरन्त ही पकड कर उन वालोंको खींच लेते हैं जिसके कारण उस योद्धा लामाकी कनपट्टियोंसे रक्त बहने लगता है और कनपट्टी सूज जाती है। परन्तु इस दण्डको भी वे लोग गर्वकी दृष्टिसे देखते हैं और बाजारमें सूजी हुई कनपट्टिया दिखलाकर अपनी दृढताका परिचय देते हैं। तथापि वे लोग उन वालोंको अपने गुरु इत्यादिकी दृष्टिसे बचाये रखते हैं। इन लम्बे २ वालोंको वे कानोंके पीछे कर लेते हैं अथवा काजलको घीमें मिलाकर मुँहपर पोत रखते हैं। पहले तो मैं यह तमाशा देखकर बड़ा विस्मित हुआ था परन्तु पीछे मेरी समझमें आ गया।

मुझे यह कहते बड़ा शोक है कि योद्धा लामाका रूप ही

गुण्डोंका सा नहीं होता बल्कि वे बड़े अपराध भी किया करते हैं। पवित्र उत्सवोंकी रातोंमें ही ये भयङ्कर पाप किया करते हैं। शायद भूत प्रेत पिशाचोंकी येही मन्तानें हैं।

ये छोटी २ बातोंमें बड़े सचेत रहते हैं। वे छोटेसे छोटे कोड़ेकी हत्यासे भय खाते हैं। वे विहारकी टूटी हुई ईंटपर भी पैर धरते हुए कापते हैं। मार्गमें यदि उनको विहारकी टूटी छपरैल या ठीकरा भी मिल जाय तो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं और उसको वायें करके कभी नहीं निकलते। इतनेपर भी वे और उनके गुरु भी बड़े पाप कमाया करते हैं जिनका उनको तिलमर भी पश्चात्ताप नहीं होता। सबमुच वे मच्छरोंपर दया करते और हाथी तकको पचा सकते हैं।


एक डुकनायन नामका बड़ा ही चिनोदी लामा था। यह एक बार मार्गमें एक नये सम्प्रदायके पुरोहितसे मिला। डुकनायन एक ईंटका टुकड़ा चुनकर उसकी प्रदक्षिणा करने लगा।

उसके बाद वे एक बड़े पत्थरके पास आये जिसके ऊपर गुजर कर जाना कंठिन था। डुकनायन कुछ पीछेको झुका और तुरत उसके ऊपरसे कूद गया। डुकनायनके इस व्यवहारका देखकर उसका साथी हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि डुकनायनने छोटेसे पत्थरकी तो प्रदक्षिणा की, बड़े पत्थरसे कूद गया। इसका उसने कारण पूछा। डुकनायनने उत्तर दिया कि 'मैं नये सम्प्रदायवालोंको एक पाठ पढा रहा हूँ। वे छोटी छोटी बातोंपर तो बड़ा

हैं और महा पातकोंके

तिलभर नहीं हिचकते।” यह सुनकर उसका साथी बड़ा शर्माया। यह कथा प्रायः सर्वत्र सत्य मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार सांगजोका उत्सव भी ऊपरसे तो बड़ा शानदार होता है परन्तु इसकी आडमें बड़े घोर कर्म होते हैं। इस उत्सवमें योद्धा लामा और अन्य नीची जातिके लोग अपनी घोर इच्छाएँ पूरी किया करते हैं।

सरसठवां परिच्छेद



तिब्बतकी स्त्रियां

देशकी उन्नति और समृद्धिका स्त्रियोंकी स्थितिके साथ बड़ा भारी सम्बन्ध है। मैं इसपर भी एक परिच्छेद लिखना चाहता हूँ। लासाकी स्त्रियोंको तिब्बत देशकी आदर्श महिला माना जाता है। यहाकी स्त्रियोंकी पोशाकमें एक अद्भुत बात है कि उनके पहननेके कपड़ों और पुरुषोंके कपड़ोंमें कुछ भेद नहीं है। जैसे कपड़े पुरुषोंपहनते हैं वैसे स्त्रियाँ भी पहनती हैं। केवल भेद है तो इतना कि स्त्रियाँ पुरुषोंसे कुछ अच्छे चटकदार कपड़े पहनती हैं। दूसरा भेद यह है कि स्त्रियाँ अपनी कमरमें एक पट्टी बांधती हैं जो कि प्रायः १॥ इंच चौड़ी होती है। कोई कोई एक रेशमी पट्टीको तीन चक्र देकर लपेट लेती हैं।

लासाकी स्त्रिया अपने केश पाशको मगोलियन स्त्रियोंकी भांति रखती हैं ।

परन्तु शिगात्जे और तिब्बतके और नगरोंमें वैसी चाल नहीं है । स्त्रियोंके शिरपर बाल थोड़े होते हैं अत वे चीनसे आये हुए कृत्रिम बालोंको शिरपर लगा लेती हैं । शिरके बालोंको आगेसे दो भाग करके उनको गूथ पट्टिया सवांर लेती हैं और पीछे छोटीसी बनाकर छोड़ देती हैं । गुथी लट्टोंके शिरोंमें लाल अथवा हरा फीता बाधती हैं जिनमें गाँठोंकी झालर लगी रहती है । इन फीतोंमें हीरे, मोती अथवा और कोई घटिया दानोंकी माला भी डाल लेती हैं ।

मूंगे या लाल मणिका शिरोभूषण भी पहनती हैं जिनमें एक दाना सबसे बड़ा होता है । शिरके बीचमें वे मोतियोंकी एक चन्द्रुभा पहनती हैं । कानोंमें सोनेकी बालिया और छातीपर मणिहा पहनती हैं जोकि प्राय तीन चार हजार येनका हाता है । हाथोंमें चुडिया पहनती हैं । दायें हाथमें सुन्दर शबकी बनी चुडिया और बाये में चादीकी नक्राशीदार चुडिया होती हैं । यहाकी सब स्त्रिया ऊपरसे एक कपडा ओढ लेती हैं । वह बढिया ऊनका बना होता है । उ गलियोंमें चादीकी अगूठी पहनती हैं । यदि अमीर हैं तो सोनेकी भी पहनती हैं । जूते भी बहुत सुन्दर लाल अथवा हरे ऊनसे मढे हुए पहने जाते हैं ।

जैसीकी ससारमें और देशोंमें चाल है कि स्त्रिया अपने मुखपर श्वेत पाउडर मला करती हैं यहाकी चाल उससे

है। यहाकी स्त्रिया भूरे काले रंगकी पाउडर लगाती हैं। उनका विचार है कि उसके नीचेसे असली रंगका झलकना ही बड़ी सुन्दरता है।

तिब्बतकी स्त्रियोंके मुखका रंग बहुत अधिक नहीं होता। उनका रंग प्राय जापानी स्त्रियोंके समान होता है। भेद केवल इतना ही है कि तिब्बतकी स्त्रिया कुछ लम्बी और दृढ होती हैं। जापानी स्त्रिया साधारण कदकी होती हैं। छोटे कदकी स्त्रिया तिब्बतमें बहुत कम मिलेगी। तिब्बती स्त्रिया अपनी लम्बी चौड़ी खुली पोशाक पहन कर बड़ी प्रभावशाली मालूम होती हैं। अमीर तथा उच्च वर्णकी स्त्रियोंके वर्ण जापानी स्त्रियोंके समान ही गोर होते हैं।

सामकी स्त्रियोंका रंग अशुभ कुछ गौरा होता है परन्तु उनके मुखपर मनोहरता नहीं होती है। वे बातचीत बहुत उदासीनतासे करती हैं। इसके विपरीत लासाकी स्त्रियोंका सौन्दर्य और उनकी बातचीतका ढंग मनोमोहक और चित्ताकर्षक होता है। यह सब होनेपर भी उनमें कोई गौरव और आदरणीय शिष्टता नहीं होती। वे सड़कपर चलते हुए खाते जानेमें कोई असभ्यता नहीं समझतीं। तनिकसी बातपर कुपित होजाना, कोपकी माया करना उनका स्वभाव है। यदि कोई मनुष्य उनकी कड़ी समालोचना करे तो यही कह सकता है कि वे मले घरकी न मालूम होकर चकला घरकी लडकिया मालूम होती हैं। अतएव उनकी आदर तथा मानकी दृष्टिसे देखनेकी अपेक्षा उनपर दया आती।

हैं। इसके अतिरिक्त वे चरित्रमें भी निर्धल होती हैं इसका कारण सम्भव है वहाको बहुपतित्व होनेकी प्रथाही हो। यद्यपि तिब्बतकी स्त्रियोंमें बहुत दोष हैं परन्तु यहापर मैं दोहीका वर्णन करता हूँ। एक मदिरापान और दूसरा मैला रहना। मैला रहनेकी आशुत प्राय तिब्बत भरमें सर्वत्र है। बहुतसी ता केवल मुह हा। धोकर ही सन्तुष्ट रहती हैं शेष शरीरपर तो कमी पानी छूना ही नहीं। उच्च अमीर घरानेकी औरतोंमें यह दोष कम होता है। उनको दिनभरमें अपने शृंगारका समय भी बहुत मिलता है।

यहाकी स्त्रियोंमें एक विशेष गुण है कि वे घरके काम तथा व्यापार करनेमें बड़ी चुस्त होती हैं। मध्यम और निम्न श्रेणीकी स्त्रिया व्यापारको अपना पेशा समझती हैं। यदि वे विवाह करती हैं तो स्वामी भी वैसे ही खोजती हैं जो उनके कामधन्धोंमें सहायता दे सके।

बड़े घरानेकी स्त्रियोंको हाथसे काम काज नहीं करना पडता। वह अपने स्वामियोंको सलाह देनेमें बड़ी चतुर होते हैं और चाहे उनसे सलाह ली जावे या नहीं ली जावे वह सदैव उसे देनेको तत्पर रहती हैं। इन स्त्रियोंका अपने स्वामियोंपर बड़ा प्रभाव होता है केवल इसी कारणसे नहीं कि उनको सम्मति प्रकाश करनेकी छुट्टी है वर वह बड़े बड़े मामलोंमें उचित सम्मति दे सकती हैं।

मेरी समझमें ससारमें और कोई देश ऐसा न होगा जहाकी स्त्रियोंको इतना कम काम करना पडता हो। उनके लिये

मित रूपसे कोई काम नहीं है। वह कभी कपड़ा भी नहीं सोती। सीना वहा पुरुषोंका काम समझा जाता है। कपड़ेकी थोड़ी सीभी मरम्मतके लिये दर्जोंकी आवश्यकता होती है। बड़े घरकी स्त्रिया फातती और बुनती भी नहीं हैं।

हा छोटी २ जातियोंमें स्त्रिया प्रायः दोनोंही काम करती हैं। कातनेकी रीति यहाकी बड़ीही भद्दी है। यहां कातनेके लट्टू महीन सूत तय्यार नहीं कर सकते।

स्त्री पुरुषके पद सम्बन्धी विषयमें यहाकी स्त्रिया यूरोपकी स्त्रियोंसे भी बड़ी हुई हैं। बाहरका मनुष्य जिस आदरकी दृष्टिसे पुरुषोंको देखेगा उसी आदरकी दृष्टिसे स्त्रीको भी देखेगा। जितनी मजदूरी पुरुष पाता है उतनी स्त्रीको भी मिलेगी। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि यहाकी स्त्रिया बहुत दृढ होती हैं। जितना परिश्रम पुरुष कर सकता है उतना वह भी कर सकती हैं अतएव उनको उतनीही मजदूरी मिलनी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। यद्यपि स्त्रियां लज्जाशील और सुन्दरी होती हैं परन्तु ऐसी साहसी होती हैं कि यदि क्रोध आजावे तो उनका स्वामी भी उन्हें बसमें नहीं रक्क सकता है। क्रोध आजानेपर वे साक्षात् चण्डी हो जाती हैं। उस समय कितनीही कोई क्षमा-प्रार्थना करे परन्तु चण्डोका कोप शान्त होना बडा कठिन है। मीने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि स्वामी घुटने टेककर पैरोंमें पडकर स्त्रीके सामने क्षमा मागता होता है। प्रसन्न दशामें वह बिल्हीसे भी गरीब है और आवेश आनेपर शेरनीसे भी बढकर भयानक हो

जाती हैं। यह बड़ीही स्वार्थी होती हैं और घरकी वास्तविक मालिकिनी यही होती हैं। उनमें सबसे बड़ा दोष यह है कि वे कभी पतिव्रता नहीं होती। वे बहुधा अपने पतियोंपर यह दोषा रोपण किया करती हैं कि उनके स्वामी उनका भरणपोषण नहीं कर सकते हैं।

तिव्यती स्त्रियोंका ध्यान सदैव अपने स्वार्थकी ओर लगा रहता है। स्वामीके दुःख सुखका तबतक वे तृणभर भी विचार नहीं करतीं जबतक उनका अपना स्वार्थ पूरा न हो जाय। क्या बड़े घरकी और क्या छोटे घरकी सब अपना रुपया अपनेही पास रखती हैं और स्वामीको छोट देनेमें उनको कुछ भी सकोच नहीं होता। वे वैमनस्य होनेपर तुरत सब अपना सामान शोधकर स्वामीका द्वार छोड़ देती हैं।


इसके विपरीत जिस स्वामीको वह चाहती हैं उसके साथ प्रेमकी भी कोई सोमा नहीं। अपने प्यारे स्वामीके ऊपर वह अपना तनमन धन सबही न्योछाघर कर देती हैं। उसको प्रसन्न रखनेमें कोई कसर नहीं छोड़तीं। अतएव यह कहना चाहिए कि तिव्यतकी स्त्रियोंमें जो विरोध गुण अथवा अशुभ गुण हैं वे पराकाण्डा तक पहुँचे हुए हैं।

सम्भव है कि यह अशुभ गुण तिव्यतकी स्त्रियोंमें कई स्वामी करनेके कारण उत्पन्न हो गये हों। यद्यपि वह अपना मतलब साधनेमें बड़ी चतुर होती हैं परन्तु फिर भी किसी न किसी पुरुषकी सहायताकी आवश्यकता उनको सदैव रक्षा करनी है चाहे

पास कितनाही धन बच्यो न हो । यदि किसी स्त्रीका पति मर जाय और पीछे बच्चे भी छोड़ जाय तो भी वह स्त्री बिना विवाह किये नहीं रह सकती है । यदि कुरूपा और बूढ़ी हो तो चाहे विधवा बनो रहे नहीं तो एक पति मरतेही वह विवाह कर लेती है । मरे हुए पतिके लिये प्रेम करनेका विचार भी उनके हृदयमें नहीं आता है । पातिव्रतकी कहानियां जो प्रायः समस्त संसारमें सुनी जाती हैं वहा उनका कहीं पता भी नहीं है ।

मध्यम और निम्न श्रेणीकी स्त्रिया खेती करती हैं और भेंड बकरी पालती हैं । वे साधारणतः दूधको दूहना, उसको जमाना और दही बनाकर उसमेंसे निलोकर मक्खन निकालने आदि काम बहुत करती हैं । मक्खन निकालनेकी रीति वहा सर्वथा भारतवासियोंकी रीतिसे मिलती है । मक्खन निकालनेके बाद वे शेष लस्सीमेंसे पनीर निकालकर सुखा लेती हैं ओर शेष पानी पीनेके काममें ले आती हैं ।

अरसठवां परिच्छेद ।



लड़के और लड़कियां ।

लड़कोंको जन्मसे लड़कियोंसे कुछ अधिक अधिकार प्राप्त है । जैसे नामकरणकी विधि लड़कोंकी की जाती है लड़कियोंकी नहीं । कहीं २ पर कुछ परिवर्तन भी हैं परन्तु बहुधा जन्म

दिनके तीसरे दिन नामकरण किया जाता है। एक और भी बहुत रीति है कि यशोको कभी नहलाया नहीं जाता और न यदा विशेष घायी रहते हैं। नहलानेके बदले बच्चेके शरीरमें विशेष करके शिरमें घी दिनमें दो २ बार लगाया जाता है। इसको हम घालक-घृत-स्नान कह सकते हैं।

नामकरणके दिन पुरोहित इस कामको करनेके लिये बुलाया जाता है। यह रीति ऐसे आरम्भ होती है कि पहले थोडा सा आमन्त्रित जल बच्चेके शिरके ऊपर छिड़का जाता है। आमन्त्रित करनेके समय जलमें केशर घोल दिया जाता है।

नाम बहुधा जन्मदिनका जो नाम होता है उसके अनुसार रख दिया जाता है। यदि लड़का या लड़की आदित्यवारको उत्पन्न हुआ है तो उसका नाम 'नीमा' रखा जावेगा। नीमा तिथ्यतकी भाषामें सूर्यको कहते हैं। सोमवारको उत्पन्न होनेवालेका नाम 'डावा' होगा। शनिेश्वरकी पत्नी, शुक्रवारको पत्नी इत्यादि। परन्तु यही नाम नगरभरमें बहुतोंका होनेसे गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है अतएव उस नामके साथमें एक उपनाम भी रखा दिया जाता है। यह उपनाम साधारण नामके आगे या पीछे रख दिया जाता है। सप्ताहके दिनोंके अतिरिक्त जानवरोंके नाम भी रखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तिके नाम पुरोहित या मंत्रिप्याणीके कथनानुसार रख दिये जाते हैं।

नामकरणके दिन बडा भोज दिया जाता है। उसमें कुटुम्बी और मित्रवर्ग बुलाये जाते हैं। मित्रवर्ग और कुटुम्बी अपने

साथ मदिराके पीपे, कपड़े और रुपये इत्यादि भेंटके लिये लाते हैं।

नामकरणके समय पुरोहित उस कुटुम्बके देवताको इस बात की सूचना देता है कि इस नामका बच्चा इस घरमें उत्पन्न हुआ है इसकी भी रक्षाका भार अपने हाथोंमें ले लो।

जब लडका प्राय आठ नौ वर्षका होता है उस समय वह पढनेके लिये पाठशालामें डाल दिया जाता है। उस समय भी ऐसा ही भोज आदि उत्सव मनाया जाता है। इसके आत्मीय-कुटुम्बी उसको काता भेटमें देते हैं जिसे वह अपनी गलेमें डाल कर उसके दोनों सिरे छातीपर लगा लेता है। यदि गुरुका घर लडकेके घरसे कुछ दूर हुआ तो लडका दिन रात गुरुके घर ही रहकर पढता है। यदि पास हुआ तो वह सन्ध्याको अपने घर लौट आता है।

शिक्षाकी समाप्तिपर भी एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जब लडका पढ चुकता है और सरकारी नौकरीमें जाता है।

लडकीके लिये ऐसे कोई उत्सव नहीं किये जाते। सबसे पहले जब उसके बाल गूँधे जाते हैं उनके लिये वही एक उत्सव होता है। बालोंका साधारण रूपसे जूडा बाधरु उरुसमें मूगे इत्यादि लगा दिये जाते हैं। इस अवसरपर भी आत्मीय कुटुम्बी आते हैं और भोज दिया जाता है। वह लोग लडकीके लिये भेंट लाते हैं।

लडकोंके खेल यहाँ प्रायः वैसेही हैं जैसे जापानमें होते हैं।

जाड़ेमें बरफकी गेंदसे खेलना, गर्मीमें कुस्ती लडना, पत्थर फेंकना, किसी वस्तुपर पत्थरोंसे निशान लगाना, रस्सीसे कूदना, इत्यादि बहुतसे खेल हैं। कभी २ लडके और लडकिया साथ खेलते हैं। घोड़ेपर चढनेका भी यहाके अमीर लडकोंका खेल है।

लडकिया यहा गुडिया भी खेलती है। इस खेलमें वह गाना भी गाती है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे गीत भी गाती है जिनमें बुद्धदेव और बड़े २ वीरोंके चरित्रोंका वर्णन होता है।

उनहत्तरवां परिच्छेद

रोगी चर्चा

रोगीकी शुश्रूपा करना तिब्बतमें स्त्रियोंका काम है। परन्तु वैद्योंके विचित्र विश्वासोंके कारण यह शुश्रूपाका काम बहुत घट जाता है। तिब्बतके वैद्य रोगीको दिनमें नहीं सोने देते हैं अत एव शुश्रूपाकारीके लिये और कामोंके अतिरिक्त रोगीको जगाये रखना भी एक काम है। रोगीको लेटने नहीं दिया जाता है। किसी वस्तुके आधारपर बैठा रहना पडता है। कई नर्स रोगीके पास उसको सहायता देनेके लिये बैठी रहती है जिसमें सबसे आवश्यक काम उसको जगाये रखनेका है। यह नर्स लगातार देखरेख करती रहती है अतएव उनको शीघ्र २ बदलना

है। यह स्त्रिया रोगीको प्रसन्न रखने, उसको सन्तुष्ट करने और उसके कमरेको स्वच्छ रखनेमें बड़ी प्रवीण होती है। स्वच्छताके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जैसी रीति बहा है उसीके अनुसार स्वच्छताका पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। विदेशीके लिये बहा भी रहना बड़ा ग्लानिकर है।

सबसे कठिन और आवश्यक काम रोगीके जगानेका है। इसके लिये नर्स अपने पास ठठा पानी और उसके छिडकनेकी एक लकड़ी रख लेती है। ज्योंही रोगीको नींद आई त्योंही पानी छिडक देती है जिससे नींद खुल जाती है। यदि पानीसे नींद नहीं खुलती है तो वह रोगीको हिलाती और नाम ले ले-कर पुकार कर जगाती है। रोगी नर्सके इस कामसे दुःखी न होकर बहुत प्रसन्न हाता है और कृतज्ञता प्रकाश करता है क्योंकि वह जानता है कि नर्स वैद्यके आदेशसे और उसके भलेके लिये ऐसा कर रही है।

तिब्बतवालेका यह दृढ विश्वास है कि दिनमें कदापि सोने न देना चाहिये। जो मिलनेवाले भी आते हैं वे भी सबसे पहले यही कहते हैं कि 'दिनमें सोना नहीं चाहिये।' जब कोई रोगी मर जाता है तो पड़ोसी अथवा और लोगोंका यही विश्वास होता है कि नर्सने पूरी २ दृष्टि न रखी होगी और रोगी दिनमें सो गया होगा इसीसे इसकी मृत्यु हुई है।

मैंने इसकी खोज भी की कि यह अद्भुत रीति न सोने देनेकी कहासे चली। परन्तु ठीक पता नहीं है कि क्या बात है। कोई

बीमारी तिब्बतमें ऐसी है कि यदि रोगी सो जावे तो उसका ज्वर बढ जाता है। परन्तु प्रत्येक बीमारीके लिये यह अद्भुत चिकित्सा ठीक नहीं हो सकती। सम्भव है कि ऐसे ही कारणोंसे यही रीति प्रचलित हो गई होगी। मैं जब कभी पीडित हुआ हूँ मरपेट सोया हूँ परन्तु मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुँची। कारण यह है कि तिब्बतमें चिकित्सा शास्त्रके ऊपर उतना विश्वास नहीं है जितनाकी मूढ विश्वासपर है। उन लोगोंका विश्वास है कि रोग किसी राक्षस अथवा दुष्टात्माके द्वारा मनुष्य शरीरमें आता है। अतएव पहले शरीरसे उस दुष्टात्माको निकाल देना चाहिये तब किसी घेद्यकी शरण जानेमें लाभ लगेगा। रोगीको पहले पहल एक लामा आकर देखता है और अपनी पुस्तकसे देखकर घतलाता है कि कौनसा राक्षस अथवा दुष्टात्मा इसके शरीरमें प्रवेश कर गया है। पहले उसीके निकालनेका उद्योग किया जाता है।

जो लामा राक्षसको रोगीके शरीरसे निकाल देता है वही चिकित्सकका भी निर्णय करता है। इस भाँति चिकित्सा आरम्भ होती है। जो यात लामा कहते हैं उसको रोगीके घरवाले अक्षर अक्षर माननेके लिये तय्यार रहते हैं। यदि लामा रुह दे कि पाँच दिनतक रोगीको कोई औषध न देनी चाहिये तो रोगीको कदापि औषध न मिलेगी। यदि रोगीको उचित समयपर औषध मिल जाती तो बच भी सकता था परन्तु ऐसी अवस्थामें यदि मर भी जावे तो लामा महाशयपर कोई

रोपण नहीं कर सकता है। इसके विपरीत उसका और भी मान बढ़ता है क्योंकि उसने पहलेहीसे समझ लिया था कि रोगी नहीं बचेगा तबही तो औषधका निषेध कर दिया था।

वास्तवमें तिब्बतके वैद्य इस पदवीके योग्य नहीं हैं। वे लोग दस बीस औषधियोंके नाम मात्र जाननेके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। घाप दादों परदादोंसे केवल मात्र नाम याद करते चले आते हैं। बहुधा वहाके वैद्य एक विपैले वृक्षकी जड़ अपने पास रखते हैं। यह विपाक्त वृक्ष है। इसको वहां 'टसटक' कहते हैं। इसमें एक गुण यह है कि वह शरीरमें गर्मी उत्पन्न करता है। यदि अधिक दे दिया जाय तो त्रिपका काम करता है। इसकी जड़की अधिक मात्रा देनेसे कभीर पतले दस्त होने लगते हैं। वहाके वैद्य उस औषधकीही ठोक समझते हैं जिसके देनेसे रोगीके शरीरमें कुछ परिवर्तन होता है। इन औषधको वे लोग प्रायः सबही रोगोंमें दिया करते हैं। जैसे कि पहले जापानके वैद्य प्रत्येक रोगमें मुलैठी दिया करते थे।

यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि रोगीको तिब्बतके वैद्यके हवाले न करके उमको ईश्वरके भरोसे छोड़े तो अवश्यही अच्छा हो जावे।

सत्तरवां परिच्छेद



मैदानके खेल

यों तो तिब्बतमें कई भातिकी ज्योनारें हुआ करती हैं परन्तु तो मुझको सबसे अच्छी ज्ञात हुई है उसका नाम लिका है। यह एक प्रकारकी गार्डनपार्टीकी भाति होती है जो कि नगरके बाहर जगलोंमें हुआ करती है।

तिब्बतवालोंमें झगडा करना एक साधारण गुण है। यदि चार मनुष्य भी इकट्ठे हो जावें तो बिना झगडा किये कभी अलग न होंगे। परन्तु इस लिका पार्टीमें यह बात नहीं है। वडे-से वडे झगडालू भी इस समय चुप रहते हैं। जो लिका पार्टी योद्धा लामाओंकी ओरसे हुआ करती है वह बड़ी जोशीली हुआ करती है, परन्तु उसमें भी लडाईं झगडा नहीं हुआ करता।

यह पार्टी लासाके दक्षिणको छोडकर, क्योंकि उधर नदी है, शेष तीनों ओर किसी हरे भरे मैदानमें हुआ करती है। बहुधा जाडा निकल जानेपर गर्मियोंमें होती है। इसमें खानेको रोटी, भूनी हुई तरकारी, मास, पनीर, अगूर, सूखे आडू, सूखा मास, मदिरा और चाय हुआ करती है। यहा देशी दो प्रकारकी मदिरा घनती है—एक जौ अथवा गेहूसे और दूसरी चावलसे।

लोग यहा अपनी २ चटाइया बिछा लेते हैं और सत्रे नौ घंटेसे प्रायः छ वजेतक रहा करते हैं। यहा नाच रग भी होता

है। वहाके नाचमें मैंने तो प्रशंसा योग्य कोई बात नहीं पाई परन्तु वह लोग बड़े चावसे उसको देखते हैं। यह लिंका पार्टी ऊंचे दर्जेके तिब्बतवासियोंकी है। इसके अतिरिक्त मध्यम अथवा निम्न श्रेणीके लोग भी इसको करते हैं। उसमें भी मदिरा पी जाती है और जुआ अथवा कुस्ती, जैसी रुचि हो, काम होता है। इनके यहा भी नाच हुआ करता है। लडाईं झगडा इन लोगोंमें भी इस समयपर नहीं होना।

एकहत्तरवां परिच्छेद

रूसको तिब्बती नीति

जहातक मैंने देखा है तिब्बतवासियोंमें स्वार्थपरता बहुत है। देशभक्ति उनमें तनिक भी नहीं है। यह बात नहीं है कि वह 'देशभक्त' का अर्थ न समझते हों परन्तु उनकी स्वार्थपरता उनको उस देशके काम करनेसे रोकती है।

यह लोग अपने जमकी ओरसे भी ऐसे उदासीन हैं कि बहुत ही थोड़े ऐसे होंगे जो अपने रुपयेसे धर्मकी रक्षा करना चाहते हैं और उसकी वृद्धिका उद्योग करते हैं। अधिकतर ऐसेही हैं जो कि अपने निजके लाभके आगे धर्मको कुछ नहीं समझते हैं। साधारण मनुष्य अपने धर्मको ही सब कुछ मानते

हैं और यदि कोई मनुष्य धर्मविरुद्ध चले और धर्मको व्याघात पहुँचावे तो उसको मृत्युदण्डका भागी समझते हैं।

मैं पहले लिख चुका हूँ कि यहाँकी स्त्रिया बड़ी ही स्वार्थी हुआ करती हैं। जब यह पैसे हैं तो इनके घड़े फहातक निस्वार्थी होंगे। पहले मैंने समझा था कि स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुष कम स्वार्थी हैं परन्तु यह मेरी भूल थी। यदि कोई दूसरा राज्य इस घातको जान ले तो फिर वह भी ऐसे मूर्खों की मूर्खतासे लाभ क्यों न उठावे। इसके लिये केवल इतना ही दरकार है कि वहाँके राजाका हृदय अपनी ओर पीँच ले और मन्त्रीवर्ग को अपने चशमें फेर ले फिर आगे तो सब काम सहज है। सो भी मन्त्रीवर्ग जो काम चाहिये सोनेके लोभमें करनेको प्रस्तुत हैं। यदि उनका पेट भर गया है तो उनके देश और उसकी प्रजाके दुःख सुखकी उनको कुछ चिन्ता नहीं है विदेशी राजनीतिज्ञोंको तिब्बतपर अपना प्रभुत्व करना सुगम न समझना चाहिये। यद्यपि तिब्बतके मन्त्रीलोग रुपयेके लोभी हैं तो भी तिब्बतकी कोई राजनीति नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रायः अपने हृदयके भावोंके अनुसार किये जाते हैं। वे थोड़ेसे भी कारणसे बदल सकते हैं। बहुतसी रिश्वत पचाकर भी थोड़ेसे कारणसे तिब्बतवासियोंका हृदय बदल जाता है।

तिब्बतके उत्तरपूर्वमें घुरियाट्स नामक जाति मंगोलियाकी रहती है। पहले वह चीनके मातहत थी परन्तु कुछ दिनोंसे वह रूसके अधिकारमें आ गई है। रूसवालोंने इन लोगोंके साथ बड़ा

अच्छा व्यवहार किया और उनके धर्मकी वृद्धिमें भी बहुत आर्थिक सहायता की। उनके विहार भी बना दिये। यद्यपि रूसके लिये यह बात बिलकुल ही नई थी परन्तु उसको तो उन लोगोंके हृदय वशमें करना था इसलिये वह ऐसे ढोंग बना रहा था। इन्हीं लोगोंमेंसे बहुतसे लडके लासाको पढ़नेको जाया करते हैं। यही लोग मेंण्डन, रेयन, सेरा और त्शीलुन्यों के विहारोंमें पढ़ने जाते हैं। इस जातिके प्राय. दो सौ लामा सदैव लासामें पढा करते हैं। इनमेंसे कोई २ बहुत अच्छे पुरोहित निकल जाते हैं। उन्हींमें एक दोरजे नामक लामा था जो बहुत ही कम उमरमें तत्कालीन दलाईलामाका गुरु हो गया था।

प्राय बीस वर्ष हुए इसको सरकारसे माननीय पदवी त्सानीकेनवोकी मिली थी। इसके अतिरिक्त दलाईलामाके और भी तीन गुरु थे परन्तु दलाईलामाके ऊपर इसका ही बहुत प्रभाव था।

जब वह दलाईलामाको पढा चुका तो अपने घर चला आया। उसने घर आकर रूसी गवर्नमेण्टसे अपनी नौकरीका सब हाल कह सुनाया। शीघ्र ही त्सानीकेनवो फिर लासा आया परन्तु अथकी थार वह निर्धन विद्यार्थी होकर नहीं गया था पर धनी पुरोहित बनकर गया था। वह अपने साथ बहुतसा सोना और रूसकी बनी हुई भाति भातिकी वस्तुओंके सन्दूक लाया। यह सोना और बहुमूल्य वस्तुयें रूस गवर्नमेण्टने उसको दी थी।

दलाईलामा और उसके मन्त्रीवर्ग ही इस सोने और उन वस्तुओं के लेनेवाले थे। मन्त्रियोंमें शाता नामक एक मन्त्री था उसको ही सबसे अधिक भाग मिला। यह त्सानी केनचो जयसे लासासे गया था तबसे ही आदरकी दृष्टिसे देखा जाता था। अब इतनी भेंट घाटने आया है, अब तो उसको प्रशसाका ठिकाना ही क्या था।

दलाईलामा अपने गुरुकी बातोंको मन लगाकर सुननेके लिये प्रस्तुत हो गया और शातासे त्सानी केनचोकी ऐसी मित्रता हो गई मानों वे सगे भाई थे। त्सानी केनचोने उन लोगोंको ही धन नहीं दिया वरं सब ही विहारोंके पुरोहितोंको दिया जिसके कारण सब ही मुक्ककण्ठसे उसकी प्रशसा करने लगे। उनको इससे क्या मतलब था कि वह यह धन कहासे लाया है। किसीने यदि सरकारी अफसरोंमेंसे किसीसे पूछा भी तो वह कथ बुराई कर सकता था। उसने कह दिया कि मङ्गोलियोंमें उसके पाण्डित्यकी बहुत धूम है अतएव वहाके अमीरोंसे उसने यह धन पाया है।

तिज्यतमें किसी समयमें किसी लामाने भविष्यवाणी कही थी। उसने उसमें लिखा था कि कश्मीरके उत्तरमें कई शताब्दों पीछे बुद्धदेवका अवतार होगा जिसके अधीन समस्त संसार होगा। मुसलमानोंसे पहले भी वहा बौद्ध धर्म प्रचलित था। अतएव फिर भी किसी दिन वहा अवश्य ही बौद्ध धर्मका प्रचार होगा। जिस देशमें वह अवतार होगा उसका नाम कणशम्माला होगा।



वर्षके बुद्ध गयाके मन्दिरसे प्रायः तीन हजार मील उत्तरमें वह देश होगा। तिब्बतमें जब यह धर्म लुप्तप्राय हो जावेगा तब अवतार होगा।

तसानीकेनवोको यह हाल मालूम था। अतएव उसने इसी भविष्यवाणीसे अपना काम निकालना चाहा। उसने एक लेख लिखा जिसमें प्रगट किया कि चंगशम्भाला देश ही रूस है। जार ही जीत्साग खापाके अवतार हैं जारमें उस अवतारके सब गुण पाये जाते हैं। सब बौद्ध धर्मके अनुयाइयोंको चाहिये कि उसके आगे सिर झुकाया करें। इसको उसने तिब्बतकी मगोलियन और रूसीभाषामें निकाला। मैंने इस लेखको अपनी आँखोंसे नहीं देखा परन्तु मैंने विश्वसनीय मनुष्य द्वारा सुना कि जिस किसी के पास है उसने बहुत सावधानीसे उनको रख छोडा है। मैंने उसके विषयमें बहुत कुछ पूछताछ भी इस भावसे नहीं की कि किसीको मेरे ऊपर सन्देह न हो जाय। एक मनुष्य जिसने मुझे उसकी नकल दिखलाई थी (वह ठीक नकल नहीं थी) उसने कहा कि कोई २ अक्षर उसमें ऐसे थे जो पढ़े नहीं जाते थे। मैं समझ गया कि वह अक्षर रूसी भाषाके होंगे।

इस लेखका तिब्बतवालोंपर ऐसा विश्वास जम गया कि वह समझने लगे कि किसी न किसी दिन जार समस्त ससारका राजा होगा और वही बुद्धदेवका अवतार है।

एक और भी कारण हुआ जिससे रूस तिब्बतवालोंकी दृष्टिमें वास्तु ऊँचा हो गया। वह यह था कि रूससे जो फ्रेन्सी

वस्तुयें आई थीं वह बहुत अच्छी थीं और जिस कामके लिये वह बनाई गई थीं वह काम देनेमें भी मजबूत थीं। भारतवर्षसे जो फेन्सी वस्तुयें आया करती थीं वह इतनी उपयोगी नहीं थीं। यद्यपि इनका दाम अधिक न था तो भी रूसकी वस्तुयें बेचनेके लिये नहीं आई थीं अतएव उनके दाम भी कुछ न थे। इन बातोंका ध्यान करके तिब्बतवालोंने यही निश्चय किया कि इन वस्तुओंकी तैयार करनेवाली जाति अवश्य ही सब जातियोंसे निकम्मी तथा अशिष्ट है।

जिस समय में लासामें था उस समय मेंने बिलकुल सत्य एक और बात सुनी थी। उस समय उसको दो वर्ष हुए थे। यह बात बहुतही गोपनीय रखी गई थी। बात यह थी कि रूसके जारने एक बहुत बढिया विशपके भेंट योग्य लयादा दलाईलामाके पास भेजा था। अब यहापर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि वह लयादा केवल बहुमूल्य होनेके कारण ही दिया गया था और धार्मिक दृष्टिसे भेंट नहीं किया गया था तो उस लयादेकी मान हानि थी क्योंकि जिसको वह दिया जाता है वह मनुष्य विशप समझा जाता है और यह साधारण पदवी नहीं है और यदि वह लयादा धार्मिक दृष्टिसे ही दिया गया था तो लामाधर्म ईसाई मतसे बिलकुल ही भिन्न है। जारको इस लयादाके भेंट करनेका अधिकार ही क्या था। परन्तु वास्तवमें बात यह थी कि न तो जारने ही इसका कुछ विचार किया और न दलाईलामाने ही कुछ ध्यान दिया।

दलाईलामाने वह भेंट स्वीकार कर ली। दलाईलामा उसको स्वीकार न करता यदि कोई आक्षेप खडा करता तो बहुत ही गडबड ही जानेका भय था। परन्तु यह बात ऐसे ही रह गई। यदि दलाईलामाने कुछ पूजा भी होगा तो त्सानीकेवोनें कुछ समझा दिया होगा। और शाताने जो कि त्सानीका मित्र था उसमें उसका भी हाथ था।

शाता, जो कि दलाईलामाका सबसे बडा प्रधान मन्त्री है घरेलू झगडोंके कारण उस समय बहुत खराब अवस्थामें थीं। उस समय वह तिब्बतमें स्वाधीन भावसे रह भी नहीं सकता था वह कभी दार्जिलिंग और कभी शिकममें ही रहता था। जब कि वह इस भाति घूम रहा था उसने भारतवर्षपर इङ्ग्लैण्डकी शासनकी रीति देखी और भातर्वर्ष किस भाति इङ्ग्लैण्डके हाथमें आया इत्यादि सब सुना, अतएव शातासे बढ़कर जानकार उस समय तिब्बतमें कोई नहीं था। उसको इङ्ग्लैण्डकी शक्तिका बडा भय हो गया और वह समझने लगा कि यदि इङ्ग्लैण्ड चाहेगा तो तुरन्तही तिब्बतको अधिकारमें कर सकेगा। उसकी शक्तिको कोई नहीं रोक सकता। उस समय दलाईलामाके नीचे प्रधान मन्त्री टेमोरिपनचोचे शाताका परम शत्रु था। जब वह अपने पदसे अलग हुआ और शाताको अवसर मिला तो वह शीघ्र ही तिब्बतमें आया और शीघ्र ही दलाईलामाने उसको प्रधान मन्त्री बना लिया। शाताको तिब्बतके लिये इङ्ग्लैण्डका भय सदैव ही सताता रहता था उसने सोचा।

कि यदि रूस अथवा चीनसे तिब्बतको सहायता मिले तो वह इङ्ग्लैण्डके हमलेसे बच सकती है। यह इसी उधेडुनमें था कि उसको मंगोलियन मित्र त्सानीकेनचोकी सहायता मिली और उसने दलाईलामाको वह अनुपम भेंट देना चाहा।

जबसे जापान और चीनमें लड़ाई हुई थी और चीनकी हार हुई थी तबसे चीनका तिब्बतपरसे प्रभाव उठ गया था। यह भी एक कारण हुआ कि तिब्बतने रूससे मित्रता कर ली। क्योंकि बलवान होनेके अतिरिक्त वह इङ्ग्लैण्डका प्रबल वैरी भी था।

दलाईलामाने रूसके जारकी भेंट स्वीकार कर ली। इससे यह भी ज्ञात होता है कि वह भी शांताके विचारोंसे सहमत था। नहीं तो वह ऐसी साधारण अक्लका आदमी नहीं कि किसी विदेशीकी भेंट अनायास ही स्वीकार कर ले।

सन् १६०० में दलाईलामाने अपने एक प्रधान मन्त्रीको कई और दरबारियोंके साथ रूसके जारके पास भेजा जोकि पहले तो त्सानीकेनचोके घरपर मंगोलिया गये और वहासे रूसकी रेलपर सवार होकर सेण्टपीट्सबर्ग (पिट्रोग्रेड) जारके पास पहुँचे। जारने उन लोगोंको बड़े आदरसे लिया और जो भेंट दलाई लामाने भेजी थी उसको सहर्ष स्वीकार किया। इस अवसरपर दोनों सरकारोंमें परस्पर कुछ गुप्त बातें भी हुई।

सन् १६०१ के दिसम्बरमें यह लोग तिब्बतको लौटे। इस समय में लासामें ही था। उन लोगोंको तिब्बतमें आये प्राय दो

दलाईलामाने वह भेंट स्वीकार कर ली। दलाईलामा उसको स्वीकार न करता यदि कोई आक्षेप खडा करता तो बहुत ही गडबड ही जानेका भय था। परन्तु यह बात ऐसे ही रह गई। यदि दलाईलामाने कुछ पूजा भी होगा तो त्सानीकेवोनें कुछ समझा दिया होगा। और शाताने जो कि त्सानीका मित्र था उसमें उसका भी हाथ था।

शाता, जो कि दलाईलामाका सबसे बडा प्रधान मन्त्री है घरेलू झगडोंके कारण उस समय बहुत खराब अवस्थामें थीं। उस समय वह तिब्बतमें स्वाधीन भावसे रह भी नहीं सकता था वह कभी दार्जिलिंग और कभी शिकममें ही रहता था। जब कि वह इस भाति घूम रहा था उसने भारतवर्षपर इङ्ग्लैण्डकी शासनकी रीति देखी और भातरवर्ष किस भाति इङ्ग्लैण्डके हाथमें आया इत्यादि सब सुना, अतएव शातासे बढकर जानकार उस समय तिब्बतमें कोई नहीं था। उसको इङ्ग्लैण्डकी शक्तिका बडा भय हो गया और वह समझने लगा कि यदि इङ्ग्लैण्ड चाहेगा तो तुरन्तही तिब्बतको अधिकारमें कर सकेगा। उसकी शक्तिको कोई नहीं रोक सकता। उस समय दलाईलामाके नीचे प्रधान मन्त्री टेमोरिपनचोचे शाताका परम शत्रु था। जब वह अपने पदसे अलग हुआ और शाताको अवसर मिला तो वह शीघ्र ही तिब्बतमें आया और शीघ्र ही दलाईलामाने उसको प्रधान मन्त्री बना लिया। शाताको तिब्बतके लिये इङ्ग्लैण्डका भय सदैव ही सताता रहता था उसने सोचा।

कि यदि रूस अथवा चीनसे तिब्बतको सहायता मिले तो वह इङ्ग्लैण्डके हमलेसे बच सकती है। वह इसी उधेडवुनमें था कि उसको मंगोलियन मित्र त्सानीकेनवोकी सहायता मिली और उसने दलाईलामाको वह अनुपम भेंट देना चाहा। -

जबसे जापान और चीनमें 'लडाई हुई थी और चीनकी हार हुई थी तबसे चीनका तिब्बतपरसे प्रभाव उठ गया था। यह भी एक कारण हुआ कि तिब्बतने रूससे मित्रता कर ली। क्योंकि बलवान होनेके अतिरिक्त वह इङ्ग्लैण्डका प्रबल वैरी भी था।

दलाईलामाने रूसके जारकी भेंट स्वीकार कर ली। इससे यह भी ज्ञात होता है कि वह भी शाताके विचारोंसे सहमत था। नहीं तो वह ऐसी साधारण अक्लका आदमी नहीं कि किसी विदेशीकी भेंट अनायास ही स्वीकार कर ले।

सन् १६०० में दलाईलामाने अपने एक प्रधान मन्त्रीको कई और दरबारियोंके साथ रूसके जारके पास भेजा जोकि पहले तो त्सानीकेनवोके घरपर मंगोलिया गये और वहासे रूसकी रेलपर सगर होकर सेण्टपीटर्सबर्ग (पिट्रोग्रेड) जारके पास पहुचे। जारने उन लोगोंको बड़े आदरसे लिया और जो भेंट दलाईलामाने भेजी थी उसको सहर्ष स्वीकार किया। इस अवसरपर दोनों सरकारोंमें परस्पर कुछ गुप्त बातें भी हुई।

सन् १६०१ के दिसम्बरमें यह लोग तिब्बतको लौटे। इस समय में लासामें ही था। उन लोगोंको तिब्बतमें भाये प्राय दो

महीने हो चुके थे। एक दिन मैं घोड़ेपर सवार होकर लासासे प्रायः पचास मील दूर एक स्थानको जा रहा था कि मैंने देखा कि प्रायः दो सौ ऊंट उत्तरपूर्वकी ओरसे आ रहे हैं। प्रत्येक ऊटके ऊपर दो दो सन्दूक लदे हुए थे। यह सन्दूक चमडोंसे ढके हुये थे अतएव मैं कुछ न समझ सका कि इन ऊंटोंपर क्या लदा हुआ है। सन्दूक बहुत छोटे २ थे इसलिये मैंने समझा कि दलाईलामाके भेटके लिये मंगोलियनोने चांदी भेजी होगी। मैंने ऊंटवालोंसे पूछा भी परन्तु वह कुछ न बतला सके। - वह कहीं राहमें ही किरायेपर लिये गये थे अतएव उनको कुछ नहीं मालूम था। यद्यपि वे लोग समझते थे कि इनमें जो चांदी है वह भी चीनसे नहीं किसी और अज्ञात स्थानसे आई है जिसका हाल उनको मालूम नहीं था।

जब मैं अपने मित्र अर्थसचिवके यहा पहुंचा और ऊंटोंका हाल कहा तो उसने कहा कि ऊट रूससे आये हैं परन्तु उनमें क्या भरा हुआ है इसको उसने गुप्त कहकर टाल दिया। यह सुनकर मैं घरके बाहर निकला और इस बातका निर्णय करनेकी चेष्टा करने लगा।


मेरी भेंट एक और सरकारी आदमीसे थी वह इतना बातूनी था कि कोई भेद उसके पेटमें ठहर नहीं सकता था। उससे बातों ही बातों मैंने ऊंटोंके विषयमें पूछा तो उसने कहा कि यह बड़ी गोपनीय बात है। इसी भांति तीन सौ ऊट और भी पहले आ चुके हैं इनमें बन्दूकें, गोलिया, और कारतूस इत्यादि हैं। अब

हमलोग बखटके दो गये । यदि इंग्लैण्ड तिब्बतके ऊपर आक्रमण करे तो इतने हथियारोंसे तिब्बत अपनेको बचा सकता है ।

मैंने उनमेंसे एक बन्दूक देगी भी थी । वह दूरकी मारकी बन्दूकें नहीं थीं और अमेरिकाकी बनी हुई थीं । परन्तु तिब्बतवाले अंग्रेजी अक्षरोंसे नितान्त अनभिज्ञ हैं अतएव उन्होंने समझ लिया कि यह रूमकी बनी हुई हैं ।

चीनने जब देखा कि तिब्बत उसके अधीन रहकर रूसके नीचे जाना चाहती है तो पहले तो उसने त्सानीकेनवोके फार्मोपर आक्षेप किया परन्तु जब उसकी किसीने कुछ नहीं सुनी तो वह उदासीन होकर बैठ रही । त्सानीकेनवो गुप्त भावसे दार्जिलिंग और नेपालको भेजा गया । उसके इन फार्मोंको ब्रिटिश सरकार और नेपालने भी देखा और उसे सदेहकी दृष्टिसे देखा ।

बहत्तरवां परिच्छेद



तिब्बत और ब्रिटिश इण्डिया

तिब्बतके निवासी अतिथिका घडा आदर करते हैं । परन्तु ब्रिटिश गवर्मेंटसे उनका मेल नहीं हुआ । उसका यह कारण था कि दोनों ही ओरसे कुछका कुछ समझ लिया गया । यदि ब्रिटिश सरकार शरत्चन्द्र दासको न भेजती जिसके कारण वहाँ के कई बड़े २ मनुष्य मारे गये और रूसकी भाति मिलकर

करती तो तिब्बतमें रूसका जैसा प्रभाव हो गया है ब्रिटिश सरकारका उससे कहीं बढ़कर हो जाता। शरत् बाबूके जानेसे तिब्बतको इस ओरसे बड़ा खटका हो गया जिसका फल यह हुआ कि केवल अंग्रेज ही नहीं, बर रूस और फारिसवालोंकी राह भी बन्द हो गई।

भारत-सरकार तिब्बतवालोंका हृदय अपने वशमें करनेको भूल नहीं गई है क्योंकि वह दार्जिलिंगमें आये हुए तिब्बतके लोगोंके लडकोंको बिना फीस स्कूलोंमें पढाती है। उनमें जो लडके प्रखर बुद्धिके हैं उनको ऊँचे दर्जेकी शिक्षा देती है। सर्वमें, पोस्ट विभागमें और शिक्षा विभाग इत्यादिमें उनको नौकरी भी देती है। दार्जिलिंगमें पालकी उठाने वालोंकी आय बहुत है अतएव इस काममें वहाँके लोगोंको न रखकर भारत सरकारने तिब्बतवालोंको ही यह काम दे रखा है। भारतवर्षकी पुलिस भी उन लोगोंके साथ उतना कडा व्यवहार नहीं करती है जितना कि भारतवासियोंके साथ करती हैं।

ऐसे व्यवहारोंसे उन लोगोंके हृदयोंमें भी ब्रिटिश सरकारकी भक्ति बढ़ जाती है और अपने यहाकी गवर्मेंटको घुरी दृष्टिसे देखने लगे हैं। तिब्बतमें छोटे २ अपराधोंपर भी बड़े २ कठोर दण्ड जैसे हाथ काट डालना, आँखोंको निकाल लेना इत्यादि दिये जाते हैं जैसे दण्ड यहा कहीं देखने और सुननेमें भी नहीं आते। जो तिब्बतवासी यहाके सडके, रेल तार और टेलीफोन

इत्यादि देखता है वह भौंचक रह जाता है और उसकी यही इच्छा होती है कि लौटकर तिब्बतको न जावें।

इन सब बातोंसे वे समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार बहुत धनी है। उसका प्रभाव भी बहुत है। यह सब होने पर भी हमारी सरकारने कोई प्रभाव अभीतक तिब्बतके सरकारी चक्र-पर नहीं जमाया।

वहाके पदाधिकारियोंपर घूसकी बड़ी कड़ी जकड है। जहातक में समझता हूँ रुसका प्रभाव भी इसी कारण है कि तिब्बतके उच्च पदाधिकारी रुससे धन प्राप्त करते रहते हैं। वैसे सम्वन्ध हमारी सरकारसे उनका नहीं है। जैसा उन लोगोंने रुसके जारको अवतार समझ लिया है वैसे हमारी सरकारको वह नहीं समझ रहे हैं।

वहाके लामाओंका अंग्रेजी सरकारके विषयमें विचित्र भाव है। वे निर्णय नहीं कर सके कि अंग्रेजी सरकारको राक्षसोंका अवतार समझें या सन्तोंका, सरकारके उपकारक विभाग, शिक्षणालय, तथा रेल तार, पोस्ट आफिस आदि देखते हैं तो लामा समझते हैं कि वे बौद्ध धर्मको बहुत अच्छी तरह समझते हैं और सरकार अवश्य देवचशकी है। परन्तु जय देखते हैं कि दूसरेके राज्यको हरण करके वे तुरन्त अपने राज्यमें मिला लेते हैं तब उनका वह भाव बदल जाता है। दोनों विरोधी विचार उनके मस्तिष्कोंमें उठते हैं और समस्या नहीं सुलभती। वे समझ लेते हैं दो प्रकारके अंग्रेज भारतमें हैं—एक देव समान उपकारी

दूसरे दुष्ट राक्षस-स्वभावके हैं। अन्यथा ऐसे दो विरुद्ध दृश्य जैसा भारतमें दीख रहा है कभी न दीखता।

रानी विक्टोरियाको वे लोग अपनी देवी लामो पेन्डनका अवतार समझते थे जिससे वह इतने बड़े साम्राज्यकी रानी बनी, इससे तिब्बतवासियोंका इस रानीके प्रति बड़ा प्रेम, आदर-भाव रहा। परन्तु वे समझते थे कि रानीके दरबारियोंमेंसे कुछ एक बहुत दुष्ट हैं। जैसे बुद्धके शिष्योंमेंसे कई एक ऐसे भी थे। वे रानीको उन दुष्टोंसे पृथक् किया चाहते हैं। रानीकी मृत्युका समाचार पहुँचनेपर तिब्बती बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने समझा कि हमारी वही देवी फिर तिब्बतमें आ गई है।

वहाके पढ़े लिखे प्राय मुझे बुद्धगया आदिके विषयमें बहुत पूछते थे परन्तु मैं प्राय सन्देहजनक स्थलोंपर मौन रहता था।

यदि इस तिब्बतमें लासातक अपनी सेना भी भेजना चाहे तो इस कार्यके लिये साईवेरियन रेलवे कोई प्रयोजनकी नहीं। समीपतम स्टेशनसे लासा इतनी दूर है कि दूरता ही सेनाके आक्रमणके लिये पर्याप्त बाधक है। यदि मार्गमें कोई बाधा न हो तो भी रेगिस्तान और टोलोंसे भरे प्रदेशोंसे भरा बीचका मार्ग पार करनेके लिये ५—६ मास लग जाय। मार्गमें आमदो और पामकी लुटेरी जङ्गली जातिया भी तिब्बतके लिये एक अच्छी रक्षा है। वे कभी किसीके कावूमें नहीं आ सकतीं। चाहे कितने ही सुसज्जित तथा प्रचल उन्नत शस्त्रास्त्र सम्पन्न सेवाएँ क्यों न हों तो भी ये भयानक जंगली जातियाँ निसर्गत-

उन अरण्य प्रदेशोंमें अधिक लाभमें रहती हैं। त्सानवीकेनवो इस बातको खूब समझता था। इसीलिये उसने जारको अवतार बनाकर शस्त्रास्त्रोंसे असाध्य आतङ्कको साम उपायसे सहजमें ही जमानेका प्रयत्न किया। त्सानवीका प्रयत्न उसकी आशाके अनुसार पूरा सफल न हुआ। कदाचित् उसके विरुद्ध भी कोई विशेष प्रतिक्रिया होनेका भय है।

तिब्बतियोंके हृदयोंमें चीनका प्राचीन कालसे आतङ्क पैदा हुआ है। वे वहाके राजाको भी बौद्ध देवता चागचुवका अवतार मानते हैं। त्सानवीके लिये चीनके विषयमें जमे भावोंका भेद देना भी कठिन है।

कई एक शासक भी त्सानवीके आन्दोलनपर विश्वास नहीं करते। वे रूसके सब कामोंको सदेहसे देखते हैं। तिब्बतमें समाचारपत्र नहीं है। तो भी वहाकी जनताके आगे पीछे मुख्य २ घटनाओंका पता लग जाता है। इसी प्रकार परिमित व्यक्तियोंकी विपरीत गुप्त मन्त्रणाये भी सर्वसाधारणमें कुछ न कुछ खुल जाती है। इससे कई एक लामा लोग मिलकर शाताके विरुद्ध भी जुट गये। विहारके लामा और योद्धा लामा भी इस प्रत्यान्दोलनमें भाग लेने लगे।

अप्रत्याक्षोंके अनुसार त्सानवीके रूस सम्बन्धी आन्दोलनका भी विरोध होने लग गया। अब आगे देखें रूस तिब्बतको बश करनेका क्या उपाय करता है।

ब्रिटिश सरकारका तिब्बतसे बहुत दिनोंसे सम्बन्ध बला

दूसरे दुष्ट राक्षस-स्वभावके हैं। अन्यथा ऐसे दो विरुद्ध दृश्य जैसा भारतमें दीख रहा है कभी न दीखता।

रानी विक्टोरियाको वे लोग अपनी देवी लामो पेन्डनका अवतार समझते थे जिससे वह इतने बड़े साम्राज्यकी रानी बनी, इससे तिब्बतवासियोंका इस रानीके प्रति बड़ा प्रेम, आदर-भाव रहा। परन्तु वे समझते थे कि रानीके दरबारियोंमेंसे कुछ एक बहुत दुष्ट हैं। जैसे बुद्धके शिष्योंमेंसे कई एक ऐसे भी थे। वे रानीको उन दुष्टोंसे पृथक् किया चाहते हैं। रानीकी मृत्युका समाचार पहुँचनेपर तिब्बती बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हींने समझा कि हमारी बही देवी फिर तिब्बतमें आ गई है।

वहाके पहे लिखे प्रायः मुझे बुद्धगया आदिके विषयमें बहुत पूछते थे परन्तु मैं प्रायः सन्देहजनक स्थलोंपर मौन रहता था।

यदि रूस तिब्बतमें लासातक अपनी सेना भी भेजना चाहे तो इस कार्यके लिये साईबेरियन रेलवे कोई प्रयोजनकी नहीं। समीपतम स्टेशनसे लासा इतनी दूर है कि दूरता ही सेनाके आक्रमणके लिये पर्याप्त बाधक है। यदि मार्गमें कोई बाधा न हो तो भी रेगिस्तान और टोलोंसे भरे प्रदेशोंसे भरा बीचका मार्ग पार करनेके लिये ५—६ मास लग जाय। मार्गमें आमदो और खामकी लुटेरी जङ्गली जातिया भी तिब्बतके लिये एक अच्छी रक्षा है। वे कभी किसीके कावूमें नहीं आ सकतीं। चाहे कितने ही सुसज्जित तथा प्रबल उन्नत शस्त्रास्त्र सम्पन्न सेनाएँ क्यों न हों तो भी ये भयानक जंगली जातियाँ निसर्गतः

उन अरण्य प्रदेशोंमें अधिक लाभमें रहती हैं। त्सानचीकेनवो इस बातको खूब समझता था। इसीलिये उसने जारको अवतार बनाकर शस्त्रास्त्रोंसे असाध्य आतङ्कको साम उपायसे सहजमें ही जमानेका प्रयत्न किया। त्सानचीका प्रयत्न उसकी आशाके अनुसार पूरा सफल न हुआ। कदाचित् उसके विरुद्ध भी कोई विशेष प्रतिक्रिया होनेका भय है।

तिब्बतियोंके हृदयोंमें चीनका प्राचीन कालसे आतङ्क पैदा हुआ है। वे वहाके राजाको भी बौद्ध देवता चांगचुनका अवतार मानते हैं। त्सानचीके लिये चीनके विषयमें जमे भावोंका भेद देना भी कठिन है।

कई एक शासक भी त्सानचीके आन्दोलनपर विश्वास नहीं करते। वे रूसके सब कामोंको सदेहसे देखते हैं। तिब्बतमें समाचारपत्र नहीं है। तो भी वहाकी जनताके आगे पीछे मुख्य २ घटनाओंका पता लग जाता है। इसी प्रकार परिमित व्यक्तियों की विपरीत गुप्त मन्त्रणायें भी सर्वसाधारणमें कुछ न कुछ खुल जाती हैं। इससे कई एक लामा लोग मिलकर शाताके विरुद्ध भी जुट गये। विहारके लामा और योद्धा लामा भी इस प्रत्यान्दोलनमें भाग लेने लगे।

अप्रत्याक्षोंके अनुसार त्सानचीके रूस सम्बन्धी आन्दोलनका भी विरोध होने लग गया। अब आगे देखें रूस तिब्बतको प्रशस्त करनेका क्या उपाय करता है।

ब्रिटिश सरकारका तिब्बतसे बहुत दिनोंसे सम्बन्ध चला

आता है और कभी लडाईं भगडा भी नहीं हुआ। अठारहवीं शताब्दीमें जब वारेन हेस्टिंग्स वाइसराय थे, उन्होंने जार्ज बोगलको तिब्बत भेजा था और वह कई वर्ष शिगात्जेमें रहे थे। उनके पीछे कप्तान टरनर भी वहीं रहे। तबसे कोई नहीं गया परन्तु श्वर चौबीस वर्ष पहले किसी भी भारतवर्षके मनुष्यको वहा जानेकी मनाई नहीं थी। बहुधा इन जानेवालोंमें तीर्थयात्री ही हुआ करते थे जो कि तीर्थस्थानोंके दर्शनोंके लिये जाया करते थे। शरत्चन्द्र दाससे पहले यह साधारण बात थी। लोग कहते हैं कि बहुतसे नगे साधु पानीका तुम्बा और चिमटा हाथमें लिये हुए और मुखभर भस्म लगाए तिब्बतको जाते दिखाई देते थे। और पद्यपि शरत्चन्द्र वायूके कारण दोनों सरकारोंका हृदय फोका पड गया परन्तु सर्वसाधारणके हृदयोंमें वही प्रेम बने रहे।

शरत्चन्द्र दासका शिकमके पुरोहित बनकर जाना और उसके पीछेके भगदने दोनों ओर मनमुटाव कर दिया। इस शरत् वायूकी यात्राका हाल सुनकर ब्रिटिश सरकारकी इच्छा हुई कि शिकम (जो कि सरकारके मातहत है) की सरहद ठीक हो जानी चाहिये क्योंकि तिब्बत सरकार एक मूर्ख नेचग लामाके कहनेमें आकर एक दुर्ग शिकमकी भूमिमें बनाकर वहीं पर अपनी हद बनाना चाहती थी। सुना जाता है कि पहले तो तिब्बत सरकार ऐसा करनेपर सहमत न थी परन्तु जब नेचग महाशयने कहा कि, इस दुर्गमें रहकर ब्रिटिश सरकारकी कितनी

ही फौजें क्यों न आवें सब निशस्त्र की जा सकती हैं तब तिब्बत सरकारने दुर्ग बनाना आरम्भ किया था। उसने समझा दिया कि इस दुर्गके बननेसे सदैवका भगडा मिट जावेगा और यह दुर्ग सदाके लिए हमारी सीमा हो जायगा।

नेचगके कथनानुसार शिकमकी भूमिमें दुर्ग बन गया। दुर्गके बननेका समाद पहुंचते ही भारतवर्षको फौजने जाकर उस दुर्गको विध्वंस कर दिया। यह दुर्ग नयातोंगसे प्राय २० मील इधर है। यदि इसीपर गिपटारा हो जाता तो ठीक था परन्तु तिब्बतने अपनेको सच्चा प्रमाणित करनेके लिये कहा कि शिकम पहले हमसे भारत सरकारने अनुचित रीतिसे लिया है। इसका फल यह निकला कि ब्रिटिश सरकार और तिब्बतमें युद्ध ठन गया। भारतवर्षसे भी फौजें जा पहुचीं और तिब्बतसे भी आईं। यद्यपि तिब्बतवालोंको स्थान बहुत अच्छा मिला था परन्तु न तो उनकी फौज रणमें चतुर थी और न अच्छे अफसर ही थे। तिसपर भी तुरा यह कि अफसर लडाईकी आशा देकर आप कैम्पोंमें विश्राम करते थे। अतएव वह अफसर घायल भी न हुए और भाग गये। वह लोग लडाईके मैदानमें न आकर अपने डेरोंमें बैठे जुआ खेलते रहते थे। फल यह हुआ कि तिब्बतकी बहुत सी सेना मारी गई। इधर बहुत थोड़ी हानि हुई। यदि ब्रिटिश सरकार चाहती तो अपनी हद चुम्बीसम्बापर रखती परन्तु उसने ऐसा न करके नयातोंग तक ही रखी।

यद्यपि उस समयके चाइसरायका यह काम उचित ही था परन्तु मेरी समझमें यदि वह तनिक दब जानेकी पालिसीपर चलते तो आगेके लिये बहुत फलदायक होता। कौन कह सकता है कि यदि उस समय सरकार कुछ भूमि देकर थोड़ी सी हानि उठा लेती तो इस समय अंगरेजी झण्डा लासापर फहराता और वहाकी स्वच्छ रोगविहीन हवाको अंगरेज भोगते।

तिहत्तरवां परिच्छद्

चीन, नैपाल और तिब्बत

तिब्बत चीनके नाममात्र मातहत था। कुछ दिन पहले तिब्बत चीनको कुछ राजकर दिया करता था और चीन भी कुछ रुपया तिब्बतको राजाकी महाप्रार्थनाके निमित्त भेजता था। और लामा लोग उसकी शुभ कामनाके लिये पाठ करते थे। इस रुपयेके उलट फेरके कष्टको मिटानेके लिये यह बात तय हो गई कि न तिब्बत राजकर देवे और न चीन पाठ करानेको रुपया देवे।

जबसे जापानसे चीनकी युद्धमें पराजय हुई तबसे उसकी यह नाममात्रकी मातहतती भी जाती रही। इससे पहले तिब्बत यद्यपि प्रिदाज नहीं देता था तथापि चीनको बड़ा मानता था

परन्तु इस लड़ाईके पीछे न उसको चीनका भय रहा और न आदमीकी दृष्टि रही। चीनने अपना मान बनाये रखनेकी बहुत चेष्टायें की परन्तु सबही निरफल हुई। यदि चीनकी कोई आशा उसकी रुनिजर होती तो मान लेता था नहीं तो इन्कार कर देता था।

जिस समय मैं लासामं था उस समय एक पीछे कागजपर चीनके राजाकी एक आशा निकली थी जो कि लासाके बाजारमें लटका दी गई थी कि 'बाहरके जानेवाले मनुष्यों, चीनके अठारह सूत्रोंमें और उसकी मातहत रियासतोंमें, कोई भी रोक रोक न करे। यदि रोक टोक करेगा तो उसको कठिन दण्ड मिलेगा। क्योंकि परदेशी आदमी या तो व्यापार करनेको आते हैं या धर्म प्रचार आदिको आने हैं अतएव कोई रोक टोक न होना चाहिये।' दो आशापत्र इस भातिके और भी निकले थे जिसमें मालूम हुआ कि जापानवालोंने इसी तरहकी सुलह की होगी।

परन्तु इस आशापत्रका तिब्बतके ऊपर कुछ भी प्रभाव न पडा। मैंने तिब्बतके एक उच्च पदाधिकारीसे पूछा कि क्या ऐसी अवस्थामें भी तिब्बत अङ्गरेजोंको न आने देगा। उस अफसरने उड़ी घृणा दर्शाने हुए कहा कि 'तिब्बत चीनकी आशा-माननेके लिये मजबूर नहीं है। वर हम लोगोंको तो इसमें भी सन्देह है कि यह आशा चीनके महाराजने प्रकाशित की है अथवा किसी औरने। क्योंकि चीनके महाराज एक बड़े भारी लाम

अवतार हैं वह ऐसी आज्ञा नहीं निकाल सकते। सम्भवतः उनके पासके किसी अमीरने परदेशियोंसे घूस खाकर यह अपत्र निकाल दिया हो। हमलोग इसको नहीं मान सकते।

चाहे बहुविवाह कारण हो चाहे इसका और कोई कारण हो परतु नैपालकी जनसख्या बहुत बढ़ रही है। नैपाल सरकारका भी ध्यान इसी ओर है कि जनसख्या बढ़ाई जाय। नैपालमें मैंने देखा कि जिस मनुष्यके पास खानेतककी नहीं उसके भी दो तीन स्त्रियां हे। जो खाते पीते हैं उनका तो कह ही क्या हे। वहा मैंने एक २ कुटुम्बमें लडके लडकियोंकी संख्या भी बहुत अधिक देखी है।

इस जनसख्याके बढ़नेके कारण चप्पा चप्पा धरती जो जाती है। कहीं भी भूमि खाली नहीं है। जो जङ्गल हैं उनमें लकड़ी भी काट २ कर भारतवर्ष भेजी जाती है। फिर भी उ जनसख्याके लिये पूरा नहीं पडता है अतएव लोग बाहर भागने लगे हैं। बहुतसे नैपाली भारत सरकारकी फौजमें नौकरी हैं। बहुतसे सिकिममें आकर रहने लगे हैं और बहुतसे दार्जिलिङ्गमें आ गये हैं। इसके अतिरिक्त नैपाली अब तिब्बतकी ओर दृष्टि लगाये हुए हैं क्योंकि उसका क्षेत्रफल नैपालसे चारह गुना बडा है और नैपाल भी बढ़ती हुई जनसख्याके लिये बहुत लाभदायक है। यदि आवश्यकता पडेगी तो वह युद्ध करनेके लिये भी तैयार है। इसी कारण नैपालमें बहुत फौज तैयार रहती है यद्यपि इतनी फौजकी वहा आवश्यकता नहीं है।

यहाके सिपाही गोरखोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये बड़े बहादुर होते हैं। भारत सरकार भी उनका बड़ा मान करती है। मैदानकी लडाईमें तो उनका नाम है ही परन्तु पहाडपरकी लडाईमें तो उनके बराबर कोई नहीं है। इन गोरखोंकी सूरत बिलकुल जापानी सिपाहियोंसे मिलती जुलती है। बहुत सम्भव है कि नेपाल अपनी इस फौजको अपनी रक्षाके कार्यमें लावे। रूससे तो इसे इतना भय नहीं पर तिब्बत सदा साथ रहनेवाला शत्रु है।

जब नेपालने सुना कि रूस और तिब्बतमें गुप्त भावसे सुलह हो गई है और जारने विशपका लयादा दलाईलामाको भेजा है और बहुतसे हथियार भी भेजे हैं तो उसको बड़ा भय उत्पन्न हुआ। उसका यह भय भी उचित था क्योंकि उसका शत्रु इतना प्रबल हुआ जा रहा था।

नेपालने तिब्बतसे इसके विषयमें पूछा कि कहातक यह बात सही अथवा मिथ्या है। यदि वास्तवमें सत्य है तो नेपालको अपने बचावके लिये युद्ध करना पडेगा।

यदि नेपाल तिब्बतसे युद्धमें जुट जाय, और तिब्बत रूस वालोंको अपने देशमें आकर बसने दे तो अंग्रेज सरकार नेपाल तिब्बतको लडते देख बड़ी प्रसन्न हो। अंग्रेज सरकार ऐसी दशामें नेपालकी सहायता करे और युद्धकी सामग्रीका व्यय दे क्योंकि इससे अंग्रेजी सरकारको नेपाल तिब्बत सभ्रामसे हानिके स्थानपर लाभ ही है। नेपालको अपनी विजयसे इतना नफा न हो पर ब्रिटिशराजको अनन्त लाभ हो। इस -

नैपालके किये शिकारका मजा सब ब्रिटिशसिंह ही वांट जाय। नैपालका बुद्धिमान राजा भी फदाचित् इस बातको विचारता है। वह भी युद्धपर अपना व्यय करने और विजय पानेका अपेक्षा अपना चास्तविक लाभ पाकर ही सन्तुष्ट है। वह ऐसा प्रबन्ध करना चाहता है जिनसे नैपालियोंको तिब्बतमें प्रवेश मिल जाय और वे वहा निशङ्क होकर बस जाय और व्यापार करे। यदि नैपाली लोगोंने देशमें एक बार भी व्यापारिक बल पकड़ लिया तो वे रत्नके बढ़ते प्रभावको रोक सकते हैं और शान्तिके उपायोंसे एी तिब्बतपर अपना हाथ जमाये रख सकते हैं।

यह ध्यान रखना चाहिये कि अभीतक नैपाल और तिब्बतके हृदयोंमें कुछ मलिनता नहीं आयी थी। इसके अतिरिक्त तिब्बत गोरखा सेनासे भय खाता और चाहता है कि नैपालसे मेल घना रहे तो अच्छा है। इसका एक उदाहरण यह है कि एक बार नैपालके महाराजने तिब्बतसे सूत्रोंकी पुस्तकें मगाई थीं। दलाईलामाने जब यह सुना तो उन्होंने खोजकर अपनी ओरसे नैपाल महाराजके भेंटमें भेजी। यह पुस्तकें अब नैपालकी सरकारी लाइब्रेरीमें रखी हैं।

नैपाल महाराज भी यद्यपि बुद्धधर्मावलम्बी नहीं हैं वह ब्राह्मण हैं परन्तु वह किसी धर्मसे द्वेष नहीं रखते हैं और विशेष करके तिब्बतके बौद्ध धर्मावलम्बियोंके ऊपर बहुत दया रखते हैं। जो तिब्बतवासी नैपालमें जाते हैं उनकी रक्षाके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अपने राज्यमें बौद्ध मन्दिरोंके बननेमें भी

रूपया और लकड़ी इत्यादिसे सहायता करते हैं। ऐसा करनेसे तिब्बतके हृदयमें भी नैपालका बहुत आदर है और कुछ दिनोंमें यदि ऐसा ही काम चलता रहा तो नैपाल अपनी अभिलषित कामना पूरी कर लेगा।

चौहत्तरवां परिच्छेद

००००००

तिब्बतपर क्रूर दृष्टि

तिब्बतपर अंग्रेज नैपाल और रूस इन तीनोंकी घोर दृष्टि लगी हुई है। देखें यह हिमालयका शिरोभाग किसकी चाटका है। चीनकी तो अब कोई पूछ न रहो ? इङ्गलैण्ड और नैपाल भले ही दोनों तिब्बतपर बढ़ाई करते समय मिल जायें पर रूस दोनोंमेंसे किसीसे नहीं मिल सकता। रूस तो तिब्बतके रास्तेसे हिमालय पारकर भारतवर्षके मैदानोंमें उतर आना चाहता है। नैपाल शान्तिपूर्वक तिब्बतमें अपनी सन्तति फैलाना चाहता है। उसका यह स्वार्थ पूरा हो जानेपर चाहे तिब्बत अंग्रेजोंके हाथमें रहे या रूसके उसे कोई घाटा नहीं। इसलिये अब तिब्बतका सब भविष्य रूस और अंग्रेज दोनोंके हाथ है।

तिब्बतके शासनवर्गों की चोटी रूसके हाथोंमें है और प्रजाका दिल अंग्रेजोंके हाथमें है। रूस की शैली और रूसका दान या घूसखोरीकी शैली तो तिब्बतमें थोडा भी परिवर्तन होनेपर

निष्फल हो जायगी। अंग्रेजोंकी कूटनीति चिरकालतक अपना असर बनाये रखेगी। कौन वाजो मारेगा नहीं कह सकते।

यदि रूसी सेना लासातक पहुँच जावे तो तिब्बत भर अनायास सिर झुका देगा। तिब्बत भाग्यवादी है। वह निष्कर्मण्य होकर रूसका शासन स्वीकार करेगा। तिब्बतवासियोंके दिल में कुछ भी देशभक्तिका भाव न जगेगा। इससे भारत सरकारको बड़ा भय हो जायगा। भारतमें रूस अपनी सेना उतार सकेगा। तिब्बत रूसका कड़ा दुर्ग हो जायगा। भारतपर हाथ जमानेमें फिर अंग्रेजोंका समुद्राधिपतित्व कुछ लाभका न होगा। रूस यह काम कभी न कभी अवश्य करेगा।

क्या तिब्बत स्वतन्त्र इलाका न रहेगा? यह ठीक नहीं कहा जा सकता। कई हजारों वर्षोंसे तिब्बत सदा किसी न किसी बलवान हाथके आश्रय और रक्षामें रहा है। पहले उसपर भारतका हाथ था अब चीनका, यद्यपि दलाईलामा वर्तमानमें वहाँके सुधार करने तथा स्वतन्त्रताके लिये उत्साह उत्पन्न करनेके लिये बड़े प्रयत्न कर रहा है, वह वहाँ सामाजिक सुधार और आचार-सुधारका बड़ा प्रयत्न कर रहा है, पर तिसपर भी आशा नहीं होती कि तिस्यत्त अपना भविष्य सुधार ले।

अंग्रेजोंके प्रति दलाई सरकारके भाव अब बदल गये हैं। पहले दलाईलामा अंग्रेजोंकी धमकीसे घबरा जाता था। वह ऐसे अवसरोंपर खाना पीना तक त्यागकर कोठरीमें बन्द हो जाया करता था। अब वही दलाईलामा अंग्रेजोंकी धमकीको कुछ भी

नहीं समझता। उसके उत्साहको देखकर उसकी प्रजा भी अब उसे अपना चीर नेता समझती है। दलाईलामाके इसी उत्साहको देखकर मुझे तिब्बतकी भविष्यपर दया आती है। दलाईलामाके इस प्रकार शेर बन जानेका कारण केवल रूससे सन्धि ही है। रूसने दलाईलामाको निश्चय करा दिया है कि जब अंग्रेज तिब्बतपर आक्रमण करेगे रूस तिब्बतके साथ रहेगा। अब वह समझता है कि रूससे सहायता आनेपर तिब्बत अकेला अंग्रेजोंको पछाड़ गिरायेगा। दलाईलामाको भी विश्वास है कि रूस ही एक मात्र देश है जो अंग्रेजोंको लोहेके चने चमका दे। ऐसी दशामें तिब्बतका स्वतन्त्र रहना सन्देहजनक है। कोई बड़ी शक्ति तिब्बतपर काबू कर लेगी।

पचहत्तरवां परिच्छेद

— ० —

मोनलाभका त्यौहार

वास्तवमें मोनलाभके अर्थ प्रार्थना करना है, परन्तु तिब्बतमें यह एक त्यौहारका नाम है जोकि चीनके महाराजके नामसे किया जाता है। इसमें देवताओंसे राजाके चिरजीवनके लिये प्रार्थना की जाती है। यह त्यौहार ३४ जनवरीको आरम्भ होकर २५ तारीखको समाप्त होता है।

इस त्यौहारकी तय्यारी करनेके लिये पुरोहितोंकी बीस दिस

मरसे छुट्टी मिल जाती है। यह छुट्टिया बड़ी बुरी रीतिसे काटी जाती हैं। मन्दिर इस समयमें मन्दिर नहीं रहते हैं वर पुरोहितोंकी रङ्गभूमि हा जाती हैं। बुरेसे बुरे कुकर्म इन मन्दिरोंमें देखे जाते हैं। मैंने अपने पास एक लडका नौकर रख लिया था। वह मेरे छोटे बड़े सभी काम किया करता था। यह सोचकर कि इस त्यौहारका आनन्द इस लडकेको भी उठाना चाहिये मैंने एक और लडका नौकर रख लिया परन्तु मुझे इससे भी कुछ लाभ न हुआ क्योंकि रातको दोनोंमेंसे एक भी न रहता था।

छुट्टीके चारह दिन समाप्त होनेपर त्यौहार आरम्भ होता है। तिब्बतके दूर २ नगरोसे पुरोहित लोग लासामें आने लगते हैं। कभी २ पचीस हजारसे भी अधिक पुरोहित इकट्ठे हो जाते हैं। यह लोग सर्वसाधारणके मकानोंमें ठहर जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुतसे गृहस्थ भी बाहरसे आ जाते हैं। इस समय लासाकी जनसख्या प्राय दुगुनी हो जाती है। इस त्यौहारसे पहलेकी जनसख्या प्राय पचास हजार है। अब जो दलाई-लामा हैं इनसे पहले केवल यही नहीं होता था कि बाहरसे लोग आकर ठहरें ही वर नगरके लाग बाहर चले जाते थे और त्यौहारमें विशेष धूमधाम नहीं हुआ करती थी। इसका कारण वहाँके त्यौहारके बन्दोबस्त करनेवाले बड़े अफसर हुआ करते थे।

यह बन्दोबस्त रेवन विहारके दो बड़े लामाओंको दिया जाता था और उनको शालगो कहा करते थे। यद्यपि शालगोकी

पद्मी प्रायः पाच हजार येन उपहार देकर मिला करती थी परन्तु उसके पानेवालेको फिर भी कोई हानि नहीं होती थी। ज्योंही उसको यह पद मिला कि वह मय व्याजके अपनी रकमके वसूल करनेमें लग जाते थे। यह दोनों अफसर इस समयपर इतना रुपया इकट्ठा कर लेने थे कि शेष जीवन आरामसे कट जाते। इन दिनोंमें वे बहुत ही कठोर हो जाते थे। छोटे २ अपराधोंपर भी बड़े जुर्माने होते थे। नगरके एक २ मनुष्यपर दो दो सौ येन दण्डके ले लेते थे। फिर भी अपराध क्या था कि अपने द्वारके सामने सफाई नहीं की है। यदि दो मनुष्योंमें झगडा हो तब भी यही दण्ड भुगतना पडता था। ऐसे समयमें यदि किसीने किसीका रुपया पावना होता तो वह अनायास हा शालगो महाशयकी दयासे पा सकता था जब कि आधा शालगो महाशयको भी अर्पण कर दे। रुपयेवालेकी अर्जों पाते ही जिसने रुपया लिया है उस बेचारेकी धन सम्पत्ति जब्त कर लेनेकी वमकी देते थे। नागरिक बेचारे त्यौहारके आते ही अपनी धन सम्पत्तिको घरतीमें गाडकर १२ आदमीको घरमें छोडकर मकानको बाहरवालोंके लिये खाली करके भाग जाते थे। त्यौहारके समयमें दसवा भाग जनसंख्या भी नगरमें न रहती थी।

यह शालङ्गों महाशय केवल नगरवासियोंको ही नहीं लूटते थे घर लामाओंपर भी हाथ साफ करते थे। वह भेंडियेकी भांति भेंडका चमडा ओढे हुये भेंडोंके गल्लेमें रहते थे।

जबसे यह दलाईलामा गद्दीपर बैठे तबसे यह अन्धेर लासामें तो बन्द हो गया परन्तु और स्थानोंमें अब भी वैसा ही चल रहा है। इस सम्बन्धमें एक बड़ी रोचक दन्तकथा प्रसिद्ध है। एक लामा अपनी दिव्य दृष्टिसे इस लोक परलोकतक, स्वर्ग-लोक और नरक-लोकतकके देख लेनेके लिये प्रसिद्ध हो गया था। लासाके एक व्यापारीने उससे पूछा कि तुमने नरकमें सबसे अधिक चित्ताकर्षक अद्भुत क्या बात देखी? उसने कहा कि मैंने नरकके अधिकारियोंके हाथ बहुतसे लामाओंको बड़े कष्ट पाते और तड़पते देखा, साधारण पुरोहितोंको तो बहुत कष्ट नहीं दिया जाता था पर रेवन विहारके शालङ्गों लोगोंपर बड़ा २ भयानक दण्ड होता था जिसे देखते रोमाच होता है।

इस समयमें लासा नगरमें सूब सफाई रखी जाती है। यह त्यौहार एक बड़े भारी तीन तटलेके मकानमें होता है। इस मकानका नाम चोखङ्ग है। पुरोहितोंके मारे इसमें तिल धरनेको भी स्थान नहीं रहता है। इस कारण मौतें भी हो जाया करती हैं।

दिनभरमें तीन बार पूजा होती है। सवेरे पाँच बजेसे सात बजेतक, दस बजेसे एक बजेके कुछ पहलेतक और ३ बजेसे ४॥ बजेतक यह तीन पूजाए होती हैं। सबसे मुख्य दोपहरकी पूजा समझी जाती है। इसके लिये भेटें भी दी जाती हैं जो कि भक्त लोगोंके पाससे भी आती हैं और सरकारकी ओरसे भी आती हैं। यह भेटें चौबीस सेनसे यहचर सेनतक हुआ

करती है। त्यौहारभरकी एक पुरोहितकी दक्षिणा प्राय दस येन हुआ करती है। यही दक्षिणा जब दलाईलामा मर जावे अथवा गद्दीपर बैठे तो प्राय बीस येन होती है। बड़े लामाओंको बहुत मिला करता है अर्थात् एक हजारसे लेकर पाच हजार येनतक मिलते हैं।

इसके विपरीत जो लामा बाहरसे आकर लासामें ठहरते हैं उनको मकानका किराया पचीससे पचास येनतक नित्यका देना पडता है। एक अच्छे सजे हुए मकानका किराया तीनसे पाँच येनतक होता है। लामाओंको ऐसे मकानोंमें रहनेकी आशा नहीं है जहा मदिरा बिकती हो अथवा बहुतसी खिया रहती हों।

इस समयमें शालङ्गोंके अतिरिक्त पुरोहितोंके ऊपर एक और अफसर रखा जाता है जिसका काम है कि पुरोहितोंके चाल चलनकी देखरेख करे। लडाईं भगडा इस समय बहुत कम हुआ करता है। परन्तु प्रत्येक पुरोहितको सिघाय उस अवस्था के कि बीमार हो तीनों समयोंकी पूजा नित्य प्रति करनी पडती है। और उसके लिये कुछ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्राय प्रत्येक पूजाके पीछे ही भेंट मिला करती है।

तारीख १५ जनवरीकी रातको सबसे बडी पूजा होती है। इस समयपर प्राय १२० भाति २ की मकखनकी यनी हुई मूर्तियां एक बड़े मकानमें रक्खी जाती हैं और सहस्रों घीके दीपक जाते हैं।

इस पूजाके समय प्रायः तीन सौ लामा रखे जाते हैं। जो कोई इस पूजाको देख सकता है वह बड़ा माननीय समझा जाता है। इस अवसरपर थोड़े आदमी इस कारण रए जाते हैं कि यदि रुकावट न हो तो उस थोड़े ही स्थानमें इतने आदमी दूट पडते हैं कि लोगोंके मर जानेका भय रहता है।

/यह पूजा रातके आठ बजेसे आरम्भ होकर सवेरेके चार बजे समाप्त होती है। इस समय कभी कभी दलाईलामा भी आ जाते हैं। मुझको अपने मित्र अर्थसचिवके साथ होनेसे देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परन्तु चीनी अम्बान सदैव ही यहा रहना है वह बहुत भडकीले कपडे पहने हुए एक गाडीमें बैठा रहता है जिसमें टसरी रेशमकी चौबीस लालटेनें टगी रहती हैं और उनमें विदेशी मोमवत्तियां जलती रहती हैं। वह शिरपर अपनी पदवीकी टोपी पहने रहता है। जिस समय चीनी अम्बान अपनी सजी हुई गाडीमें बैठकर नगरमें निकलता है उस समयकी शोभा वर्णनातीत है। सहस्रों दीपक चारों ओर दिखलाई देते हैं। अम्बानके पीछे बड़े लामाओंका झुण्ड उसके पीछे बड़े अफसर इत्यादि चलते। मक्खनकी मूर्तियां इत्यादिकी सजावटमें तीन सौसे दो हजार येनतक खर्च होते हैं। मक्खनकी सजावट ऐसी मैंने और कहीं नहीं देखी।

इसी समयपर वार्षिक परीक्षायें भी होती हैं और उपाधिया भी दी जाती हैं। यह काम एक दूसरे हालमें होता है। परीक्षा लिखित न होकर मौखिक हुआ करती है।

इसके पीछे तलवारका त्योंहार होता है। यह एक भाति-
का फौजका मुआइना होता है। भाति २ की पोशाकें पहन २
कर अश्वारोही सवार मैदानमें आते हैं।

छिहत्तरवां परिच्छेद

तिब्बतकी सेना

तिब्बतकी फौजमें पांच हजार मनुष्य सुने जाते हैं परन्तु
जहातक में समझता हूँ यह सरया बड़ाकर कही गयी है। खाठ
लाघकी जनसरयाकी रक्षाके लिये भी इतने सिपाही पर्याप्त नहीं
हैं। न वे बाहरके आक्रमणकारोंको ही रोक सकने हैं और न
घरकी फूटको ही दबा सकते हैं। देशके भीतर कोई शक्ति नहीं
है जो शान्तिको स्थापन करे। केवल धर्म ही है जो शान्ति
बगाये हुये है। दलाईलामा जिसको कि वहाकी प्रजा बुद्धदेवका
अपनार समझती है उसके विपरीत कभी भी हथियार नहीं उठा
सकती। यह विश्वास ऐसा दृढ़ है कि वहा कभी बगावत चुन
नेमें नहीं आइ। अतएव वहा बहुत कम सिपाही रखा करने हैं।
इतिहाससे ज्ञात होता है कि धरू फूट वहा तब ही फैलती है
जब कि दलाईलामा मर जाता है और नया जो गद्दीपर बैठता है
वह उमरमें बहुत छोटा होता है और उसका काम उसके नीचेके
कर्मचारियोंको करना पडता है। वे उस अधिकारका दुरुपयोग

करते हैं और सर्वसाधारणमें असन्तोष फैला देते हैं। परन्तु जब दलाईलामा अपना काम सम्हालने योग्य होता है तो उसका मान बृद्धदेवके बराबर ही होता है। उसकी आज्ञाको उल्लंघन करनेकी शक्ति किसीको नहीं है। छोटे मोटे भगड़े जो हो भी जाते हैं उनके लिये सेनाकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वास्तवमें तिब्बतको सेनाकी आवश्यकता इस कारण हुई कि दो बार नेपालसे और एक बार भारतवर्षसे उसका भगडा हो गया। तबसे वहा कुछ सेना रहा करतो है। लासामें १००० आदमी शिगात्जेमें २०००, टिगरीमें नेपालकी सीमापर एक दुर्ग है वहा कहते तो हैं कि ५०० सिपाही रहते हैं परन्तु वास्तवमें ३०० रहते हैं वहा चीनके भी कई सौ सिपाही रहते हैं। पाच सौ ग्यात्जेमें, पाच सौ टोपोमें और पाच सौ मेनखममें रहते हैं। चीनी सिपाही सब मिलाकर दो हजार हैं जो चारों स्थानोंपर बराबर २ बँटे हुए हैं।

लामा, शिगात्जे, टिगरी और टोमो ही मुख्य स्थान हैं। प्रत्येक पाच सौ सिपाहीपर एक अफसर रहता है जिसका नाम डीबोन है। एक छोटा अफसर २५० सिपाहियोंपर, एक पचीस सिपाहियोंपर और एक पाच सिपाहियोंपर रहता है।

तिब्बतके सिपाहियोंको एक महीनेमें एक बृशाल जौ मिला करते हैं। उनके रहनेके लिये कोई विशेष घरकें नहीं बनी हैं घर साधारण मकानोंमें रहते हैं जोकि प्रजाके खर्चसे बनवाये गये हैं। मकान भी किसी एक स्थानपर नहीं घर नगरमें

जहा तहा बने है जिनमें वे लोग साधारण प्रजाकी भाति रहते सहते और अपना हाल रोजगार किया करते हैं। ये लोग अपना रोजगार करनेके लिये मजबूर है क्योंकि एक वृशल जीमें वे अपने छो बच्चोंका भरणपोषण नहीं कर सकते। ये लोग चौकीदारी टैक्स नहीं देते। प्रजा प्राय शिकायत किया करती है कि सिपाहियोंके लिये मकान बनानेका व्यय भी उसे सहना पडता है। चीनी सिपाही भी तिब्बतवालोंकी भाति ही मकानोंमें रहते है और टैक्स नहीं देते।

इस टैक्ससे बचे रहनेके बदलेमें इन लोगोंको महीनेमें चार पाच बार कजायद करनी पडती है। वर्षमें एक बार लासासे दो मील दूर एक गात्र देवची है वहा सबको इकट्ठा होना पडता है। इस गात्रमें युद्धके देवता कान्तीकी मूर्ति है। लोगोंका विचार है कि यह देवता दुष्ट आत्माओंसे रक्षा करता है। पास ही एक और मन्दिर है। इस मन्दिरमें बहुत सी वस्तुए ध्यान देने योग्य है जिनमें नीले राक्षस, लाल राक्षस और बहुतसे नरकपालियोंकी मूर्तिया है। इस मन्दिरसे लगा हुमा परेडका मैदान है। यहींपर सब सिपाही आकर उमा होते है। यह परेड सितम्बरके अन्तमें अथवा अक्टूबरके आरम्भमें जब कि जौकी फसल कट चुकती है उस समय होती है। पहले दो दिनोंमें चीनी सिपाहियोंकी कजायद होती है और पिछले दो दिनोंमें तिब्बतके सिपाहियोंकी होती है। यह परेड चीनी अम्यान और तिब्बतके उच्चपदाधिकारियोंके सामने हुमा करती है

जो सिपाही अच्छा काम दिखलाना है उसको पचास सेल्दसे पाच ढालरतक पारितोषिक अथवा चादीका तमगा दिया जाता है। यहा अब भी तीर कमान बहुत आवश्यक समझा जाता है। तिब्बतता इधर तोप और बन्दूकसे भी काम लेने लगे हैं। यह काम चीनी अफसरों अथवा तिब्बतके अफसरोंने भारतसे सीखकर अपने देशमें चलाया।

मुझको चीनी और तिब्बतके सिपाहियोंमें साधारण प्रजासे कुछ भी विशेषता नहीं मालूम होती। चीनी सिपाहियोंके तो पीले चेहरे होते ही हैं तिब्बतवाले कुछ बलवान मालूम होते हैं परन्तु साहसमें विशेष कोई भेद नहीं मालूम होता। मैं समझता हूँ कि यह दोष उनकी तनख्वाहोंकी कमीके कारण है। इनसे तो योद्धा लामा ही बहुत साहसी और बलवान दिखलाई पडते हैं क्योंकि इनके पास हथी बन्दे नहीं होते जिनके भरण पोषणकी चिन्ता उन्हें करनी पड़े। इसीलिये वह सरकारी सिपाहियोंसे कहीं अच्छे होते हैं।

हा कामके सिपाही अवश्य सिपाही है। यहाके पुरुष हो नहीं खिया भी सिपाही है। खेती करनेके अतिरिक्त वे डाके मारते हैं। वे इस कामके करनेका गर्व करते हैं और दूसरी जातियोंको नीचा दिखानेमें वे बड़े प्रसन्न होते हैं। इन लोगोंमें डाका मारनेके विषयमें गीतें हैं जिनको कि उनके बच्चे समय समयपर गाया करते हैं।

सतहत्तरवां परिच्छेद

तिब्बतकी आर्थिक दशा

तिब्बतकी आर्थिक दशाके विषयमें कोई भी ठीक २ नहीं जानता केवल अर्थसचिव और उनके उच्चपदाधिकारी ही जान सकते हैं अतएव इसका ठीक २ वर्णन करना मेरे लिये असम्भव है। परन्तु जैसा मैंने अपने मित्र अर्थसचिवसे जान पाया है उसीका सक्षेपसे उल्लेख करता हूँ। तिब्बतमें रुपयाके स्थानपर अनाज इत्यादि पदार्थ सरकारी मालगुजारीमें वसूल किये जाते हैं और इन वस्तुओंके दाम भी कभी एक जैसे वसूल नहीं होते हैं। इससे इसका पता लगना बहुत कठिन है कि वास्तवमें तिब्बतकी आर्थिक आय क्या है। अतएव केवल इतना ही लिखता हूँ कि मालगुजारी किस भाँति वसूल की जाती है।

कोश विभागको यहा लेबरडू चैनघो कहते हैं जिसका अर्थ है लामाका रसोई घर। इस नामका कारण यह है कि देशको बहुतसी उपज यहापर जमा की जाती है। यहा मनिआर्डर अथवा हुण्डो इत्यादि प्रचलित नहीं है अतएव जो अनाज वसूल किया जाता है वह सीधा सदर खजानेको आता है। परन्तु टैक्स देनेवालेके लिये एक घात आश्वासनकी है कि उसको सरकारकी ओरसे डाकके घोड़े मिल जाया करते हैं। इस भाँति सरकारी कोशमें जौ, गेहूँ, मटर, आटा, घी इत्यादि जमा

जो सिपाही अच्छा काम दिखलाना है उसको पचास सेण्टसे पाच डालर तक पारितोषिक अथवा चादीका तमगा दिया जाता है। यहां अब भी तीर कमान बहुत आवश्यक समझा जाता है। तिब्बत इधर तोप और बन्दूकसे भी काम लेने लगे हैं। यह काम चीनी अफसरों अथवा तिब्बतके अफसरोंने भारतसे सीपकर अपने देशमें चलाया।

मुझको चीनी और तिब्बतके सिपाहियोंमें साधारण प्रजासे कुछ भी विशेषता नहीं मालूम होती। चीनी सिपाहियोंके तो पीले चेहरे होते ही हैं तिब्बतवाले कुछ बलवान मालूम होते हैं परन्तु साहसमें विशेष कोई भेद नहीं मालूम होता। मैं समझता हूँ कि यह दोष उनको तनख्वाहोंकी कमोंके कारण है। इनसे तो योद्धा लामा ही बहुत साहसी और बलवान दिखलाई पड़ते हैं क्योंकि इनके पान्च रंगे वस्त्र नहीं होते जिनके भरण पोषणकी चिन्ता उन्हें करनी पड़े। इसीलिये वह सरकारी सिपाहियोंसे कहीं अच्छे होते हैं।

हा कामके सिपाही अवश्य सिपाही हैं। यहांके पुरुष ही नहीं स्त्रिया भी सिपाही हैं। खेती करनेके अतिरिक्त वे डाके मारते हैं। ये इस कामके करनेका गर्व करते हैं और दूसरी जातियोंको नीचा दिखानेमें वे बड़े प्रसन्न होते हैं। इन लोगोंमें डाका मारनेके विषयमें गीतें हैं जिनको कि उनके वस्त्रे समय समयपर गाया करते हैं।

वस्तुयें बेचनेकी आवश्यकता पडती है तो वह सबसे छोटे नापसे तौल देनेकी इच्छा होते हुए भी साधारण ही नापसे तौल दी जाती है जिससे प्रजाको उलहना देनेका अवसर न मिले । सब विभागोंकी तनख्वाहें भी मध्यम नापसे दी जाती है ।

सरकारका अधिकांश खर्च मन्दिरोंकी मरम्मत और उनके लिये भाति २ की सामग्रीमें खर्च होता है । परन्तु सबसे अधिक घोंके मोल लेनेमें होता है । क्योंकि दिन रात मन्दिरोंमें घृत दीपक जलते रहते हैं । एक लासाके बुद्धदेवके मन्दिरमें जो दीपक लगे हुए हैं उनकी संख्या २५०० से ऊपर है । कभी २ दस हजार या एक लाखतक दीपक जलाये जाते हैं । मन्दिरोंमें घोंके अतिरिक्त और कोई वस्तु जलाना पाप समझा जाता है । कोई २ लामा भी मरते समय कह जाते हैं, कि उनके क्रिया कर्ममें सरसोंका तेल न जलाया जाये । लासामें बुद्धदेवकी मूर्त्तिके सामने घड़े २ चौबीस सोनेके पात्र रखे रहते हैं जिनमें घी जलाया जाता है । इन चौबीसके अतिरिक्त और भी दीपक हैं जिनमें पचीस २ सेर घी आता है । यह सब सरकारकी ओरसे खर्च होता है । कुछ बाहरसे भी भक्त लोग दे जाते हैं ।

प्रत्येक सूत्रमें दो स्थानोंपर यह टैक्स वसूल किया जाता है । एक स्थान तो मन्दिर है दूसरा स्थानीय सरकारी दफ्तर है । क्योंकि यहा दो तरहकी प्रजा हैं एक वह जो मन्दिरोंके अधीन है और दूसरी वह जो सरकारके अधीन है । यहाँसे मालग-

जारी वसूल होकर केन्द्रस्थ सरकारमें पहुँच जाती है। प्रत्येक सूबेमें एक दुर्ग बना हुआ है जिसको जोंग कहते हैं। लडाईके समयमें यह दुर्ग लडाईके काममें आता है परन्तु शान्तिके दिनोंमें स्थानीय सरकारका दफ्तर यहा रहा करता है। सप्त टैक्स यहीं आकर जमा हुआ करते हैं। किलेमें किलेदार रहता है जो जोगपोन कहाता है। यह अपनी तनख्वाह सरकारसे नहीं पाता है घरं जितना अनाज उसके लिये नियमित है उतना अपनी जमा की हुई मालगुजारीमेंसे ले लिया करता है। केन्द्रस्थ सरकार यदि कोई विशेष आवश्यकता न पड़े तो कोई वस्तु स्थानीय सरकारके पास नहीं भेजती। जो प्रजा सदरकी समझी जाती है उससे कभी २ शिरकर भी लिया जाता है।

सरकारी अफसर और पुरोहित सरकारसे १५०० डालर तक ५ डालर की सैकडा सूक्षके हिसाबसे ले सकते हैं। और वह उस रुपयेको १५ फी सदीके हिसाबसे और लोगोंको दे सकते हैं। तिब्बतमें व्याजकी यही दर है कोई २ तो ३० फी सदीतक देते हैं। यदि एक वर्षमें वह इस रुपयेको चुका न सके तो वह दूसरे वर्षके कर्जमें नहीं फाटा जाता। व्याजपर व्याज वहा कोई नहीं जानता और इसकी कानूनसे मनाई है।

दलाईलामाके कोशको चेलाब्रॅग कहते हैं क्योंकि उनका महल पहाडीके ऊपर बना हुआ है। इस महलको पोटाला कहते हैं। यह महल भी है और मन्दिर भी है। यह बडाही सुन्दर और दृढ मकान है। परन्तु इसमें एक बडा भारी दोष है कि

इसमें न कोई कुंआ है न सोता है। यदि पानीकी आवश्यकता पड़े तो १५० फीट नीचे सीढियोंपरसे उतरकर १५० फीट और चलना पडता है। पानीके लाने और ले जानेमें प्राय पौन मील चलना पडता है। इसके लिये वहा लोग रहते हैं और एक महीनेके एक मनुष्यके पानी पहुचानेके लिये १२ सेण्ट लिया करते हैं। यहा दलाईलामाके पास १६५ लामा रहते हैं। यह नुने हुए पुरोहित हैं और दलाईलामाके यहाँसे इनका भरण पोषण होता है।

दलाईलामा जब मर जाता है तो उसकी धन सम्पत्तिका आधा भाग उसकी जन्मभूमिके कुटुम्बियोंको मिलता है। शेष भाग लामाओंमें बाट दिया जाता है। साधारण लामा मरते समय यदि ५ हजारकी सम्पत्ति छोड गया है तो ४ हजार तो दानमें बाट दिया जाता है और शेष उसके क्रिया कर्ममें व्यय कर दिया जाता है। लगभग ३०० उसके शिष्योंमें बाट दिया जाता है। यदि कोई लामा पर्याप्त धन न छोडे तो उसके शिष्य उधार करके उसको क्रिया करते उसके नामपर दान करते और दीपक जलाते हैं।

अठहत्तरवां परिच्छेद



तिब्बतका भावी धर्म ।

तिब्बतके लोग अपने धर्मके पक्के हैं । परन्तु विदेशी लोगोंका कहना और मेरा भी विश्वास है कि इनके धर्ममें अन्धविश्वास अधिक है । फिर भी यह नहीं कह सकते हैं कि इनके धर्ममें सत्यता नहीं है । एक छोटासा परन्तु बढ़िया रत्न कूडेमें भी मिल सकता है अतएव विद्वानोंको उसके दूढ़नेके कष्टसे भयभीत होकर छोड़ न देना चाहिये । मैंने तिब्बतवासियोंमें दश गुण पाये हैं । एक तो यह कि वह उस दैवीशक्तिको पहचानते हैं जो उनकी रक्षा करती है । उनका विश्वास है कि श्रद्धा-भक्तिके द्वारा उसे पा सकते हैं । यह सत्य है कि इस विश्वासमें वह बहुतसे ऐसे काम भी करते हैं जो कि नितान्त ही निरर्थक हैं । वह देवताओं और बुद्धदेवके भेदको भी पहचानते हैं कि देवताओंका भय करना चाहिये और बुद्धदेवकी अभ्यर्थना ।

दूसरी बात यह है कि वह कर्म और कर्मफलमें विश्वास करते हैं । इस सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक कर्मका फल मिलता है । हर एक पापकर्मका फल दुःख है । हर एक भले कर्मका फल सुख मिलेगा । कर्म और कर्मफलका सिद्धान्त अनादि अनन्त कालतक है । बीजसे फल और फलसे बीज उत्पन्न होता है । इसी प्रकार ये आत्माको नित्य मानते हैं वही धार २

जन्म लेती है। यहातक तो उनका मन्तव्य ठीक है इसके आगे पुनर्जन्मके सिद्धान्त भी उनकी बड़ी श्रद्धा है और इसीमें उनको बड़े अन्धविश्वास भी है। बौद्ध कर्मवाद आत्मवादकी शिक्षा तिग्गतमें इतनी अधिक दी जाती है कि बच्चे माताकी गोदसे ही ऐसी पौराणिक कथाएँ सुना करते हैं जिनमें बुद्धका अवश्य सम्बन्ध रहता है। वस्तुतः बुद्ध तिग्गतवासियोंके हृदयोंमें इतनी गहराई तक गया हुआ है कि कोई और धर्म वहा ठहर नहीं सकता यदि उसकी व्याख्या बौद्धधर्मकी दृष्टिसे न की जा सके। इसी कारण पुराना चीनधर्म भी बौद्धधर्ममें उसी प्रकार बदल गया जिस प्रकार शिन्तोधर्म जापानमें बदला जिसमें सूर्य्य देवता बुद्धका अवतार समझा जाने लगा। एक बहुत घात मैंने देखी कि वहा मुसलमानी धर्म भी दिखलाई देता है। इस मतके लोग बहुधा चीन और काश्मीरसे आये हुए हैं। लासा और शिगात्जेमें इनकी सख्या प्राय ३०० होगी। लासाके बाहर इन लोगोंकी दो मसजिदें हैं। एक काश्मीरवालोंकी और दूसरी चीनवालोंकी। यह भी आश्चर्यकी घात है कि जहा बौद्धधर्मका ऐसा बल है वहा भी वह लोग अमन चैनसे रहते हैं। इतका विश्वास है कि मनुष्य दूसरी किसी योनिमें नहीं जाता है और अन्तमें उसके लिये दो ही स्थान हैं अर्थात् स्वर्ग और नरक। मैंने उन लोगोंसे एक बार बातचातमें कहा कि तुम्हारी कुरानमें यह बात तो लिखी है कि मनुष्यको स्वर्ग अथवा नरक मिलेगा परन्तु यह नहीं लिखा है कि मनुष्य और

और योनियोंमें होकर आया है अथवा उसके कई जन्म हो सकते हैं। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'नहीं साहब हमारे यहा यह घात लिखी हुई है। मैंने इसके ऊपर बहुत विवाद करना चाहा परन्तु वास्तवमें वैसा कुरानमें नहीं है। मुझे ज्ञात होता है कि ऐसे विचार उनके तिब्बतमें रहनेसे हो गये हैं।

ईसाई लोग अपना धर्म तिब्बतमें फैलाना चाहते हैं। यह सत्य है कि तिब्बतमें वह लोग नहीं जाने पाते परन्तु दार्जिलिङ्ग और शिकममें जो तिब्बतवासी रहते हैं उनके लिये उन्होंने तिब्बतको भाषामें वाइविलका अनुवाद कर डाला है। और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें बौद्ध धर्मकी निन्दा है।

बहुतसे तिब्बती द्रव्यलोभसे या आजीविकाके कारण ईसाई हो गये हैं। वे भा अपने घरोंमें बुद्धको मूर्ति तथा उसके आगे घृतदीपक रखते हैं। ईसाइयोंका यहा विचार कि वे बौद्धोंको जल्दीसे ईसाई बना लेंगे गलत है। ईसाई और बौद्ध दोनों धर्मोंमें बड़ा भेद है। बौद्ध धर्ममें आत्माको बड़ी स्वतन्त्रता प्राप्त होती ईसाई धर्ममें मनुष्यकी आत्मा सर्वशक्तिमान् ईश्वरके सामने निर्बल होकर वध सी, जाती है। ईसाई धर्ममें कर्मफलवाद नहीं है। कहीं कहीं उसके इशारे आये हैं पर बहुत कम। उसकी मुख्यता नहीं है। यदि ईसाइयोंकी वाइवल संकुचितता छोडकर भावी और भूतकालमें भी लगे तो कदाचित् तिब्बतमें ईसाई मत फैल सके। सिद्धान्तोंके सकीर्णताके कारण ही ईसाई मत इतना अधिक व्यय करनेपर भी फैलनेमें असमर्थ है।

उनासीवां परिच्छेद



भेद खुलनेका आरम्भ

त्सारोंगवा जो कि पिछले वर्ष भारतवर्षको गया था तारीख ३० अप्रैल १९०१ को लौट आया। यह तिब्बतका एक व्यापारी था जिसका विश्वास करके मैंने अपने गुरु शरत्चन्द्र और शब्द गलामाको उसके हाथ चिट्ठी भेजी थी। ज्योंही वह आया उसने मुझको घुला भेजा। उसका नौकर मुझे न मिला। उस समय मैं सेरामें नहीं था। मैं अर्धसचिवके यहा चला गया था। उसके आनेका समाद मुझको देरसे मालूम हुआ। दूसरे दिन सदेरे मैं उसके यहा चल दिया। वहा पहु चनेपर कुछ इधर उधरकी घाते होनेके पश्चात् उसने मुझसे कहा कि 'जिस समय मैं दार्जिलिंगमें पहु चा उस समय तुम्हारे गुरु और लामा दोनों ही वहा न थे। अतएव मैं चिट्ठिया कलकत्से ले गया। जब दार्जिलिंगको लौटा तब चिट्ठिया दोनोंकी थीं। शरत् थावूने कहा कि दो दिन पीछे इस चिट्ठीका उत्तर मुझसे ले जाना। परन्तु फिर मैं उनसे नहीं मिल सका क्योंकि तिब्बत सरकारके लिये बहुतसा लोहा मैंने मोल ले लिया था। यदि भारत सरकारको मालूम हो जाता तो मैं पकडा जाता अतएव मैं वहा अधिक ठहरना उचित न समझकर दूसरे ही दिन चल दिया और उत्तर न ले सका। परन्तु शब्दगलामाने उसी दिन उत्तर दे दिया था वह

यह कह कर उसने एक पत्र मेरे हाथ में दिया। शब्दगने लिखा था कि शरत् वायुका पत्र उनको दे दिया गया और तुम्हारे घरका पत्र भेज दिया गया है। उसने मेरी भेजी हुई भेंटके लिये कृतज्ञता प्रकाश की थी। तिब्बतमें यह रीति है कि जब किसीको पत्र लिखा जाता है तो उसके साथ कुछ भेंट भी भेजी जाती है। यदि और कोई वस्तु न हो तो रेशमका एक टुकड़ा जिसको 'काता' कहते हैं वही भेज देते हैं। मैंने भी उसी रीतिके अनुसार शब्दगको एक काता भेजा था। उसके बदलेमें उसने मुझको विलायती शक्कर और कुछ और वस्तुएँ भेजी थीं। बातों ही बातोंमें मैंने सुना कि द्रान्सवासमें लड़ाई हो रही है। और भी दार्जिलिंगको बहुतसी बातें मालूम हुईं।

तारीख १३ मईको लासामें बड़ी धूमधाम हो रही थी क्योंकि शिगात्जेसे तासीलामा लासाको आ रहे थे। उनको बीसवाँ वर्ष समाप्त हो चुका था और अब उनके अधिकार उनको मिलने वाले थे। मैं भी उस भीड़में था। जब तासीलामाकी सवारी निकल गई तो मुझे त्सारोंगवा मिला जिसने मुझको चाय पीनेको अपने घर बुलाया। मैं उसके घरमें बैठा हुआ था, कि एक तिब्बतका मनुष्य भीतर आया। मुझे मालूम हुआ कि यह मनुष्य दलाईलामाके काफिलेका अफसर है और उसने भी सरकारके लिये लोहा लानेका काम किया है। उसने घरमें घुसते ही मुझको बड़े ध्यानसे देखा। मुझे वह बड़े बुरे हृदयका और चतुर चालाक मनुष्य लगा।

वह शीघ्र ही मेरे पास आया। उस कमरेमें त्सारींगवा और उसकी स्त्री भी थी। त्सारींगवा मुझे बड़े आदरकी दृष्टिसे देखता था। वह मुझको बड़ा भारी डाकूर समझता था। उसको यह भी मालूम था कि मैं अर्थसचिवके घर रहता हूँ। बड़े बड़े अफसरोंसे मेरी जान पहचान है। जब वह कलकत्तामें था तो उसने जापानियोंकी वीरताके बहुतसे किस्से सुने थे। विशेष करके चीन जापानकी लड़ाईके विषयमें भी उसने सुना था कि जापानी स्वार्थी नहीं हैं। उन्होंने चीनके लाभके बहुत काम किये थे। अतएव मेरे ऊपर उसको बहुत विश्वास था।

यह मनुष्य जो इस समय आया था एक सौदागरके यहाँ नौकर था और उसके कामके लिये कई बार पेकिंग हो आया था बक्सरकी लड़ाईमें वह चीनमें था। दुर्भाग्यवश उसके साथ सामान जापानी सिपाहियोंने जप्त कर लिये थे। उसने कहा भी कि यह सामान चीन सरकारका नहीं है उसे यह सामान लौटा दिया जाय, परन्तु किसीने उम्की न सुनी। शेषमें यह जापानी जनरलके खेमके पास गया और बोला कि मैं तिब्बतका रहनेवाला हूँ और यह वस्तुयें चीनी सरकारकी नहीं हैं अतएव मुझे मिल जानी चाहिये। जनरलने ज़र देखा कि यह तिब्बतका रहनेवाला है तो तुरन्त ही एक पत्र लिखकर उसपर अपने हस्ताक्षर करके उसको दे दिया कि जाकर सिपाहियोंको देवे। ज्योंही उसने यह पत्र सिपाहियोंको दिया त्योंही उसका साथ सामान उसको ज्यों का त्यों मिल गया। इस कामसे और जापानियोंकी

और बातोंसे उसको विश्वास था कि जापानी न्यायप्रिय हैं। जिस समय उसने यह बातें त्सारोंगवासे कहीं मुझे मालूम हुआ कि वह भी जापानियोंको अच्छा समझता है। जब त्सारोंगवाने देखा कि यह मनुष्य जापानियोंका हिताकांक्षी है जैसा कि वह भी था तो उसने मेरा भेद भी उसके सामने कह देनेमें कुछ हानि न समझी।

चोनजोने (फ्योंकि यही उसका नाम था) मेरी ओर घूमकर कहा, तुम एक अद्भुत मनुष्य हो। परन्तु मैंने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने फिर कहा, मैंने पहले समझा था कि तुम मगोलियन हो परन्तु मेरी जाच ठीक न उतरी। तुम चीनके भी नहीं मालूम होते। इसमें भी शक नहीं है कि तुम यूरोपियन भी नहीं हो। फिर तुम कौन हो ? मैं कुछ कहना ही चाहता था कि त्सारोंगवा बोल उठा, यह जापानी है। यह लासामें पहला ही अवसर था कि मेरा यह भेद खुला। पर मैं उनके विपरीत कुछ भी न कह सकता था। अब मैं यह सोच रहा था कि देखू इसके मुखसे क्या निकलता है। थोड़ी देरतक चुप रहनेके पीछे उसने कहा, अच्छा अच्छा, मैंने पहले ही समझा था कि यह जापानी है। परन्तु जब मैंने सोचा कि जापानीका लासामें घुस आना असम्भव है तब मैं कुछ न कह सका। अब मुझे विश्वास हो गया। मैंने पेकिगमें भी बहुतसे जापानी देखे हैं।

चोनजो मेरी ओर मुप फेरकर बोला, मेरे लिये यह बड़ा अच्छा सम्वाद है। पहले मैंने सोचा था कि यदि मैं जापान

जाकर नई नई वस्तुयें लासाको लाऊ तो मुझे बड़ा लाभ हो परन्तु केवल चीनी भापा बोल सकता हूँ और जापानमें कोई चीनी भापा नहीं समझता । जो व्यापारी उस देशकी भापा नहीं बोल सकते खूब ठगे जाते हैं। जापानमें भी घेईमानोंकी कमी नहीं बतएव मैंने अपना विचार त्याग दिया था । परन्तु अब मुझे बहुत अच्छा जापानी मिल गया । मैंने सेराके डाकूरका नाम सुना था आज मे ट हो गई । क्या तुम मुझे जापान ले चलोगे ?

मैंने कहा कि हा मैं जापान जाना चाहता हू तुम्ह ले चलूंगा इत्यादि वहाकी बहुतसी बातें कहीं । उसने भी जापानवालोंकी बहुत प्रशंसा की परन्तु उसकी बातोंसे मैं यह नहीं समझ सका कि यह मेरी झूठी प्रशंसा अथवा खुशामद कर रहा है । मैंने कहा तुम और त्सारोंगवा दोही मनुष्य हैं जो मेरा जापानी होना जानते हैं परन्तु यदि तुमने किसीसे यह बात कही तो सम्भव है कि मुझको और तुम दोनोंको भी कष्ट उठाना पड़े इसलिये सतर्क रहना चाहिये ।

चोनजोने कडा कि मैं कदापि किसीसे यह बात न कहूंगा और यदि कहूंगा भी तो ऐसे समयपर कि जब तुमको उससे कुछ लाभ होता हो । जब मैं कहूंगा तो समझ लेना कि तिव्वतमें तुम्हारा बड़ा भारी नाम होगा । इतनी बातोंके पीछे यातालाप समाप्त हुआ । रातको मैं त्सारोंगवाके घरसे चलकर मित्र अन्धकारके यहा ठहरा ।

सवेरेको तारीख १४ मईको चीनके मन्त्रीका सेक्रेटरी भीतर

आया और उसने कहा, तुम कहते हो कि तुम चीनमें फूचीसे आये हो मैं तुम्हारी बातपर अविश्वास नहीं करता। परन्तु मैं वहाके आदिमियोंमें और तुममें बहुत भेद पाता हू। क्या तुम्हारे पूर्वपुरुष कहीं बाहरसे आकर चीनमें रहे थे ?

मैंने उत्तर दिया कि मुझको अपने पूर्वपुरुषोंका हाल नहीं मालूम। तुम मुझमें और चीनी लोगोंमें क्या भेद देखते हो ?

उसने कहा, 'कि जापानी बड़ी प्रखरबुद्धिवाले होते हैं, चीनी ऐसे नहीं होते हैं। हा तुम्हारे जैसे कोई २ चीनी प्रखरबुद्धि होते हैं। चीनी मनुष्यमें एक विशेष प्रकारकी सुस्ती हुआ करती है जैसी कि तुम मुझमें देख सकते हो और वह तुममें नहीं है। यह ऐसी बात है जो मुखसे वर्णन नहीं हो सकती परन्तु इस बातको मैं निश्चित रूपसे कहता हू कि तुममें वह बात है जो चीनी मनुष्यमें नहीं होती।

उसकी इन बातोंको सुनकर मैं समझा कि वह मुझको बड़े ध्यानसे देख रहा है। सम्भव है कि उसको किसी रीतिसे मालूम हो गया हो कि मैं जापानी हू।

कुछ दिन पीछे अत्तारकी छीने भी एक नयी कहानी सुनाई। उसने कहा, 'देखिये हुजूर पागलसे बढ़कर भयङ्कर वस्तु ससारमें दूसरी नहीं है।

जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि, "पाराका वह पागल लडका एक कहानी कहता था। यद्यपि पागलकी बात विश्वसनीय नहीं हो सकती परन्तु फिर भी उसने जो बात कही है वह

बड़ी भयानक है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने धीरे २ कहा कि इस नगरमें जापानका एक पुरोहित है। वह अपनेको पुरोहित कहता है परन्तु वह कोई बड़ा आदमी है। यह जापाना सरकारकी ओरसे आया है। मैं दार्जिलिङ्गमें उससे मिला था। वह अवश्यही बड़ा आदमी है। वह नहीं जो सेरामें डाकूर है। यह घात उसने मुझसे कही थी। क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है? तुम क्या समझते हो?"

मैंने उत्तर दिया कि पागलोंकी तो ऐसा ही बातें हुआ करती हैं। अत्तारकी स्त्रीने कहा, कुछ भी हो मेरे स्वामी और बहुतसे मनुष्योंने उसकी घातका विश्वास किया है।

उसी रातको मैं अर्थसचिवके घर आ गया। दूसरे दिन अपने विहार आया। जब सब लोग सो रहे थे तो मैंने उठकर दलाईलामाको एक चिट्ठी लिखनी आरम्भ की। मैंने स्वयं यह कार्य अपने भेद खुल जानेके दिन अपने बचावके निमित्त करना शुरू किया।

अस्सीवां परिच्छेद



भेद खुल गया।

पाठक पूछेंगे कि मैंने यह निवेदनपत्र दलाईलामाको क्यों लिखा? उस समय मैं यह नहीं कह सकता था कि मेरे भेद

खुलनेका फल क्या होगा। परन्तु जो घुरा फल होना हो यदि पहलेने ही उसका फुछ प्रतिकार किया जावे तो होकर रहता। अतएव यह आवश्यक था कि मैं अपने यहा आनेका प्रयोजन स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल बौद्ध धर्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आया हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं है। इस पत्रके लिखनेमें मुझको तीन दिन लगे। मैंने लिखा कि, 'मेरा विचार यहा आनेका केवल यही है कि बौद्ध धर्मके ज्ञानकी वृद्धि करूँ और ससारके मनुष्योंके आत्मिक दुःखसे बचाऊँ। बौद्ध धर्म बहुतसे देशोंमें है परन्तु साक्षात् धर्मकी मूर्ति या तो जापानमें या तिब्बतमें ही दिखलाई देती है। अब समय आ गया है कि विशुद्ध धर्मका बीज संसारमें सब स्थानोंपर घोया जावे। क्योंकि अब ससारके जीव दैहिक आनन्दसे थक गये हैं और अब आत्मिक आनन्दकी खोजमें हैं। यह केवल विशुद्ध बौद्ध धर्मके सोतेसे ही मिल सकता है। इस कामको पूरा करना ही हमारा धर्म है। और इसीमें हमारी कीर्ति है। इसी विचारको हृदयमें धारणकर मैं जापानके धर्मसे यहाके धर्मकी तुलना करनेके लिये आया हूँ। बुद्ध भगवानको रूपासे यहाका नया बौद्ध धर्म जापानके शींगन धर्मसे बिलकुल ही मिलता जुलता है। दोनोंके ही प्रवर्तक बोधिसत्व नागार्जुन हैं। अतएव दोनों ही देशोंको मिलकर शुद्ध बौद्ध धर्मकी फैलना चाहिये। इसी प्रयोजनसे मैं इतने दूर देशमें नदी और पहाड़ पार करके भो आया हूँ। मेरी श्रद्धालु आत्माने बुद्ध भगवानके हृदयको अनुकम्पित कर दिया, और मैं इस

दुनियाभरसे अलग सुरक्षित प्रदेशमें भी सत्यके स्रोतसे सत्य ज्ञान पान करनेके लिये प्रवेश पा सका । देवताओंने मेरी अभिलाषाको स्वीकार किया । यदि यह बात सत्य है तो फिर आप सत्यावतार मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे जब कि देवगण और बुद्ध भगवानने मेरी रक्षा की है और बुद्धदेवके सत्यधर्मकी विजय-पताका संसारभरमें उडानेमें भी आप मेरी सहायता क्यों न करेंगे ? इसीके साथ मैंने यह भी लिख दिया कि सोलोनके धर्म-गलने बुद्धदेवका स्मृतिचिह्न मुझे श्रीमानोंको भेट करनेके निमित्त कहा है और उसकी स्वीकृति भी ले लो है । पत्र पूरा होते ही मैंने अच्छे फागजपर उसको नकल करनेमें बहुत शीघ्रता की । मैंने यह भी नहीं सोचा कि इसको दलाईलामाके पास भेज देनेसे इसका क्या फल होगा । पत्र मेरा भेद खोल देगा और मैं अवश्य ही प्राणदण्डका भागी होऊंगा ।

तारीख २० मईको मैं लासासे अर्थसचिवके घर लौट आया । उस दिन अर्थसचिवके यहां लिकापार्टी थी । वहां बहुतसे मेरे जान पहचानवाले मित्र भी थे और दिनभर मेरी उनसे बातचीत होती रही । इधर मैं आनन्दसागरमें दूब रहा था उधर लासाके दूसरे भागमें मेरे लिये कुछ और ही घटित हो रहा था ।

इसी दिन काप्लेका चीफ चीनजोको दलाईलामाके पिता-के घरसे बुलावा आया था । दलाईलामाके माता पिता मर चुके थे । उसके बड़े भाई पावसीसरवाने चीनजोको अपना दामाद बनानेकी इच्छा की थी । चीनके महाराजने उसको प्रिन्सकी

पदवी दी थी। यह प्रिन्स लासाके दक्षिणी भागमें रहता था। जिस समय यह दोनों मदिरा पी रहे थे चीनजोने यही अवसर मेरा भेद खोलनेका सबसे उत्तम समझा। पीछेसे त्सारोंगवाके द्वारा मुझको ज्ञात हुआ कि उन दोनोंमें निम्नलिखित बातें हुईं।

‘क्या श्रीमानोंने सुना है कि यहा एक परदेशी है जो न चीनी है और न मगोलियन है?’

दलाईलामाके भाईने कहा,—‘बतलाओ कौन है?’

‘वह जापानका एक सच्चालामा है। जापानी लामा बिलकुल चीनी होसग मालूम होता है। परन्तु उससे कहीं बढकर है। वह दिनभरमें केवल दो बार भोजन करता है और दोपहर पीछे कोई वस्तु मुखमें नहीं लेता है। न वह मदिरा पीता है और न मास।’

‘वह कहां रहता है?’

‘यदि मैं उसका नाम बतऊंगा तो आप समझ जावेंगे कि कहा रहता है। उसका नाम सेराईआमची (सेराका वैद्य) है। वही प्रसिद्ध सेराका वैद्य जापानी है।’

थोड़ी देर सोचते रहनेके पीछे उसने कहा,—‘मैंने सेराईआमचीका नाम सुना है। वह तो दलाईलामाके पास रहने योग्य है। वैद्यरूपमें ऐसा ज्ञान रखनेवाला कभी चीनी नहीं हो सकता। मैंने पहले समझा था कि वह यूरोपियन होगा परन्तु तुम्हारे कहनेसे मेरी शका जाती रही। हा जापानी यूरोपियन्सके बराबर ही काम कर सकते हैं। परन्तु इससे मुझको बडा दुःख है।’

‘आपको किस बातका दुःख है?’

‘यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो जापान इङ्ग्लैण्डका मित्र है। यह ध्यानमें आते ही मुझे शका होती है। क्योंकि जापान बड़ा प्रबल देश है। वह चीनको हरा सकता है। फिर हमारा देश उसके आगे क्या वस्तु है। उसका हमारा धर्म भी एक है। इस कारणसे यही समझा जा सकता है कि वह जापानका गुप्तचर होगा। क्या वे लोग जो सेराईआमचीसे सम्बन्ध रखते हैं उसी दुष्टके भागी नहीं होंगे जो कि शरत्चन्द्रसे सबद्ध व्यक्तियोंने भोगा। क्या सेरा विहारका द्वार फिर बन्द नहीं कर दिया जायेगा ? यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जावेगा। इस सम्बन्धमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा।’

चीनजोने यह बात और ही आशयसे कही थी पर फल बल्टा निकला। उसने भयभीत होकर मेरे घचानके लिये कहा, ‘वह गुप्तचर नहीं है। वह लासामें रहता है जहा मास आवश्यक भोजनोंमें समझा जाता है। वह सेरा विहारमें पढता है जहा मास मुफ्तमें ही मिलता है परन्तु वह उसको कभी नहीं छूता। वह केवल भुने हुये जौ खाता है। ऐसा मनुष्य अवश्य जापानका लामा है।’

दलाईलामाके भाईने इस युक्तिके विरोधमें कहा,—‘तुम ऐसा समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कम है। सत्ताधीन २ पापी हैं जो साक्षात् बुद्ध भगवान मालूम होते हैं। पापी बही है जिसमें बुद्ध भगवानसे कुछ भी भेद सन्त उपगुप्त शाक्य बुद्धके बाद ५०० वर्षोंके

वान बुद्धके दर्शन करनेका संकल्प किया था। उसने सुना छठे आस्मानके दैत्यराजने बुद्ध भगवानको देखा था, शा वह अपनी मायासे बुद्ध भगवानका दर्शन करा दे। उपगुप्त प्रार्थना स्वीकृत हो गयो। धूर्त दैत्य स्वयं स्फटिकं शिला आसन जमाकर बुद्धके रूपमें प्रगट हुआ। उसे देखकर उ गुप्ताचार्य दण्डवत् प्रणाम करने लगे। इसी भांति सेराईआ ची गुप्तचर है, उसने हमें धोखा देनेके लिये लामाका घेप बना है। उसका कभी विश्वास न करना चाहिये। इस देश जहाँ कि ऐसी कड़ी रोक टोक और निषेध है वहा भी वह घु आया है इससे ज्ञात हाता है कि वह साधारण मनुष्य नहीं है क्या वह स्वर्गसे आया है? अवश्य उसके पास कोई दैवी शक्ति है। अतएव उसको लापरवाहीसे न छोड देना चाहिये। पि भी वह बडी कठिन समस्या है।' इन बातोंके सुननेसे चोनजो बहुत दुःख हुआ उसके मुखपर हवाहवा उडने लगीं।

तारीख २० मईकी सन्ध्याको चोनजो त्सारोंगवाके मकान गए गया। उसने अपने मनमें प्रण कर लिया था कि त्सारों गवासे इस विषयमें कुछ न कहूंगा। खानेका समय हो गया अतएव उसने चोनजोको जैसी कि तिब्बतमें रीति है कुछ मदिरा पीनेके लिये मजबूर किया। वह दुःखित चित्तसे जल्दी मदिरा पीकर चुप बैठ गया।

यह देखकर त्सारोंगवाने कहा कि,—'मैं समझता हूँ तुमके कोई चिन्ता लग रही है, कहो तो क्या मामला है?'

उमने उत्तर दिया 'नहीं, कोई बात नहीं है।' परन्तु इतनी देरमें मदिरा अपना प्रभाव जमा चुकी थी अतएव सब बातें ज्यों-की-त्यों कह डालीं। जब कहानी पूरी हुई आधीरात हो चुकी थी। चोनजो उनके घरसे विदा हुआ परन्तु त्सारोंगवा और उसकी स्त्री दोनोंहीको चिन्ताके कारण नींद न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल त्सारोंगवाने मेरे पास आदमी भेजा और साथ ही एक घोड़ा भी भेज दिया। मैं उस समय विहारमें नहीं था और अर्थसचिवके यहा भी नहीं था। मैं जब न मिला तो त्सारोंगवाकी घबराहट और भी बढ़ गई। अधिक घबराहटका एक और भी कारण था कि मेरे पास दार्जिलिगका वह पत्र था जो कि त्सारोंगवाके हाथों ही आया था। यदि मैं पकड़ा जाता तो उस पत्र द्वारा त्सारोंगवा भी अवश्य पकड़ा जाता। उसने दिनभर मुझको लासामें खोजा परन्तु मेरा पता कहीं न लगा। शेषमें सन्ध्याको मैं उसके घर पहुँचा। मुझे देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह समझना था कि मैं बन्दोखमें डाल दिया गया होऊँगा। वह कापता हुआ आपोंमें आसू भरे मेरे पास आया और बोला,—'हमारा बड़ा भाग्य है कि तुमको यहा देख रहे हैं। यह सब ब्रह्म भगवानकी कृपा है।' मैं समझ गया कि कोई अनहोनी बात हुई है। मैंने उन्हें धैर्य दिया और घेंड गया। उसने सब हाल कह सुनाया। जब सब हाल सुन चुका तो त्सारोंगवाने कहा—'अप्र क्या विचार है। कमसे कम उस पत्रको तो जला ही डालो परन्तु अब करोगे ?'

मैंने कहा, मैं तो जो करना था कर चुका। मैंने दलाई-लामाको प्रार्थनापत्र लिखा है। अब उसका चाहे जो फल निकले।

‘क्या तुम्हें यह हाल मालूम था?’

‘हां, मैं जानता था। मैं ऐसी बातें पहले जान लेता हूँ।’

‘यही तो कारण है कि मैं तुम्हें आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। दलाईलामाके भाईने भी कहा है कि तुममें कोई दैवी शक्ति है। मैं समझता हूँ कि उसने सत्य ही कहा है।’

‘नहीं, मुझमें कोई दैवी शक्ति नहीं है। मैं केवल अनुमान कर चुका हूँ कि ऐसा हो सकता है। अतएव मैंने उसका उचित प्रयत्न कर लिया है।’

त्सारोंगवाने कहा —‘नहीं ऐसा न कहो। तुमने अवश्य ही दलाईलामाके भाई और चोनजोकी बातचीत किसी और ही शक्ति द्वारा सुन ली है। नहीं तो तुम ऐसे अवसरपर मेरे यहा कैसे आ सकते थे? परन्तु फिर भी यहा तुम जल्दी ही क्यों आये? रातभर हम दोनोंको नींद नहीं आई। क्या तुम सत्य ही वह प्रार्थनापत्र दलाईलामाको दोगे? इसके करनेमें तुमने यह नहीं सोचा है कि हमारा क्या होगा? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तुम बड़े पूज्य लामा हो और दलाईलामाका भाई बड़ा ही नीच प्रकृतिका मनुष्य है। न जाने वह पोपसे क्या कहेगा और उसका क्या फल निकले? परन्तु कुछ न कुछ आपत्ति हमारे ऊपर भी आवेगी, इसमें सन्देह नहीं है।’

मैंने कहा कि जबतक समाधि न लगाऊ तबतक कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मैं समझता हूँ कि समाधिमें चार बातें स्पष्ट हो जायेंगी।

(१) यदि इस प्रार्थनापत्रको देनेसे तुम्हें, मेरा विहारको और अर्थसचिवको कोई हानि न पहुँचे तो वह दलाईलामाको दूंगा। चाहे मुझे भले ही दुःख उठाना पड़े। क्योंकि मैं ही पहला जापानी हूँ जो यहा आया और यह बात बड़े दुःखकी होगी कि मैं यहासे चला जाऊँ और यहाके लोग मुझे कुछ भी न जानें कि मैं कौन था और क्यों यहा आया था।

(२) यदि पत्रका देना तुम्हें कुछ हानि पट्टे चाहे तो भी मैं उसे न दूँगा। चाहे मुझे उसमें कुछ भी भय नहीं।

(३) यदि मैं पोपको इत्तिला दिये बिना ही भारतवर्षको जा सकूँ और किसीको कुछ हानि न पहुँचे तो मैं यहासे सीधे भारतवर्षको चला जाऊँगा।

(४) यदि मेरा प्रार्थनापत्र यहाके लोगोंको मेरे चले जाने-पर हानि पहुँचायेगा तो मैं नहीं जाऊँगा और जो विपद उन लोगोंके ऊपर पड़ेगी उसमें मैं भी भाग लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अकेला ही बच जाऊँ। यदि उन लोगोंके ऊपर कोई विपद न पड़े तो मैं जा सकता हूँ। परन्तु मैं अकेला इन बातोंका निर्णय नहीं कर सकता अतएव मैं अपने गुरु गेंदुन टीरिनपोचेके पास जाता हूँ। मैं उनसे यह नहीं कहूँगा कि मैं जापानी हूँ और न मैं यह कहूँगा कि मैं भारतवर्षको जाता

हू। मैं यही कहूंगा कि मैं तीर्थपर्यटनको जाता हू। क्या इस तीर्थयात्रासे उन लोगोंको कुछ लाभ होगा जो कि दुःखमें हैं? यदि उनकी ऐसी ही राय होगी तो मैं मान लूंगा। यदि नहीं होगी तो लामा दसीमोलिङ्गके पास जाऊंगा। यदि दोनोंकी एक ही राय होगी तो वैसा ही करूंगा।

दोनों दम्पतिने मुझे रोककर कहा कि और किसीसे मत पूछो तुम्हारी समझमें आये वैसा ही करो।

मैंने कहा,—‘नहीं, यह अकेले मेरे समझनेकी बात नहीं है। क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है और इसमें और लोगोंका भी सम्बन्ध है।

मेरी इस बातपर वे सहमत हो गये और मैं वहासे विदा हुआ। उस रातभर मैं अर्थसचिवके मकानमें अकेला ध्यानस्थ बैठा रहा। बहुत देर पीछे मुझे यह उत्तर मिला,—‘चाहे मैं प्रार्थनापत्र भेंट करू या न करू यदि यहां रहूंगा तो यहावालोंको अधिक हानि पहुँचेगी यदि चला जाऊंगा तो कम हानि होगी।’ यह तो निश्चय हो गया कि मुझे चला जाना चाहिये परन्तु यह निश्चय नहीं हुआ कि प्रार्थनापत्र दलाईलामाको भेंट करू या नहीं।

दूसरे दिन सवेरे तारीख २७ मईको मैं गेंडुन टीरिनपोचेके यहा गया और तीर्थपर्यटनके विषयमें पूछा। उन्होंने मुझसे एसकर कहा कि,—‘यह सत्य है कि तुम्हारे जानेसे रोगी अच्छे होंगे परन्तु क्या तुम दैहिक रोगके विषयमें कह रहे हो? यदि

यह कह रहे हो तो क्या तुम्हारा यह आशय है कि तुम्हारे जानेपर लासाके घैरोंको आराम मिलेगा ?

यद्यपि गुरु महाशयने इसी २ मंही अपने विचार प्रगट दिये परन्तु यह समझ गये कि मैं यहाँसे नवद्वेषके लिये जा हूँ। यदा और भी बहुतसे लामा हैं परन्तु मैंने जितने देखे उनकोई भी इस दर्जेका योग्य मनुष्य नहीं देखा। इस मान्य गुरु ये अन्तिम दर्शन थे।

इक्कासीवां परिच्छेद



दयालु मित्रकी अद्भुत भेंट

उस दिन मैं अर्घसचिवके घर अपना भेद प्रगट कर देनेके निमित्त गया। परन्तु उस दिन तारीख २२ मईको पोप अपने ग्राम भवनोंसे लासामें आनेवाले थे इससे अर्घसचिव स्वागतमें गये हुये थे और मैं भी अपना काम छोड़-वहीं चला गया था। उस समय नव मन्त्रिगर्ग और घडे २ अफसर अपनी २ घट्टिया पोशाकें पहनकर आये थे। दैवयोगसे पानी यह जोरसे गिरने लगा। केवल नौकर और गाड़ीके कोचवानको ही पानीसे बचनेके लिये ऊपरसे ओढनेकी आज्ञा थी। अच्छे २ कपड़े पहने हुये सम्य पुरुषोंको पानीमें भीगते देखकर बड़ी दया आती थी। जब लामा अपने महलोंमें पहुच गये तो वर्षा

बन्द हो गयी और आकाश स्वच्छ हो गया । अब घरपर आये तो मैंने अर्थसचिवसे कहा कि मुझे एकान्तमें एक बात कहनी है । क्योंकि जब मैं लासासे जा रहा हू तो बिना भेद प्रगट किये किस भांति जा सकता था । इस दम्पतिने वर्षभरमें जैसा कुछ मेरा उपकार किया था वह वर्णानातीत था ।

सन्ध्याको जब वह मेरे पास आये उस समय उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था । मैंने कहा कि मैं चीनी नहीं जापानी हू । मैंने देखा कि उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया है, मैंने उनको अपना पासपोर्ट भी दिखलाया जो मैं अपने साथ लाया था । अर्थसचिव चीनी अक्षरोंको बहुत थोड़ा पहचानता था । परन्तु फिर भी कुछ कुछ पढ लेता था । पासपोर्ट देखकर उसको विश्वास हो गया कि मैं ठीक कहता हू । उसने कहा,—‘पहले तो मैं तुम्हारे कहनेके अनुसार तुमको चीनी ही समझता था परन्तु पीछेसे मुझे मालूम हुआ कि चीनी बौद्ध धर्मके ऐसे भक्त कभी नहीं होते हैं । मैंने देखा है कि चीनी पुरोहित बौद्ध धर्मको बिलकुल ही नहीं जानते हैं । मैंने यह भी समझा था कि सम्भव है कि फूचीके लोग प्रखर बुद्धिवाले होते होंगे जिनमेंसे एक तुम भी हो । फिर भी मुझको शङ्का बनी ही रही, अब तुम्हारी बातोंसे मुझको विश्वास हुआ । उसने यह भी कहा कि,—‘मैंने सुना है कि जापानी यूरोपियन जातिके हैं । क्या यह बात सत्य है ?’

मैंने उसको समझाया कि अङ्गरेजोंसे जापानियोंका कोई

सम्बन्ध नहीं है वर यह तिष्ठतके ही है। कुछ २ मंगोलियनोंसे मिलते हैं। आपानियोंका धर्म भी वही है जो कि तिष्ठत बालोंका है।

यह सुनकर उसने कहा,—‘क्या तुम्हारा सब भेद इतना ही था या कुछ और भी कहा चाहते हो?’

मैंने कहा,—‘एक और भी बात है कि मैं पोपको भी बतला देना चाहता हू कि मैं जापानी हूँ।’

यह सुनकर वह मेरे कुछ और पास आ गया और बोला कि, ‘पैसा तुम क्यों करते हो? क्या इसकी कोई आवश्यकता है?’

इसके उत्तरमें नौटसारोंगवा और उसके मित्र द्वारा भेद खुलनेका सब हाल कह सुनाया। केवल यही नहीं बतलाया कि मैं भारतवर्ष जाना चाहता हूँ।

कुछ देर सोचकर उसने कहा, ‘अब तुम्हारा क्या विचार है?’

मैंने कहा—‘जब मैं इस देशमें इतना कष्ट उठाकर आया हू तो मैं दलाईलामाको यह बतला देना चाहता हू कि मैं जापानी हू। इसी प्रयोजनसे मैंने यह पत्र भी लिख रखा है।’

यह कहकर मैंने जो पत्र पोपके लिये लिखा था वह भी दिखला दिया और कहा कि—‘इसको पोपके हाथमें दे देना कोई कठिन बात नहीं है, कठिनता केवल इतनी ही है कि आप लोग जिन्होंने सदैव मेरे ऊपर अपनी कृपा रखी है, किसी में न पड़ जाय। इसलिये यदि आप रूसीसे मेरे हाथ

कर पोपके सामने ले जावे, तो मैं तो अपनी सब बातें कह लूंगा और इस भाँति आप भी विपदमें बच जायेंगे।

उसने उत्तर दिया,—‘मित्र इससे काम नहीं चलेगा, तुम अवश्य ही बन्दीगृह भेज दिये जाओगे। वहाँ ठण्ड और भूखसे मर जाओगे। यदि ऐसे नहीं मरोगे तो मार डाले जाओगे। परदेशीको यहाँ फाँसी नहीं दी जाती। ऐसी अवस्थामें गुप्तरूपसे विप दे दिया जावेगा। जल्दी करनेसे कुछ लाभ न होगा। निरर्थक मरनेसे क्या लाभ है?’

मुझको बन्दीगृहका यह हाल सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा—‘दूसरोंके ऊपर आफत डालकर मैं बचना नहीं चाहता। जो कुछ हो, दूसरेको बिना हानि पहुँचाये मेरा मरना भी अच्छा है। जिसने सदैव मेरे ऊपर मायापके समान कृपा रखी है उसको मेरे कारण दुःख उठाना पड़े, यह बात मैं कदापि न चाहूँगा। उसकी स्त्री मेरी बातोंको सुन फूट २ कर रोने लगी।’

अर्थसचिव कहने लगे—‘यह नहीं हो सकता कि हम जो अभी सत्कारसे जाना ही चाहते हैं अपने बचानेके लिये ऐसे भले पुरुषको मौतके हाथ दे दे। मुझे बृद्धपर बड़ी श्रद्धा है तो भी अपने बचानेके लिये ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि तुम्हें विदेशका गुप्तचर समझकर या जातीय धर्मका चोर समझकर पकड़ लिया जाय, मेरा भी इसमें प्राण जायगा, मैं भी एक विद्वान पुरुषको जो यहाँ केवल बौद्ध धर्मके ज्ञानोपार्जनके लिये आया हो सरकारके हाथों सौंपकर विपत्तिसे बच

नहीं सकता। वर्त्तमानमें तिब्यतमें अपना रहस्य खोलनेका कभी अवसर नहीं आया। अभी अपने घर लौट जाओ और अवसरकी प्रतीक्षा करो। मैं गेट्टनटीरिनपोचेका भाई और शिष्य हूँ। मैंने उससे महा उपकारका पाठ सीखा है। मैं आप विपत्ति से बचनेके लिये तुम्हें कभी विपत्तिमें न डालूंगा। यदि तुम्हारे जानैके बाद मुझपर विपत्ति आयी तो मैं उसे पूर्वजन्मका फल मानूंगा और अपने जीवनसे मुक्त हो जाऊंगा।

यह कहकर उसने अपनी स्त्रीसे कहा—‘क्या तुम नहीं समझती हो, मेरा कहना ठीक नहीं है? उसने उत्तर दिया कि तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो।’ यह कहकर वह मेरे पास आई और बोली—‘तुम विपत्तिमें हो तुम इसी समय इस देशसे शीघ्र निकल जाओ और हमारी कुछ भी चिन्ता मत करो, हम अपना बन्दोबस्त कर लेंगे। यहासे निकल भागनेका यह अवसर सबसे अच्छा है। इस समय पोप यहीं आये हुये हैं। इस मर्दानेमें लोग दोबिच रहेंगे और तुमको जाते हुये कोई न पकड सकेगा। परन्तु देर करनेसे तुम नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सुना है कि तुमको दलाईलामा अपना वंश बचाना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि तुमको बहुत दिनोंतक यहा रखें। अब तुम देर मत करो और मेरी इस बातको मानो’।

मैंने देखा कि वह यह सब आँखों आसू भरे कह रही थी।

बयासीवां परिच्छेद



जानेकी तय्यारी

उनकी प्रेम भरी बातें सुनकर मेरी आँखोंमें भी आसू आ गये। यद्यपि उनका उपदेश सर्वोचित था परन्तु मैं उसके न माननेके लिये हठ करता ही रहा। परन्तु उन्होंने एक न मानी।

शेपमें पुरोहितानीने कहा कि यहा हठ करनेसे कुछ लाभ नहीं है। टोरिनपोचेसे सलाह ले लो यदि वह इस प्रार्थनापत्रका दे देना ठीक समझें तो दे देना। पर तु जब मैंने कहा कि मैं उनसे पूछ चुका हू तो वह दोनों हसे और कहा, 'जब यह बात निर्णय हो चुकी है तो अब तर्क वितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं है। रस्सीमें बांधकर ले जानेकी बात भी तुमने हमारा लाभ विचार करके कही होगी। परन्तु नहीं अब तुम्हें शीघ्र ही तिब्बतसे चले जाना चाहिये। यदि टोरिनपोचेकी अनुमति है तो बुद्ध भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं। इसके न करनेसे हानिकी सम्भावना है। यदि कोई तुम्हारा पीछा करेगा तो उससे हम तुम्हारी रक्षाका प्रयत्न कर सकते हैं।'

उन दोनोंकी ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और आँखोंमें आसू भरे हुए अपने कमरेमें आकर अपना सामान बाधने लगा। मेरे पास जो पुस्तकें थीं उनको मैं अपने मित्र अत्तारके पास ले गया और कहा कि मैं एक विशेष कामके लिये

कलकत्ते जा रहा हूँ। यहा मुझको कुछ वस्तुएँ मोल लेनी हैं। जिन पुस्तकोंको मैं मोल लेना चाहता हूँ, यदि घरसे रुपया मिल गया तो मैं शीघ्रही लौट आऊंगा और पुस्तकें मोल ले लूंगा। यदि रुपये मिलनेमें देर हुई तां आनेमें भी देर होगी। परन्तु सबसे बडो कठिनता मेरे सामानकी है। मैं चाहता हूँ कि जो पुस्तक मेरे पास है वह घरवालोंको दिखला आऊँ। क्या तुम ऐसा कोई यन्त्रोपस्त घोडे इत्यादिका कर सकते हो ?

इस अत्तारको मेरे ऊपर बडा विश्वास था। मैं समझता हूँ कि वह भी समझता था कि मैं जापानी हूँ क्योंकि एक बार वह मेरे घरमें आया था उस समय उसने मेरी पुस्तकोंमें कई एक जापानी पुस्तके देपी थीं। उस दिनसे कमसे कम वह इतना तो अवश्यही समझने लगा था कि मैं चीनी नहीं हूँ। उसने कहा कि चीनका एक और भी व्यापारी कलकत्ते जा रहा है। वह मेरा परम मित्र है। तुम उसके साथ चले जाओ। वह तीन चार दिनमें कलकत्ते जावेगा। उसके पास कई घोडे पाली हैं अनप्य वह तुम्हारा सामान कम किरायेपर ही ले जावेगा।

हम लोग यह बातें कर ही रहे थे कि वहा एक मनुष्य आता दिखाई दिया। अत्तार उसको देखते ही उसके पास गया और बोला—हम लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस मेरे मित्रका दो घोडोंका योद्ध दार्जिलिङ्ग तक लिये जाओ ?

जब मैंने देखा तो 'शात हुआ कि मैं इसको पहचानता हूँ। मैंने कई बार इससे कस्तूरी मोल ली थी और कई बार द्वादश्या घना २ फर उसे बेचनेके लिये दी है। वह जानता था कि देन लेनेके मामलेमें मैं बहुत सच्चा हूँ और वह मेरी विनयको मान भी लेता परन्तु उसने कहा कि मेरे पास कोई खाली घोड़े नहीं हैं अतएव मैं तुम्हारा सामान नहीं ले जा सकता। हाँ एक और आदमी जाता है उससे मैं कह दूंगा वह तुम्हारा सामान दार्जिलिङ्ग पहुँचा देगा। परन्तु उसको किराया कुछ अधिक देना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसकी कोई चिन्ता नहीं।

वहासे मैं सेरा विहार पहुँचा और रातभर अपना सामान बांधकर तय्यार करके दूसरे दिन लासामें अत्तारके यहा भेज दिया। इस समय भाग्यवश सेरामें बहुत थोड़े पुरोहित थे। इससे मेरी तय्यारीकी ओर किसीने ध्यान नहीं दिया। मेरे पास एक लडका नौकर था। जिस समय मैं बाहर चला जाता था तो उसको एक पुरोहितके पास पढ़नेको भेज दिया करता था। जब मैं सेरामें आता था तो वह मेरा खब खाम लिया करता था। और लोगोंकी दृष्टिसे तो मैं बच सकता था परन्तु इनसे कैसे छुप सकता था। पहले उसको नौकरीसे अलग कर दू तब ठीक हो अतएव मैंने उससे और कई एक औरोंसे कहा कि मैं तसारी तीर्थयात्राके लिये जा रहा हूँ। वहाँ अर्थ-सचिव मेरे मित्रके भाईने मुझे बुलाया है। मैंने उससे कहा कि मुझको वहा चार महीने लगे गे अतएव मैंने उसे चार

महीनेका भोजन और पढ़नेकी फीस दे दी। परतु फिर मैंने सोचा कि कहीं इनने रुपयेको वह धराय न कर दे अतएव वह सब रुपये लेकर मैंने उसके गुरुके हवाले कर दिये।

मेरे जानेमें अभी चार दिन शेष थे अतएव जो पुस्तकें मुझको मोल मिल सकीं वह भी ले लीं। अत्तारने कृपा करके सुते कई सन्दूक सामान रखनेके लिये बनवा दिये। उनके अतिरिक्त पुस्तकोंके लपेटनेके लिये ३४ याकके हाल होके उतरे हुए चमड़े भी मगा दिये। तिब्बतमें चमड़ा उतरते ही काममें ले लिया जाता है जिसमें रक्त लगा रहता है। सूखनेपर वह बहुत मजबूत हो जाता है।

तारीख २७ मईको जब मैं अपनी सब तय्यारी कर चुका तो अर्थसचिवसे मिलने गया क्योंकि २८ तारीखको मेरे जानेकी उहर गई थी। अर्थसचिवने राहके लिये मुझे बहुतसे उपदेश दिये और सौ रुपये मार्ग व्ययके लिये दिये। जो जो उपकार उन्होंने मेरे साथ किये थे उनके देखते तो मुझको ही कुछ मेंट करना चाहिये था। वहाँसे बिदा होकर मैं अत्तारके यहा आया।

जब मैं अत्तारके यहा पहुँचा तो मालूम हुआ कि वह व्यापारी जो मेरे साथ जानेवाला था अब नहीं जावेगा। कारण कि जो व्यापारी मेरे साथ जानेवाला था वह चीनी अम्बानका बड़ा मित्र था। चीनी अम्बानने उससे कह दिया कि जिसको तुम साथ लिये जा रहे हो वह चीनी नहीं घर जापानी है।

यद्यपि उसको यह नहीं मालूम है कि मैं तिब्बतके भीतर कैसे आ गया परन्तु बहुत सम्भव है कि वह ब्रिटिश सरकारका गुप्त-चर हो क्योंकि आजकल कोई भी धर्माचारी ऐसा नहीं है कि इतने फलेश केवल धर्मके लिये उठावे। अतएव यदि यह गुप्त-चर हुआ तो तुम्हारा शिर काटा जावेगा। इस बातके सुननेसे वह व्यापारी मेरा सामान ले जानेको राजी न हुआ।

बादमें कुछ चीनी कुली जा रहे थे। अत्तारने उनमेंसे एकके हवाले मेरा सामान कर दिया और अत्तारकी स्त्रीने मेरे निजी सामानके लिये एक और कुली कर दिया।

तिरासीवां परिच्छेद

—०*०—

रोते हुए विदाई

लासा नगरके मनुष्य इस समय त्यौहारोंमें लवलीन हो रहे थे। सरकारी पुलीसके सिपाही भी त्यौहारोंके बन्दोबस्तमें रहा करते थे। परन्तु फिर भी मुझे होशियारीसे जाना आवश्यक था। क्योंकि सेराके बहुतसे पुरोहित लासामें आ गये थे। अतएव मैंने एक लयादा जो कि अर्थसचिवसे कुछ दिन पहले माग लिया था पहन लिया।

विदा होनेके दिन ग्यारह बजे मेरे मित्र अत्तार और उसकी स्त्रीने मेरे लिये भोजन बना दिया। उनके वच्चे जिनसे मेरा बड़ा

रोते हुए बिदाई

प्रेम हो गया था किसी भाँति घरसे जाने देनेको रात्री बड़े बड़ोंके प्रेमका प्रभाव मुझपर पहले कभी ऐसा न हुआ था।

उस घरके कई लोग थोड़ी दूरतक मुझको पहुँचानेको चाहते थे परन्तु इस भयसे कि इकट्ठा देखकर कोई कलह करे हमलोग एक एक करके घरसे निकले। मैं अपने सामान रखे जिस समय घंटे मन्दिरके सामनेसे निकलने पुलीसके सिपाहीने मेरी ओर देखा। उसके मेरी ओर मैंने समझा कि उसने मेरे ऊपर सन्देह किया है। यह धो कि नगरमें यह बात चारों ओर फैल गई तो पोपका वैद्य होनेवाला है। इस समय पुलीसके उच्चपदाधिकारियोंका लडादा पहने देखा तो उसने कि मैं उस पदपर नियुक्त हो गया हूँ। जब मैं पहुँचा तो उसने सम्मानसूचक प्रणाम किया दी। बिदाईका अर्थ यह था कि मैं उसे कुछ अलग अलग अलग मैंने उसके प्रणामका उत्तर देकर निकालकर दे दिया और आगे बढ़ा। मन्दिर घरसे निकलते ही बिदाई पाकर मैंने अपने समझा।

यहाँकी पुलिसके सिपाहियोंकी वर प्रजामें धनी पुरखोंसे ही शिक्षाकी मित समयपर वे लोग तीन तीन इकट्ठे द्वारपर खड़े होकर कहते हैं—

मांगने आये हैं। आप इतने धनी हैं कि आप हमारे कष्टोंको दूर कर सकते हैं। आप गरीबोंके मालिक और निर्धनोंके मित्र हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ३० मोहरें उन गरीब घरानोंको दें जो गरीब भ्रोंपड़ियोंमें रहते हैं। आप लोगोंकी दी हुई आजकी भिक्षा हम अपने घरवालियोंको देंगे। वे देखकर बड़ी प्रसन्न होंगी। आज हम अपने टूटे फूटे प्याले सुगन्धित मद्यसे भरकर रखेंगे वे हमें कल्याणकारी होंगे'।

इन शब्दोंको वह द्वारपर खड़े हुये चारम्बार कहते रहते हैं जबतक कि भीतरसे कोई नहीं निकलता है। भीतरसे घरका कोई मनुष्य चादीके कुछ सिक्के और भुना हुआ आटा एक टीनके चर्तनमें रखकर फातासे ढाककर लाता है। इस रकमकी कोई हद्द बधी हुई नहीं है परन्तु एक धनी पुरुषसे जितनी उन्हें आशा होती है उतना यदि नहीं मिलता तो वे सिपाही कहते हैं कि हमने इतनेकी आशाकी थी। इसी भाति मन्दिरोंसे भी कुछ भेंट मिलती है।

इस भाति जितना रुपया आता है एक अफसरके पास जमा होता है और मासिक वेतनके रूपमें सब सिपाहियोंको दिया जाता है। लासाकी पुलिस इससे भी अधिक पाती है। अर्थात् जब कोई यात्री बाहरसे लासामें आता है तो उससे यह दान मागते हैं। यदि उसने कमसे कम एक टंका दे दिया तो ठीक है नहीं तो पुलिस उनके पीछे बदमाशोंको लगा देती है और जिस समय वे लोग यात्रीको लूटते हैं तो बचाना तो दूर

रहा वे उ गलीतक नहीं हिलाते । मैंने भी इस भाति कई बार टंका दिया था परन्तु इस समय मैं लबादा पहने पुरोहित था । वे पुरोहितोंसे नहीं माग सकते हैं अतएव और कोई सूरत न देखकर उसने बधाई दी थी ।

यदि पुलिसमैन बाहर कहीं चोरको पकडनेको जावे तो मार्गव्ययके लिये कुछ भी साथ नहीं ले जावेगा । राहमें किसी घरपर जाकर खानेको मागेगा और जो कुछ मिलेगा खा लेगा । जब वह ऐसे स्थानपर जाता है जहा कुछ मिलनेकी आशा नहीं तो किसी घरसे वह खानेको भी माग लेगा । कोचाकया पुलिस सरकारसे वेतन पाती है भिक्षा नहीं लेती है ।

सिपाहोसे छुटकारा पाकर मैं मन्दिरके भीतर गया वहा कई मित्र मुझसे मिलने आये हुए थे । वहा मुझे और कुछ विशेष काम न था केवल लबादा उतारकर अपनी पोशाक पहननी थी । मैंने अपने कपडे पहन लिये और लबादा अर्थसचिवको लौटाल देनेके लिये दे दिया । मेरे मित्रोंने चलते समय मुझसे थोडीसी मदिरा पीनेका हठ किया परन्तु मैंने न पी । वे लोग मुझको भारतवर्ष जाते देखकर बडे दु खित हो रहे थे । मुझको यद्यपि लासा छोडनेका दु ख न था तथापि उन मित्रोंके दु खित चेहरे देखकर अवश्य ही दु ख होता था । वहासे चलकर मैं रातभर शिंगजोंकामें ठहरा ।

तारीख ३० मईको मैंने वहासे घोडे किराये किये । मेरा बुली टनेवा बडा भूठ घोलता था । बहुधा तिव्यतवाले छोटीसी

चातको बहुत बढ़ा देते हैं, यह भी वैसा किया करता था। मैंने इसको बहुत समझा दिया परन्तु फिर भी इसने अपनी आदत न छोड़ी। इसने शिगजोंकाके सरायवालेसे कह दिया कि मैं एक विशेष लामाका अवतार हूँ। सरायवालेने यह सुनकर मुझे एक अच्छा कमरा दिया और सब तरहसे आराम दिया। यद्यपि मुझे उसके इस मिथ्या भाषणसे आराम मिला तथापि मुझे विपत्तिमें फस जानेका भय था। उसकी इस दुष्टताके लिये मैंने समझाया जिसके ऊपर उसने यह उत्तर दिया कि,—‘ऐसा करनेसे आपका बहुत मान होगा और आप रुपया भी उपार्जन कर सकते हैं। इस भाति जानेसे कुछ धन नहीं मिल सकता।’

मैंने क्रोधित होकर कहा,—‘परन्तु खबरदार! मैं यहा धनोपार्जनके लिये नहीं आया हू। इस भाति धोखा देकर रुपया कमाना बडा पाप है।’

उसने उत्तर दिया,—‘परन्तु प्रत्येक मनुष्य धनोपार्जनकी चेष्टा करता है। आगेसे मैं अपनेको समहाले रहूंगा।’

दूसरे दिन मैं नामनगरमें पहुँचा। प्राय बीस वर्ष हुये जब मेरे गुरु शरत्चन्द्र दास यहा आये थे इस गाँवमें तीस घर थे परन्तु अब वहा केवल एक ही घर था। कारण कि चू नदी इस गाँवको बहा ले गई थी। अब वहाँ एक मकान केवल यात्रियोंके आरामके लिये रहने दिया था और बस्ती वहासे हट चुकी थी।

नामसे चलकर मैं जागतो पहुँचा। यहा सेराका एक पुरोहित रहता था। उसने मुझको चाय पिलायी। चाय पीते समय

उसने पूछा कि कहा जा रहे हो ? मैंने उत्तर दिया कि मैं भारत-चर्च जा रहा हूँ। यह सुनकर लामाको बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे सहायता देनेके लिये तय्यार हो गया। सबेरे उसने अपना घोड़ा मुझे दे दिया जिससे मैं शीघ्र ही धरुसम पहुँच गया। वहाँ कई नार्वे थों में नदी पार करके पार्श्वे पहुँचा। वहाँ घोड़ा किराया करके गेनपाला पर्वतपर चढ़ा। मार्गमें एक चीनी मिला जो लासा एक दिन पहले चला था। मैं पर्वतके शिखरपर पहुँच गया। वहाँसे लासाके सभी दृश्य दीखते थे। वहाँसे लासा पक्षीभी उड़ानसे ३५ मील होगा। गेनपालासे उतरते हुए हम तामालग स्थानपर होकर पाल्ते पहुँचे। तामालगमें बड़ा बदलने और भोजनादि सामग्री प्राप्त करनेके लिये उचित स्थान है। वहाँसे पाल्ते पहुँचे।

पाल्ते नगर बड़ा सुन्दर है और या मटो नदीके ऊपर बसा हुआ है। मुझे मालूम हुआ कि मेरे कुली टेनवाने वहाँ भी नगरमें कुछ यात उडा दी क्योंकि मेरे वहाँ पहुँचते ही वहाँका मुखिया मेरे पास एक रोगीको लाया। पहले तो मैंने चिकित्सा करनेको इन्कार किया परन्तु जैसे २ मै इन्कार करता था वैसे ही वैसे मुखिया हठ पकड़ता जाता था। नगरभरके लोग मुझे सेराका वैद्य कहकर पुकारते थे। सेराका वैद्य क्या मानो साक्षात् धन्वन्तरि उत्तः आये थे।

६ जूनको सबेरे दो बजे मैं वहाँसे चल दिया और आठ बजे यास्सेमें पहुँच गया। वहाँ न ठहरकर मैं और आगे बढ़ा

और चलते चलते भूटानके सरहद्दी पहाडके पास जा पहुँचा। यहीं एक नदीके किनारे ठहर गया।

हमलोग प्राय आधी रातमें सोये थे, सवेरे मैं उठा और नौकरको जगाया। परन्तु उसने उठनेसे इन्कार किया और कहा, कि अभी रात है। मैं इसलिये शीघ्रता कर रहा था कि यदि कोई पीछा करनेवाले आवे तो उनसे पहले ही निकल चलें। कुछ अधेरा था। मेरा नौकर भूतों प्रेतोंसे बहुत ही डर रहा था।

फिर भी उसको साहस दिलाता हुआ मैं निरन्तर पहाडपर चढ़ता चला जाता था। दिन निकलते-२ मैं एक जारा गावमें पहुँच गया। यहाँ मैंने भोजन किया और घोड़े किराये किये। यहाँ डाकके घोड़े नहीं मिलते। बोझा लादनेके लिये भी कभी २ कठिनतासे मिलते हैं।

वहाँसे चलकर दूसरे दिन हम ज्यांगतुजे पहुँचे। यहाँ डाक-खाना है। यहाँ एक बौद्ध मन्दिर भी है जिसमें १५०० पुरोहित रहते हैं। यहाँपर एक अफसर अर्थविभागका भी तिब्बतकी ओरसे रहता है। इसका विवाह उसी ननकी भतीजीसे हुआ था जिससे मेरी भेंट अर्थसचिवके यहाँ हुई थी। उसने मुझे बड़े आदरसे ठहराया और वहाँ १०-१५ दिन ठहरनेका आग्रह किया परन्तु मैं सहमत नहीं हुआ। फिर भी मन्दिरके दर्शन करने और पहाडपर चढ़ाई करनेकी तय्यारीमें वहाँ दो दिन लग ही गये। यह मन्दिर बहुत बड़ा है। सारा विहारसे प्राय आधा है।

ग्यालेमें व्यापार बहुत अधिक है। नित्य सबेरे बाजार लग जाया करता है। तरकारी, मास, फल, फूल, दूध, मखन, सब इत्यादि यहाँ खूब बिकती है। ऊन और याकके चमड़े भी यहाँसे भारतवर्षको जाते हैं।

१ जून सन् १९०२ को मैं पाच घंटे सबेरे वहाँसे चल दिया। वहाँ मेरे मेजबानकी कृपासे पाच दिनोंके लिये एक घोडा भी किरायेपर मिल गया। मार्गमें नेरिंगका सघाराम था जहाँ सुनते हैं कि एक जीवित जागृत देवी ७ वर्ष आयुकी रहती थी। मैंने उसके दर्शन किये। वहाँसे पचीस मील चलनेपर मुझे मेरे कुली टेनवाकी जन्मभूमि मिली। रातको एक मन्दिरमें ठहरा। वहाँ इसका भाई भी रहता था। उसके भाईने टेनवासे कहा, कि तुम्हारे स्वामीका रंग बहुत गोरा है, मगोलियन मालूम होते हैं। क्या वह अंग्रेज तो नहीं है ?

मेरे नौकरने कहा नहीं नहीं, वह सेराके माननीय वैद्य है ? भाईने कहा—'मैं सेराके वैद्यको जानता हूँ। परन्तु वह बड़ा अद्भुत मनुष्य है। वह मृत जीवको जिला देता है। ऐसा काम सिंगापूरोपियनके और कोई नहीं कर सकता है। तुम सतर्क रहना कि कोई हानि न पहुँच जावे।' उसको यह नहीं मालूम था कि दूसरे कमरेमें मैं लेटा हूँ।

टेनवा—नहीं यह बात नहीं है। अन्तारने मुझे इनके साथ कर दिया है। अन्तारसे इनकी बड़ी मित्रता है, वह कहता था कि यह चीनी हैं।

भी करते हैं और रखी हुई मछलियोंसे भरणपोषण करते हैं। ये लोग आधे मछुवे और आधे मिखारी होते हैं।

चौरासीवां परिच्छेद



पांच महाद्वार

६ जूनको नित्यके अनुसार हमलोग चलने लगे। टेनवाका सन्देह ज्यों का त्यों बना हुआ था। उसको भय था कि यदि किसी भाति भेद खुल गया तो वह जेलमें जावेगा। उसने फिर आक्षेपसे कहना शुरू किया—

‘उस दिन आपने कहा था कि गुप्त राहसे जानेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु यह आपकी भूल है। जैसा भयानक उस मार्गको आप समझ रहे थे वैसे वह भयानक नहीं है। जंगली जन्तुओंको अग्निसे डराकर भगा सकते हैं। मैं दो चार इस मार्गसे गया हूँ। फारीके सिपाही बड़े कठोर हैं। १४ १५ येन देने पडते हैं परन्तु आपको पचास येनतक देने पडें तो आश्चर्य नहीं है। वहा आप कमसे कम ४-५ दिनतक रोक लिये जावेंगे। यदि आप शीघ्र ही जाना चाहते हैं तो गुप्त राहसे चलिये इसमें रुपया और समय दोनों ही बचेंगे।

मैंने उत्तर दिया कि ‘यदि वह लोग मुझको तग करेंगे तो

करें मुझको कुछ इन्कार नहीं है। जो कुछ लगेगा वह भी मैं समझ लूंगा कि दलाईलामाकी भेंट कर दिया।'

मेरी बातें सुनकर उसका सन्देह जाता रहा। प्राय ५ मील आगे बढ़े होंगे कि मुझको राहमें चार मनुष्य छठे हुये मिले। इन लोगोंकी उड़ो भयानक सूरतें थीं। इन्होंने मुझे बहुत झुककर प्रणाम किया और कुछ भिक्षा चाही।

उन्होंने कहा कि 'हमलोग उत्तरसे आये हैं। हम फारीमें नमक बेचने जा रहे थे। पिछली रात हमारा चौकसी करनेवाला सो गया और हमारे नमक लदे ४५ याक डाकू लोग ले गये। हम नहीं जानते कि वे तिब्बती थे या भूटानी परन्तु हम उनका पीछा करेंगे। आप कृपाकर बतला दीजिये वे किस ओर गये होंगे।'

इन्होंने मुझे तिब्बती भविष्यवक्ता पुरोहित समझा। मैं भी वैसा ही बन गया। मैंने कहा कि शीघ्र ही तुम लोग उत्तरको चले जाओ। सन्ध्यातक उनको पकड़ लोगे। यह लोग मेरी बात सुनते ही उत्तरको चल दिये। मैं इस गावमें ठहर गया, यहा खानेको कुछ भी मिलना कठिन है।

भूटान एक स्वाधीन देश है। यहा नाममात्रका एक राजा रहता है। यहाकी प्रत्येक जाति तिब्बतको स्वत कर देती है, अपने राजाके द्वारा नहीं देती है। उसके बदलेमें तिब्बतसे भेंट मिलती है। यह एक प्रकारका बदला है कर नहीं है।

मैं आगे बढ़ रहा था कि बही लोग मेरे पास आये जिनके

याक चोरी गये थे। उन्होंने बड़ी भक्तिपूर्वक मुझको दो टका और एक काता भेंट किया और कहा कि आपकी कृपासे हमारे सब याक मिल गये। मेरी इस दैवी शक्तिका टेनवाके ऊपर अच्छा प्रभाव पडा। उसने समझ लिया कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। रातको मैंने अपनी धर्मपुस्तक पढ़कर ध्यान किया तो राजमार्गसे जाना ही उचित ज्ञात हुआ।

जो यात्री इस राहसे आते हैं उनकी फारी द्वारपर बहुत कड़ी जाच होती है। एक मनुष्य शपथ खाकर साक्षी देता है कि यह यात्री थोड़े दिनोंके लिये भारतवर्ष जाता है और शीघ्र ही लौट आवेगा, फिर थोडासा नारियलका तेल देनेसे पासपोर्ट मिल जाता है जिसकी सहायतासे यात्री दूसरे फाटक खुम्बी-मग्नासे निकलते हैं। यहांपर यह पासपोर्ट दिखलाकर तीसरे फाटक पिम्रीथागमें जाता है। यहांपर चीनी अफसर उसकी जाच करते हैं। चौथे फाटक टोमोरिनचेनगोंगमें लिखा हुआ सार्टीफिकेट मिलता है। इसको नयातोंग दुर्गके बड़े फाटकपर दिखलाना पडता है। यहांपर घूस देनी पडती है और प्रश्नोत्तर भी होते हैं। यहांपर कुछ पेन् भी कागज मिलते हैं जिनको यात्री इधरसे उधर कई अफसरोंके पास ले जाता है तब कहीं छुटकारा होता है।

फारी और नयातोंगके बीच मुझे बहुतसे मित्र मिले। बहुत ऐसे थे जिनसे चलते २ भेंट हो गई थी और बहुत ऐसे थे जिनसे मैं शार्जिलिगमें मिल चुका था। नयातोंगके फाटकके पास एक

मिशनरी लेडी मिस ऐन आर टेलर रहती थीं। यहींपर तिग्रतके कुछ बदमाश भी रहते थे। यह सब मुझे पहचानते थे अतएव उनके भयसे मैं रातभर नहीं सोया। इस फारीके फाटकमें जाना तो सहज था परन्तु सम्भव था कि वहा मेरे कोई मित्र मिल जावें। यदि मैं वहा रोक लिया जाता तो पकड जानेका भय था क्योंकि लासासे चले मुझको दस दिन ही चुके थे। ऐसा कभी सम्भव नहीं था कि लासामें इतने दिनोंतक फिसीने मेरी खोज न की हो। और जब मैं न मिला होऊंगा तो अवश्य ही मेरे पीछे सरकारी पुलिस भेजी गई होगी। ऐसी अवस्थामें यदि फारीके फाटकपर मुझको देर हो जाती तो अवश्य ही भयानक विपद्की सम्भावना होती।

तारीख ११ जूनको मैं फारीके समीप पहुच गया।

पचासीवां परिच्छेद

पहला द्वार

लासामें जैसा दलाईलामाका महल है ठोक वैसा ही दुर्ग फारीका है। वह भी एक पहाडीपर बना हुआ है। उसके नीचे जो मकान बने हुए हैं वे काले रङ्गके हैं। यहा कलकत्ता बम्बई और दार्जिलिङ्गसे सामान आया करता है और बिक्री भी बहुत होती है अतएव यहा एक चुगीघर भी है। यहापर चुङ्गी असली

मूल्यपर १, २ और कभी कभी ४ तक लग जाती है। बहुधा तो जो वस्तु बिकने आती है चुगोमें वही ली जाती है परन्तु जहा इस बातकी कठिनता है वहा रुपया ही लिया जाता है।

नगरके किनारेपर एक तालाब है। तालाब और दुर्गके बीचकी सड़कपर मुझे चौकीदार मिले। उन्होंने मेरे ठहरनेका स्थान पूछा परन्तु मैंने अभीतक कही ठहरनेका कोई बन्दोबस्त नहीं किया था अतएव मैंने उनसे ही कहा कि मेरे लिये कोई अच्छा मकान खोज दें। उन्होंने मेरी अच्छी पोशाक देखकर समझा कि मैं कोई ऊंचे दर्जेका पुरोहित हू अतएव उन्होंने एक अच्छा मकान मुझे दिखा दिया।

तिब्बतमें होटल अथवा सराय नहीं है। मुझे ज्ञाते हुए देखकर एक सरायवालेने पूछा, 'श्रीमन् कहा जा रहे हैं?' उसने मुझे उच्चकोटिका लामा समझा।

'मैं कलकत्ते जा रहा हू। यदि अवसर मिला तो बुद्ध गथाको भी जाऊंगा। परन्तु इस समय मुझे एक आवश्यक काम है इससे आशा नहीं है कि वहांतक पहुंच सकूँ।'

'आपका क्या काम है साहब?' सरायवालेने कहा।

'इसके बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि क्या काम है।'

'महाशय, आप कहासे आ रहे हैं?'

'लासासे।'

'लासाके किस भागसे?'

'सेरा विहारसे?'

‘अच्छा तो बात है आप किसी लामाके अवतार हैं ?’

इतनेमें बीचमें मेरा नौकर बोल उठा,—‘नहीं साहब दलाई-लामाके . . .’ यह इतना ही कह पाया था कि मैंने क्रोधपूर्वक कहा,—‘निरर्थक मत बको इससे कुछ लाभ नहीं है।’

सरायवालेको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अपने उद्योगको क्यों छुपाता हूँ। उसने कहा, ‘यद्यपि आप दलाई-लामाके प्रतिनिधि हैं।’

‘नहीं, मैं और कुछ नहीं हूँ केवल सेरा विहारमें रहता हूँ।’

ज्यों ज्यों यह मेरा पता लगाना चाहता था त्यों त्यों मैं भेदको छुपाता था। शेषमें मैंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं बतला सकता हूँ।

सरायवालेने कहा,—‘नहीं यह ठीक नहीं है। आपको कोई बात ऐसी न कहनी चाहिए जिसमें सन्देह उत्पन्न हो। सन्देहको दूर करनेके लिये सब बातें खोलकर कह देनी चाहिये। आपको यहाँ एक साक्षी देनी होगी कि यद्यपि आप भारतवर्ष जा रहे हैं परन्तु शीघ्र ही लौट आवेंगे। साक्षीका मिलना यहाँ सहल बात नहीं है। इसके लिये यह बात आवश्यक है कि मैं आपके विषयमें सब हाल जान लूँ।’

मैंने कहा कि यदि यही बात है तो मैं एक साधारण पुरोहित हूँ सेरा विहारमें तर्कशास्त्रका स्वाध्याय कर रहा हूँ।

आपकी दृष्टिसे मालूम होता है कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं। आपकी अवस्था, तथा आपके कपड़े देखनेसे ज्ञात होता है

कि या तो आप कोई उच्चकोटिके लामा हैं अथवा किसी लामाके अवतार हैं ।

तुम ऐसाही समझ लो, परन्तु जैसा तुम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ । मेरी सत्यता सेरा विहारमें पूछनेसे ज्ञात हो सकती है ।

यह सुनकर वह मेरे नौकरके साथ दूसरे कमरेमें चला गया । वहा बैठे हुए मैं उसकी बातें सुन सकता था ।

सरायवालोंने कहा,—‘तुम्हारे स्वामीने मुझे इधर उधरकी बातें बतला दीं । परन्तु जबतक यथार्थ बात न मालूम होगी उनका १०-१५ दिनतक यहांसे निकलना असम्भव है ।’

नौकर—मैं कुछ भी कहकर उनको रुष्ट नहीं कर सकता ।
सरायवाला—ऐसी अवस्थामें मैं एक महीनेतक कुछ नहीं कर सकता हूँ ।

नौकर—वह बहुत जल्दीमें हैं । कोई आवश्यक काम मालूम होता है । आज रातभर चले हैं ।

सरायवाला—क्या रातभर चलना आश्चर्यजनक नहीं है ? मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ऐसा आवश्यक क्या काम हो सकता है परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि वह साधारण पुरोहित नहीं हैं ।

नौकर—अच्छा तो मैं तुमको बतलाता हूँ परन्तु मेरा नाम गुप्त रखना । घास्तवमें वे सेराके वैद्य हैं ।

सरायवाला—क्या सत्य कहते हो ? क्या यह वही वैद्य हैं जिन्हींने मृतकको जिला दिया था ?

नौकर— हा यह वही हैं। मैं ठीक २ तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुराना नौकर नहीं हूँ। मुझे हालहीमें अत्तार्गन इनके पास रख दिया था। मैंने सुना है कि वह दलाइलामाके पास थे और लासामें इनका बहुत प्रभाव है।

सरायवाला—अच्छा तो मैं इनको ४-५ दिनमें पासपोर्ट बनवा दूंगा।

नौकर—यदि तुम नहीं बनवा सकोगे तो बड़ा दुःख होगा।

सरायवाला—मेरा एक कुटुम्बी बहुत बीमार है क्या यह उसको देखेंगे ?

नौकरने हताश भावसे कहा 'वह कभी रोगीको नहीं देखते हैं। वह बड़े हठीले हैं। यदि राहमें उन्होंने किसी रोगीको देखा होता तो न जाने उन्होंने कितना रुपया कमा लिया होता परन्तु मेरे प्रार्थना करने पर भी उन्होंने चिकित्सा नहीं की।

सरायवाला—क्या तुम इतनी कपा नहीं करोगे कि मेरी मोरसे सिफारिश कर दो ?

नौकरने मेरे पास आकर घबराते हुए कहा कि सरायवालेने मुझे भाति २ के प्रश्न किए। इसमें मेरे मुखसे निकल गया कि आप वैद्य हैं। अतएव वह प्रार्थना करता है कि आप उसके रोगीको देख लीजिए और चार पाच दिनतक जयतक आप ठहरे हैं और रोगियोंको भी देखनेकी कृपा कीजिए।

मैंने कुछ कुपित स्वरमें कहा—“यदि मैं वैसा हो करूँ तो रोगी-

५१०५
५११५

धोंका कोई अन्त ही नहीं होगा । मैं रोगियोंको नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मुझको इतना समय नहीं है ।”

नौकर—इस कामके लिए मैं इस कारणसे कह रहा हूँ कि आप इसके करनेसे दीर्घजीवी होंगे ।

मैंने बड़ी कठिनतासे इस बातको स्वीकार किया । सरायवाला प्रसन्न होता हुआ घर गया । थोड़ी देर पीछे वह एक और मनुष्यको अपने साथ लाया जो कि एक कालेसे मकानमें मुझको ले गया । यहा सब मकान काले दिखलाई पडते हैं क्योंकि काली मिट्टी और घासकी १४ इञ्च लम्बी, ७ इंच चौड़ी और ३ इंच मोटी ईंटें काट ली जाती हैं । उसीसे यह मकान बनाये जाते हैं । यह मकान यद्यपि ईंटोंकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तथापि बहुत ही दृढ हुआ करते हैं । यह मकान केवल हवाके झोंकेसे गिर सकने हैं और कोई वस्तु उनको हानि नहीं पहुँचा सकती है । हवासे रोकनेके लिये जहा तहा लकड़ीके खम्भे लगा दिये जाते हैं । पहाड यहासे बहुत दूर पडते हैं । यदि वहासे पत्थर लाया जावे तो खर्च अधिक पडता है । अतएव इसी घास और मिट्टीसे मकान बना लेने हैं । दो चार मकानोंको छोडकर सभी एक तल्लेके बनाए जाते हैं । जो दो तल्ले हैं उनकी नीचेकी इमारत पत्थरकी होती है । ऐसे दो तल्ले मकानमें जाकर मैंने रोगीको देखा । वह सरायवालेकी कन्या थी । उसको क्षयरोग अभी आरम्भ ही हुआ था जिसके कारण वह सदा उदास रहा करती थी और अपने कमरेमें पडी रहती थी । मैंने

उसको थोड़ीसी औपधि दी और कहा कि सुबेरी और सन्ध्याको बोधिसत्व अवलोकितेश्वरके दर्शनोंको जाया करे। जब मैं सरायमें आ गया उसके थोड़ी देर पीछे सरायवालेने आकर हर्षित होकर कहा कि आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया। अब रोगीकी अवस्था बहुत अच्छी है। उसने कहा कि यहा पासपोर्ट मिलनेके लिए साक्षीकी आवश्यकता है और साक्षी मिलना बड़ा कठिन है। आपने इसके लिए क्या प्रबन्ध किया है ?

मैंने कहा कि मुझे इसकी बड़ी विन्ता है जैसे प्रेमा जैसे कोई साक्षी उपस्थित करूंगा। इसके लिये मैं कुछ रुपया भी खर्च कर सकूंगा।

सरायवाला—हमलोगोंको सरकारकी ओरसे साक्षी देनेका निषेध है परन्तु मैं आपको एक मनुष्यके पास ले चलूंगा और उसको सब हाल बतला दूंगा। यदि वह राजी हो गया तो फिर आपको अनुचित रुपया देनेकी आवश्यकता न होगी।

सरायवाला मुझको एक मनुष्यके पास ले गया जो कि मेरी गवाही देनेको तय्यार हो गया। वह घुरा आदमी नहीं था परन्तु तिब्बतवालोंकी रीति है कि जो अच्छे फपडे पहने हो उससे रुपया कमानेकी चेष्टा किया करते हैं। मेरे मना करने पर भी सरायवालेने उसके सामने मेरी प्रशंसा करनी आरम्भ कर दी और कहा कि मैं सेराका घंघ हूँ और दलाईलामाकी सेवामें हूँ। ज्योंही उसने सरायवालेके मुँहसे यह शब्द सुने त्योंही गवाही देनेको तय्यार हो गया।

उसने कहा कि और कुछ नहीं लगेगा । केवल लिखापट्टीके खर्चमें डेढ़ रुपया लगेगा । पासपोर्टके मिलनेमें ४५ दिनकी देर लगेगी । मैं कह दूंगा और जितना शीघ्र होगा आपको पासपोर्ट दिलवा दूंगा । परन्तु निवेदनपत्र आजही लिखकर दे देना चाहिये नहीं तो पासपोर्टके मिलनेमें भी देर होगी । मैं आपको अध्यक्षके पास ले चलूंगा ।

यहा कोई आफिस नहीं है । दुर्गके पास सर्वसाधारणके मकानोंहीमें एक मकान है जिसमें आफिस है । १४-१५ मुंशी नौकर हैं परन्तु काममें देर अवश्य ही होती है । कारण यह है कि जितनी देर होगी उतनाही घूस पानेका अधिक अवसर मिलेगा । मैंने अपना निवेदनपत्र एक मुंशीको जाकर दे दिया जो कि देखनेमें उच्च कोटिका मालूम होता था ।

उमने मुझसे कहा कि आज तो नहीं परन्तु परसों हमारी बैठक होगी । उसमें आपको उत्तर दिया जावेगा । आपको यहा आनेकी आवश्यकता नहीं है सरायवालेसे हम कह देंगे । इसका अर्थ यह था कि वह सरायवालेसे कह देगा कि यदि इतनी घूस मिल जावेगी तो पांच दिनमें पासपोर्ट मिल जावेगा अन्यथा नहीं । इतनी देर होनेपर भी इतनी घूस देनी पड़ेगी नहीं तो १०-१२ और १५ दिनतक लग सकते हैं ।

मैंने कहा कि मुझको बहुत आवश्यक काम है । क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आजही पासपोर्ट मिल जावे ?

उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा आव-

शक काम क्या हो सकता है। यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि उसी दिन पासपोर्ट मिल जाये। यदि आप नहीं ठहर सकते हैं तो वापिस लौट जाइये।

सरायवाला और उस लड़कीका पिता मेरे साथ थे जिसको मैंने अच्छा किया था। इन दोनोंने मुझको एकान्तमें बुलाकर कहा कि यह दलाईलामाके वंश है।

मुंशीने लौटकर मुझसे पूछा 'आप किस कामके लिये भारतवर्ष जा रहे हैं?'

एक आवश्यक काम है क्या कल आपकी बैठक नहीं हो सकती है? मैंने सोचा कि यदि मैं परसोंतक ठहरा भी रहूँ तब भी पासपोर्ट नहीं मिलेगा अतएव कोई युक्ति निकालनी चाहिये।

मैंने कहा कि आप मुझे यह लिखकर दे दीजिये कि मैं आज यहाँ आया हूँ परन्तु बैठक नहीं हो सकती है। अतएव मुझको यहाँ तीन दिनतक रुकना पड़ेगा।

मुंशी—ऐसा कायदा नहीं है।

मैंने कहा इससे मुझे कोई नरोकार नहीं है। कैसे ही हो मुझको अपने यहाँ रोके जानेका कारण अग्र्य ही लिखा लेना होगा। यदि मेरे पद और मेरे कामको जानना चाहते हो तो सरकारी तौरपर लासासे विदेशी मन्त्रीके आफिसमें लिपकर भगालो।

मुंशी—अच्छा तो कहिये तो मही काम क्या है?

लासामें एक उच्च पदाधिकारी बीमार है। उसीके लिये मैं औपच्य लेने जा रहा हूँ। बुद्धगया जानेका तो वहाना कर

दिया है वास्तवमें मैं कलकत्ते जा रहा हूँ । इसी लिये मुझे जल्दी है । यदि इस काममें देर होगी तो उससे जो कुछ हानि होगी उसका उत्तरदाता मैं नहीं हूँ । इसी लिये मैं आपसे रोके जानेका लिखित कारण लेना चाहता हूँ ।

मुन्शी—तो आपका पेशा क्या है ?

इस समयमें कुछ नहीं बतला सकता । मैं जिस कामको भारतवर्ष जा रहा हूँ उससे ही विदित हो रहा है । मैं यहां एक दिन भी कठिनतासे ठहर सकता हूँ । कृपा करके आप मुझको यह लिखकर दे दीजिये कि अमुक तारीख पर यहा पहुँचा । मैंने निवेदनपत्र दिया और इतने दिनोंके लिये यहा रोका गया ।


मुन्शीने घबराकर कह,—‘मैं ऐसे भगडेमें कभी नहीं पडा था, और भयके कारण उसके मुखपर हवाइया उडने लगीं । उसने कहा,—‘कृपा करके आप थोडी देर ठहर जाइये । आप राजवैद्य हैं, यहा एक रोगी है उसको कृपाकरके देख लीजिये । परन्तु आपका यहा ठहरनेसे हर्ज होगा अतएव मैं आपको नहीं रोकूंगा । पासपोर्टके लिये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और मुन्शियोंसे सलाह करके आपसे कहूंगा ।’

तीन बजे जब मैं उसके रोगीकी चिकित्सा कर रहा था फिर बुलाया गया ।

मेरे पहुँचनेपर मुन्शीने कहा कि आपको ज्ञानेकी बहुत जल्दी थी, अतएव हम लोगोंने एक विशेष सभा करके निश्चय कर लिया है कि आपको चार बजेतक पासपोर्ट मिल जावेगा ।

घोड़ीही देर घाड़ चार घजे पासपोर्ट मिल गया। सरकारी व्यापारियोंको भी ३४ दिन ठहरनेपर पासपोर्ट मिला करता था परन्तु सीमाग्ययश मुझे जिस दिन में पहुँचा उसी दिन मिल गया। मैं उसी समय चल देता परन्तु रातको ठहरनेके लिये राहमें कोई स्थान नहीं था अतएव रात भर वहाँ ठहरकर सवेरे वहाँसे चल दिया।

छियासीवां परिच्छेद



दूसरा और तीसरा द्वार

सन्ध्याको मैं डकारपो गावमें ठहरा था। यह पडाव फारी दुर्ग और चोटनकार्पोके दुर्गके बीचमें चिट्ठी भेजने और मगानेके लिये रपा गया है। तिब्बतमें चिट्ठियोंकी भेजनेके लिये इससे अच्छी और कोई रीति नहीं है। परन्तु यह रीति सरकारी है, यदि कोई अपनी चिट्ठी भेजना चाहे तो उसको अपना ही आदमी भेजना पडता है।

उस रातको मुझे सोनेके लिये बहुत अच्छा विस्तर मिला। जबसे मैं भारतवर्षसे विदा हुआ था यह पहला ही अवसर था कि पिलायती विस्तरपर सोया था। दूसरे दिन प्रात काल यद्यपि वर्षा हो रही थी, नीकरकी इच्छा नहीं थी तो भी मैं वहाँ न रुका। सवेरे पाँच घजे उठकर चल दिया। मार्ग बहुत घने

जङ्गलमें होकर जा रहा था। यह जङ्गल इतना घना था कि सूर्यकी किरणें भीतर न पहुंचती थीं। यह जङ्गल भी तिब्बतके ही राज्यमें है परन्तु यहाकी लकड़ी लासातक न पहुंचनेका कारण यह है कि लकड़ी ढोकर ले जानेका कोई उचित प्रबन्ध नहीं है।
छः मील चलनेपर हम चौटनकार्पोके दुर्गतक पहुंचे।

इस दुर्गके विषयमें यूरोपियन यात्रियोंकी किसी पुस्तकमें कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। कारण यह है कि वह अभी थोड़े ही दिन हुए बना है। इसमें २०० ३०० चीनी सिपाही रहा करते हैं। मुझे पेना ज्ञात हुआ कि दार्जिलिङ्गके चीफ आफिसरको भी इस दुर्गका हाल ज्ञात नहीं है क्योंकि जय में वहा पहुंचा तो उसने मुझसे इस दुर्गका नव हाल पूछा था।

मैंने उससे कहा कि,—‘यह बातें तो आपको मालूम होनी चाहिये थीं आप ऐसे प्रश्न मुझसे क्यों करते हैं?’

उसने उत्तर दिया कि—‘गुप्तचर वहातरु नहीं पहुंच सकते हैं। अतएव हमको वहाका कुछ हाल मालूम नहीं है।’

मुझको इस बातका विश्वास नहीं हुआ कि चीफ आफिसरने यह बात ठीक ही कही परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि तिब्बतवालोंतकको जो कि दार्जिलिङ्गमें रहते हैं इस दुर्गका हाल नहीं मालूम है। तिब्बतवासी रुपयेके कमानेमें बड़े प्रवीण हैं परन्तु इससे उनको कुछ मतलब नहीं है कि यदि वह दुर्गके पास होकर निकलते हैं तो किसीसे पूछें कि इसमें कितने सिपाही हैं और उनके यहा रहनेका क्या मतलब है।

दुर्गके पास ही एक स्थान है जहा चीनी सिपाही रहा करते हैं। इनकी संख्या ३०० है। यद्यपि यह नगर पहाडपर बसा हुआ है परन्तु बहुत ही समृद्ध अवस्थामें है। इनकी धारकोंका ही गांव बसा हुआ है। एक वर्ष पीछे अथवा छ महीने पीछे ये लोग शिगातूजे अथवा ग्यागत्जेके सिपाहियोंसे घदले जाते हैं। यह लोग चीन सरकारसे ही वेतन नहीं पाते हैं वर तिब्बत सरकारसे भी कुछ पाते है। अतएव इन लोगोंकी बड़े बेतसे गुजर होती है।

धारकोंमें आकर भोजन मागनेपर मुझे बहुतसे उबले चावल और कई भातिके भोजन जोकि चीनी रीतिसे पकाये गये थे मिले। इन भोजनोंमें सुअर और याकका मास भी था अतएव मेरे नौकरने खूब पेट भरकर खाया। मैंने मास नहीं खाया और तरकारी चाही। यहा मुझको भाति २ के अचार खानेको मिले। दुर्गका द्वार बडा दृढ था। द्वारपर एक नोटिस टगा हुआ था कि द्वार सवेरेके छ बजेसे सन्ध्याके छ बजेतक पुला रहता है। पूछनेपर मालूम हुआ कि यदि किसी सिपाहीको कोई विशेष आवश्यकता आ पड़े तब तो भले ही इस समयके आगे पीछे भी द्वार खुल सकता है। रातको जङ्गली पशुओंसे लोगोंको बडा भय रहा करता है। उसके बाद हम एक पुलपरसे गुजरे। आधामील चढाई चढकर और फिर उतना ही एक नदीके साथ साथ उतरकर एक सुन्दर कुसुमाकृत प्रदानमेंसे गुजरे। वहासे और आधा मील निकलकर चम्पी नदीके पुलपर पहुचे। इस

पूर्व तटपर एक छोटेसे घरमें कुछ सिपाही रहते हैं। उन सिपाहियोंको पासपोर्ट दे दिया जाता है। यदि किसीके ऊपर सन्देह हो तो वह वापिस लौटा दिया जाता है। लोगोंका कथन है कि घूस दिये बिना कोई निर्विघ्न नहीं जा सकता।

ज्योंही मैं फाटकपर पहुँचा त्योंही सिपाहियोंने पूछा कि कहाको जा रहे हो? मेरे नौकरने बड़े अफसरको मेरा पासपोर्ट दिखला दिया। उसने अपने मातहतसे कह दिया कि कोई रोक टोक न करे। क्योंकि मेरे पासपोर्टमें लिखा हुआ था कि मेरे साथ कोई सभ्यताका व्यवहार न होने पावे। अतएव दो फाटकोंमें मुझसे किसीने कुछ नहीं पूछा।

दो मील चलनेपर पिम्बीथेगके बारकोंके पास पहुँचा। यहाँ तीसरा फाटक था। आगे वर्षा खूब थी और हम लोग थक गये थे अतः बारकोंसे लगे हुए एक मकानमें ठहर गये। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ, पासपोर्टकी पूछताछ नहीं होती है अतएव मुझे तोमोरिनचन गागको चला जाना चाहिये क्योंकि वहाँसे बड़े अफसरसे एक चिट्ठी लेनी पड़ेगी। जब उसका पत्र मैं नयातोंगवाले अफसरको दूँगा तब वह आगे बढ़ने देगा।

जब वहाँसे पत्र मिलेगा तो उसको फिर पिम्बीथाग लाना पड़ेगा। मैंने पीम्बीथागमें सुना था कि चिट्ठी ११ और ११॥ के बीच मिलती है अतएव मुझको तोमोरिनचन गागमें सवेरे ही पहुँच जाना चाहिये। परन्तु एक दिनमें यह काम निपट जाना कठिन था कमसे कम ३-४ दिन लगते।

ऐसी अवस्थामें यदि मुझको देर हो जाती और पकड़नेवाले पहुंच जाते तो मेरा घोरीसे रातको निकल जाना भी कठिन था। दैव संयोगसे विन्धोधागके घटे अफसरकी खो इसी समय रोगपीडित होकर मेरे पास चिकित्साके लिये आई। यह तिष्यती महिला थी और बहुत दिनोंसे हिस्टोरिया रोगसे पीडित थी। वह अनुपम सुन्दरी थी और उसका अपने पतिक ऊपर बड़ा प्रभाव था। फौजमें अफसर लोग अवश्य ही सिपाहियों-पर पश रखते हैं परन्तु बहुधा वे ही अफसर अपने घरमें अपनी खोके सामने नाधारण सिपाहीकी भांति आशापालन करते हैं। परु सिपाहीने अपने अफसरके विषयमें उसे खोभक्त ही कहा था।

मैंने उसकी खोको देवकर जो औषध दी उससे उसे बहुत लाभ पहुंचा। इस सेवाके लिये मुझसे वह इतनी प्रसन्न हुई कि मुझसे कुछ वस्तु पारितोषिक स्वरूप मागनेको कहा। जब मैंने इसके प्रत्युपकारमें कुछ नहीं चाहा तो वह घरमें गई और कागजमें लपेटकर कोई वस्तु मुझे देने लगी परन्तु मैंने उसके लेनेसे इन्कार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे यहासे एक पान्न पोर्ट मिलेगा जिसको मैं नयातोंग ले जाऊंगा और फिर वहासे लौटूंगा। क्या आप कृपा करके वह पासपोर्ट मुझे शीघ्र दिलवा सकती हैं ?

उसने उत्तर दिया कि हा, यह काम बहुत जल्दी हो जावेगा। यद्यपि मेरा स्वामी इस मामलेमें बहुत सख्त है और

११-११॥ के इधर उधर नहीं देता है परन्तु मैं तुमको दिलवा दूंगी ।

मैंने कहा कि यही मैं भी चाहता हूँ और उसके हठ करने-पर भी उसकी भेंट उसको लौटाल दी ।

वह स्त्री कृतज्ञता प्रकाश करती हुई प्रसन्नचित्त फिर घर चला गई । यदि सवेरेतक कोई गडबड न हुआ तो नयातोंगमें भी कुछ नहीं हो सकता । जब मैंने उस स्त्रीसे पूछा तो मालूम हुआ कि उसका स्वामी पासपोर्ट देनेको कदापि राजी न होता था परन्तु केवल उसके दयावमें आकर उसने दे दिया ।

तारीख १४ जूनको सवेरेसे वर्षाके होते ही होते मैं तीन बजे उठकर चल दिया और द्वा मील चलनेपर तोमोरिनचन गागमें पहुँच गया । अभीतक सवेरा नहीं हुआ था और सब घरोंके द्वार बन्द थे । मैं सवेरा होनेतक ठहर गया । जब लोग सोकर उठे तो मैंने पूछा कि सिपाहियोंकी चौकी कहा है तो मालूम हुआ कि गावके परले किनारेपर है ।

यह बहुत ही छोटा सा मकान था । कोई फाटक इत्यादि वहा नहीं था । जिस समय मैं वहा पहुँचा ठीक उसी समय वहाका मुर्शी सोकर उठा था ।

मैंने उससे अपना सब हाल कहा और उससे पत्र मागा जिसकी सहायतासे मैं पासपोर्ट पा सकता । उसने उत्तर दिया कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है । शीघ्र ही मेरे नौकरने कहा कि यह सेराके घेद्य हैं । उसने पूछा कि क्या यह दलाई-

लामाफे प्रसिद्ध दैद्य हैं। उसकी इस घातको ज्योंही मैंने उसे चक्रदार उत्तर दिया उसने मेरा विश्वास कर लिया और आशासे भी जल्दी पत्र दे दिया।

सतासीवां परिच्छेद

चौथा और पांचवां द्वार

गावसे दो मील चलनेपर मुझको बड़ा भारी दुर्ग मिला। इस दुर्गमें दो सौ सिपाही रहते हैं। विंगीथागमें १०० और चोटनकार्पोमें २०० रहते हैं। गावसे निकलनेपर बड़ा भारी फाटक है। यहींपर दो सिपाही पहरेपर रहते हैं। मैंने उनको पत्र दिखलाया। उन्होंने उसके ऊपर मुहर की और मुझको प्रिदा किया। थोड़ी दूर आगे बढकर मुझको पांचवां फाटक दिखलाई पडा। यही सत्रसे भयानक फाटक था।

भयानक इसलिये था कि यहापर बहुतसे मेरे परिचित थे। यद्यपि इनमें कोई मेरा बैरी नहीं था परन्तु तिब्बतवाले रुपयेके बढे लोभी होते हैं क्या आश्चर्य है कि लोभवश वह मेरा रहस्य खोल दें। यहापर दो अग्रज भी थे जिनमें एक मिसटेलर थी। अबसे मिसटेलर तिब्बतसे लौटीं वे यही रहती हैं।

यहापर तिब्बत और चीनकी सीमा मिली हुई है अतएव यहा पर बहुत अग्रज और तिब्बतके अफसर रहा करते हैं।

यहापर मेरा भेद खुल जाता तो मैं कदाचित् नहीं बच सकता था। इस समय बुद्ध देवका स्मरण कर मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर दस मकान थे जिसमें सरकारी आदमी, पादरो और चीनी रहते थे।

यहाँपर एक मनुष्य सरदार दरगे रहता था। वह डांडा वाले कहारोंका जमादार था। यह बड़ा ही शैतान था। लोगोंको डर धमका कर कुछ न कुछ वसूल कर लिया करता था। मुझे इससे भी मिलना था। दलाईलामाने इसको बड़ी ऊँची पदवी दे रखी थी। वह टोपीमें मूँगे लगाया करता था और इस पदवीके कारण उसको गर्व भी थोड़ा न था। इसके मकानमें बहुतसे मुशी और अग्रेज भी काम करते थे। इसके कई एक नौकर मुझे जानते थे।

ज्योंही मैं उसके घरमें घुसा तो मेरे नौकरसे उसके एक आदमीने पूछा, ये कौन हैं ?

उसके मुखसे यह शब्द निकले ही थे कि मेरे नौकरने कहा कि यह सेराके वैद्य हैं। यह सुनते ही उस मनुष्यने कहा ओ हो यह वही सेराके प्रसिद्ध वैद्य हैं। लोगोंके मुखसे सुना है कि वह यहाँ आनेवाले हैं।

मेरे नौकरने कहा,—‘इन्हें बड़ा आवश्यक काम है। एक दिनकी भी देर कहीं नहीं लगाई है। फारी दुर्गपर उसी दिन पासपोर्ट ले लिया। हमको शीघ्र ही पत्र दे दो।’

मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस समय तो इसने ठीक ही काम किया है वह मनुष्य घोला, अचड़ा इधर चलिये।

कहारोंके जमादारकी, जो अब दारोगा भी हो गया था, दो
या थीं। एक जमादारीके समयकी विवाहिता थी और दूसरी
रोगा होनेके बाद। मैंने अपनी यात्राका सब हाल कहकर उससे
मांगा कि जिसकी सहायतासे मैं चौकीसे निकल जाऊ।

दारोगा साहबने बहुत गम्भीर भाव धारण करके कहा कि,
जाना सब हाल सत्य २ कहिये।

‘मैं कलकत्ते एक आवश्यक कामके लिये जा रहा हू। दलाई-
लामाके घरका निजी काम है। यह काम ऐसा आवश्यक है
कि मैं बीस दिनके भीतर ही लौट जाना चाहता हूँ। यदि तुम
कुछ दिनोंके लिये रोकना चाहो तो मुझे रोकनेका कारण लिख
कर एक सार्टीफिकेट दो।’

दारोगा-यह तो मेरी ड्यूटी ही है पहले बतलाइये तो सही
जा गुप्त काम है।

मैंने गम्भीर भाव धारण करके कहा,—‘क्या आपको उसके
जाननेका अधिकार है? क्या महामन्त्रीके भेदको आप सुन सकते
हैं? जिस भेदको दलाईलामाके अतिरिक्त कोई नहीं जानता
उसके जाननेका आपको अधिकार है? यदि आप बहुत दबाव
लेंगे तो मैं आपसे उसका हाल कह दूंगा परन्तु आपको सा-
र्टीफिकेट लिखना होगा और उस भेदके खुलनेके उत्तरदाता भी
आप ही होंगे। यदि आप ऐसा कर सकें तो और लोगोंको दूर-
दूर धीजिये और सुन लीजिये।’

‘जब कि आप ऐसे आवश्यक कामपर जा रहे हैं तो मैं आपको

को रोकना नहीं चाहता और रहस्य भी नहीं पूछता। मैं पत्र लिखे देता हूँ जिसको आप अपने नौकरके हाथ तोमोरिनचन गांग को भेज दीजिये। आपको उसकी दो कापिया लेनी होंगी। एक पिम्बीथांगकी चीनी अफसरके पास भेजनी होगी। वहासे जो लौटेगी उसकी सहायतासे आप यहाकी चीकीसे निकल सकेंगे।

मैंने सुना था कि यह सरदार दारोगा बडा घूस लेनेवाला है और अपने अधीनके लोगोंको बडा दुःख देता है। जो मनुष्य अपने नीचेवालोंको दुःख देता है वह ऊपरवालोंसे बडा भयभीत रहता है। मेरे मुखसे दलाईलामाका शब्द सुनते वह दण्डवत् प्रणाम करने लगा। एकाएक उसका गर्व जाता रहा। मुझे यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ।

अट्टासीवां परिच्छेद

अन्तिम द्वार

मैंने दारोगासे पत्र लेकर अपने नौकरको दे दिया। नौकरसे मैंने चोरीसे कह दिया कि इसको तोमोरिनचन गांगको ले जाओ, तुमको वहा दो पत्र मिलेंगे। पिम्बीथांगमें यदि तुमको पत्र मिलनेमें देर हो तो तुम चीनी अफसरकी खीके पास ले जाना वह तुम्हारा काम ठीक कर देगी।

नौकरने कहा कि आपने इतनी जल्दी यह पत्र पा लिया। यह डेढ़े आश्चर्यकी बात है। यदि आप वहाँ मेरे साथ न चलेंगे काम नहीं होगा।

मैंने कहा कि हाँ मैंने भी यही सोचा था परन्तु दारोगाने उसे कह दिया है कि इस पत्रमें सब हाल उसने लिख दिया। अब मेरे वहाँ जानेकी आवश्यकता नहीं है।

नौकर उन पत्रोंकी लेकर शीघ्र ही तोमोरिनचन गागको चला गया। वहाँ पहुँचते ही अफसरने दूसरे पत्र उसको लिख दिये और उनको लेकर वह पिम्बीथाग चला आया। जिस समय नौकर पिम्बीथागमें पहुँचा उस समय डेढ़ बजा था। अफसरने पत्र देनेसे इन्कार किया। अतएव मेरे समझानेके अनुसार चीनी अफसरकी स्त्रीके पास गया। वह तुरन्तही अपने मीके पास दौड़ी गयी और पत्र उसी समय दे देनेको कहा। तब स्वामीने कहा, अब पत्र देनेका समय नहीं रहा है कल होगा। इतना सुनना था कि स्त्रीने अपनी तिग्रती प्रचण्डत प्रकाशित करनी आरम्भ की। वेचारा स्वामी क्या करता। ही पत्र लिखकर मेरे नौकरके हवाले किया। वह चार बजे मेरे पास आ गया।

पानी बरस रहा था और मैंने रातभर वहाँ ठहरनेका विचार लिया था। यदि मैं उसी समय चला जाता तो अच्छा था कि मैं ५-६ घण्टेमें ही ब्रिटिश राज्यमें पहुँच जाता।

दारोगाने कहा कि,—'आज वर्षा है ऐसे समयमें चलना

कठिन है। इसके अतिरिक्त नकथेंग यहासे दूर भी है। राहमें कोई सराय भी नहीं है। परन्तु यदि आप आठ मील चलेंगे तो वहाँपर एक मकान है उसमें रातको ठहर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो सवेरे आप ३ बजे भी चलेंगे तो भी नकथेंग न पहुँच सकेंगे। अतएव आपको आवश्यक काम है, आप अभी ही चले जाइये।'

मैंने कहा—'आज मैं बहुत थक गया हू क्या कल सवेरे चलनेसे नकथेंग नहीं पहुँच सकूँगा ?'

दारोगाने गम्भीर भावसे कहा—'कदापि नहीं।'

मैंने नौकरसे पूछा,—'चलनेका क्या विचार है ?'

नौकर बहुत थक गया था बोला—'मुझसे एक पग भी न चला जावेगा।'

दारोगाने कुछ अप्रसन्नता प्रकाश करते हुए कहा—'जिस मालिकको आवश्यक काम है उसके नौकरके लिये यह बात कहनी बड़ी असम्भ्यता है कि वह नहीं चल सकता है।'

नौकरने कापते हुए कहा—'क्षमा कीजिये आप सत्य कहते हैं।'

मैंने दारोगासे प्रणाम किया और आगे चल दिया क्योंकि सम्भव था कि रातहीको कोई विपद् आ पडती।

नयातोंगका दुर्ग बहुत दृढ बना हुआ है। देखनेमें भी बहुत शानदार था। नयातोंगके नगरसे चलकर एक नदीका पुल मिलता है, उसको पार करके एक मकान मिलता है जिसमें

चीनी सिपाही रहते हैं। वहा मैंने चीनी भाषामें लिखा हुआ पासपोर्ट दिया जो कि पिम्शीयागमें मुझे मिला था। एक सिपाहीने उसकी जाच की और हमको चले जानेकी आज्ञा दे दी।

ज्योंही हम पहाडसे नीचे उतरने लगे त्योंही पानी बरसने लगा। यहींपर तिब्बतकी सीमा है। यहा अगरेज लोग तिब्बतसे भूमिकर लेकर रहा करते हैं। दो मील नीचे उतरते २ अन्धेरा हो गया और मेरा नौकर बडबडाने लगा। उसने कहा, 'क्या यहा कोई ठहरनेका स्थान नहीं है, मेरे पास बोझा बहुत है अब मुझसे चला नहीं जाता है।'

मैंने कहा कि आधा बोझा मैं तुमसे लेता हूँ। मैंने उससे बोझा ले लिया। आठ घंटे ठहरनेका स्थान दो मील रह गया था। नौकरने कहा कि अब मुझसे बिलकुल नहीं चला जाता है। यहींपर एक खेमा लगा हुआ था उसके सामने आग जलती हुई दिखाई पडी। उसके बाहर बहुतसे खच्चर चर रहे थे। टोमोरिनचन गागके लोग इन खच्चरोंपर केलनयोंगको ऊन ले जाया करते हैं। मैं खेमेके भीतर गया और रातभर ठहरनेकी इच्छा प्रगट की। उस खेमेके मालिकने कहा कि हम पाच आदमी हैं, इतनोंके लिये ही स्थान नहीं है, तुम लोगोंको कैसे ठहरा सकते हैं परन्तु मेरा नौकर बैठ गया। वह अपने स्थानसे हिलना न चाहता था इससे हमारी ही जीत हुई।

वास्तवमें यह खेमा बहुत छोटा था। मैं रातभर ~~बैठा~~

बैठे मैं सोचने लगा, कि पांच फाटक तीन दिनमें पार कर जाना एक जादू ही है। व्यापारी नित्य आया करते हैं परन्तु इन फाटकोंमें ८-१० से कम दिन किसीको भी नहीं लगते। भाग्यवश मेरे ऊपर किसीने सन्देह भी नहीं किया। ऐसा बदमाश दारोगा भी सीधा हो गया और दण्डवत् प्रणामोंकी झडी लगा दी। यह सब बुद्ध भगवानकी कृपा थी और क्या हो सकता है।

नवासीवां परिच्छेद

तिब्बतको अन्तिम प्रणाम

प्रातः काल उठकर कुछ चाय बनायी और कुछ रोटी चायके साथ खाकर, हम चल दिये। मार्गमें भोजन मिलनेकी आशा न थी। अतः हमने वहीं खूब भोजनकर लिया और पर्वतपर चढ़ना शुरू किया। वर्षा रुक गयी ऋतु खिल गयी थी। आधा मील चलकर एक मकान मिला। यहा दार्जिलिंगसे आनेवालेको सदेह होनेपर रख लिया जाता है और नयातोंगके किलेमें खबर भेज दी जाती है। वहा एक पुरुष और एक बूढ़ी औरत रहती थी। यहा भी मैंने चाय पी और कुछ नाश्ता करके फिर चढ़ना शुरू किया। एक मीलतक झाडियोंसे ढके मार्गसे गुजरकर जेलपला नामक हिमावृत पर्वतपर आ गये। ऊपर चढ़कर उत्तर पूर्वमें दृष्टि डाली तो मेघ खण्डोंमें छिपा मैदान क्षीणने

लगा । उसी गहरे मैदानमें लासा नगर बसा है । बस उसी समय मैंने तिब्बतको अपना अन्तिम प्रणाम किया । वहा जमे हुये जलका सरोवर है । उद्यशिखरोंमे नीचेकी ओर दृष्टिपात करते ही नीहा रिकामय धवल मेघ दल ऊपरकी ओर उमड = जगलोंके शिखरों-पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे । उनका दृश्य अत्यन्त मनोहर था । पर्वत शिखरपर लालकासनी फूलोंकी बहार खिल रही थी ।

मील भर हिमावृत मार्गपर और चलनेके बाद में पर्वतके शिखरपर पहुँच गया । तिब्बतकी यही चरम सीमा थी । इस शिखरके दूसरी ओर लामा सरकारका शासन नहीं है । तिब्बतकी सीमापर पहुँचनेतक मेरे तिब्बतमें तीनवर्ष पूरे होते हैं । अब मैं ऐसे देशमें पहुँच गया । वहा पत्र-व्यवहारमें पूर्ण स्वतन्त्रता है । मैं सकृशत्र इस प्रकार लौट आया—यह सब घुड़ भगवानका अनुग्रह है । उन्हींके रक्षामय हस्तकी छायामें मैं सुरक्षित रहा । शिखरपर अत्यन्त अधिक शीत था । भक्त्के आवेशमें मैं उस शीतको भी भूल गया था । दिन खुला हुआ था । धूप पड रही थी । १ मील उत्तर जानेपर सडक बडी उत्तम आ गयी । ऐसी सडक तिब्बतमें कहीं भी न थी ।

सुना था कि उस चर्प वहा बडे जोरके ओले बरसे । एक एक ओला मुर्गीके अण्डेके बराबर था । दो मील उतरकर हमें फिर ३ मील चढना पडा और नकथाग पहुँचे ।

यहापर प्रायः बीस मकानोंकी बस्ती है । पहले यह मकान

सिपाहियोंकी वारकें थीं परन्तु अब उनमें ऊन इत्यादि व्यापारकी वस्तुयें भरी जाती हैं। वर्षाके कारण मार्ग बहुत खराब था अतः उस रात वहा ही रहे।

यद्यपि फिर बहुत बरस रहा था परन्तु फिर भी तारीख १६ जूनको पाच बजे चल दिये और १३मील चलकर लिंगतांग पहुँचे। अब हमें कोई जल्दी न थी क्योंकि तिब्बतकी सीमा निकल ही चुकी थी। दूसरे दिन मैं बोतांग पहुँचा। यहाकी धरती बहुत उपजाऊ है। बहुतसे नेपाली यहा खेती करते हैं। प्रधान खेती चावलोंकी है। इन खेतोंका लगान ब्रिटिश सरकार ही लेती है। यहाका चावल भी बढिया जापानके चावलोंकी भाँति ही होता है।

यहा बहुतसे अंगरेज भी रहते हैं। उनमेंसे बहुतसे खेतीका काम करते हैं। यहा एक गिर्जा और एक स्कूल भी है। जैसे कि मैं आगे जा रहा था पोष्ट आफिसके मकानके पास एक तिब्बती मनुष्य एक बरामदेमें खडा हुआ मेरी ओर देख रहा था। वह बडा विस्मित होकर बोला, 'आइये साहब भीतर आइये।'

'नहीं साहब मुझे आवश्यक काम है। मैं रातभर कहीं ठहरना चाहता हूँ क्या आप ठहरा सकते हैं?'

'सब हो जायेगा आप भीतर तो आइये।'

'मैं आता तो हूँ परन्तु यदि रहनेको स्थान न मिला तो बडी कठिनता होगी।'

उसने दसकर कहा, 'आप आइये तो सही।'

मुझे उसके इन मित्र भावसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भीतर ले जाकर मुझसे कहा, 'क्या आप मुझे भूल गये ?'

जय मैं दार्जिलिंगमें था तो यह मनुष्य सरकारी हाई स्कूलमें तिव्यती भाषाका मास्टर था। परन्तु उसने मुझे नहीं पढ़ाया था। यद्यपि बहुत विद्वान न था परन्तु बाहरी ज्ञान बहुत था और समझदार आदमी था। मुझको यह नहीं मालूम था कि उसने पोष्टमास्टरकी नौकरी कर ली है। उसने मुझसे कहा कि तुम इन फाटकोंसे बचकर कैसे निकल आये। मेरा तौकर मेरे पासही बँठा हुआ था वह हम दोनोंको अंगरेजीमें बातें करने सुनकर स्तम्भित हो गया। मैंने सोचा कि ये बातें सुनकर उसको सन्देह हो जायगा। अतएव मैं लासाकी भाषा बोलने लगा। परन्तु पोष्टमास्टर लासाकी भाषा नहीं बोल सकता था। तब हम दोनों कुछ अंग्रेजी और कुछ तिव्यती भाषा बोलने लगे। इससे मेरे नौकरको और भी सन्देह बढ़ा और वहासे उठकर पोष्टमास्टरकी खीके पास गया और उससे पूछा कि,—'सत्य सत्य बतलाइये कि मेरा स्वामी किस देशका है ?'

खी—वह जापानी लामा है।

नौकरने शीघ्रतासे पूछा—'जापान कहा है। क्या वह अंग्रेज नहीं है ?'

खीने कहा—'नहीं अंग्रेज नहीं वह जापानी है। जापान इस समय ऐसा बलवान है कि अंग्रेजोंको भी आश्चर्य होता है।'

नौकरने कहा—'यह तो बड़ी भयानक बात है, मैं मारा

जाऊंगा।' यह कहते कहते उसका मुख भयके मारे पीला पड़ गया।

मुझे बादमें पता लगा कि पोण्टमास्टरकी खीसे मेरे नौकरकी यह बातें हुई थीं। यदि पहले मुझे मालूम हो जाता तो मैं उसको समझा देता। उस रातको मैं बड़े आनन्दसे सोया।

नव्वेव परिच्छेद



लावची जाति।

दूसरे दिन मैं १५ मील चलकर केलनयोंग नगरमें पहुँचा। यह नगर दार्जिलिङ्गसे पूर्व ३० मील दूरपर बसा हुआ है। यद्यपि यहापर सस्ती चीजोंकी विक्री अधिक है परन्तु फिर भी दार्जिलिङ्गकी अपेक्षा यहाका व्यापार चढा चढा है। क्योंकि तिब्बत, शिकम और भूटानके व्यापारी बहुधा यहीं उतर पडते हैं। यहा बहुतसे परदेशी भी रहा करते हैं। एक गिर्जा, स्कूल और शफाखाना भी है। यहा एक तिब्बतवासी पूचंग नामक रहता है। वह पहले शिगात्जेमें पुरोहित था। यहा आकर उसने व्यापार आरम्भ किया और बडा धनी हो गया। इसी मनुष्यके पास मेरा सामान पहुँचना था जो कि मेरे मित्र अत्तारने एक चीनीको सौंप दिया था। मैं पूचंगके पास सामान लेने गया कि उसको लेकर चला जाऊंगा परन्तु वहां पहुँचने-

पर मालूम हुआ कि अभी सामान नहीं आया। मुझे वहां प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसने मुझे निम्नवती समझा। परन्तु पीछे मेरे नौकरसे पूछनेपर उसको मालूम हुआ कि मैं जापानी लामा हूँ। पूचग मेरे पास आया और नौकरसे जो कुछ सुना था मुझसे कहा और यह भी कहा कि अब छुपानेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आप अंग्रेजी राज्यमें हैं। मैंने कहा कि मेरा भेद तो चोतानके पोस्ट आफिसमें छुल चुका है, अब मैं नहीं डरता हूँ। पूचगने मेरे नौकरके भयके विषयमें कहा और कहा कि वह बहुत घबरा गया है। उसे घर वापिस जाकर जो दण्ड होना सम्भव है उससे बड़ा भय है। उसके दो बच्चे हैं और उसकी स्त्री गर्भवती थी। मैंने कहा कि यदि वह इतना भयभीत है तो वह यहीं रहे पीछे उसके छी बच्चे भी यहीं बुला दिये जावेंगे।

थोड़ी देर पीछे मेरा नौकर पूचगके साथ आया और बोला कि आप कृपा करके यह बतला दीजिये कि यदि मैं लौट जाऊँ तो कोई विपद् तो नहीं आ पड़ेगी। परन्तु यह बात मैंने उसको नहीं बतलाई। मैंने कहा कि तुम वहा किसी और लामाके पास जाकर सलाह लो। पहले तो उसने नहीं माना परन्तु थोड़ी देर पीछे लौटकर मेरे पास आया और कहा कि मैं एक लामासे पूछ आया हूँ उसने मुझे लौट जानेको कहा है। मैंने उसको पैंतीस रुपये, कुछ पुराने कपड़े और इतना खानेको दे

दिया जो उसके लिये बहुत था। वह गुप्तमार्गसे चला गया और जहातक मुझे मालूम है वह दण्डसे भी बच गया क्योंकि जबतक नैपालमें रहा तबतक मैंने उसके विषयमें कुछ नहीं सुना।

चार पांच दिन हो गये परन्तु अभीतक मेरा सामान नहीं आया। आठवें दिन एक व्यापारीने आकर कहा कि चीनी कई व्यापारी थे जिनके पास बहुतसे घोड़े थे। वह वर्षाके कारण नहीं आ सके, उनके तीन घोड़े नदीमें डूबकर मर गये जिनके ऊपर मुश्क और रुपया लदा हुआ था। मुझको और भी सन्देह हुआ कि कहीं वह डूबे हुए घोड़े मेरे ही सामानके तो नहीं थे। दो दिन और भी कट गये फिर भी कोई सम्वाद नहीं मिला। ग्यारहवें दिन मैं हताश होकर बैठ गया। मैंने सुना कि दोनों चीनी आ गये और मेरा सामान आ गया। मैंने उनको १३ रुपये किरायेके दिये। १ जुलाईको मेरा सामान मुझे मिला। उसे अगले दिन मैं वहासे चल दिया। यहासे दस मील चलनेपर मुझको तिस्ता नदी मिली।

तिस्ता नदीपर अग्रेजी फैशनका १५० फीट लम्बा लोहेका पुल बंधा हुआ है। बीचमें उसके कोई थम्भा नहीं लगा है। नदी इतने वेगसे बहती है कि थम्भा ठहर नहीं सकता। नदीके एक किनारेपर शैलगिरी (सिलिगुही) पडाव है। उसके पाससे बेलगाडीकी सडक केलनयगमे घोटानतरु जाती है। प्रायः सामान इसी रास्तेसे जाते हैं।

तिस्ता नदीके विषयमें एक दन्तकथा है। हिमालयके पर्वतोंमें

लावची जाति अभीतक बहुत ही जगली दशामें है। इस जातिके दो भाग हैं एक, दूसरे भागसे बहुत ही नीच दशामें है। उत्तम वर्गका आदि पुरुष टीकमसेराङ्गा था। वह हिमालयकी भूमिसे पैदा हुआ था। उनकी छोटी डोमी तिस्ता नदीसे पैदा हुई थी। तिस्ता नदी दार्जिलिंगके उत्तरपूर्वसे होकर बहती हुई गङ्गामें मिल जाती है।

दूसरी जातिकी उत्पत्ति एक विशाल शिलासे हुई कही जाती है। वह शिला अब भी दलमथाग ग्राममें विद्यमान है। वह वर्ग अब भी सिलिमके आस पास फैला हुआ है। चाहे दोनों वर्गोंके आदि पुरुष भिन्न २ हों तो भी दोनों एक ही जाति हैं।

ये लोग कमरमें वहींके घासका बुना हुआ कपडा लपेटे रहते हैं। सीना पिरौना वे लोग नहीं जानते। उनकी छिया अपनी चिबुकके ऊपर सीला गुदवाती है।

ये लोग जंगली घासों, उनके बीज और नाना पौधे खाते हैं। यह लोग मांस मछली नहीं खाते। जंगली घासोंसे वह खूर ही परिचित हैं। बहुत सी घासों इन लोगोंको मालूम हैं जिनसे बहुतसे रोग दूर हो जाते हैं। इस विषयमें वे भारतवर्षके वैद्योंसे भी बड़े हुए हैं। घास इनके बड़े कामकी वस्तु है। घासके एक टुकड़ेमें घास अथवा फल रखकर बन्द कर देते हैं। कभी अनाज भी नमक अथवा शहदसे मिलाकर भर देते हैं। इसका मुख बन्द करके घासकी ही अग्निमें रख देते हैं। जब घास ऊपरसे काला हो जाता है तो भोजन निकाल लेते हैं। खोलनेपर मालूम

होता है कि वह वस्तु बिलकुल पक गई है। इनके यहा मिट्टी पत्थर अथवा धातुके बर्तन नहीं होते। पानी भरने, दूध रखने, और खाने पीनेके बर्तन भी बासके ही होते हैं। तीर कमान भी उनके इसी बासके होते हैं। इनके हीर विपाक होते हैं।

इनमें कहीं २ बहुभार्याकी रीति भी बहुत न्यून है परन्तु बहु पतित्वकी रीतिका तो सर्वथा निषेध है।

उनमें बहुविवाहका न होना भी उनकी कुशलताके लिये है। नहीं कहा जा सकता कि वे हिमालयके ही वासी हैं। उनकी भाषाका न सस्कृतसे और न तिब्बती भाषासे ही कोई सम्बन्ध है। वे कदाचित् बहुत पहले कालमें वहा आकर बसे हैं। उनका रूप रंग बहुत सुन्दर श्वेत है। वे प्राय सुरूप होते हैं। उनमें साहस और धैर्य नहीं होता। वे चोर होते हैं परन्तु हत्या और क्रूरता उनमें नहीं है। ऊच वर्गके लावची प्राय दार्जिलिंगमें आते हैं। नीच वर्गके भी आते हैं परन्तु यदि उनका अच्छा खयाल न रखें तो वे प्राय फिर घर भाग जाते हैं। दोनों वर्गों में लावची सुरूप होते हैं। खेद है कि उन लोगोंकी बहुत सी स्त्रिया प्राय वहाके सिपाहियोंकी दासिया बन गयी इस पेशेमें बहुतसी स्त्रिया लगी हैं। वे धर्ममें बौद्ध हैं परन्तु उनका धम बहुत सरल है। उनकी वशीय गवेषणा बहुत ही चिनोदजनक प्रतीत होती है।

इकानवेवां परिच्छेद



पहले गुरुसे भेंट

तिस्ता नदीका पुल पार करके मैं अपने किरायेके घोड़ेपर सवार होकर चला । मेरा सामान और दो घोड़ोंपर था इससे मैं तीव्र गतिसे न जा सकता था । चलते चलते दूसरे दिन मैं लासायिला अर्थात् अपने गुरु शरतचन्द्र दासके दार्जिलिङ्ग-वाले देहाती घाड़ीपर पहुँचा । इन्होंने ही मुझे तिब्बती भाषा पढ़ाई थी । जब मैंने उनका द्वार खटखटाया तो एक बच्चेने द्वार खोला । वह मुझे भूल गया था, वह मेरा नाम पूछने लगा, इतनेमें ही श्रीमती शरत आई और पूछा कि मैं किस कामसे आया हूँ ।

मैंने हसकर उत्तर दिया—‘क्या आपने मुझे नहीं पहचाना ?’

मेरा शब्द सुनकर शरत् वाघूने पहचान लिया । वह बाहर आये और कहा—‘ओहो, मिस्टर कावागुची आइये !’

मेरा सामान नौकर भीतर ले गये । मैं भी भीतर गया । शरत् वाघूको मेरे लौट आनेसे बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो पत्रोंसे मुझे तुम्हारा सब हाल मालूम हो गया था । उसने त्सारोंगवाका हाल भी कहा कि वह मुझसे बिना मिले ही चला गया । वह पत्रमें लिखना चाहते थे कि मुझे शीघ्र ही लौट

आना चाहिये क्योंकि अब और पढ़नेकी आवश्यकता नहीं है । हम दोनो आधी राततक बातें करते रहे और फिर सो गये ।

दूसरे दिन मुझे जोरसे ज्वर हो गया । ज्वरके उतरनेपर मेरे शरीरकी शक्ति बिलकुल ही जाती रही, हाथ पैर हिलानेकी भी शक्ति नही रही । शरत् चाबू रातभर मेरे पास रहे । डाक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि यह तिस्ता ज्वर है । यह ज्वर बडा ही भयङ्कर होता है । मुझे मालूम हुआ कि मैं नहीं बचूंगा । मैंने चाहा कि एक वसीयत लिख दूँ कि जो पुस्तकें मैं तिब्बतसे लाया हू वह जापान भेज दी जावें और इम्पीरियल लाइब्रेरीमें अथवा और किसी बडो लाइब्रेरीमें रखी जावें जहा मेरे देशके लोग उनको पढ़ सकें । यह इच्छा मैंने टूटे फूटे शब्दोंमें शरत् चाबूपर प्रकाश की । उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है तुम अच्छे हो । परन्तु डाक्टरने कहा है कि तुम बिलकुल चुपचाप पड़े रहो ।

बुद्ध भगवानकी कृपासे तीन दिनमें मेरी अवस्था कुछ ठीक हुई और आठ दिनमें इतनी शक्ति हुई कि मैं अपने हाथ पैर हिला सका । इस समय मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने घर जापान तार दे दूँ कि मैं यहा आ गया हू । परन्तु जापान तीन शब्द भेजनेके लिये भी ३७ रुपये लगते और मेरे पास केवल दो रुपये शेष थे । मैंने शरत् चाबूसे रुपया उधार लेना भी उचित न समझा, चिट्ठी भेजना ही निश्चय किया । चिट्ठी लिखकर भेज दी परन्तु मुझे याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था । एक महीनेमें मैं चारपाईसे

उठने योग्य हुआ। लासामें ठहरकर मैं बहुत स्वस्थ हो गया था परन्तु अर में बहुतही क्षीण हो गया। डाकूरने कहा कि अभी दार्जिलिङ्गमें ही तीन महीने रहना चाहिये क्योंकि अभी भारतवर्षकी गर्मी सहन न कर सकोगे। मैं भी ठहर गया परन्तु अक्टूबरतक लासासे मैंने अपने मित्रोंके विषयमें कुछ न सुना। एक और भी कारण था कि इन दिनों फारीसे दार्जिलिङ्गतककी राह बन्द हो जाती है क्योंकि इन दिनों ज्वर बहुत फैल जाता है। मैं भी उसके फन्देमें आ गया था परन्तु ईश्वरने बचा लिया। अक्टूबरमें मुझे लासाके एक काफिनेने आकर भयानक सम्वाद दिया।

वानवेवां परिच्छेद

००००००

तिब्बतके मित्रोंपर विपद्

मैंने सुना कि मेरे चले आनेपर एक महीना भी न बीता होगा कि मेरे ज्ञान पहचानके बहुतसे लोग पकड़े गये। मेरे मित्र अर्थसचिव, उनकी पत्नी और उनका एक नौकर भी पकड़ा गया। नये अर्थसचिव छोड़ दिये गये क्योंकि उनसे मुझसे कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था। मेरा विहार बन्द हो गया। त्सारोंगवा और चोनजो भी बन्दी किये गये। जिन मकानोंमें मैं आया गया था वड़ सब तीव्र दृष्टिके शिकार बनें। इससे

यचनेके लिये लामामें घूस भी खूब चलीं। वास्तवमें तिब्बत-वाले झूठ बोलकर लोगोंको विस्मित करनेमें बड़े प्रसन्न होते हैं। इससे मैंने समझा कि इस कहानीमें बहुत सा झूठ मिला हुआ है परन्तु फिर भी मुझको सन्देह रहा।

इसी भातिके कुछ सम्वाद दार्जिलिङ्गके मजिस्ट्रेटके पास भी पहुँचे। उन्होंने मुझे बुलाया और वहाके लामाओंकी सख्या, शिक्षाकी रीति, सेरा विहारके नियम, इत्यादि बातें पूछते रहे। और पूछा कि क्या वहाके समाचारोंपर तुम्हें विश्वास है। मैंने उनसे भी यही कहा कि तिब्बती और वहाके चीनी दोनों बातको बढा लिया करते हैं। वे लोग यह भी कहते हैं कि रूसी सिपाही लासामें स्वतन्त्र रूपसे घूमते फिरा करते हैं परन्तु मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जो मंगोलियन रूसी सरकारमें नौकर हैं वह अवश्य दिखलाई देते हैं।

यहाके अग्रेज अफसर तिब्बतका हाल जाननेके लिये सदैव ही सचेष्ट रहते हैं। जो बात उनको किसी कामकी मालूम होती है उसको तुरन्त ही नोट कर लेते हैं। थूम नगरमें एक अफसर इसी कामके लिये रखा गया है। जो कोई तिब्बतसे आता है उससे वह बातें करता है यदि कोई आवश्यक बात मालूम होती है तो उसको वहाके गवर्नरके पास ले जाता है और वहा सब हाल पूछा जाता है।

दार्जिलिङ्गका गवर्नर टूटी फूटी तिब्बती भाषा बोल सकता है अतएव कभी २ दुभाषिया भी रखना पडता है। सरकार

अफसरोंको तिब्बतकी भाषा पढ़नेके लिये बड़ी उत्साहित कर रही है। उच्च परीक्षा पास करनेवालेको सरकार १००० रुपया पारिनोपिक देती है। इससे मालूम होता है कि ब्रिटिश सरकारको तिब्बतका हाल जाननेकी कितनी प्रबल इच्छा रहती है।

पहले काफिलेकी बातपर मैंने विश्वास नहीं किया परन्तु दो सप्ताह पीछे एक और काफिलेने आकर वही सम्वाद दिया तब मुझे बड़ी चिन्ता हुई। थोड़ी देर पीछे मेरी जान पहचानका एक व्यापारी दार्जिलिङ्गमें आया, मैं उससे मिलने गया। उसने कहा कि,—'जैसा आपने सुना है वैसा नहीं है पर यह सत्य है कि पुराने अर्थसचिव पकड़ लिये गये थे परन्तु छोड़ दिये गये। सुनते हैं कि फिरसे वह कैद किये जायेंगे। मैं चला था तबतक वह अपने घर थे परन्तु क्या हुआ सो मुझे ज्ञात नहीं। सरसे बड़े अपराधी आपके गुरु त्सारोंगया, उसकी छी और चीनजो हैं। उनके नित्य प्रति ३०० कोड़े भाऊकी हरी शापसे मारे जाते हैं। उन्होंने आपके जापानी नही बर अंग्रेजी जासूस गमभा था।

मैंने कहा—'क्या यह बात किसने कही थी ?'

उसने उत्तर दिया,—'हां, किसीने कही थी। एक सरकारी रिपोर्टमें नयातोंगके घटे अफसरने दलाईलामाको लिखा है कि जिनको लोग जापानी बनजाते थे वह अंग्रेज था। वह भारत सरकारके एक उच्चपदाधिकारीका भाई था। अपने भाईके कहनेसे वह जापानी और चीनी बनकर तिब्बतमें आया। उसने यह

भी लिखा है कि इसका पत्र व्यवहार दार्जिलिङ्गसे होता था जिसको कि त्सारोंगवा और चोनजो लाया और ले जाया करते थे। उस रिपोर्टमें यह भी लिखा है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम जादूके काम कर सकते हो। तुम पहरेवाले फाटकोंसे भीतर नहीं गये, बरिफ आकाशसे उडकर तिब्बतमें पहुँचे।

इतना कहकर व्यापारीने मुझसे कहा कि तुम नयातोंगसे कैसे आये ? क्या तुम उड नहीं सकते हो ?

मैंने उत्तर दिया कि 'मैं पक्षी नहीं मैं कैसे उड सकता हूँ ?

उसने कहा—'परन्तु नहीं घबरा लोग कहते हैं कि तुम उड सकते हो। क्योंकि जो मुर्देको जिला सकता है वह उड भी सकता है। तिब्बतमें लोगोंका विश्वास है कि नयातोंगके अफसरने यह रिपोर्ट की है।

मैंने कहा कि मैं तुम्हें इस बातका प्रमाण दे सकता हूँ कि इसी अफसरने मुझे पासपोर्ट दिया था।

व्यापारीको मेरी इस बातका विश्वास नहीं हुआ क्योंकि दार्जिलिङ्गमें भी मेरी दैवी शक्तिकी कथायें प्रसिद्ध हो गई थीं जो इस व्यापारीने भी सुनी थीं। मेरी समझमें ये बातें उसी अफसरने अपने बचनेके लिये उडाई थीं क्योंकि यदि सत्य २ कह देता तो वह भी पकडा जाता। कुछ दिन बाद वह फिर मेरे पास आया तब मैंने उसको पासपोर्ट भी दिखलाया तो व्यापारीने कहा कि तुमने उसको अपनी शक्तिसे मोहित करके उससे पासपोर्ट ले लिया होगा।

तिब्बतमें ऐसे घोर अत्याचारोंको होते हुए सुनकर मैं शान्त न रह सका। अर्थसचिवका कष्ट सुनकर मैं बड़ा अधीर हो गया था। उसके धीर तथा गम्भीर स्वभावने उसके विरुद्ध बहुतसे शत्रु पैदा कर दिये। रोंगवा और उसकी स्त्री, मेरा गुरु, और सेरा विहार तथा अन्य सभी मेरे स्नेही व्यक्ति इस अवसरमें बड़े सङ्कटमें थे। इस अवसरपर कैसे मैं सुखकी नींद सो सकता था। मैंने चाहा कि मैं उड़कर तिब्बतमें पहुँचकर उनकी सहायता करूँ। उनको विपत्तिसे मुक्त करनेके बहुतसे सङ्कटप विकल्प मेरे हृदयमें उठने लगे। दो ही उपाय केवल मेरे सामर्थ्यमें थे। एक तो मैं चीन नरेशके पास जाता, और इस अत्याचारको उनके द्वारा रुकवाता।

यदि मैं स्वयं या जापान सरकारके द्वारा चीन सरकारमें प्रार्थनापत्र भेजता तो उसके स्वीकार होनेमें भी सन्देह था। चीन सरकारका स्वयं तिब्बतसे आतङ्क और विश्वास उठ चुका था। तिब्बतके अधिकारियोंतककी विश्वास था कि चीन नरेशने अग्रेजी गोरी स्त्रीसे प्रियाह कर लिया है। चीनकी अग्रेजोंसे सन्धि है। इसीलिये अग्रेज तिब्बतके पीछे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते हैं कि चीन स्वयं निस्सहाय है इसलिये तिब्बतके अफसर चीन नरेशकी आज्ञाकी उपेक्षा कर सकते हैं। बड़ी धात तो यह है कि तिब्बतवाले अपने राजनीतिक मामलोंमें चीनका हस्तक्षेप नहीं चाहते क्योंकि चीन प्रायः सभी अन्य देशोंको अपना मित्र कहता है।

दूसरी तरफ नैपालसे तिब्बतके लोग बहुत भय खाते हैं। नैपालके लोग भी अधिक चलवान हैं। नैपाली गुर्खा पलटने अंग्रेजी शैलीसे शिक्षित होकर खूब शूरवीर सिद्ध हुई हैं। इस कारण तिब्बती लोग नैपालके प्रति कोई उद्धतता नहीं करते और चीनकी अपेक्षा उसे अधिक आदर और आत कसे देखते हैं। नैपालके बहुतसे विद्यार्थी जापान पढने जाते हैं इस कारण मुझे और भी आशा थी कि नैपाल सरकार इस कार्यमें अवश्य मेरी सहायता करेगी।

परन्तु इस कामके लिये रुपयेकी आवश्यकता थी और मेरे पास रुपया न था। इसके अतिरिक्त कुछ कर्जा भी था। भाग्यसे इसी समय मुझे सहायता मिली अर्थात् जापानसे मेरे मित्रने मेरे लिये तीन सौ येन इकट्ठे करके मेरे पास भेज दिये। मैं जाने-को तय्यार तो हो गया परन्तु मेरे लिये एक रुकावट थी। मैं तिब्बती भाषाका एक व्याकरण बना रहा था। इसके लिये कमसे कम एक वर्ष अपेक्षित था और लासाका काम बहुत आवश्यक था अतएव मैंने शरत् वायूसे कहा और नवम्बरके अन्तमें दार्जिलिङ्गसे कलकत्ते आया।

तिरानवेवां परिच्छेद



मित्र मण्डलमें

कलकत्तेमें मैं महाबोधि सोसाइटीके मकानमें ठहरा। एक दो दिन चहा ठहरकर मैं अपने जापानी सहपाठी मि० कोजन ओमियाके पास गया। वह यहा सस्कृत पढते थे। उसको विचार भी नहीं था कि मैं इसी नगरमें उससे मिलूंगा। और तिग्यतकी पोशाकमें मिलूंगा। नौकरने कहा कि वह अपने कमरेमें है यह सुनकर मैं बिना कहे ही उसके पास चला गया। मैंने बहुत दिनोंसे अपनी भाषा भी नहीं सीखी थी अतएव एकाएकी कोई शब्द मुझसे न निकला मैंने झुककर प्रणाम किया और उसको ओर देखने लगा। वह भी मुझे देखने लगा और एक अनजान मनुष्यकी भीतर आते जान अपसन्न होकर हिन्दुस्तानी भाषामें बोला, कहासे आये हो ?

मुझे उसकी यह बात सुनकर हसी आयी और मैंने जापानी भाषामें कहा, क्या तुम ओमिया नहीं हो ?

उसने फिर भी नहीं पहचाना और कहा, 'तुम जापानी हो और मुझे पहचानते हो परन्तु तुम कौन हो ?'

मैंने कहा—'मैं कावागुची हूँ।'

यह सुनते ही वह भौंचरू रह गया। वह अपने मकानके

भीतर मुझका ले गया। बहुत देरतक बातें होती रहीं। मैं वहीं रहने लगा।

तारीख १४ दिसम्बरकी सन्ध्याको मेरे जापानी गुरु डा० ई० इनोई आये और अपने शिष्यको तिब्बतसे जीवित लौटा हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिनमें गुरु महाशयके घरपर गया और उनको ले जाकर दार्जिलिङ्ग इत्यादिकी सैर कराई। पीछे उनके साथ बुद्धगयाके दर्शन करने गया। मैं बुद्धगया नहीं चर देहली जाना चाहता था जहा कि जापानके लेफ्टिनेण्ट जनरल ओक् थे। वह पञ्चमजार्जके राज्यारोहणके समय देहली दरवारमें गये हुए थे। मैं ओक् महाशयके द्वारा नैपाल महाराजके प्रति परिचय-पत्र प्राप्त करना चाहता था जिसके बलपर मैं तिब्बत सरकारपर दबाव डालता। बुद्धगयासे मैं बनारस गया। डाक्टर इनोई बम्बई जा रहे थे, मैं उन्हें बनारसमें छोडकर स्वयं देहली चल दिया। बाकीपुरमें मुझे पाच घण्टे ठहरना पडा। यहा मुझे एक हिन्दू मिला उसने मुझसे अंग्रेजीमें पूछा कि 'क्या आप तिब्बती हैं ?'

मैं—नहीं।

हिन्दू—क्या आप नैपाली हैं ?

मैं—नैपाली भी नहीं।

हिन्दू—क्या आप तिब्बतसे नही आ रहे हैं ?

मैं—हा मैं वही से आ रहा हू।

हिन्दू—आप तिब्बतसे आ रहे हैं परन्तु तिब्बतके नही हैं ?

मै—यह कोई आवश्यक नहीं है जो तिव्रतसे आता हो वह तिब्बती ही हो ।

जिस समय मैं यह बातें कर रहा था एक मनुष्य दौड़ता हुआ मेरे पास आया और जल्दीसे हाथ बढ़ाकर मुझसे मिला और मेरे तिब्बतसे लीट आनेपर बड़ा हर्ष प्रगट किया । यह मेरा पुराना परिचित पादरी, फूजी सेन्सो था ।

वह बोले—यहा आप किधर जानेकी प्रतीक्षामें हैं ।

मैं—डा० इनोईके साथ बुद्धगया जा रहा हू ।

फूजी—हम तुम दोनोंका एकही भाग्य है । मैं भी गयामें मान्य पादरी ओतानीकोजुइके पास जा रहा हू ।


हमने ओतानीको अपने आनेकी सूचना तारसे भेज दी । और हम तीनों गयाको रवाना हुये । स्टेशनपर ओतानीने गाडी भेज दी थी । डाक बगलामें ओतानी महोदयसे खूब बात हुई । ओतानीने पूछा आप कहा जा रहे हैं ।

मै ने कहा, मैं नेपाल जानेको हू । फूजी यह बात सुनकर बड़ा विस्मित हुआ । वह भी यही जानना चाहता था । मै ने कहा 'मुझे वहा दो काम हैं । एक तो मुझे अपनी पुस्तकें और सामान लाना है ? मै एक व्यक्तिके पास छोड आया हू । और दूसरा काम बड़ा गम्भीर है । तिव्रतमें मेरे बहुतसे मित्र हैं वे बन्दीगृहमें डाल दिये गये हैं । यद्यपि मुझे अपना सफलतामें सन्देह है परन्तु मै चाहता हू नेपालकी सहायतासे उनको सड्डटसे मुक्त करू ।

मि०फूजीने मुझे वुरा भला कहकर कहा—‘तुम अब कालिज-के लडके नहीं हो । तुम्हारे देशके लोग तुम्हें देखनेके लिये व्यग्र हैं और तिव्यतके सब हाल तुमसे सुनना चाहते हैं । तुम यह सब विचार छोड़ दो क्योंकि वहा सिवाय ज्वर, जङ्गली पशु और डाकुओंके हाथोंमें पडनेके और कुछ फल नहीं है, यह सब तुम बहुत कुछ भोग चुके हो । तुम्हारे लिये यही अच्छा है कि घर चले जाओ ।

पादरी मि० ओतानी भी वही उपस्थित थे । उन्होंने कहा कि ‘कावागुची में तुम्हारी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हू । परन्तु तुम अपने कामको आपही समझ सकते हो व्यर्थके झगडेसे जहातक हो सके बचे रहो ।’ मैंने कहा आप जो कुछ कहने हैं सब ठीक है । यदि मैं आप लोगोंका कथन ही मान लूँ तो जापानी धर्म कहा रहेगा । मैं बुद्ध भगवानका सेवक हू । हरएकको सकटसे बचाना मेरा धर्म है । ऐसे भी बहुतसे हैं जिन्होंने मुझपर बड़ी कृपाएँ की हैं, जिनकी सहायतासे मैं तिव्यतमें सुरक्षित रहा । वे अब कड़ी जेलयातना भुगत रहे हैं । मैं इधर इतने सुखमें हूँ और कितने ही कष्ट भोग रहे हैं । वे अब भी मुझे लासाकी कालकोठरियोंमें सख्त सर्दोंकी यातना भोगते दिखाई पड रहे हैं । दिनमें वे कोड़ोंसे पिटते हैं । दिन भरमें थोड़ेसे भूते जौ उन्हें खानेको मिलते हैं । ऐसी दशामें मैं उनको त्यागकर घर कैसे जाऊँ ।

चौरानवेवां परिच्छेद



नैपालके दो महाराज

यहासे मैं कलकत्ते गया और वहासे नैपालको चल दिया । कलकत्तेमें मैं एक बंगाली प्रोफेसर केदारनाथ चटर्जीसे मिला । यह महाशय नैपालके काठमण्डू नगरमें म्यूनिसिपेलिटीके स्कूलके प्रिन्सिपल थे । नैपालके महाराज इनको बहुत चाहते थे । उन्होंने मुझे एक चिट्ठी नैपालके महाराजके नाम लिख दी । नैपालमें तिब्बत, भूटान और शिकमके लोग चीलगञ्जीके कमाण्डरिन चीफके पासपोर्टसे जा सकते हैं । परन्तु विदेशी मनुष्य महाराजके पासके बिना नहीं जा सकते हैं । अतएव मैंने चटर्जी महाशयसे यही कहा कि मैं नैपालके बौद्ध तीर्थस्थानोंके दर्शनोंका इच्छुक हूँ ।

तारीख १० जनवरी १९०२ को मैं कलकत्तासे चला और दूसरे दिन सन्ध्याको नैपालकी सीमा रक्सौलपर पहुँच गया । जब मैं स्टेशनपर पहुँचा तो छ बज चुके थे । अपने असहायको कुलियोंपर उठवाकर सिमन नदी पार की । भारतवर्ष और नैपालकी यही सीमा है । वहापर मैं रोक दिया गया क्योंकि नैपालके महाराज घरको लौटे आ रहे थे । सीमाके बाहरके लोग पूरी २ जाबके बिना भीतर नहीं आ सकते । मैंने देखा कि वहाके रहनेवाले भी रोके गये थे परन्तु चारम्भार प्रार्थना करनेपर उनको जाने दिया गया । मैंने देखा घूस यहा भी एक अच्छी युक्ति

है। मैं विदेशी था। शेषमें मैंने चटर्जीका एक पत्र जो नैपाल महाराजके नाम था दिखलाया। यह पत्र देकर पुलीसवालेने मुझको वीलगड्जीके कमाण्डरिन चीफके पास भेजना चाहा जो कि इस समय महाराजके स्थानापन्न होकर काम कर रहा था।

सिमनकी चौकीसे वीलगड्जी एक मील दूर है। मैं रातके ग्यारह बजेतक राह देखता रहा परन्तु जब अधिक देर होती मालूम हुई तो अपने लिये चाय बनाने लगा। इतनेहीमें महलके पुलीसके सिपाहीने मुझे विलगड्जी चलनेको कहा। वीलगड्जीमें मैं एक अस्पतालके सामने एक झोपडीमें रातभर रखा गया। दूसरे दिन सुबह मैं रीजेण्टके दरबारमें लाया गया। वहा सन्ध्याके पाच बजेतक ठहरा। सन्ध्याको रीजेण्ट महाशयसे भेंट हुई जिन्होंने कहा कि तारीख १४ को महाराज आरहे हैं तब वह मुझे उनसे मिला देंगे।

यहा दो महाराज हैं। एक को पांच सरकार और दूसरेको तीन सरकार कहते हैं। तीन सरकार तो वास्तविक महाराज हैं और पाच सरकार नाममात्रके महाराज हैं। वास्तविक महाराज की तरफसे इनको पेन्शन मिलती है। तीन सरकार वहाके प्रधान मन्त्री हैं और उनको ही वहाकी प्रजा महाराज जानती और मानती है। और पाच सरकारका नाम तो सरकारी जफसर ही जानते हैं प्रजाका उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है। जिन महाराजके आनेको मैंने सुना था वह तीन सरकार अथवा प्रधान मन्त्री थे।

तारीख १४ की सन्ध्याको प्रधान मन्त्री बोलगञ्जीमें पहुँचे । इनका स्वागत बड़ी धूमधामसे हुआ । सेकड़ों हाथी साथमें थे और उनपर बहुतसे कुंवर इत्यादि महाराजके कुटुम्बी सवार थे । यहाँ बहुभार्याकी प्रथा है अतएव कुंवरोंकी भी बहुत सख्या है । नगरमें आ जानेपर १३ तोपोंकी सलामी हुई । रीजेण्टने मुझसे दूसरे दिन पाच बजेतक प्रतीक्षा करनेको कहा और कहा कि १० बजेसे पाच बजेतकके बीचमें मैं मिलनेका प्रयत्न कर दूँगा ।

महाराज पहली बार पहले किसीसे भेंट नहीं करते परन्तु मेरे ऊपर पहली बार ही मिलनेकी विशेष कृपा की और पाच बजे जब वह हवा खाने निकले उस समय भेंट हुई । मैंने कुछ वस्तुयें जापानी कारीगरीकी भेंट कीं जोकि स्वीकृत हो गई । महाराज मुझसे बहुत प्रसन्न मालूम होते थे । उन्होंने उन वस्तुओंके दाम भी देने चाहे । मैं भीतर बुलाया गया । मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया गया मानों मैं उनका बड़ा पुराना मित्र था ।

पचानवेवां परिच्छेद



दो महाराजाओंसे भेंट

महाराज अपने कमरेमें जाकर पहले आप बैठ गये । पीछे एक दूसरे महाशय भी उनके पास बैठ गये । मैंने उन्हें मन्त्री समझा था । पीछे मुझे ज्ञात हुआ कि वह भी असली महाराजसे

कम नहीं थे। हमारी बातचीत एक प्रकारकी प्रश्नोत्तरी सी थी जो संक्षेपत नीचे लिखता हूँ।

‘मैंने सुना है कि आप तिब्बत हो आये हैं। किस लिये गये थे?’

“महाराज, मैं बौद्ध धर्मका ज्ञान प्राप्त करने गया था।”

प्रधान मन्त्रीने कहा कि “मैंने सुना है कि आपके वहाँ बहुतसे उच्च पदाधिकारियों, पुरोहितों और तिब्बतके प्रभावशाली पुरुषोंसे मित्रता हो गयी।”

“महाराज, मैंने जितने दिनों वहाँ रहा विद्या प्राप्त करनेमें ही बिताया है। राजनीतिक अवस्थाका परिचय प्राप्त करनेका मुझे अवसर नहीं मिला।”

“आपको कोई बात छुपानेकी आवश्यकता नहीं। हमसे तिब्बतकी बड़ी मित्रता है। हमसे, उनको कोई हानि नहीं पहुँच सकती। मैं केवल अपने ज्ञानके लिये ही वह बातें पूछता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जानकारी है।”

‘श्रीमहाराज, आपसे जैसा सम्बन्ध है उसको मैं भली भाँति जानता हूँ। मैं केवल वही बात नहीं कहना चाहता जिसका मुझे भली भाँति ज्ञान नहीं है।’

प्रधान मन्त्रीने कहा, “मैं समझ गया मैं आपकी भूल नहीं निकालना चाहता हूँ। मैं केवल आपके विचार सुनना चाहता हूँ।”

‘जैसी श्रीमान्की आज्ञा, सबसे प्रधान शक्ति इस समय तिब्बतमें दलाईलामा हैं। उनके दरबारमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शाता है।’

‘चीनके राजदूतकी क्या शक्ति है?’

‘श्रीमान्, उसकी शक्ति अब घट रही है।’

‘मि० काथागुची आपने यह बात कैसे जानी?’

‘इसके दो कारण हैं महाराज, एक तो चीनराज्यकी अशक्तता और दूसरे दलाईलामाकी विद्वत्ता और राजनीतिज्ञता।’

‘आप रूसके ट्सानकेनचोको जानते हैं?’

‘नहीं महाराज, जिस समय मैं लासामें था वह न थे।’

‘परन्तु आपने उसके विषयमें कुछ सुना तो होगा?’

‘हां महाराज।’

‘तिब्बतके सरकारमें सबसे अधिक भिन्नता उसकी किससे है? क्या आप समझते हैं कि दलाईलामा और उनके प्रधान सहायकोंसे उसकी गुप्त मन्त्रणा होती रहती है?’

‘दलाईलामाके साथ शाताका रूसपर बड़ा विश्वास है। पर रूसपर अन्य सरकारी अधिकारी लोगोंका बड़ा अविश्वास तथा घृणा है।’

यहांपर प्रधान मन्त्रीके पास बैठे हुए महाराजने नेपाली भाषामें पूछा कि जो बातें आप लोगोंको मालूम हैं उनसे ये मैल खाती हैं या नहीं। इसका उत्तर भी हमें मिला। प्रश्नोत्तर फिर आरम्भ हुआ।

मन्त्रीने पूछा, 'यदि तिब्बत और रूसमें सुलह' हो जावे तो आपकी सम्मतिमें क्या उसका हमारे देशपर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा ?'

'श्रीमन्, मेरी अल्प बुद्धिमें दोनों देशकी सन्धिमें कोई रोक नहीं है। यदि दोनों देशोंमें सुलह हो और सर्वसाधारणको मालूम हो तो या तो दलाईलामाको विष दे दिया जावेगा अथवा तिब्बतभरमें असन्तोष फैल जावेगा।'

'आपने यह परिणाम कैसे निकाला ?'

'श्रीमन्, क्योंकि थोड़ेसे उच्चपदाधिकारियोंके अतिरिक्त सब ही सरकारी लोग और प्रायः सबही सर्वसाधारण इस सन्धिके विरोधमें हैं।'

'तीन सरकार महाराजने और भी बातें पूछीं जिनका यहापर उल्लेख करना व्यर्थ है। एक बात उन्होंने बड़ी व्यग्रतासे पूछी कि आप किस गुप्त राहसे तिब्बत गये थे।'

मेरे सहायक और मित्र बहुत थे यदि मैं बतलाता तो सम्भव था कि किसी न किसीपर विपद् आपडती अतएव मैंने बड़े नम्र भावसे यह कह दिया कि मैं अंग्रेजी इतना नहीं जानता हूँ कि ऐसे कठिन वर्णनको उस भाषामें बतला सकूँ। यदि श्रीमान् का कोई विश्वसनीय व्यक्ति तिब्बती भाषा समझता हो तो उससे मैं विस्तारसे कह सकता हूँ।

अन्तमें उन्होंने पूछा कि जापानने इतनी शक्ति बढ़ा ली इसका क्या कारण है ? इसके उत्तरमें मैंने कहा कि शिक्षा और देश

भक्तिका यह फल है। अब मुझे छुट्टी मिली और दूसरे दिन
शे यजे फिर मानेकी आशा मिली।

छियानवेवां परिच्छेद



दूसरी भेट

दूसरे दिन निर्दिष्ट समयपर मैं राजद्वार पहुच गया परन्तु
सिपाहीने पान्न प्रजेतक भीतर न जाने दिया। जब वहा पहुचा तो
पेचल इतना ही उत्तर मिला कि गाज महाराजको आवश्यक
काम है। फल आपको उचित कागज पत्र मिल जावेगा।

जब मैं अपने स्थानपर पहुचा तो मेरे नौकरने कहा कि
आपको धोखा दिया गया है। फल लम्बानतक आप नहीं पहुच
सकेंगे। मैं नाहक ही २॥ मील गया और आया।

ता १७ को मैंने एक श्वा किराया किया। इकेपर मैं विन-
यिती पहाडपर पहुचा। राहमें सरकारी लम्बानमें भी गया।
यहा ब्लाई जंगलके किनारे नैपाल महाराजके बहुत खेमें लगे हुए
थे। यहा सरकारी चार हजार सिपाही थे। इनकी वर्दी अंग्रेजी
सिपाहियोंकी भांति थी।

मुझको भीतर नहीं घुमने दिया गया। प्राय चार घंटे वहा
ठहरना पडा। बादमें महाराजके दशन हुए। वह हाथीपर सवार
होकर शिकारको जा रहे थे। उन्होंने मुझको पहचान लिया परन्तु

अवकाश न होनेके कारण दूसरे दिन सवेरे आनेको कहा । इतना कहकर चले गये । मेरे नौकरने फिर मुझसे वही बात कही परन्तु मैंने उसको चुप करा दिया ।

दूसरे दिन सवेरे मैं फिर वहा पहुँचा परन्तु महाराजके ऐमें-का कुछ पता न चला । इसी समय एक सिपाहीने मुझको रोका जब मैंने अपना हाल कहा तो उसने उत्तर दिया कि अभी समयमें देर है । यह कहकर उसने एक भृत्यसे कहा कि इनको अहातेके बाहर कर दो । मैंने सोचा कि यदि मैं अहातेके बाहर हो गया तो फिर महाराजके दर्शन दुर्लभ हो जावेंगे । अतएव वहीं जमे रहनेके लिये हठ करने लगा । मैंने कहा कि मैं महाराजकी आज्ञामें आया हूँ । परन्तु उसने एक न मानी और मेरी गरदन पकडकर अहातेके बाहर कर दिया । बाहर निकल जानेपर सिपाही और और लोग मेरा परिहास करने लगे । यद्यपि मैं बहुत ही दृढचित्त था फिर भी मुझे क्लेश हुआ । मैं बहुत देरतक बाहर घास पर बैठा रहा और तिब्बतके मित्रोंके दुःखपर आसू बहाता रहा ।

ग्यारह बजे प्रधान मन्त्री मेरे पाससे निकले जिनसे मैंने अपना दुःख कहा । उन्होंने शीघ्र ही मुझको महाराजके खेममें भेज दिया जहा दो घण्टे ठहरनेके पीछे महाराज पधारे ।

महाराजने मुझसे पूछा कि क्या चाहते हो । मैंने कहा, पासपोर्ट । उन्होंने कहा कि पासपोर्ट तुमको मिल जावेगा । राहके खर्चके लिये तुम्हारे पास रुपया है । मैंने कहा कि हा मेरे पास ३०० रुपये हैं । महाराजने इतना रुपया यथेष्ट न समझकर नौकरको

बुलाकर २०० रुपये और दिलगाये । मैंने नम्रभावसे यह कहकर रुपये लौटा दिये कि मैं यह रुपये कमाने नहीं आया हू । यह सुनकर महाराजने कहा तो फिर क्यों आये हो ? मैंने कहा कि बौद्ध धर्मकी सस्कृतकी पुस्तकें लेनेको आया हू । इनके बदलेमें मैं जापानी भाषाकी पुस्तकें जापान जाकर भेज दूंगा । यह सुनकर महाराजने कहा कि जो पुस्तकें आपको चाहिये वह काठमाण्डूके रिजेण्टको लिखकर दे दो । मैं वहा २५ रोजमें आऊंगा । यहासे मेरी रक्षाके लिये एक सरकारी सिपाही काठमाण्डूतकके लिये मिल गया ।

सत्तानवेवां परिच्छेद

फिर काठमाण्डू

मेरा पासपोर्ट एक पुलिसके सिपाहीके द्वारा मुझे मिला । यहासे मैं एक गात्र सिमलामें पहुँचा । वहीं मैं अपना सामान और अपनी गाड़ी छोड गया था । यहा आकर मैंने देखा कि मेरा इक्का और हाकनेवाला गायब थे । मैंने उसकी मजदूरी पहले ही दे दी थी । पुलिसधैतने चाहा कि मेरे नौकरको मारे कि उसने इक्कालेको क्यों चला जाने दिया परन्तु मैंने ऐसा नहीं करने दिया । इस समय दिनके तीन घण्टे चुके थे । काठमाण्डू यहाँसे आठ मील था और मार्ग जङ्गलका था । मुझसे कहा

गया कि यहा सिहका भय है परंतु एक वार मैं यहा आ चुका था अतएव वहासे आगे बढ़ा ।

दो दो मीलपर पानीके हौज बने हुये थे और सब हौज नलों द्वारा एक दूसरेसे मिले हुए थे । इन हौजोंके अतिरिक्त वहा कहीं पानी नहीं था । यह हौज नैपालकी महारानीने मरते समय बनवाये थे । इन हौजोंका इतिहास सडकपर पत्थरपर खुदा लगा था । यह कई भाषाओंमें अर्थात् नैपाली, तिब्बती, अंग्रेजी-हिन्दी, और फारसीमें लिखा गया था ।


रातसे पहले मैं विचागोरी पहुंच गया । यहा पहले पहल मैंने सिहकी गर्जन सुनी । सिमलासे तिसपातीतक तीन वार मेरे पासपोर्टकी जांच हुई । यहा एक चुड़ीघर भी है । मैं यहां केवल आधे घण्टेके लिये ठहरा । यहासे मेरा सिपाही बदलकर दूसरा आ गया । तिसगढीमें पहुंचकर मैंने फिर हिमालयकी विशाल शोभाका दर्शन किया । सहस्रों वर्ष पहले भगवान शाक्य मुनि बुद्ध भी जङ्गलों और पर्वतोंमें छ मासतक विचरते रहे । मैंने भी यही अनुभव किया कि उनके चरण चिन्होंपर ही मैं भी चल रहा हू । मैंने भी लगभग उतने ही वर्ष हिमालयकी गिरि वन भूमियोंमें विचरण किया पर मैंने न निर्वाण पाया और न बोधिसत्व ही बना । मैं कैरिकनेकी लोहेकी पुल पार करके रातको मारकुमें ठहरा । २१ तारीखको दोपहरके तीन बजे काठमाण्डू पहुंचा ।

काठमाण्डू पहुंचकर मैं प्रधान मन्त्रीके मकानपर गया ।

सन्ध्याको उस दिन घड़ पाली नहीं थे अतएव दूसरे दिन अनेको कहा । यहाँ एक सिपाहीके घड़लेमें मुझे दो चाटीगाढ़ मिले । मेरा आनेका समाचार मेरे चार वर्षके पुराने मित्र बुद्धवज्रको भी मिल गया । उन्होंने अपने लडके और कुछ नौकरोंके साथ एक घोड़ा मेरे लिये भेजा । ज्यों ही मैं मन्त्रीके घरसे निकला कि वह दिखलाई पडे । घोड़ेपर सवार होकर मैं बुद्धवज्रके घर पहुँचा जहा उन्होंने मेरा घड़े आदरसे स्वागत किया । यहाकी रीतिया तिन्वत्तसे बिलकुल ही उल्टी है । यहा पुरुष अपने सामर्थ्यानुसार ३,५,१ जितनी चाहे खिया रख सकते हैं ।

बुद्धवज्रके भी दो खिया और १३ लडके थे । दूसरे दिन मैं नैपालके कमाण्डरिनचीफ भीम शमशेरके पास पहुँचा । हमारा स्वागत दूसरे तल्लेपर हुआ । वहा विलायती १४-१५ कुर्सिया रखी हुई थीं । कमरेमें नैपाली दरि और उसके ऊपर चहर बिछी हुई थी । दीवारपर वहाँकी घनी हुई तस्वीरें लगी थीं ।

अठानवेवां परिच्छेद



प्रधान मन्त्रीसे बातचीत

मन्त्री भीम शमशेर उठे ही सत्पुरुष हैं । उन्होंने पूछा,—‘आपने हमारे देशको कैसा पाया ?’

‘मैं यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्न हुआ ।’

‘यह कैसे हो सकता है ?’

‘केवल इसीसे नहीं कि यहाके वृक्ष पीधों इत्यादिका प्राकृतिक दृश्य बहुत मनोहर है बल्कि यह देश बिल्कुल अपने देशसा ज्ञात होता है। मुझे मालूम होता है कि मैं घरपर ही हूँ। यहां आकर मुझे यात्राके सब कष्ट भूल गये।

मन्त्री महाशयने हसकर कहा,—‘यह हो सकता है। क्योंकि हम दोनों एरु ही जातिके हैं परन्तु क्या वृक्ष पीधे भी वे ही हैं ?’

‘श्रीमन्, केवल पहाड और झील इत्यादि ही नहीं प्रायः सब ही वृक्ष यहां जापान केसे हैं। यहाकी चिड़ियां और फूल भी मैंने वैसे ही पाये। यहाकी एक और भी बात मेरे मन भाई है वह यह कि यहाके लोग वहादुर और विदेशीके लिये बडे दयालु हैं।’

मन्त्री महाशय बहुत प्रसन्न हुए और वार्तालापका रख बदल कर बोले,—‘मैंने सुना है कि तिब्बतने रूससे सन्धि कर ली है। क्या आप इनके विषयमें कोई पक्का प्रमाण भी दे सकते हैं ?’

‘मुझे पूरा २ प्रमाण तो नहीं मिला परन्तु यह देखकर कि त्सानीकेनवों का लाया हुआ लवादा दलाईलामानाने स्वीकार कर लिया। इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही ऐसी कोई बात हुई होगी। दूसरी बात और भी है कि जबसे तिब्बतका राजदूत सेण्ट पिटर्सबर्ग (पिट्रो ग्रेड) से लौटा है, ऐसा मालूम होती है कि यदि कोई देश उससे लडना चाहे तिब्बत सरकार युद्धके लिये तय्यार है इन्हीं बातोंसे सन्धि हो गई मालूम होती है।’

महामन्त्री—मुझे इसका विश्वास है परन्तु क्या आप
 सकते हैं कि तिब्बतने किन तूतेपर यह काम किया ?

‘मैं तो एक लामामात्र हूँ, राजनैतिक विषयोंसे मेरा जानकारी
 है परन्तु जहातक मैं समझता हूँ चीनके अशक्त होने और
 त सरकारके व्यवहारसे शक्ति होकर त्सानीकेतन्त्रोके
 नैतिक प्रयत्नोंसे यह हो रहा है।

‘तिब्बत, भारत सरकारसे क्यों उद्विग्न है ?’

‘इसका कारण यह है कि तिब्बत सरकार समझती है कि
 जी प्रायः सरकार ईसाई है और भारत सरकारके वहाँ
 से ईसाई धर्म फैलेगा और बौद्ध धर्मका नाश होगा। रूसको
 बौद्ध धर्मका पक्षपाती समझती है। जापान तिब्बतके
 ये कोई देश ही नहीं है। इसके बाद मैंने स्वयं वार्तालापका
 बदला और अपने उपकारी तिब्बती मित्रोंकी विपत्तिकी
 याको विस्तारपूर्वक सुनाया और मैंने महाराजके दयाभावको
 गृह किया और प्रार्थना की कि वे मेरा प्रार्थनापत्र तिब्बतमें
 ठाईलामातक भिजवा देनेकी कृपा करें। दूसरी बात मैंने
 स्तूतकी पुस्तकोंकी कही जिनके देनेका प्रधान मन्त्रीने
 मे वचन दिया था। मन्त्री महाशयने मेरी दोनों प्रार्थनायें
 शीकार कर लीं। उन्होंने तिब्बतके उच्चपदाधिकारियोंकी
 खतापर बड़ा खेद प्रगट किया और कहा कि जहातक हो
 किंगा मैं आपके इन कामोंमें सहायता करूँगा। परन्तु प्रधान
 मन्त्रीके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब वह यहाँ आवेंगे तो

मैं यथासाध्य आपकी सिफारिश कर दूंगा। पुस्तकोंके लिये उन्होंने कहा कि जितने दिन नैपालमें आप रहना चाहते हैं उतने दिनोंमें सब पुस्तकें नहीं मिल सकतीं। मैंने कहा कि जितनी अभी मिल जावें वह अब ले लूंगा शेषको मैं दो वर्षके भीतर फिर आऊंगा तब ले लूंगा। यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली। चलते समय उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि मैं ऐसे माननीय जापानीसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ।

निम्नानवेवां परिच्छेद



लासाके दुःखदार्या सम्वाद

जिस समय मैं नैपालमें था तिब्बतसे कई एक लामा नैपालके तीर्थों में आये थे। उनसे पूछनेपर ज्ञात हुआ कि पुराने अर्थ-सचिव कैद हो गये। वे बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। मैंने उन लोगों की बातोंपर विश्वास न किया। सेराके एक लामा कुशूलोकलासे जो कि टेमोरिनपोचेकी ओरसे ही तीर्थपर्यटनको आये थे।

उन्होंने कहा, प्रायः १॥ महीना मुझे लासा छोड़े हुआ है। उस समय अर्थसचिव घर हीपर थे। राहमें मैंने सुना कि वह पकड़े गये हैं। परन्तु मैं विश्वासनीय रूपमें नहीं कह सकता हूँ। हा, त्सारोगवां बड़े दुःखमें पड़ा है। मैंने उसको बन्दीगृहमें देखकर पूछा था तो उसने आंशुओंमें आसू भरकर कहा कि न

मैंने चोरी की है और न किसीसे लड़ाई भगडा किया है, केवल सेराविहारके एक वैद्यसे औषध ली थी। वह तुम्हारे विषयमें बहुत नहीं जानता। अब वह इतना दुबला हो गया है कि शरीरमें हड्डी और चमड़ेके सिवाय कुछ नहीं रहा है।

कुगोलोकैला, बड़ा सहृदय पुरुष था, उसके मुखसे सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया। ये समाचार सुनकर मैं सहसा शोक सागरमें डूब गया। इन तिब्बती मित्रोंके कारावासके कष्टोंको याद करते रातभर नींद न आई। मेरे हृदयमें उद्गार उठे जिन्हें मैंने पद्यबद्ध किया जिनको गद्यरूपसे इस प्रकार लिखा जा सकता है —

“मित्रोंकी विपत्तियों और असह्य कष्टोंको सुनकर मेरे ऊपर वज्राघात सा हुआ। उनका मुखसे कहना और भी असह्य है। उनका उल्लेख करना उससे भी अधिकतर असह्य है। स्मृतियोंको चिरस्थायी करनेके लिये मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ।

छ वर्ष पहले पवित्र बृद्ध धर्मकी शिक्षा पानेका दृढ संकल्प किया था। मातृभूमिको छोड़ा हिमालयकी हिमाचल गिरि मालाओंको पार किया, तिब्बतमें प्रवेश किया और फिर लौट भी आया। उस सुदूर एकान्त देशमें अपने उपकारों मित्रोंको पापके लिये नहीं प्रत्युत उपकारके लिये कारावासकी काल कोठरियोंमें पडा देखकर हृदय फटा जाता है।

जब देखता हूँ कि मेरे लिये मेरे वयस्य इतना कष्ट भोग रहे हैं, उनके देह शिलामय काल कोठरियोंमें, हिमाचलकी

शीतलतासे ठण्डे हुए जा रहे हैं। वे काल कोठरीमें हताश, हतभाग्य होकर बैठे होंगे। उनको कौन भोजन देगा, सरकारी नियमके शिकजेमें कारावासी, एक समय मुट्टी भर जी पाते हैं। यदि सचमुच मेरे मित्र भी इस सकटमें हैं तो वे भी भूखों मर जायेंगे, शीतसे जकड जायेंगे। वे उससे भी अधिक दुःख भोग रहे हैं। वहाँके जेलर कठोर, पत्यरदिल, क्रूर, अल्प भोजन दे देकर भूखा हीन मारेंगे पर निर्दय हाथोंसे कोठे भी तानेंगे। और और भी कठोर यम यातनाएँ भुगवायेंगे। मेरे प्रियमित्र हा! अपने कष्टोंसे मुक्त होनेके लिये आत्मघातके लिये उद्यत होंगे, ये सब कष्ट मुझे स्वयं प्राण छोड़ देनेकी प्रेरणा करते हैं।

मेरे मित्रोंकी दीन दशा कितनी शोचनीय और दयनीय है। मैं जब लासामें था मुझे स्वप्न भी न था कि मेरे कारण ये 'यम यातनाएँ' भोगेंगे। मित्रो, तुम्हारा अपराध केवल इतना ही है कि तुमने प्रवासमें मेरी सहायता की थी। मैं तुम्हें निस्सहाय दशामें कैसे बिना बचाये रहूँ।

वयस्यो, अब तुम मुझे बड़ी घृणा भरी दृष्टिसे देख रहे होगे। परन्तु मुझे पता लगा है कि तुम्हारे ये वचन हैं।

न चोरी की है, न जारी, न द्रोह किया और न कोह, पर जजका कहना है कि कानून तोडा। एक जापानी लामासे मेरा परिचयमात्र था। ये सब यम यातनाएँ मेरे पूर्व जन्मोंके कर्मोंके फल हैं। उनसे छुटनेके यह भोगने ही होंग।”

मित्रो! तुम ऐसा दिलासा देकर अपना सन्तोष कर लोगे

और अपना दिल हलका कर लोगे । पर मैं अपने उभड़ते और कराहते दिलको कैसे धीरज दूँ । हा प्रियमित्र, मेरे कारण असह्य यातना भोग रहे हैं ।

सौवां परिच्छेद

महाराजका सन्देह प्रगट करना

६ फरवरीको बुद्धवज्रको साथ लेकर मैं महाराज चन्द्रशमशेर प्रधान मन्त्रीके महलोंपर पहुँचा । महाराजका मिलनेका कमरा खूब सजा हुआ था । कमरेमें तीन कुर्सियाँ रखी हुई थीं । इस कमरेमें बहुतसे अफसर भी बैठे हुये थे । मुझसे पूछा गया कि, 'मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ आये बीस दिनसे अधिक हुये होंगे, इतने दिनोंमें आपने क्या क्या देखा और क्या २ किया ?'

मैं—वार्मिक विचार और कविता ।

मन्त्री—जापानमें आप किस पदपर हैं और क्या काम करते हैं ?

मैं—कुछ नहीं ।

मन्त्री—मुझसे कुछ मत छुपाइये क्या आप समझते हैं कि मैं आपके विषयमें कुछ नहीं सोच सकता ? यदि आप सब हाल बतला देंगे तो अच्छा होगा ।

मैं—श्रीमन्, मैं बौद्धधर्मका पुगेहित हूँ । मैं किसी

नहीं, न जपानकी और न किसी और सरकारकी नौकरी करता हूँ ।

मन्त्री—अच्छा मि० काबागुची । यह तो बतलाइये कि आप तिब्बत और नैपाल कैसे पहुँचे जिसमें बहुत व्यय अपेक्षित है ।

मैं—मुझको किसी पदसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं केवल विद्याभ्यासके लिये गया था ।

मन्त्री—किस मार्गसे गये थे ?

मैं—मानसरोवर होकर ।

मन्त्री यह सुनते ही चौंक पडा और कहा कि—‘मानसरोवर पहुँचनेके लिये कौनसा मार्ग पकडा ?’

मैं—श्रीमन्, इसका उत्तर मैं केवल महाराजके सामने दे सकता हूँ ।

‘क्यों ?’

‘क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी निरपराधीपर दण्डका वज्र गिरे ।’

इसके बाद बहुतसे अफसर मुझसे तिब्बत और जापानकी रीति रिवाजों और फौजोंके हाल इत्यादि पूछने लगे । किसी किसीने नैपाली भाषामें यह भी कहा कि यह जापानका राजदूत मालूम होता है ।

यहासे हम शीघ्र ही दरबारमें उपस्थित हुए । जहा बहुतसे अफसर उपस्थित थे और और भी आ रहे थे । वे लोग आ आ कर लम्बी लम्बी सलामें कर रहे थे । यहां मैंने एक मनुष्य देखा

मुझे देखकर बड़ा विस्मित हुआ। यह मनुष्य दुर्कर्मका जन था। मैं जब तिग्रत जा रहा था तो इसके मकानमें हीरा था। उस समय मैं इसके यहा एक भिखारी चीनी माके घेपमें गया था।

कर्ता महाराज अभीतक घोड़ोंकी जाच कर रहे थे। जाच कर कनेपर एक चारपाईपर आकर बैठ गये। मैं उनके सामने उपरत हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा,—‘अब मैं आपके लिये क्या करू ?

‘पहला निवेदन तो श्रीमनसे मेरा यह है कि एक पत्र दलाई माको लिप दिया जावे और दूसरा बौद्ध सस्कृत पुस्तकोंके लपयमें है जिसका श्रीमनने बचन दिया है।’

‘इसका निर्णय मैं पीछे करू गा, पहले यह बतलाइये कि चार प पहले आप यहा आये थे ?’

‘जी हा, श्रीमन्, मैं यहा आया था।’

‘अच्छा तो यह बात जब आप मुझको विलगजीमें मिले थे व क्यों नहीं कहीं। क्या इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं थी ?’

‘श्रीमन् मैं इस बातको मानता हू परन्तु एक विशेष भयके कारण उसको मैं ने प्रकाश नहीं किया।’

‘क्या मैं जान सकता हू कि वह भय क्या था ?’

‘अवश्य महाराज, यदि वह बात मेरे मुखसे निकल जाती तो सम्भव था कि आपके फाटकोंपरके पहरेवालों और और लोगोंको एड भोगना पडता। यदि वही यमयातना यहा भी आ पडती तेसा कि तिग्रतमें घट रही है तो मेरे दु लका कहीं ठिकाना न

रहता । मैं हाथ जोड़कर श्रीमानोंसे सविनय निवेदन करता हूँ कि उन लोगोंके ऊपर कृपा करें ।’

‘मैं आपको प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और आपके कारण किसीको दण्ड न दूंगा ।’

श्रीमानोंने मुझे बड़े भारी सकटसे बचा दिया । मैं इसके लिये श्रीमानोंको बड़ा धन्यवाद देता हूँ ।

सत्यवात सदा दिलमें घर कर जाती है । मुझे यह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि महाराजने मेरे वचनोंपर विश्वासकर लिया । परन्तु तिब्बत और नैपालकी यात्राके विषयमें उनके प्रश्नोंसे कुछ और ही भाव टपकता था । उन्होंने पूछा,—‘आप सत्य सत्य कहें कि आपको यहां और तिब्बतमें किसने भेजा था । आपके यहांके विदेशी विभागके सचिवने या चीफ मारशलने ?’

यह सुनते ही मेरे ऊपर बज्रसा गिर पडा । मैंने समझा कि महाराजतक मुझे जापानी राजदूत समझते हैं । मैं तिब्बतवालोंसे नैपालियोंको कहीं बढ़कर समझता था । मैं थोड़ी देरतक इसी उर्ध्वड्युनमें रहा जिससे महाराजका सन्देह और भी बढ़ा और बोले,—‘क्या आप अपना भेद प्रगट नहीं कर सकते ?’

‘मैं श्रीमानोंके सामने कुछ नहीं छुपा सकता । मैं आपको जो कहूंगा सो सत्य कहूंगा मैं तो अपने ही कामके लिये आया था ।’


महाराजने हसकर कहा,—‘अच्छा आप जानते ही हैं कि कोई मनुष्य जबतक उसके पास यथेष्ट रुपया न हो छ वर्षतक नहीं

घूम सकता। इसके अतिरिक्त आपने मुझे और मेरे कमाण्डरिन चीफको जो भेंटें दी हैं वह बहुमूल्य हैं। इतना रुपया साधारण बौद्ध पुरोहितके पास नहीं हो सकता। आप बहुत विद्वान मनुष्य मालूम होते हैं, और ससारिक ज्ञान भी आपका बहुत अच्छा है। आपको मुझसे भेद कदापि न छुपाना चाहिये। मैं आपको परसोंतरुका अवसर देता हूँ। परसों आप मुझसे अकेलेमें सब बातें कह जाइये यदि नहीं कहेंगे तो मुझसे किसी बातकी आशा मत कीजिये और न मैं आपकी रक्षाका उत्तरदाता हूँ।

मैंने उत्तर दिया कि,—‘महाराज, मैंने बुद्ध भगवानके आगे शपथ ली है कि मैं झूठ कदापि न बोलूंगा। यदि आप मेरा विश्वास न करें तो यह मेरा दुर्भाग्य है परन्तु मैंने कोई भी भेद श्रीमानोंके आगे नहीं छिपाया है। इन शब्दोंके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। परन्तु मैं आशा करता हूँ कि किसी न किसी दिन मेरे सत्यव्रती होनेका हाल आपको विदित हो जावेगा।

‘अच्छा यदि आप सत्य कहते हैं तो कोई आपपर सन्देश न करेगा। परसों १०॥ बजे में आपको बुलाऊंगा उस समय सब हाल कहियेगा। अब मैं प्रणाम करता हूँ।

एकसौएकवां परिच्छेद



तीसरी भेंट

६ फरवरीको मैं दरवारमें गया था। १० को बुद्ध वज्रके साथ रहा। ११ को फिर दरवारमें बुलाया गया। इस समय दोनों महाराज दरवारमें उपस्थित थे।

बुद्ध वज्र तो मुझे कोरा बौद्धलामा ही समझते थे। उन्होंने मुझे महाराजके सन्देशके अनुसार अपनेको मान लेनेकी प्रेरणा करने लगे। क्या मैंने समयपर असत्यमार्गका अवलम्बन नहीं किया। क्या तिब्बतमें घुसनेके लिये मैंने अपनेको चीनी लामा नहीं बतलाया। क्या मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य अपने तिब्बती मित्रोंकी संकटसे रक्षा करना नहीं था। इस कार्यमें अपनेको जापानी पदाधिकारी बताकर नैपाल महाराजकी सहायता लेनेका विचार नहीं किया था। यह सब था तो भी मैं नैपालको तिब्बतसे मित्र मानता हूँ।

चालाकिया, समयोपयोगी युक्ति, युद्धमें तथा युद्धके समान अन्य अवसरोंपर या चढ़माशोंसे काम पढ़नेपर बर्ते जाते हैं। नैपालचासी तिब्बतियोंके समान भी नहीं हैं। वे विदेशियोंको अपने देशमें घुसनेका इतना प्रतिबन्ध नहीं करते। नैपालकी सभ्यता न्याय और सच्चाईपर ध्यान देती है। मैं नैपाल महाराजका असत्यसे क्यों अपमान करूँ। यदि महाराज मुझपर विश्वास न

भी करेंगे तो भी मैं अपनी सचाईसे आप सन्तुष्ट रह सकूंगा। मैं पेकिंग जाकर तिब्बती मित्रोंके लिये जो बत पढेगा करूंगा।

मेरे इस प्रकारके तक्से युद्धवज्र चुप हो गये पर ११ को मैं घुद्धवज्रके साथ राजप्रासादमें नियत समयपर पहुँचा, प्रतीक्षा भवनमें कई पदाधिकारी बैठे थे। एक मन्त्रीने अग्रेजी भाषामें मेरा अभिप्राय पूछा, एक अफसरने मुझसे पूछा, 'क्या आपने कोई तिब्बत और नेपालका नक्शा तय्यार किया है? यदि बनाया हो तो मुझे भी दिखावेंगे?' मैंने इस प्रश्नका उत्तर निषेधमें दिया। उसका सन्देह ज्योंका त्यों बना रहा। मैंने कहा, तुम अपना सन्देह बनाये रखो। मुझे इसीमें सन्तोष है, गुप्तचर सबको चोर समझा करने हैं। उसने कहा यह सन्देह तुमपर प्राय बहुतोंका है।

इसके बाद चारजीने चढकर हम एक सुन्दर सजे कमरेमें पहुँचे। तख्तपर एक पुरुष था, मैंने प्रहले नीलगञ्जीमें राजसभाका एक सभासद् समझा था, दोनों महाराज पास २ बैठे थे। मुझे भी वास्तविक महाराजाके सामने बैठाया गया। मैं भी तिब्बती ढगपर आढे पैर रखकर बैठ गया। महाराजने पूछा—

“अब आप अपना भेद बतलानेको तय्यार हैं? कहिये, क्या कहना चाहते हैं?”

‘श्रीमान् मेरे पास कोई भेद नहीं है। मेरे, वही दो काम हैं जिनके विषयमें निवेदन कर चुका हूँ।’

यह सुनकर महाराज हताश हो गये परन्तु अप्रसन्न नहीं

हुए। मैं जो पत्र मिजवाना चाहता था उसका उन्होंने सार पूछा। मैंने उत्तर दिया कि मैं सच्चा जापानी पुरोहित हू। मेरे मित्र जिनपर विपद् पड़ी है मेरी जातीयताको नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि मैं कौन हू। मैं अकेला ही उन सब कष्टोंका कारण हू। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तिव्यत इसीलिये जाना चाहता हू कि उनका अपराध दलाई-लामासे क्षमा कराऊं। यदि उनकी मेरा विश्वास न हो तो कुछ आदमी जापान भेजकर वे इस घातकी जाच करालें, उसका खर्च मैं देनेको तय्यार हू।

मेरी बातें सुनकर महाराजको कुछ २ विश्वास हो आया और उन्होंने कहा, 'अच्छा तो मुझे इस पत्रकी दो कापिया करनी होंगी। एक तिव्यती भाषामें और दूसरी नैगाली भाषामें। तिव्यती भाषाकी प्रति दलाईलामाके पास भेजूंगा और दूसरी यहा रखूंगा।

मेरी आखोंमें हर्षके आसू आगये। मैंने महाराजको आशीर्वाद दिया।

महाराज यह जाननेके बड़े उत्सुक थे कि मैंने ये गत २० दिन किस प्रकार बिताये। उन्होंने इसका उत्तर मान भी लिया। मैंने सस्कृत पुस्तकोंकी एक सूची महाराजको दी। मेरे हाथसे लिस्ट ले ली और अपने मन्त्रियोंको सब कुछ समझा दिया कि १५ दिनमें जो भी संग्रह हो सके वह मुझे दे दिया जाय।

मैंने शकरशिखरके फिर दर्शन किये और बुद्ध भगवानका स्मरण किया।

एक सौ दोवां परिच्छेद ।



नेपाल और दयालु महाराजाओंसे विदाई ।

मैंने उस पत्रको बुद्धवज्रसे नेपाली भाषामें करा लिया । उन्होंने दोनों कापिया महाराज चन्द्रशमशेरके हाथमें दे दीं और चला आया । आकर बुद्धवज्रने मुझसे कहा कि, 'इतना हर्ष मुझे कभी नहीं हुआ था जैसा आज हुआ है ।'

मैं—क्या हुआ ?

बुद्धवज्र—जब मैंने वह आपका लिखा हुआ तिब्बती भाषा-का पत्र महाराजको दिया तो उन्होंने पूछा, यह किसने लिखा है । मैंने आपका नाम बतला दिया । मैंने महाराजसे यह भी कहा कि आप इस पुरखकी विद्वत्ता मेरे इस नेपाली भाषान्तर-से जान सकते हैं यद्यपि मेरा किया हुआ भाषान्तर अच्छा नहीं हुआ है ।

महाराजने भाषान्तर पढा और बड़े विस्मित हुए जब उन्होंने पढा कि "तिब्बतका दलाईलामा दयाका साक्षात् अवतार है । और सर्वज्ञ है । इकाई कावागुची आपके चरणोंमें आया, और आप सर्वज्ञ महाभागने उसको शिक्षा दीक्षा दी, यह सब श्रीमान् जानते हैं । यही बात इसका प्रमाण है, भगवान् बुद्धकी भी इसी प्रकारकी इच्छा थी । यही इस बातका भी प्रमाण है कि श्रीमानोंके राजप्रासादके चतुर्दिगन्तोंके रक्षक देवता भी यही चाहते थे । आप-

की सरकारको विदेशीय प्रतिरोधकी नीति बरतते हुये २० वर्ष हो गये । इस बीच कोई भी विदेशी तिब्बतमें प्रवेश न पा सका, मैंनेही तिब्बतके दर्शन करनेका कष्ट उठाया यह भी इस बातका प्रमाण है कि आपके देशकी रक्षा करनेवाले देवताओंने मुझे जानेकी आज्ञा दे दी थी । इन सब घटनाओंके सङ्घटनमें मैं एक और बात विशेष रूपसे देखता हूँ । आप सर्वज्ञ धर्मावतारने इकाई-के प्रवेशकी उपेक्षा करके अपने धर्मके परमतत्वोंकी शिक्षा दी । धर्मावतार आप और मैं भी जानता हूँ कि ससारभरमें केवल तिब्बत और जापान दो ही देश हैं जो बौद्धधर्मकी महायान शाखाकी शिक्षा देते हैं । और भी देश महायानकी शिक्षा देने हैं पर अब उनका नाम लेना भी योग्य नहीं । - वहा वह शाखा लुप्तप्राय हो चुकी है । अब वह अवसर आगया है जबकि महायान बौद्धधर्मके माननेवाले दोनों देशोंमें परस्पर परिचय हो जाय और आपसमें व्यवहार करे और ससारभरमें सच्चे बौद्धधर्मका प्रकाश फैलायें । मेरी सम्मतिमें यह नये युगके आगमनने ही मेरे लिये तिब्बतप्रवेशके निमित्त मार्ग खोल दिया था । मुझे ऐसा दुष्प्राय्य अवसर दिया कि मैं बौद्धधर्मके गहन तत्त्वोंको श्रीमानोंकी कृपासे सीख पाया ।”

आपकी इस प्रकार, तर्कशैली और रचनाको देखकर महाराज बड़े विस्मित हुये ।

मैंने बुद्ध भगवानकी कृतज्ञता, प्रकाश की जिनकी कृपासे नेपाल आना सफल हो गया । मैं दस मार्च तक यहा ठहरा रहा

अन्त भला तो सब भला

और इसी बीचमें नागरजोग गिरिशिखरके दर्शन भी कर आया। यह भी एक पवित्र बौद्धतीर्थ है।

१२ मार्चको मैं फिर महाराजके महलोंमें उपस्थित हुआ और एक लाल और एक श्वेत कपडा जो कि जापानसे मंगाया था महाराजकी भेंट किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार किया। जो पुस्तकें मैंने घतलाई थीं वह भी आगयी थीं। महाराजने मंगाकर मुझको दे दी।

उन्होंने कहा, 'कावागुची यह अप्राप्य पुस्तकें हैं। मुझे इनके ४१ ग्रन्थ ही मिले हैं। यह मैं आपको देता हूँ। आप इनको अपने पास मेरी निशानीकी भांति रखियेगा।' मैंने महाराजसे बहुत कुछ कृपानेता प्रकाश की और वहासे विशा हुआ। वह पुस्तकें दो आदमियोंपर रखकर घुड़वज्रके घरपर भोज दी गई।

१६ मार्चको काठमाण्डूसे बिदा होकर २२ को फलकते पहुच गया। मि० ओमिया मुझसे बहुत अप्रसन्न थे कि मैंने नाहक इतना रुपया व्यय किया। यहा कुछ दिनों रहकर बरफई गया और वहासे घोड़ेमारू जहाजपर सवार होकर अपनी मातृ-भूमिकी ओर चल दिया।

एक सौ तीनवां परिच्छेद

अन्त भला तो सब भला।

जापान गये हुए मुझको दो वर्ष होगये परन्तु मनी तुम्हारे

मुझे अपने मित्रोंका कुछ हाल न मालूम पड़ा । इतने दिनोंके पीछे मुझको एक पत्र मिला । वह नीचे लिखे अनुसार है .—

मि० फावागुची याटुंगमें होकर लासासे दार्जिलिगको जून १६०२ में आये । उन्होंने यहांके एक अधिकारी घुरकी सरदारकी रोगी स्त्रीको देखा था । वह जेलपद्वारसे सिकमकी तरफ निकल गया । वह कुछ काल (१२ मास) लासामें सेरा विहारमें रहकर एकदम कहीं लुप्त हो गया इस कारण उनको विदेशी समझा गया । घुरकी सरदारको उनकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी गयी । इतनाही नहीं बल्कि, ऐसा कोई अफसर मुझे नहीं मिला जो सेरामें निवास करते समय फावागुचीको न जानता हो ।

कृपा करके फावागुचीको यह सूचना दे दीजिये कि उसके गुरु और मित्र व्यापारी बन्धनसे मुक्त कर दिये गये हैं । और भी जो मेरे सामर्थ्यमें होगा मैं करूंगा और उसकी सूचना भी भिजवा दूंगा ।

पत्रपर लिखा था .—

ग्रातोंग०, पो० आ० फ्रन्टियर कमिशन तूना ।

१७ मार्च, १६०४,

मेरे यात्रावृत्तान्तका यह अनुवाद निकलनेको था कि यह पत्र मिला अतः उसको ही सहर्ष इस भ्रमणवृत्तान्तका अन्तिम परिच्छेद बनाकर भ्रमणवृत्तान्त समाप्त करता हू ।

॥ इति शुभम् ॥

